

प्रकाशक—

श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालय

अमरावती (बरार)



मुद्रक—

टी. एम्. पाटील,

मॅनेजर

सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमरावती (बरार)

THE
ṢAṬKHAṆḌĀGAMA
OF

PUṢPADANTA AND BHŪTABALĪ
WITH
THE COMMENTARY DHAVALĀ OF VIRASENA

VOL. IX
KṚTI-ANUYOGADWĀRA

Edited
with introduction, translation, notes and indexes
BY

Dr. HIRALAL JAIN, M. A., LL. B., D. Litt.
Nagpur-Mahavidyalaya, Nagpur.

Assisted by

Pandit Phoolchandra,
Siddhānta Shāstrī.



Pandit Balchandra,
Siddhānta Shāstrī.

With the cooperation of

Pandit Devakinandan
Siddhānta Shāstrī



Dr. A. N. Upadhye,
M. A., D. Litt.

Published by

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,
Jaina Sāhitya Uddhārak Fund Karyalaya,
AMRAOTI (Berar).

1949

Price rupees ten only.

Published by—

**Shrimant Seth Shitabhai Laxmichandra,
Jain Sahitya Uddharak Fund Karyalaya,
AMRAOTI (Berar).**

Printed by—

**T. M. Patil, Manager,
Saraswati Printing Press,
AMRAOTI [Berar].**

विषय-सूची

	पृष्ठ
१ प्राक् कथन	१
१	
प्रस्तावना	
Introduction	
१ विषय-परिचय	१
२ कृतिअनुयोगद्वारकी विषय-सूची	५
३ शुद्धि-पत्र	९
२	
कृतिअनुयोगद्वार	
मूल, अनुवाद और टिप्पण	१-४५२
३	
परिशिष्ट	
१ कृतिअनुयोगद्वार-मूलपाठ	१
२ अवतरण-गाथा-सूची	४
३ श्यायोक्तियाँ	७
४ ग्रन्थोल्लेख	११
५ ऐतिहासिक नाम-सूची	९
६ भौगोलिक शब्द-सूची	१०
७ पारिभाषिक शब्द-सूची	११

प्राक् कथन

षट्खंडागम आठवें भागके प्रकाशित होनेके दो वर्षसे कुछ अधिक काल पश्चात् यह नौवां भाग पाठकोंके हाथोंमें पहुँच रहा है । इस समय मुद्रण संबंधी कार्यमें सुविधा उत्पन्न होकर कठिनाइयां उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई हैं, जिनके कारण हम जितने वेगसे प्रकाशन कार्य चलाना चाहते हैं वह संभव नहीं हो पाता । किन्तु हम यही अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि कठिनाइयोंके होते हुए भी कार्यको कभी स्थगित करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी, भले ही वह मंदगतिसे चला हो । इस निरन्तर कार्यप्रगतिका श्रेय हमारी इस प्रथमालाके संस्थापक श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचंदजी तथा हमारी पंचकमेटीके अन्य सदस्यों एवं मेरे सहयोगी पं. बालचन्द्र जी शास्त्री तथा सरस्वती प्रेसके मैनेजर श्री टी. एम्. पाटीलको है । इस भागके संशोधनमें पूर्ववत् अमरावतीकी हस्तलिखित प्रतिके अतिरिक्त कारंजा महावीराश्रम तथा जैन सिद्धान्त-भवन आराकी प्रतियोंका उपयोग किया गया है । अतएव हम उक्त संस्थाओंके अधिकारियोंके बहुत कृतज्ञ हैं । हमें यह प्रकट करते हर्ष होता है कि इस भागके ४१ वें फार्मसे संशोधन कार्यमें हमें पं. फूलचन्द्रजी शास्त्रीका सहयोग पुनः प्राप्त हो गया है । उन्होंने ४१ वें फार्मसे पूर्वके मुद्रित अंशमें भी अनेक संशोधन सुझाये हैं जिनका समावेश शुद्धि-पत्रमें कर लिया गया है । इस कार्यमें पंडित फूलचन्द्रजीकी वीर-सेवा-मंदिर सरसावाकी हस्तलिखित प्रतिका सदुपयोग भी प्राप्त हो गया है । अतएव हम पंडितजी एवं वीर-सेवा-मंदिरके अधिकारियोंके आभारी हैं ।

श्री पं. रतनचंदजी मुख्तारने जैनसन्देश भाग ११ संख्या ३७-३८ में पुस्तक ८ के मुद्रित पाठोंमें गंभीर अध्ययन पूर्वक अनेक उपयोगी संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिनको हम साभार शुद्धि-पत्रमें सम्मिलित कर रहे हैं । कागज आदिकी व्यवस्थामें हमें सदैव ही श्रेष्ठ पं. नाथूरामजी प्रेमीसे बहुमूल्य साहाय्य प्राप्त होता रहा है, अतएव हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं ।

प्रस्तावना

INTRODUCTION.

The present volume contains the first section, namely *Kṛitī Anuyogadvāra*, out of the twenty-four sections included in the last three *Khaṇḍas*, namely, *Vedanā*, *Varganā* and *Mahābandha* of *Bhūtabali* as well as the *Culikā* of *Virasena*, as has already been shown in the introduction to part 1 of this series. The *Kṛitī* and *Vedanā* *Anuyogadvāras* constitute the *Vedanā Khaṇḍa* which is so named because of the importance of the second *Anuyogadvāra* as shown by the long space devoted to its treatment.

The word *Kṛitī* means action, and the present section which goes by that name deals with the formation and dissolution of the corporeal matter in the five kinds of bodies, namely, *Audārika*, *Vaikṛiyika*, *Ahāraka*, *Taijasa* and *Kārmana* possessed by the living beings, under the usual eight categories i. e. *Sat*, *Sanḥyā*, *Kṣhetra*, *Spārshana*, *Kāla*, *Antara*, *Bhāva* and *Alpa-bahutva*.

One noteworthy feature of this part of *Ṣaṭkhaṇḍāgama* is that it contains forty-four benedictory *Sūtras*, the authorship of which is attributed by the commentator *Virasena* to *Gautama* the chief disciple of *Tīrthamkara Mahāvīra* himself. The same *Sūtras* are also found included in the *Yoni-prābhṛita*, a work of *Mantra Vidyā*, traditionally attributed to *Dharasena* the teacher of *Pushpadanta* and *Bhūtabali*. The *Sūtras*, thus, lend support to the tradition regarding the authorship of *Yoni-prābhṛita*.

In spite of the presence of the benedictory *Sūtras* at the beginning of the work, the *Vedanā Khaṇḍa* has been called by *Virasena* as '*Anibaddha-Mangala*' because the author *Bhūtabali* has not himself composed the *Mangala*. But the *Jivatthāna Khaṇḍa* has been called '*Nibaddha Mangala*', which shows that, according to *Virasena*, the *Namokāra formula* which forms the *Mangala* of *Jivatthāna* was originally composed by *Pushpadanta* himself. This was fully discussed by me in the introduction to Vol. II and the position taken by me there remains so far unaltered.

The historical survey of the *Jaina Sangha* and its scriptures found in this section is for the most part a repetition of what had already been said in the introductory part of Vol. I. There are, however, a few more interesting details regarding the life of Lord *Mahāvīra*.

विषय-परिचय ।

षट्खण्डागमके चतुर्थ खण्डका नाम वेदना है । इस खण्डकी उत्पत्तिका कुछ परिचय पुस्तक १ की प्रस्तावनाके पृ. ६५ व ७२ पर कराया जा चुका है व इसकी खण्डव्यवस्थाके सम्बन्धमें जो शंकायें उत्पन्न हुई थीं उनका निराकरण पुस्तक २ की प्रस्तावना पृ. १५ आदि पर किया जा चुका है । इस खण्डमें अग्रायणीय पूर्वकी पांचवीं वस्तु चयनलब्धिके चतुर्थ प्राभृत कर्मप्रकृतिके चौबीस अनुयोगद्वारोंमेंसे प्रथम दो अर्थात् कृति और वेदना अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा की गई है, एवं वेदना अधिकारका अधिक विस्तार होनेके कारण सम्पूर्ण खण्डका नाम ही वेदना रखा गया है ।

प्रस्तुत पुस्तकमें कृतिअनुयोगद्वारकी प्ररूपणा है । इसके प्रारम्भमें सूत्रकार भगवन्त भूतबलि द्वारा ' णमो जिणाणं, णमो ओहिजिणाणं ' इत्यादि ४४ सूत्रोंसे मंगल किया गया है । ठीक यही मंगल ' योनिप्राभृत ' ग्रन्थमें गणधरवलय मंत्रके रूपमें पाया जाता है । यह ग्रन्थ धरसेनाचार्य द्वारा उनके शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलिके निमित्त रचा गया माना जाता है । इसका विशेष परिचय प्रथम पुस्तककी प्रस्तावनाके पृ. २९ आदि पर कराया गया है । (देखिये Comparative and Critical Study of Mantrashastra by M. B. Jhaveri Appendix A.) । इन मंगलसूत्रोंकी टीकामें आचार्य बीरसेन स्वामीने देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ऋजुमति व विपुलमति मनःपर्यय, केवलज्ञान एवं मतिज्ञानके अन्तर्गत कोष्ठबुद्धि, बीज-बुद्धि, पदानुसारिणी और संभिन्नश्रोतृबुद्धिकी विशद प्ररूपणा की है । उक्त बुद्धि ऋद्धिके साथ ही यहां अन्य सभी ऋद्धियोंका मननीय विवेचन किया गया है । इन मंगलसूत्रोंमें अन्तिम सूत्र ' णमो वद्धमाणबुद्धरिसिस्स ' है । इसकी टीकामें धवलाकारने विस्तारसे विवेचन करके उक्त मंगलको अनिबद्ध मंगल सिद्ध किया है, क्योंकि, वह प्रस्तुत ग्रन्थकारकी रचना न होकर गौतम स्वामी द्वारा रचित है । धवलाकार जीवस्थान खण्डके आदिमें किये गये पंचणमोकार मंत्र रूप मंगलको निबद्ध मंगल कह आये हैं । इस भेदके आधारसे धवलाकारका यह स्पष्ट अभि-प्राय जाना जाता है कि वे भगवान् पुष्पदन्ताचार्यको ही णमोकारमंत्रके आदिकर्ता स्वीकार करते हैं । इसका सविस्तर विवेचन पुस्तक २ की प्रस्तावनाके पृ. ३३ आदि पर किया जा चुका है । उस समय पत्र-पत्रिकाओंमें इस विषयकी चर्चा भी चली और णमोकारमंत्रके अनादित्वपर जोर दिया गया । किन्तु विद्वानोंने धवलाकारके अभिप्रायको समझने व उसपर गम्भीरतासे विचार करनेका प्रयत्न नहीं किया ।

टीकाकारने इस मंगलदण्डकको देशामर्शक मानकर निमित्त, हेतु, परिमाण व नामका भी निर्देश कर द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावकी अपेक्षा कर्ताका विस्तृत वर्णन किया है, जो जीवस्थानके व विशेषकर जयधवला (कषायप्राभृत) के प्रारम्भिक कथनके ही समान है ।

सूत्र ४५ में बतलाया है कि अग्रायणीय पूर्वकी पंचम वस्तुके चतुर्थ प्राभृतका नाम कमप्रकृति है । उसमें कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति आदि २४ अनुयोगद्वार हैं । इनमें प्रथम कृतिअनुयोगद्वार प्रकृत है । इस सूत्रकी टीका करते हुए वीरसेन स्वामीने उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नयकी उसी प्रकार पुनः विस्तारपूर्वक प्ररूपणा की है जैसे कि जीवस्थानके प्रारम्भमें एक बार की जा चुकी है ।

सूत्र ४६ में नामकृति, स्थापनाकृति, द्रव्यकृति, गणनकृति, ग्रन्थकृति, करणकृति और भावकृति, ये कृतिके सात भेद बतलाये हैं । इनकी संक्षिप्त प्ररूपणा इस प्रकार है—

१ एक व अनेक जीव एवं अजीवमेंसे किसीका ' कृति ' ऐसा नाम रखना नामकृति है ।

२ काष्ठकर्म, चित्रकर्म, पोत्तकर्म, लेप्यकर्म, लयनकर्म, शैलकर्म, गृहकर्म, भित्तिकर्म, दन्तकर्म व भेडकर्ममें सद्भावस्थापना रूप तथा अश्व एवं वराटक आदिमें असद्भावस्थापना रूप ' यह कृति है ' ऐसा अभेदात्मक आरोप करना स्थापनाकृति कहलाती है ।

३ द्रव्यकृति आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकार है । इनमें आगमद्रव्यकृतिके स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत, सूत्रसम, अर्थसम, ग्रन्थसम, नामसम और घोषसम, ये नौ अधिकार हैं । यहां वाचनोपगत अधिकारकी प्ररूपणामें व्याख्याताओं एवं श्रोताओंको द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव रूप शुद्धि करनेका विधान बतलाया गया है । आगे चलकर स्थित व जित आदि उपर्युक्त नौ अधिकारों विषयक वाचना, पृच्छना, प्रतीच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षणा, स्तव, स्तुति व धमकथा आदि रूप उपयोगोंकी प्ररूपणा है ।

नोआगमद्रव्यकृति ज्ञायकशरीर, भावी और तदव्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है । इनमेंसे ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यकृतिके भी आगमद्रव्यकृतिके ही समान स्थित-जित आदि उपर्युक्त नौ अधिकार कहे गये हैं । कृतिप्राभृतके जानकार जीवका च्युत, च्यावित एवं त्यक्त शरीर ज्ञायकशरीरद्रव्यकृति कहा गया है । जो जीव भविष्यत् कालमें कृतिअनुयोगद्वारोंके उपादान कारण स्वरूपसे स्थित है, परन्तु उसे करता नहीं है; वह भावी नोआगमद्रव्यकृति है । तदव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यकृति ग्रन्थिम, वाइम, वेदिम, पूरिम, संघातिम, अहोदिम, निक्खोदिम, ओवेल्लिम, उद्वेल्लिम, वर्ण, चूर्ण और गन्धविलेपन आदिके भेदसे अनेक प्रकार है ।

४ गणनकृति नोकृति, अवक्तव्यकृति और कृतिके भेदसे तीन भेद रूप अथवा कृति-गत संख्यात, असंख्यात व अनन्त भेदोंसे अनेक प्रकार भी है। इनमेंसे 'एक' संख्या नोकृति, 'दो' संख्या अवक्तव्यकृति और 'तीन' को आदि लेकर संख्यात असंख्यात व अनन्त तक संख्या कृति कहलाती है। संकलना, वर्ग, वर्गावर्ग, घन व घनाघन राशियोंकी उत्पत्तिमें निमित्त-भूत गुणकार, कलासवर्ण तक भेदप्रकीर्णक जातियाँ, त्रैराशिक व पंचराशिक इत्यादि सत्र धनगणित है। व्युत्कलना व भागहार आदि ऋणगणित कहलाते हैं। गतिनिवृत्तिगणित और कुट्टिकार आदि धन-ऋणगणितके अन्तर्गत हैं। यहां कृति, नोकृति और अवक्तव्यकृतिके उदाहरणार्थ ओघानुगम, प्रथमानुगम, चरमानुगम और संचयानुगम, ये चार अनुयोगद्वारा कहे गये हैं। इनमें संचयानुगमकी प्ररूपणा सत्-संख्या आदि आठ अनुयोगद्वारोंके द्वारा विस्तारपूर्वक की गई है।

५ लोक, वेद अथवा समयमें शब्दसन्दर्भ रूप अक्षरकाव्यादिकोंके द्वारा जो ग्रन्थ-रचना की जाती है वह ग्रन्थकृति कहलाती है। इसके नाम, स्थापना, द्रव्य व भावके भेदसे चार भेद करके उनकी पृथक् पृथक् प्ररूपणा की गई है।

६ करणकृति मूलकरणकृति और उत्तरकरणकृतिके भेदसे दो प्रकार है। इनमें औदारिकादि शरीर रूप मूलकरणके पांच भेद होनेसे उसकी कृति रूप मूलकरणकृति भी पांच प्रकार निर्दिष्ट की गई है। औदारिकशरीरमूलकरणकृति, वैक्रियिकशरीरमूलकरणकृति और आहारकशरीरमूलकरणकृति, इनमेंसे प्रत्येक संघातन, परिशातन और संघातन-परिशातन स्वरूपसे तीन तीन प्रकार हैं। किन्तु तैजस और कार्मणशरीरमूलकरणकृतिमेंसे प्रत्येक संघातनसे रहित शेष दो भेद रूप ही हैं।

विवक्षित शरीरके परमाणुओंका निर्जराके बिना जो एक मात्र संचय होता है वह संघातनकृति है। यह यथासम्भव देव व मनुष्यादिकोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, क्योंकि, उस समय विवक्षित शरीरके पुद्गलस्कन्धोंका केवल आगमन ही होता है, निर्जरा नहीं होती।

विवक्षित शरीर सम्बन्धी पुद्गलस्कन्धोंकी आगमनपूर्वक होनेवाली निर्जरा संघातन-परिशातनकृति कहलाती है। वह यथासम्भव देव-मनुष्यादिकोंके उत्पन्न होनेके द्वितीयादिक समयोंमें होती है, क्योंकि, उस समय अभव्य राशिसे अनन्तगुणे और सिद्ध राशिसे अनन्तगुणे हीन औदारिकादि शरीर रूप पुद्गलस्कन्धोंका आगमन और निर्जरा दोनों ही पाये जाते हैं।

उक्त विवक्षित शरीरके पुद्गलस्कन्धोंकी संचयके बिना होनेवाली एक मात्र निर्जराका नाम परिशातनकृति है। यह यथासम्भव देव-मनुष्यादिकोंके उत्तर शरीरके उत्पन्न करनेपर होती है, क्योंकि, उस समय उक्त शरीरके पुद्गलस्कन्धोंका आगमन नहीं होता।

तैजस और कार्मण इन दोनों शरीरोंकी अयोगकेवलीके परिशातनकृति होती है, कारण कि उनके योगोंका अभाव हो जानेसे बन्धका भी अभाव हो चुका है । अयोगकेवलीको छोड़ शेष सभी संसारी जीवोंके इन दोनों शरीरोंकी एक संघातन-परिशातनकृति ही है, क्योंकि, सर्वत्र उनके पुद्गलस्कन्धोंका आगमन और निर्जरा दोनों ही पाये जाते हैं । उक्त दोनों शरीरोंकी संघातनकृति सम्भव नहीं है । कारण इसका यह है कि वह संसारी प्राणियोंके तो हो नहीं सकती, क्योंकि, उनके उक्त दोनों शरीरोंके पुद्गलस्कन्धोंका जैसे आगमन होता है वैसे ही उसीके साथ निर्जरा भी होती है । अब रहे सिद्ध जीव सो उनके भी वह सम्भव नहीं है, क्योंकि, उनके बन्धकारणोंका पूर्णतया अभाव हो चुका है ।

आगे जाकर उपर्युक्त पाँचों मूलकरणकृतियोंकी प्ररूपणा पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, इन तीन अधिकारों द्वारा तथा सत्-संख्या आदि आठ अनुयोगद्वारोंके भी द्वारा विस्तार-पूर्वक की गई है ।

असि, वासि, परशु, कुदारी, चक्र, दण्ड, वेम व नालिका आदि उत्तर करण अनेक मोन जाते हैं । अत एव उत्तर करणोंके अनेक होनेसे उनकी कृति रूप उत्तरकरणकृति भी अनेक प्रकार कही गई है ।

७ कृतिप्राप्तका जानकार उपयोग युक्त जीव भावकृति कहा जाता है । उपर्युक्त सातों कृतियोंमें यहां गणनकृतिको प्रकृत बतलाया है, कारण कि गणनाके बिना अन्य अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा असम्भव हो जाती है ।

विषय-सूची

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
१	धवलाकारका मंगलाचरण वेदना खण्डके प्रारम्भमें भगवान् भूतबलि द्वारा किया गया मंगल	१ २-१०३	१४	अवधिजिनोंका स्वरूप	४०
२	मंगलका स्वरूप व उसका प्रयोजन	२	१५	परमावधिजिन-नमस्कारमें परमावधिजिनोंका स्वरूप	४१
३	नामादिकके भेदसे चार प्रकारके जिनोंका स्वरूप	६	१६	परमावधिके विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावकी प्ररूपणा	४२
४	उक्त चार भेदोंमें विभक्त जिनोंमेंसे यहां कौनसे जिनके लिये नमस्कार किया गया है	८	१७	सर्वावधिजिन-नमस्कारमें सर्वावधिजिनोंका स्वरूप	४७
५	देश व सकल जिनोंका स्वरूप	१०	१८	सर्वावधिके विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, व भावकी प्ररूपणा	४८
६	अवधिजिन-नमस्कारमें अवधि शब्दके अर्थपर विचार	१२	१९	अनन्तावधिजिन-नमस्कारमें अनन्तावधिजिनका स्वरूप	५१
७	जघन्य अवधिके विषयभूत द्रव्यकी प्ररूपणा	१४	२०	कोष्ठबुद्धि ऋद्धि धारकोंका स्वरूप व उनको नमस्कार	५३
८	जघन्य अवधिज्ञानके विषय- भूत क्षेत्रकी प्ररूपणामें अव- गाहनाविषयक अल्पबहुत्व	१७	२१	वीजबुद्धि ऋद्धि धारकोंका स्वरूप	५५
९	सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना प्रमाण जघन्य अवधिका क्षेत्र	२१	२२	पदानुसारी ऋद्धिका स्वरूप	६०
१०	जघन्य अवधिज्ञानके विषय- भूत कालकी प्ररूपणा	२६	२३	सम्भिन्नश्रोतृ ऋद्धिका स्वरूप	६१
११	जघन्य अवधिके विषयभूत भावकी प्ररूपणा	२७	२४	ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानका स्वरूप व उसके विषयका प्रमाण	६२
१२	अवधिके विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावके द्विती- यादि विकल्प	२८	२५	विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानका स्वरूप व उसके विषयका प्रमाण	६३
१३	देशावधिके उत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावका प्रमाण	३५	२६	दशपूर्व ऋद्धि धारकोंके भेद व उनका स्वरूप	६९
			२७	चतुर्दशपूर्व ऋद्धि धारकोंका स्वरूप	७०
			२८	आठ महानिमित्तोंका स्वरूप	७२
			२९	विक्रिया ऋद्धिके आठ भेद व उनका स्वरूप	७५
			३०	विद्याधरजिन-नमस्कारमें जाति, कुल व तप विद्याओंका स्वरूप	७७

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ	क्रम. नं.	विषय	पृष्ठ
३१	चारण ऋद्धि धारकोंके आठ भेद व उनका स्वरूप	७८	५७	भूतबलि भट्टारक द्वारा किया गया मंगल निबद्ध है या अनिबद्ध, इस शंकाका समाधान	१०३
३२	अन्य चारण ऋद्धि धारकोंका उक्त आठोंमें यथासम्भव अन्तर्भाव	८१	५८	यह मंगल वेदना, वर्गणा और महाबंध, इन तीनों खण्डोंका मंगल है; इसकी सिद्धि	१०५
३३	प्रज्ञाश्रवणनमस्कारमें प्रज्ञाके चार भेद व उनका स्वरूप	"	५९	निमित्त, हेतु, नाम व प्रमाणकी प्ररूपणा	१०६
३४	आकाशगामित्व ऋद्धिका स्वरूप	८४	कर्तृप्ररूपणा १०७-१३०		
३५	आशीर्विष ऋद्धि धारकोंका स्वरूप	८५	६०	द्रव्यसे अर्थकर्ताकी प्ररूपणामें भगवान् महावीरके शरीरका वर्णन	१०७
३६	दृष्टिविष व दृष्टि-अमृत ऋद्धि धारकोंका स्वरूप	८६	६१	क्षेत्रप्ररूपणामें समवसरण-मण्डलका वर्णन	१०९
३७	उग्रतप ऋद्धि धारकोंके भेद व उनका स्वरूप	८७	६२	वर्धमान भगवान्की सर्वज्ञता	११३
३८	महातप ऋद्धि धारकोंका स्वरूप	९१	६३	भावप्ररूपणामें जीवकी सचे-तनतासिद्धि	११४
३९	घोरतप ऋद्धि धारकोंका स्वरूप	९२	६४	जीवकी ज्ञान-दर्शनस्वभावता	११६
४०	घोरपराक्रम और घोरगुण ऋद्धि धारकोंको नमस्कार	९३	६५	कर्मोंकी अनित्यता	११७
४१	अघोरगुणब्रह्मचारियोंका स्वरूप	९४	६६	तीर्थोत्पत्तिकाल	११९
४२	आमर्षौषधि ऋद्धि	९५	६७	भगवान् महावीरका गर्भा-वतरणकाल	१२०
४३	खेलौषधि ऋद्धि	९६	६८	केवलज्ञान प्राप्त हो जानेपर भी दिव्यध्वनि न खिरनेका कारण	"
४४	जलौषधि ऋद्धि	"	६९	वर्धमान भगवान्की आयुपर मतभेद व तदनुसार गर्भस्थ-कालादिकी प्ररूपणा	१२१
४५	विष्टौषधि ऋद्धि	९७	७०	ग्रन्थकर्ताकी प्ररूपणामें गण-घरका स्वरूप	१२६
४६	सर्वौषधि ऋद्धि	"	७१	वर्धमान भगवान्के तीर्थमें ग्रन्थकर्ता इन्द्रभूति गण-घरका वर्णन	१२९
४७	मनोबल ऋद्धि	९८	७२	उत्तरोत्तरतंत्रकर्ताकी प्ररू-प्रणामें केवली व श्रुतकेवली	
४८	वचनबल ऋद्धि	"			
४९	कायबल ऋद्धि	९९			
५०	क्षीरस्रवी ऋद्धि	"			
५१	सर्पिस्रवी ऋद्धि	१००			
५२	मधुस्रवी ऋद्धि	"			
५३	अमृतस्रवी ऋद्धि	१०१			
५४	अक्षीणमहानस ऋद्धि	"			
५५	सर्व सिद्धायतनोंको नमस्कार	१०२			
५६	वर्धमान बुद्धर्षिको नमस्कार	१०३			

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
	आदिकी परम्परा और उनका काल	१३०	९१	श्रुतज्ञानके चतुर्विध अवतारमें सामायिक आदि चौदह भेद रूप अंगश्रुतकी प्ररूपणा	१८६
७३	शक राजाका समय	१३२	९२	अंगश्रुतके चतुर्विध अवतारमें आचारांगादि बारह अंगोंकी विषयप्ररूपणा	१९२
७४	भूतबलि भट्टारक द्वारा पदखण्डागमकी रचना	१३३	९३	दृष्टिवादके चतुर्विध अवतारमें चन्द्रप्रश्रुति आदि पांच अधिकारोंका विषय	२०४
७५	कृति वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारोंका निर्देश	१३४	९४	सूत्रका पदप्रमाण व विषय	२०७
७६	उपक्रमका स्वरूप व उसके भेद-प्रभेदादि	"	९५	प्रथमानुयोगका पदप्रमाण व विषय	२०८
७७	निक्षेपस्वरूप	१४०	९६	पूर्वकृतका पदप्रमाण व विषय	२०९
७८	अनुगमप्ररूपणामें प्रमाणका स्वरूप व उसके भेद-प्रभेदोंका विस्तृत वर्णन	१४१	९७	पांच प्रकार चूलिकाओंका पदप्रमाण व विषय	"
	नयप्ररूपणा १६२-१८३		९८	पूर्वगतके चतुर्विध अवतारमें चौदह पूर्वोंका पदप्रमाण व विषय	२१०
७९	नयस्वरूपका विचार	१६२	९९	अग्रायणी पूर्वका चतुर्विध अवतार	२२५
८०	द्रव्यार्थिकनयकी प्ररूपणामें द्रव्यके सदादि विकल्पोंका दिग्दर्शन	१६७	१००	चयनलब्धिका चतुर्विध अवतार	२२७
८१	पर्यायार्थिकनयके भेदोंमें क्रजुसूत्र नयका स्वरूप	१७१	१०१	कर्मप्रकृतिप्राप्तका चतुर्विध अवतार	२२९
८२	शब्दनयका स्वरूप	१७६	१०२	चयनलब्धिके कृति व वेदना आदि चौबीस अनुयोग-द्वारोंका निर्देश व उनकी विषयप्ररूपणा	२३१
८३	समभिरुद्धनयका स्वरूप	१७९	१०३	कृतिके सात भेदोंका निर्देश	२३७
८४	एवम्भूतनयका स्वरूप	१८०	१०४	कृतियोंकी नयविषयता	२३८
८५	अर्थनय व शब्दनयका स्वरूप	"	१०५	नामकृतिकी प्ररूपणामें क्षणिकैकान्तवादादिका निराकरण	२४६
८६	नैगमनयके तीन भेद व उनका स्वरूप	१८१			
८७	नयोंकी समीचीनता व असमीचीनता	१८२			
८८	उपनयका स्वरूप	१८२			
८९	सात सुनयवाक्य	१८३			
	अग्रायणी पूर्वका उद्गम १८४-२२५				
९०	ज्ञानका उपक्रमादि रूप चतुर्विध अवतार	१८४			

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
१०६	स्थापनाकृतिकी प्ररूपणामें काष्ठकर्म आदिका स्वरूप	२४८	१२०	द्रव्यप्ररूपणानुगम	२८१
१०७	आगमद्रव्यकृतिकी प्ररूपणामें स्थित-जित आदि नौ अधिकारोंका स्वरूप	२५१	१२१	क्षेत्रानुगम	२८५
१०८	वाचनाका स्वरूप व उसके चार भेद	२५२	१२२	स्पर्शानुगम	२८७
१०९	व्याख्याताओं व श्रोताओंके लिये द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावसे शुद्धिकरणका विधान	२५३	१२३	कालानुगम	२९१
११०	सूत्रसम आदिका स्वरूप	२५९	१२४	अन्तरानुगम	३०४
१११	उक्त स्थित-जित आदि नौ अधिकारविषयक उपयोग व इसके भेद	२६२	१२५	आवानुगम	३१५
११२	कृतिके विषयमें आठ प्रकारके उपयोगकी प्ररूपणा	२६३	१२६	अल्पबहुत्वानुगम	३१८
११३	नैगमादिक नयोंकी अपेक्षा अनुपयुक्तकी प्ररूपणा	२६४	१२७	ग्रन्थकृतिका प्ररूपणा	३२१
११४	नोआगमद्रव्यकृतिके तीन भेदोंमें ज्ञायकशरीरद्रव्य-कृतिके स्थित आदि नौ अनुयोगोंका स्वरूप	२६७	करणकृतिप्ररूपणा ३२४-४५१		
११५	ज्ञायकशरीरद्रव्यकृतिका स्वरूप	२६९	१२८	मूलकरणकृतिके भेद	३२४
११६	भावी नोआगमद्रव्यकृतिका स्वरूप	२७१	१२९	औदारिक, वैक्रियिक व आहारकशरीरमूलकरण-कृतिके संघातनादि तीन भेदोंकी प्ररूपणा	३२६
११७	तद्रव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य-कृतिके ग्रन्थिम-चाइम आदि अनेक भेद व उनका स्वरूप		१३०	तैजस व कर्मणशरीर सम्बन्धी परिशातन व संघातनपरिशातन कृतियोंकी प्ररूपणा	३२८
गणनकृतिप्ररूपणा २७४-३२१			१३१	मूलकरणकृतियोंकी प्ररूपणामें षट्मीमांसा	३२९
११८	गणनकृतिका स्वरूप व उसके भेद	२७४	१३२	स्वामित्व	"
११९	कृति, नोकृति व अवक्तव्य-कृतिकी प्ररूपणामें प्रथमानुगम आदि चार अनुयोगद्वार	२७७	१३३	अल्पबहुत्व	३४६
			१३४	सत्प्ररूपणा	३५४
			१३५	द्रव्यप्रमाण	३५८
			१३६	क्षेत्रानुगम	३६४
			१३७	स्पर्शानुगम	३७०
			१३८	कालानुगम	३८०
			१३९	अन्तरानुगम	४०२
			१४०	भावानुगम	४२८
			१४१	स्वस्थान अल्पबहुत्व	४२९
			१४२	परस्थान अल्पबहुत्व	४३८
			१४३	उत्तरकरणकृतिका स्वरूप व भेद	४५०
			१४४	भावकृतिका स्वरूप	४५१
			१४५	गणनकृतिकी प्रधानता	४५२

शुद्धि-पत्र

[पुस्तक ८]

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
११३	१२	चतुर्दंशणावरणीय-वेउन्विय- तेजा-	चतुर्दंशणावरणीय-तेजा- [प्रतियोंमें वेउन्विय पद है, पर वह होना नहीं चाहिये]
"	२६	चार दर्शनावरण, वैक्रियिक, तैजस	चार दर्शनावरण, तैजस
११६	९	सुभ-सुस्सर	सुभग-सुस्सर [प्रतियोंमें सुभके स्थानमें सुभग होना चाहिये]
"	२७	शुभ, सुस्वा	सुभग, सुस्वर
१३१	५	देवगइसंजुत्तं मणुसगइ- संजुत्तं च	देवगइसंजुत्तं च [मणुसगइसंजुत्तं पद प्रतियोंमें है, पर होना नहीं चाहिये]
"	२१	मनुष्यगतिसे संयुक्त	× × ×
१३२	१०	मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी	[मणुसगइ] मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी
"	२४	मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी	[मनुष्यगति] मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी
१६५	९	जसकित्ति-उच्चगोदाणं	जसकित्ति-[अजसकित्ति-] उच्चगोदाणं
"	२४	यशकीर्ति और उच्चगोत्र	यशकीर्ति, [अयशकीर्ति] और उच्चगोत्र
१९२	४	पज्जत्तापज्जत्ताणं च	पज्जत्तापज्जत्ताणं [तसअपज्जत्ताणं]
"	१६	अपर्याप्त जीवोंकी	अपर्याप्त [व त्रस अपर्याप्त] जीवोंकी
१९७	९	पंचणाणावरणीय-मिच्छत्त	पंचणाणावरणीय- [णवदंशणावरणीय-] मिच्छत्त
"	२५	पांच ज्ञानावरणीय, मिध्यात्व	पांच ज्ञानावरणीय, [नौ दर्शनावरणीय] मिध्यात्व
२०४	१०	[ओरालियसरीरंगोवंग-]	[ओरालियसरीरंगोवंग-मणुसगइ-]
"	२७	[औदारिकशरीरंगोपांग]	[औदारिकशरीरंगोपांग, मनुष्यगति]
२०६	४	जसकित्ति-णिमिण	जसकित्ति- [अजसकित्ति-] णिमिण
२०६	१६	यशकीर्ति, निर्माण	यशकीर्ति, [अयशकीर्ति], निर्माण
२०९	२१	तिर्यगति,	तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी,

पृष्ठ	पांक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२३१	९	दुस्सराणं	सुस्सराणं [प्रतियोंमें दुस्सराणं पद ही है, पर सुस्सराणं होना चाहिये]
"	२३	दुस्वरका	सुस्वरका
२८१	५	णीचागोदाणं	णीचुच्चागोदाणं [प्रतियोंमें णीचागोदाणं पाठ ही है]
"	१७	नीच गोत्रका	नीच व ऊंच गोत्रका
२९१	७	धुवोदयत्तादो'	अधुवोदयत्तादो'
"	२२	ध्रुवोदयी	अध्रुवोदयी
२९३	५	देवगइपाओग्गाणुपुब्बी	[देवगइ-] देवगइपाओग्गाणुपुब्बी
"	१८	देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी	[देवगति], देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी
३००	६	अत्थि, 'णवुंसय-	अत्थि, इत्थि'-णवुंसय-
"	१७	नपुंसकवेद	स्त्री व नपुंसक वेद
३२२	५	णिरंतरो	सांतर-णिरंतरो
"	१६	निरन्तर	सान्तर-निरन्तर
३३१	४	वेउव्वियमिस्स-कम्मइय	वेउव्वियमिस्स-[ओरालियमिस्स-]कम्मइय
"	१६	वैक्रियिकमिश्र और कार्मण	वैक्रियिकमिश्र, [औदारिकमिश्र] और कार्मण
३३४	३०	देवगति,	देवगतिद्विक,
३३५	४	तिरिक्खेसु	तिरिक्ख-मणुस्सेसु [प्रतियोंमें तिरिक्खेसु ही पाठ है]
३३५	५	बंधाभावादो । पुरिसवेदस्स	बंधाभावादो । [समचउरससंठाण-पसत्थविहायगदि-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छाद्वि-सासणसम्माद्वीसु सांतर-णिरंतरो, तिरिक्ख-मणुस्सेसु निरंतर-बंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिक्ख-पयडीणं बंधाभावादो ।] पुरिसवेदस्स
"	१९	तिर्य्चो और	तिर्य्चो, मनुष्यो और
३३५	२०	बन्धका अभाव है । पुरुषवेदका	बन्धका अभाव है । [समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तिविहायोगतिं, सुभग, सुस्वर और आदेयका मिथ्यादृष्टि व सासादन गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तिर्य्च व मनुष्योमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध

शुद्ध

वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।] पुरुषवेदका

३३७ २६ स्त्रोदय-परोदय

परोदय

३३८ १ सोदय-परोदयो

परोदयो [प्रतियोंमें सोदय पद है, पर बह होना नहीं चाहिये]

३३९ १० सोदयो

परोदयो [प्रतियोंमें सोदयो ही पाठ है]

॥ २६ स्त्रोदय

परोदय

३५७ २ तहोवलंभादो। पदासिं सव्वासिं

तहोवलंभादो । [थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं बंधो सोदय-परोदयो ।] सेसाणं सव्वासिं

३५७ ७ शुक्कलेस्साए पदासिं

शुक्कलेस्साए तिरिक्ख-मणुस्सेसु पदासिं

॥ १४ जाता है । इन सत्र

जाता है । [स्थानगृद्धि आदि तीन और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका स्त्रोदय-परोदय और] शेष सत्र

॥ २१ शुक्कलेश्यामें इन

शुक्कलेश्यामें तिर्यच व मनुष्योंके इन

॥ २९ x x x

१ प्रतिपु ' एदासिं ' सव्वासिं इति पाठः ।

३६० ७ वेउव्वियसरीरंगोवगाणं

[वेउव्वियसरीर-] वेउव्वियसरीरंगोवगाणं

॥ २२ नरकगत्यानुपूर्वी और

नरकगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और

३६६ २२ बन्धका

उदयका

३८८ २ तिरिक्खगईणं

[तिरिक्खाउ-] तिरिक्खगईणं

॥ १२ पंचिदियजादि

पंचजादि [प्रतियोंमें पंचिदियजादि ही पाठ है]

॥ १६ अन्तराय और

अन्तराय, [तिर्यचआयु] और

॥ ३० पंचेन्द्रिय जाति

पांच जातियां

[पुस्तक ९]

४ ३ कज्जुप्पायणे

कज्जुप्पायणे

५ २० विघ्नोसे उत्पन्न

विघ्नोके कारणभूत

॥ २१ "

"

८ २१ स्थापनाकी अपेक्षा

स्थापनाको

११ ७ मुप्पण्णसमाणत्तुव-

मुप्पण्णसमाणत्तुव-

१६ २ परमाणूण खंधां

परमाणूणखंधा

॥ ११ परमाणुओंके स्कन्ध

परमाणुओंसे न्यून स्कन्ध

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१७	४	पज्जत्तसस्स	पज्जत्तयस्स
२४	८	पोग्गकखंध	पोग्गलकखंध
२५	१	पुण हत्थो	घणहत्थो
"	९	एक हाथ	एक घनहाथ
२७	९	कखमं, तहो-	कखमं, आगमे तहो-
"	२४	क्योंकि, वैसे	क्योंकि, आगममें वैसे
२८	२१	भावका जिन	भावका द्वितीय विकल्प लानेके लिये जिन
२९	३	॥ १२ ॥	॥ १३ ॥
३१	१२	-मणुप्पत्ति	-मणुप्पत्ति
३४	१०	मूलमेत्ता	मूलमेत्ता
३५	११	तप्पाओग्गसंखेज्ज	तप्पाओग्गासंखेज्ज
"	२७	संख्यात	असंख्यात
३६	६	कम्मपदेसु	कम्मपदेसेसु
४८	६	वियप्पादो	वियप्पत्तादो
"	९	-पदुप्पणेण	पदुप्पण्णेण
"	१०	खेत्तपरूवणा	खेत्तपमाणपरूवणा
"	२६	क्षेत्रकी प्ररूपणा	क्षेत्रके प्रमाणकी प्ररूपणा
५३	२०	अर्थधारण	अर्थधारण
५४	४	किंदियकम्म	किंदियम्म
५५	१	गोमद	गोदम
५५	५	मग्गशूजा	मग्गपूजा
५८	१०	उप्पण	उप्पण्ण
६२	९	यथार्थ-	यथार्थ
६३	४	णाणस्स	णाणिस्स
"	१४	मनःपर्ययज्ञानका	मनःपर्ययज्ञानीका
६४	३	सण्हत्तादो	सण्हत्तादो
६९	१	दोणिण	दो-तिणिण
"	९	दो भवग्रहणोंको	दो तीन भवग्रहणोंको
६७	२४	एक आकाशश्रेणीमें	आकाशकी एक श्रेणीके क्रमसे
६८	५	खओवसमाभावादो	खओवसमाभावो
"	९	पडिघाडा-	पडिघादा-
"	११	पणदालीसलक्ख	पणदालीसजोयणलक्ख

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६८	२०	क्षयोपशमका अभाव होनेसे उसकी उत्पत्ति न हो	क्षयोपशमका अभाव कारण हो
६९	८	सत्तसय-	अंगुष्ठपसेणादिसत्तसय-
"	१९	होनेपर सात	होनेपर अंगुष्ठप्रसेनादि सात
७२	२	-मट्टअंगाणि	-मट्ट अंगाणि
"	५	य राहणिज्जा	यराहणिज्जा
"	५	॥ १९ ॥	॥ १९ ॥ इदि
"	१५	तिर्यचोके वात	तिर्यचोके सत्त्व, स्वभाव, वात
"	१६	शुक्र सत्व स्वभाव रूप, तथा	शुक्र, तथा
"	२८	' तिलयाणंग-' इति पाठः	' तिलयाणंग-', मप्रतौ स्वीकृतपाठः
७९	६	सायराणंतो	सायराणमंतो
८०	६	गामिणो	गामिणो
८२	६	॥ २२ ॥	॥ २२ ॥ इदि
८२	८	-स्सुप्पण्णा वेणइया	-स्सुप्पण्णा पण्णा वेणइया
८९	४	परिसी	तवोवलेण परिसी
"	१८	ऐसी	तपके वलसे ऐसी
९०	८	वग्गम्मदे	वग्गम्मदे
"	"	तवाणं मण	तवाणं जिणाणं मण
"	२३	ऋद्धिधारको	ऋद्धिधारक जिनोंको
९१	१	तप्ततपः । जोसि	तप्ततपः । तप्तं तपो येषां ते तप्ततपसः । जोसि
"	३	सहियाणं जिणाणं	सहियाणं तत्ततवाणं जिणाणं
"	११	है । जिनके	है । तप्त तप जिनके पाया जाता है वे तप्त- तपवाले ऋषि हैं । जिनके
"	१३	सहित जिनोंको	सहित तप्ततपवाले जिनोंको
९२	५	जुदायेण	जुदोयण
"	९	बारसविहत्तउ	बारसविहतउ
९४	६	घोरबंभ	घोरगुणबंभ
"	७	अघोरबंभ	अघोरगुणबंभ
"	१९	अघोरबंभ-	अघोरगुणबंभ-
"	२१	"	"
९५	५	उत्तरे	उत्तरे

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
९६	२	विहाणमो-	विहाणमामो-
"	१०	प्रकारके औषधि-	प्रकारके आमर्षौषधि
१०१	२०	जिसके	जिसको
"	"	स्वयं परोस लेनेके	परोस देनेके
१०६	५	दुहाभावादो'	तण्हाभावादो'
"	१८	अत्यन्त दुखका अभाव होनेसे	अत्यन्त तृष्णाका सद्भाव होनेसे
१०८	५	कम्मामावं	कम्मामावं
"	७	भावं । अधवा	भावं । गिरामिसत्तेण सगपुट्ठीए च जाणा- विदभुक्खा-तिसामावं । अधवा
"	२४	ज्ञापक है । अथवा	ज्ञापक है । भोजन रहित होनेसे और अपनी पुष्टि होनेसे जिनके भूख व प्यासका अभाव जाना जाता है । अथवा
१११	१२	चन्द्र-अब्ज-मयूर	चन्द्र-मयूर
"	२१	संयुक्त	संयुक्त
"	२२	सिद्धप्रतिमाओंसे दीप्त सिद्धार्थ	जहां सिद्धप्रतिमायें स्थित हैं और जो अपनी वृद्धिसे समृद्ध हैं ऐसे सिद्धार्थ
११२	२	फलिहघडिय	फलिहसिलाघडिय
"	१३	स्फटिकसे	स्फटिकमणिसे
११४	६	ण जीवो	ण ताव जीवो
११८	५	प्पसंगादो । तदो	प्पसंगादो । ण च दव्वस्स अभावो, तिहु- वणाभावप्पसंगादो । तदो
"	११	॥ २२ ॥	॥ २६ ॥ [इससे आगेके गाथांकोंमें इसी प्रकार चार अंकोंकी वृद्धि कर लेना चाहिये]
"	१९	आवेगा । इस	आवेगा । और द्रव्यका अभाव तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि, ऐसा माननेपर त्रिभुवनके अभावका प्रसंग आवेगा । इस
१२१	९	तेरसीए उत्तरा-	तेरसीए रत्तीए उत्तरा-
"	२४	दिन उत्तरा-	दिन रात्रिमें उत्तरा-
१२९	१०	दिट्ठिवादाणं सामाइय	दिट्ठिवादाणं वारहंगाणं सामाइय
१३४	५-९	पयडी णाम ॥ ४५ ॥ तत्थ इमाणि × × × अप्पा- बहुगं च । सव्वत्थ	पयडी णाम । तत्थ इमाणि ××× अप्पाबहुगं च सव्वत्थ ॥ ४६ ॥

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३४	१७-२१	है ॥ ४६ ॥ उसमें ये XXX है । उसमें X X X और सर्वत्र अल्प- और अल्पबहुत्व । सर्वत्र	बहुत्व ॥ ४५ ॥
१३५	८	छत्ती	दंडी छत्ती
"	१९	छत्री	दण्डी, छत्री
१३७	२	-चिदणिवंध	-चिदअवयवणिवंध
"	४	पेरावओ	अइरावओ
१४१	९	-नुगमः ।	-नुगमः प्रमाणम् ।
"	२२	अनुगम कहलाता	अनुगम अर्थात् प्रमाण कहलाता
१४२	९	युगपदविभासम्	युगपदवभासम्
"	३०	X X X	२ प्रतिपु ' युगपदविभासम् ' इति पाठः ।
१५१	७	कठिनोप्म	कठिनोष्ण
"	२०	ऊप्म	उष्ण
१५२	२०	'गायके समान गवय होता है'	X X X
१५५	५	अनिस्तृत	अनिःस्तृत
१६१	४	-भेदाच्च आद्य-	-भेदाच्चक्षुरादिविषयाच्च आद्य-
"	१५	जत्र वर्ण, पद X X X स्कन्धसे संकेत युक्त	जत्र आद्य श्रुतविषयताको प्राप्त हुए अविना- भावी वर्ण, पद, वाक्य आदि भेदोंको धारण करनेवाले शब्दपरिणत पुद्गलस्कन्धसे और चक्षु आदिके विषयसे संकेत युक्त
१६२	१६	तादात्म्यसे	तादात्म्यसे
१६७	५	समन्तमद्र	समन्तभद्र
१६८	७	बुध्यवसितः	बुद्ध्यध्यवसितः
"	२२	क्योंकि, इनकी	क्योंकि, बन्धकारणत्वकी अपेक्षा इनकी
१७५	५	प्रथमलक्षण	प्रथमक्षण
१८०	४	द्वैविध्ये	द्वैविध्य
१८१	२	पर्यायार्थिनय	पर्यायार्थिकनय
"	३	पर्यार्थिक	पर्यायार्थिक
"	४	द्वंद्वजः	द्वंद्वजः
"	१५	द्वंद्वज	द्वंद्वज
१८४	५	पुंस्त्वमिदि	पुंस्त्वमिदि-

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१८५	१	दव्वत्तस्स	दव्वत्तस्स
१८६	९	अत्थग्ग्हि ^१	अतग्ग्हि ^१
"	२७	अर्थका उसको द्वारा ग्रहण	जो वस्तु अतद्रूप है उसका तद्रूपसे ग्रहण
"	१८	अप्रतौ 'अतग्ग्हि',	× × ×
१८८	३	जादं आभोगिय	जादं च आभोगिय
१९८	६	छक्का-	छक्का-
२०४	४	ट्टिदिवादो	दिट्ठिवादो
२०६	६	विधानं च	विधानं तद्गतिविशेष-ग्रह-छाया-काल- राश्युदयविधानं च
"	१७	प्रच्छादकविधि, इस	प्रच्छादकविधि, उनकी गतिविशेष, प्रश्नोंकी छाया, कालमान और उदयविधि, इस.
२०९	७	अइक्खुवाणं	अ इक्खुवाणं
"	१०	रूपाकाशभेदेन	रूपाकाशगतभेदेन
"	११	सहस्रैका	सहस्रैका
"	२१	आकाशके	आकाशगताके
२१०	१	तंत्रविशेषा	तंत्र-तपोविशेषा
"	११	मंत्र व तंत्रविशेषोंका	मंत्र, तंत्र व. तत्रविशेषोंका
२१२	९	छद्मस्थानां	छद्मस्थानां
२१३	७	कल्याणादिरूपेण	कल्याणादिघटरूपेण
२१३	१९	सुवर्णादि रूपसे	सुवर्णादिघट रूपसे
२१४	१	रूपघट	रूपघट
"	५	घटानामपि	घटानामपि
२१६	७	मृषामिधानं	मृषाभिधानं
२२२	४	निर्दिश्यन्त	निर्दिश्यन्ते
२२६	१०	तीदाणगय	तीदाणागय
२३२	२	-पढम-चरिमम्मि	-पढम-चरिमाचरिमम्मि
"	१३	अप्रथम और चरम	अप्रथम, चरम और अचरम
२३४	८	-अब्बाट्ठिदि	अघट्ठिदि ^१
"	२३	कालस्थिति	अधःस्थिति
"	२३	× × ×	२ प्रतिष्ठ 'अब्बाट्ठिदि' इति पाठः।
२३९	४	-कारणादो	-करणादो
२४०	२	अणवगट्ठे	अणवगयट्ठे

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२४५	१५	इस नयकी अपेक्षा संकल्पके	एक तो संकल्पके
"	१६	कारण कि सादृश्य	दूसरे सादृश्य
२४६	९-११	अजीवाणं च ॥५१॥ जस्स णाम x x x णामकदी णाम ।	अजीवाणं च जस्स णाम xxx णामकदी णाम ॥ ५१ ॥
"	२१-२२	बहुत अजीवोंके होती है ॥५१॥ जिसका xxx है ।	बहुत अजीवोंमें जिसका xxx है ॥ ५१ ॥
२४८	७	एतस्स	एदस्स
२४९	९	(द्रव्य व भाव)	(पश्चादानुपूर्वी और यथा-तथानुपूर्वी)
२५१	९	घोससमं । एवं णव अहियारा आगमस्स होति ॥ ५४ ॥	घोससमं ॥ ५४ ॥ एवं णव अहियारा आगमस्स होति ।
"	१७	कृतिकी	द्रव्यकृतिकी
"	२०	घोषसम । इस प्रकार आगमके नौ अधिकार हैं ॥ ५४ ॥	घोससम ॥ ५४ ॥ इस प्रकार आगमके नौ अधिकार हैं ।
२५२	२	नैसर्ग	नैसंग्य
"	६	नन्दा ।	नन्दा । तत्र
"	१२	स्वभाविक प्रवृत्तिका	नैसंग्य वृत्तिका
२५३	२	विद्	विण्
२५५	४	दावाग्नि-	दवाग्नि-
२५६	१७	मनुष	धनुष
२५९	६	-मित्युच्यते	-मित्युच्यते
२६२	४	वा वा	या
"	११	नये	गये
२६४	४	-गमादो । अणुव-	गमादो णयमस्सिदूण अणुव-
"	१७	अनुपयुक्त	नयकी अपेक्षा अनुपयुक्त
२७५	३	गणिज्जमाणे	गणिज्जमाणे
२७८	११	चक्खुदंसणी-तेउ-	चक्खुदंसणी-ओहिदंसणी-केवलदंसणी- तेउ-
"	२७	चक्षुदर्शनी	चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, केवलदर्शनी

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८३	१५	संचय आणिवे	संचय च आणिवे
२८३	२१	कालमें पूर्वके	कालको और पूर्वके
२९३	१५	जघन्यसे क्षुद्रमवग्रहण प्रमाण अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे	जघन्यसे पंचेन्द्रिय तिर्यच क्षुद्रमवग्रहण प्रमाण तथा पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त व योनिमती तिर्यच अन्तर्मुहूर्त काल रहते हैं । उत्कर्षसे
२९८	२	पुढवीणं अट्ट-	पुढवीणं होदि अट्ट-
"	२०	यह है ।	यह है ।
"	२१	सागरोपम]	सागरोपम] ।
३४८	४	चव	चेव
३६२	२	[संघादण]	× × ×
"	१४	[संघातन व]	× × ×
३८३	१२	एजजीवं	एगजीवं
३९३	३	ओरालियसंघादण-परिसादण- कदी	ओरालियसंघादण- [संघादण-] परि- सादणकदी



सिरि-भगवंत-पुष्पदंत-भूदवलि-पणीदो

छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समणिणदो

तस्स चउत्थे खंडे वेयणाए

कदिअणियोगहारं

सिद्धा दद्धडमला विसुद्धबुद्धी य लद्धसव्वत्था ।
तिहुवणसिरसेहरया पसियंतु भडारया सव्वे ॥ १ ॥

तिहुवणभवणप्पसरियपच्चक्खववोहकिरणपरिवेढो ।
उड्ढो वि अणत्थवणो अरहंत-दिवायरो जयऊ ॥ २ ॥

आठ कर्मरूपी मलको जला देनेवाले, विशुद्ध बुद्धिसे संयुक्त, समस्त पदार्थोंको जाननेवाले, तथा तीन लोकके शिखरपर स्थित ऐसे सब सिद्ध भट्टारक प्रसन्न होवें ॥ १ ॥

जिसका प्रत्यक्ष ज्ञानरूपी किरणोंका मण्डल त्रिभुवनरूप भवनमें फैला हुआ है, तथा जो उदित होता हुआ भी अस्त होनेसे रहित है, ऐसा अरहन्तरूपी सूर्य जयवन्त होवे ॥ २ ॥

तिरियण-खग्गणिहाएणुत्तारियमोहसेणसिरणिवहो ।
 आइरियराउ पसियउ परिवालियभवियजियलोओ ॥ ३ ॥
 अण्णाण-यंधयारे अणोरपोर भमंतभवियाणं ।
 उज्जोओ जेहि कओ पसियंतु सया उवज्झाया ॥ ४ ॥
 दुह-तिव्वतिसा-विणडिय-तिहुवणभवियाण सुट्टुराएण ।
 परिठविया धम्म-पवा सुअ-जलवाण-प्पयाणेण ॥ ५ ॥
 संधारियसीलहरा उत्तारियचिरपमाददुस्सीलभरा ।
 साहू जयंतु सच्चे सिव-सुह-पह-संठिया हु णिग्गलियभया ॥ ६ ॥

णमो जिणाणं ॥ १ ॥

किमिदं बुच्चदे ? मंगलं । किं मंगलं ? पुण्वसंचियकम्मविणासो । जदि एवं तो

रत्नत्रयरूप खड्गके आघातसे मोहकी सैन्यके शिरसमूहको उतारकर भव्य जीव-
 लोकका पालन करनेवाला आचार्यरूपी राजा प्रसन्न होवे ॥ ३ ॥

वे उपाध्याय परमेष्ठी सदा प्रसन्न होवें जिन्होंने आर-पार रहित अज्ञानरूप अन्धकारमें
 भटकनेवाले भव्य-जीवोंको प्रकाश दिया है, तथा जिन्होंने दुखरूपी तीव्र तृपासे व्याकुल
 हुए तीन लोकके भव्य जीवोंको श्रुतरूपी जलपान प्रदान करनेके हेतुसे अतिशय राग
 अर्थात् अनुकम्पासे धर्मरूपी प्याऊको स्थापित किया है ॥ ४-५ ॥

जिन्होंने चिरकालीन प्रमादरूपी कुशीलके भारको उतारकर शीलके भारको
 धारण किया है, जो शिवसुखके मार्गमें स्थित हैं, एवं भयसे रहित हैं ऐसे सर्व साधु
 जयवन्त होंवे ॥ ६ ॥

जिनोंको नमस्कार हो ॥ १ ॥

शंका—यह सूत्र किस लिये कहा जाता है ?

समाधान—यह मंगलके लिये कहा जाता है ।

शंका—मंगल किसे कहते हैं ?

समाधान—पूर्व संचित कर्मोंके विनाशको मंगल कहते हैं ।

शंका—यदि ऐसा है तो 'जिन सूत्रोंका' अर्थ जिन भगवान्‌के मुखसे निकला

जिणंवयणविणिग्गयत्थादो अविस्वादेण केवलणाणसमाणादो उसहसेणादिगणहरदेवेहि विरइय-
सहरयणादो दव्वसुत्तादो तप्पढणं-गुणणकिरियावावदाणं सव्वजीवाणं पडिसमयमसंखेज्जगुणसेदीए
पुव्वसंचिदकम्मणिज्जरा होदि ति णिप्फलमिदं सुत्तमिदि । अह सफलमिदं, णिप्फलं सुत्त-
ज्जयणं; ततो समुवजायमाणकम्मक्खयस्स एत्थेवोवलंभो ति ? ण एस दोसो, सुत्तज्जयणेण
सामण्णकम्मणिज्जरा कीरदे; एदेण पुण सुत्तज्जयणविग्घफलकम्मविणासो कीरदि ति भिण्ण-
विसयत्तादो । सुत्तज्जयणविग्घफलकम्मविणासो सामण्णकम्मविरोहिंसुत्तव्भासादो चेव होदि ति
मंगलसुत्तारंभो अणत्थओ किण्ण जायदे ? ण, सुत्तत्थावगमव्भासविग्घफलकम्मे अविण्णो संते
तदवगमव्भासाणमसंभवादो । ण च कारणपुव्वकालभावि कज्जमत्थि, अणुवलंभादो । जदि
जिणिंदणमोक्कारो सुत्तज्जयणविग्घफलकम्ममेत्तविणासओ तो ण सो जीविदावसाणे कायव्वो,

हुआ है, जो विसंवाद रहित होनेके कारण केवलज्ञानके समान हैं, तथा वृषभसेनादि गणधर
देवों द्वारा जिनकी शब्दरचना की गई है, ऐसे द्रव्य सूत्रोंसे उनके पढ़ने और मनन करने
रूप क्रियामें प्रवृत्त हुए सब जीवोंके प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणीसे पूर्व संचित
कर्मोंकी निर्जरा होती है ' इस प्रकार विधान होनेसे यह जिननमस्कारात्मक सूत्र व्यर्थ
पड़ता है । अथवा, यदि यह सूत्र सफल है तो सूत्रोंका अध्ययन व्यर्थ होगा, क्योंकि,
उससे होनेवाला कर्मक्षय इस जिननमस्कारात्मक सूत्रमें ही पाया जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सूत्राध्ययनसे तो सामान्य कर्मोंकी
निर्जरा की जाती है; और मंगलसे सूत्राध्ययनमें विघ्न करनेवाले कर्मोंका विनाश किया जाता
है; इस प्रकार दोनोंका विषय भिन्न है ।

शंका—चूंकि सूत्राध्ययनमें विघ्न उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका विनाश सामान्य
कर्मोंके विरोधी सूत्राभ्याससे ही हो जाता है, अतएव मंगलसूत्रका आरम्भ करना व्यर्थ
क्यों न होगा ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सूत्रार्थके ज्ञान और अभ्यासमें विघ्न उत्पन्न
करनेवाले कर्मोंका जब तक विनाश न होगा तब तक उसका ज्ञान और अभ्यास दोनों
असम्भव हैं । और कारणसे पूर्व कालमें कार्य होता नहीं है, क्योंकि, वैसा पाया
नहीं जाता ।

शंका—यदि जिनेंद्रनमस्कार केवल सूत्राध्ययनमें विघ्न करनेवाले कर्मों मात्रका
विनाशक है तो उसे मरण समयमें नहीं करना चाहिये, क्योंकि, उसका उस समयमें

तस्स तत्थ फलाभावादो त्ति ? ण एस दोसो, एत्ति यमेत्तं चेव विणासेदि त्ति णियमाभावादो ।
कधं पुण एसो जिणिंदणमोक्कारो एक्को चेव संतो अणेयकज्जकारओ ? ण, अणेयविहणाण-
चरणसहेज्जस्स अणेयकज्जुप्यायणे विरोहाभावादो । उत्तं च—

एसो पंचणमोक्कारो सव्वपावप्पणासओ ।

मंगलेसु अ सव्वेसु पढमं होदि मंगलं ॥ १ ॥ इदि

ण च एसो एकल्लओ चेव सव्वकम्मक्खयकरणसमत्थो, णाण-चरणव्भासाणं
विहलत्तप्पसंगादो । तदो सव्वकज्जारंभेसु जिणिंदणमोक्कारो कायव्वो, अण्णहा पारद्धकज्ज-
णिप्पत्तीए अणुववत्तीदो । उत्तं च—

आदी मंगलकरणं सिस्सा लहु पारवा हवंतु त्ति ।

मज्जे अब्बोच्छित्ती विज्जा विज्जाफलं चरिमे ॥ १ ॥

कोई फल नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, वह केवल सूत्राध्यायनमें विघ्न करने-
वाले कर्मोंका ही विनाश करता है, ऐसा कोई नियम नहीं है ।

शंका—तो फिर यह जिनेन्द्रनमस्कार एक ही होकर अनेक कार्योंका करनेवाला
कैसे होगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अनेक प्रकार ज्ञान व चारित्रिकी सहायता युक्त होते हुए
उसके अनेक कार्योंके उत्पादनमें कोई विरोध नहीं है । कहा भी है—

यह पंचनमस्कार मंत्र सर्व पापोंका नाश करनेवाला और सब मंगलोंमें प्रथम
मंगल है ॥ १ ॥

और यह अकेला ही सब कर्मोंका क्षय करनेमें समर्थ है नहीं, क्योंकि, ऐसा
होनेपर ज्ञान और चारित्रिके अभ्यासकी विफलताका प्रसंग आवेगा । इस कारण सब
कार्योंके आरम्भमें जिनेन्द्रनमस्कार करना चाहिये, क्योंकि, ऐसा करनेके बिना प्रारम्भ
किये हुए कार्यकी सिद्धि घटित नहीं होती । कहा भी है—

शास्त्रके आदिमें मंगल इसलिये किया जाता है कि शिष्य शीघ्र ही शास्त्रके पार-
गामी हों । मध्यमें मंगल करनेसे निर्विघ्न कार्यपरिसमाप्ति और अन्तमें उसके करनेसे विद्या
व विद्याके फलकी प्राप्ति होती है ॥ २ ॥

१ मूला. ७, १३.

२ प. खं. पु. १ पृ. ४०, २०; पदमे मंगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति । मज्झिम्मे णीविग्घं विज्जा
विज्जाफलं चरिमे ॥ ति. प. १, २९.

मंगलं काऊण पारद्धकज्जाणं कहिं पि विग्घुवलंभादो तमकाऊण पारद्धकज्जाणं पि कथं वि विग्घाभावदंसणादो जिणिंदणमोक्कारो ण विग्घविणासओ त्ति ? ण एस दोसो, कयाकयभेसयाणं वाहीणमविणास-विणासदंसणेणावगयवियहिचारस्स वि मारिचादिगणस्स भेसयत्तुवलंभादो । ओसहाणमोसहत्तं ण विणस्सदि^१, असज्झवाहिवदिरित्तसज्झवाहिविसए चेव तेसिं वावारब्भुवगमादो त्ति चे जदि एवं तो जिणिंदणमोक्कारो वि विग्घविणासओ, असज्झ-विग्घफलकम्ममुज्झिदूण सज्झविग्घफलकम्मविणासे वावारदंसणादो । ण च ओसहेण समाणो जिणिंदणमोक्कारो, णाण-ज्जाणसहायस्स संतस्स णिविग्घगिगस्स अदज्झिधणाण व^२ असज्झ-विग्घफलकम्माणमभावादो । णाणज्जाणप्पओ णमोक्कारो संपुण्णो, जहण्णो मंदसदहणाणुविद्धो वोद्धव्वो; सेसअसंखेज्जलोगभेयभिण्णा मज्झिमा । ण च ते सव्वे समाणफला, अइप्पसंगादो ।

शंका—मंगल करके प्रारम्भ किये गये कार्योंके कहींपर विघ्न पाये जानेसे, और उसे न करके भी प्रारम्भ किये गये कार्योंके कहींपर विघ्नोंका अभाव देखे जानेसे जिनेन्द्र-नमस्कार विघ्नविनाशक नहीं है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जिन व्याधियोंकी औषध की गई है उनका अविनाश, और जिनकी औषध नहीं की गई है उनका विनाश देखे जानेसे व्यभिचार द्वात होनेपर भी मारिच [काली मिरच] आदि औषधि द्रव्योंमें औषधित्व गुण पाया जाता है ।

यदि कहा जाय कि औषधियोंका औषधित्व [उनके सर्वत्र अचूक न होनेपर भी] इस कारण नष्ट नहीं होता क्योंकि असाध्य व्याधियोंको छोड़ करके केवल साध्य व्याधियोंके विषयमें ही उनका व्यापार माना गया है, तो जिनेन्द्र-नमस्कार भी [उसी प्रकार] विघ्न विनाशक माना जा सकता है, क्योंकि, उसका भी व्यापार असाध्य विघ्नोंसे उत्पन्न कर्मोंको छोड़कर साध्य विघ्नोंसे उत्पन्न कर्मोंके विनाशमें देखा जाता है ।

दूसरी बात यह कि [सर्वथा] औषधके समान जिनेन्द्र-नमस्कार नहीं है, क्योंकि, जिस प्रकार निर्विघ्न आश्रिते होते हुए न जल सकने योग्य इन्धनोंका अभाव रहता है, उसी प्रकार उक्त नमस्कारके ज्ञान व ध्यानकी सहायता युक्त होनेपर असाध्य विघ्नोत्पादक कर्मोंका भी अभाव होता है । ज्ञान-ध्यानात्मक नमस्कारको सम्पूर्ण अर्थात् उत्कृष्ट, एवं मन्द श्रद्धान युक्त नमस्कारको जघन्य जानना चाहिये । शेष असंख्यात लोक प्रमाण भेदोंसे भिन्न नमस्कार मध्यम हैं । और वे सब समान फलवाले नहीं होते, क्योंकि,

१ अ-आग्रयो: ' सारिचादि ', काप्रतो ' सारिवादि ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठु ' विस्सदि ' इति पाठः ।

३ प्रतिष्ठु ' अदज्झिदणाणि व ' इति पाठः ।

तम्हा ण पुव्वुत्तदोसाणमेत्थ संभवो त्ति सिद्धं ।

अहवा मोक्खद्वं सुत्तम्भासो कीरदे । मोक्खो वि कम्मणिज्जरादो, सा वि णाणा-
विणाभाविज्ञाणचित्ताहिंतो, ताओ वि सम्मत्तादो । ण च सम्मत्तेण विरहियाणं णाण-ज्ञाणाणम-
संखेज्जगुणसेडीकम्भाणिज्जराए अणिमित्ताणं णाण-ज्ञाणववएसो पारमत्थिओ अत्थि, अवगयद्व-
सद्वहणणाणे अमोक्खद्वुज्झमे च तव्ववएसव्भुवगमे संते अद्वप्पसंगादो । तम्हा सम्माइड्डिणा
सम्माइड्डिणं चेव वक्खाणेयव्वं सुत्तमिदि जाणावणद्वं जिणणमोक्कारो कओ ।

अवगयणिवारणमुहेण पयदत्थपरूवणद्वं णिक्खेवो कीरदे । तं जहा— णाम-द्ववणा-
द्वव-भावभेएण चउव्विहा जिणा । जिणसद्वो णामजिणो । ठव्वणजिणो सव्भावासव्भावद्ववण-
भेएण दुविहो । जिणायारसंठियं दव्वं सव्भावद्ववणजिणो । [जिणायारविरहियं पि जिणरूपेण
कप्पियं दव्वं असव्भावद्ववणजिणो ।] दव्वजिणो आगम-णोआगमभेएण दुविहो । जिण-
वाहुडजाणओ अणुवजुत्तो अविणद्वसंसकारो आगमदव्वजिणो । णोआगमदव्वजिणो जाणुय-
सरीर-भविय-तव्वदिरित्तभेएण तिविहो । तत्थ जाणुयसरीरणोआगमदव्वजिणो भविय-वट्टमाण-

ऐसा माननेपर अतिप्रसंग दोष आता है । इस कारण यहां पूर्वोक्त दोषोंकी सम्भावना नहीं है, यह सिद्ध हुआ ।

अथवा मोक्षके निमित्त सूत्रोंका अभ्यास किया जाता है । मोक्ष भी कर्मोंकी निर्जरासे होता है । वह कर्मनिर्जरा भी ज्ञानके अविनाभावी ध्यान और चिन्तनसे होती है । ज्ञानके अविनाभावी ध्यान और चिन्तन भी सम्यक्त्वसे होते हैं । सम्यक्त्वसे रहित ज्ञान-ध्यानके असंख्यात गुणी श्रेणीरूप कर्मनिर्जराके कारण न होनेसे 'ज्ञान-ध्यान' यह संज्ञा वास्तविक नहीं है, क्योंकि, अर्थश्रद्धानसे रहित ज्ञान और मोक्षार्थ न किये जानेवाले उद्यममें वह संज्ञा स्वीकार करनेपर अतिप्रसंग होता है । इसीलिये सम्यग्दृष्टि द्वारा सम्यग्दृष्टियोंको ही सूत्रका व्याख्यान करना चाहिये, इस बातके ज्ञापनार्थ जिननमस्कार किया गया है ।

अप्रकृतका निवारण करते हुए प्रकृत अर्थके प्ररूपणार्थ निक्षेप किया जाता है । वह इस प्रकार है— नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे जिन चार प्रकार हैं । 'जिन' शब्द नाम जिन है । स्थापना जिन सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापनाके भेदसे दो प्रकार हैं । जिन भगवान्के आकार रूपसे स्थित द्रव्य सद्भावस्थापना जिन है । [जिनाकारसे रहित जिस द्रव्यमें जिन भगवान्की कल्पना की जाय वह द्रव्य असद्भाव-स्थापना जिन है ।] द्रव्य जिन आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकार है । जिन-प्राभृतका जानकार, अनुपयुक्त और संस्कारके विनाशसे रहित जीव आगमद्रव्य जिन है । नोआगमद्रव्य जिन ज्ञायकशरीर, भव्य और तद्रव्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है । उनमें

समुज्झादभेएण तिविहो । कधमेदेसिं तिण्णं सरीराणं णिच्चेयणाणं जिणव्वएसो ? ण, धणुह-सहचारपज्जाएण तीदाणागय-वट्टमाणमणुआणं धणुहवएसो व्व जिणाहारपज्जाएण तीदाणा-गय-वट्टमाणसरीराणं दव्वजिणत्तं पडि विरोहाभावादो । आगमसण्णा अणुवज्जुत्तजीवदव्वस्सेव एत्थ किण्ण कदा, उव्वजोगाभावं पडि विसेसाभावादो ? ण, एत्थ आगमसंसकाराभावेण तदभावादो । भविस्सकाले जिणपज्जाएण परिणमंतओ भवियदव्वजिणो । भविस्सकाले जिण-पाहुडजाणयस्स भूदकाले णादूण विस्सरिदस्स य णोआगमभवियदव्वजिणत्तं किण्ण इच्छिज्जेदे ? ण, आगमदव्वस्स आगमसंसकारपज्जायस्स आहारत्तणेण तीदाणागद-वट्टमाणस्स णोआगम-दव्वत्तविरोहादो । तव्वदिरित्तदव्वजिणो सच्चित्ताचित्त-तदुभयभेएण तिविहो । करह-हय-हत्थीणं जेदारो सच्चित्तदव्वजिणा । हिरण्ण-सुवण्ण-मणि-मोत्तियादीणं जेदारो अचित्तदव्वजिणा । ससुवण्णकण्णादीणं जेदारो सच्चित्ताचित्तदव्वजिणा । आगम-णोआगमभेएण दुविहो भावजिणो ।

झायकशरीरनोआगमद्रव्य जिन भव्य, वर्तमान और समुज्झितके भेदसे तीन प्रकार है ।

शंका — इन अचेतन तीन शरीरोंके ' जिन ' संज्ञा कैसे सम्भव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि जिस प्रकार धनुषसहचाररूपपर्यायसे अतीत, अनागत और वर्तमान मनुष्योंकी ' धनुष ' संज्ञा होती है, उसी प्रकार जिनाधाररूप पर्यायसे अतीत, अनागत और वर्तमान शरीरोंके द्रव्य जिनत्वके प्रति कोई विरोध नहीं है

शंका — अनुपयुक्त जीवद्रव्यके समान यहां आगम संज्ञा क्यों नहीं की, क्योंकि, दोनोंमें उपयोगाभावकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है ?

समाधान — नहीं की, क्योंकि, यहां आगमसंस्कारका अभाव होनेसे उक्त संज्ञाका अभाव है ।

भविष्य कालमें जिन पर्यायसे परिणमन करनेवाला भावी द्रव्य जिन है ।

शंका — भविष्य कालमें जिनप्राभृतको जाननेवाले व भूत कालमें जानकर विस्मरणको प्राप्त हुए जीवके नोआगमभाविद्रव्यजिनत्व क्यों नहीं स्वीकार करते ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, आगमसंस्कार पर्यायका आधार होनेसे अतीत, अनागत व वर्तमान आगमद्रव्यके नोआगमद्रव्यत्वका विरोध है ।

तद्रव्यतिरिक्तद्रव्य जिन सच्चित्त, अचित्त और तदुभयके भेदसे तीन प्रकार है । ऊंट, घोड़ा और हाथियोंके विजेता सच्चित्तद्रव्य जिन हैं । हिरण्य, सुवर्ण, मणि और मोती आदिकोंके विजेता अचित्तद्रव्य जिन हैं । सुवर्ण सहित कन्यादिकोंके विजेता सच्चित्ताचित्त द्रव्य जिन हैं ।

आगम और नोआगमके भेदसे भाव जिन दो प्रकार है । जिनप्राभृतका जानकार

जिणपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावजिणो । णोआगमभावजिणो उवजुत्तो तप्परिणदो त्ति दुविहो । जिणसरूवपरिछेदिणाणपरिणदो उवजुत्तभावजिणो । जिणपज्जायपरिणदो तप्परिणयभावजिणो ।

एदेसु जिणेषु कस्स एसो कओ णमोक्कारो ? तप्परिणयभावजिणस्स ठवणाजिणस्स य । अणंतणाण-दंसण-वीरिय-विरइ-खइयसम्मत्तादिगुणपरिणयजिणस्स णमोक्कारो कीरउ णाम, तत्थ देवत्तुवलंभादो । ण ठवणाए जिणगुणविरहियाए, तत्थ विग्घफलकम्मविणासणसत्तीए अभावादो त्ति ? तत्थेदं ताव संपहारेमो— ण ताव जिणो सगवंदणाए परिण्याणं चेव जीवाणं पावस्स पणासओ, वीयरायत्तस्साभावप्पसंगादो । ण सव्वेसिं पावमवहरइ, जिण-णमोक्कारस्स विहलत्तप्पसंगादो । परिसेसत्तणेण जिणपरिणयभावो जिणगुणपरिणामो च पाव-पणासओ त्ति इच्छियव्वो, अण्णहा कम्मक्खयाणुववत्तीदो । सो वि जिणगुणपरिणामभावो जिणिंशदो व्व अज्झारोवियाणंतणाण-दंसण-वीरिय-विरइ-सम्मत्तादिगुणाए अज्झाहारोववलेणेव जिणेण सह एयत्तमुवगयाए ठवणाए वि समुप्पज्जइ त्ति जिणिंदणमोक्कारो व्व जिणट्ठवण-

उपयुक्त जीव आगमभाव जिन है । नोआगमभाव जिन उपयुक्त और तत्परिणतके भेदसे दो प्रकार है । जिनस्वरूपको ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे परिणत जीव उपयुक्तभावजिन है । जिनपर्यायसे परिणत जीव तत्परिणतभावजिन है ।

शंका—इन जिनोंमें किस जिनको यह नमस्कार किया गया है ?

समाधान—तत्परिणतभाव जिन और स्थापना जिनको यह नमस्कार किया गया है ।

शंका —अनन्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य, विरति और क्षायिक सम्यक्त्वादि गुणोंसे परिणत जिनको भले ही नमस्कार किया जाय, क्योंकि, उसमें देवत्व पाया जाता है । किन्तु जिणगुणसे रहित स्थापनाकी अपेक्षा नमस्कार करना ठीक नहीं है, क्योंकि, उसमें विघ्नोत्पादक कर्मोंके विनाश करनेकी शक्तिका अभाव है ?

समाधान —उक्त शंका होनेपर यह परिहार करते हैं— जिन देव अपनी वन्दनामें परिणत जीवोंके ही पापके विनाशक नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा होनेपर उनमें वीतरागताके अभावका प्रसंग आवेगा । न वे सब जीवोंके पापको नष्ट करते हैं, क्योंकि, ऐसा होनेपर जिननमस्कारकी विफलताका प्रसंग आता है । तब पारिशेषरूपसे जिनपरिणत भाव और जिणगुणपरिणामको पापका विनाशक स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि, इसके बिना कर्मोंका क्षय घटित नहीं होता । वह भी जिणगुणपरिणाम भाव जिनेन्द्रके समान अनन्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य, विरति और सम्यक्त्वादि गुणोंके अध्यारोपसे युक्त और अध्याहारके बलसे ही जिनके साथ एकताको प्राप्त हुई स्थापनासे भी उत्पन्न होता है । इसी कारण

णमोक्कारो वि पावपणासओ त्ति किण्ण इच्छिज्जदि, विसेसाभावादो । णाम-दच्च-णोआगम-उवजुत्तभावजिणणं णमोक्कारो किण्ण कीरदे ? ण, तेसिं जिणत्त-जिणट्ठवणत्ताभावादो । कुंदो ? णं ताव जिणत्तं, अणंतणाणादिजिणंणिवन्धणगुणविरहियाणं जिणत्तविरोहादो । ण तेसिं ठवणभावो वि, तत्थ जिणत्तारोवाभावादो । भावे वा ण ते णामादओ, ठवणाए तेसिमंत-भावादो । ण चोभयवज्जिएसु णमोक्कारो पावपणासओ, अइप्पसंगादो । जदि एवं तो तिकालविसेसियमुणि-जिणसरीरुज्जंत-चंपा-पावाणयरदिणमोक्कारो णिप्फलो होदि त्ति ण संकणिज्जं, तेसिं सम्भावासम्भावट्ठवणंतम्भूदाणं णमोक्कारस्स णिप्फलत्तविरोहादो । सम्भावा-सम्भावट्ठवणणमोक्कारे फलवंते संते सन्वेसिं जिणट्ठवणत्तमावण्णाणं णमोक्कारो फलवंतो जायदे । उत्तं च—

जिनेन्द्रनमस्कारके समान जिनस्थापना नमस्कार भी पापका विनाशक है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते, क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है ।

शंका— नाम जिन, द्रव्य जिन और नोआगमउपयुक्तभाव जिनको नमस्कार क्यों नहीं करते ?

समाधान— नहीं करते, क्योंकि, उनमें जिनत्व और जिनस्थापनात्वका अभाव है । कारण कि उन तीनों जिनोंके जिनत्व तो बनता नहीं है, क्योंकि, जिनत्वके कारणभूत अनन्त ज्ञानादि गुणोंसे रहित होनेसे उनके जिनत्वका विरोध है । स्थापनापना भी उनके नहीं है, क्योंकि, उनमें जिनत्वके आरोपका अभाव है । और यदि आरोप है तो वे नामादिक जिन नहीं हो सकते, क्योंकि, ऐसी अवस्थामें उनका स्थापनामें अन्तर्भाव होता है । और जिनत्व व जिनस्थापनासे रहित अन्य जिनोंमें किया गया नमस्कार पापप्रणाशक नहीं हो सकता, क्योंकि, ऐसा होनेमें अतिप्रसंग दोष आता है ।

शंका— यदि ऐसा है तो तीन कालोंसे विशेषित मुनि व जिनका शरीर, एवं ऊर्जयन्त, चम्पापुर और पावानगर आदिको किया जानेवाला नमस्कार निष्फल होगा ?

समाधान— ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि, उनके सद्भावस्थापना या असद्भावस्थापनाके अन्तर्भूत होनेसे नमस्कारकी निष्फलताका विरोध है । सद्भाव-स्थापनानमस्कार और असद्भावस्थापनानमस्कारके फलवान् होनेपर जिनस्थापनात्वको प्राप्त सबोंको किया गया नमस्कार फलवान् होता है । कहा भी है—

आलंबणेहि भरिओ लोगो झाइदुमणस्स खवयस्स ।
जं जं मणसा पस्सइ तं तं आलंबणं होई ॥ ३ ॥

बुद्धीए जले थले आयासे वा संकप्पिओ जिणो चउव्विहेसु^१ णिक्खेवेसु कथं णिवदेदं ?
णोआगमभावणिक्खेवे, उवजुत्तसरूवादो । ण च एसा^२ ठवणा होदि, अण्णमिह दव्वे जिण-
गुणारेवाभावादो । तम्हा एदस्स वि णमोक्कारो फलवंतो त्ति सिद्धं ।

एदेण पंचगुरूणं तट्टवणाणं च णमोक्कारो कदो, सव्वेसिमेत्थ संभ-
वादो । तं जहा — जिणा दुविहा सयल-देसजिणभेएण । खवियघाइकम्मा
सयलजिणा । के ते ? अरहंत-सिद्धा । अवेरे आइरिय-उवञ्जाय-साहू देसजिणा

ध्यानमें मन लगानेवाले क्षपकके लिये यह लोक ध्यानके आलम्बनोंसे परिपूर्ण है ।
ध्यानमें ध्याता जो जो मनसे देखता है वह वह आलम्बन हो जाता है ॥ ३ ॥

शंका—बुद्धिसे जलमें, स्थलमें अथवा आकाशमें संकल्पित जिन चार प्रकार
निक्षेपोंमेंसे किसमें अन्तर्भूत है ?

समाधान—नोआगमभावनिक्षेपमें, क्योंकि, वह उपयुक्त स्वरूप है । यह स्थापना
नहीं है, क्योंकि, अन्य द्रव्यमें जिनगुणोंके आरोपणका अभाव है । इस कारण इसको भी
किया गया नमस्कार सफल है, यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ—काष्ठ व वस्त्रादि रूप तदाकार या अतदाकार वस्तुमें जो किसी अन्य
पदार्थकी कल्पना की जाती है वह स्थापना निक्षेप कहा जाता है । इस प्रकार स्थापनामें
दो पदार्थोंका होना आवश्यक है । परन्तु यहां चूंकि बुद्धिसे जल-थलादिमें की जानेवाली
जिनकी कल्पनामें दो पदार्थोंका अस्तित्व है नहीं, अतः वह स्थापना नहीं कहला सकती ।
किन्तु जिनस्वरूपको ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे परिणत होनेके कारण उसे उपयुक्त
नोआगमभाव जिन कहना ही उचित है । (देखो पीछे पृ. ८) ।

इस सूत्रके द्वारा पांच गुरुओं व उनकी स्थापनाओंको भी नमस्कार किया
गया है, क्योंकि, यहां सबोंकी सम्भावना है । वह इस प्रकारसे—
सकल जिन और देश जिनके भेदसे जिन दो प्रकार हैं । जो घातिया कर्मोंका क्षय कर चुके
हैं, वे सकल जिन हैं । वे कौन हैं ? अरहन्त और सिद्ध । इतर आचार्य, उपाध्याय और

१ म. आ. १८७६.

२ काप्रती 'चउव्विहो एसु' इति पाठः ।

३ अ-काप्रलोः 'एसो' इति पाठः ।

तिव्वकसाइंदिय-मोहविजयादो । होदु णाम सयलजिणणमोक्कारो पावप्पणासओ, तत्थं सव्वगुणाणमुवलंभादो । ण देसजिणाणमेदेसु तदणुवलंभादो त्ति ? ण, सयलजिणेषु व देसजिणेषु तिण्हं रयणाणमुवलंभादो । ण च तिरयणवदिरित्ता देवत्तणिबंधणा सयलजिणे के विगुणा संति, अणुवलंभादो । तदो सयलजिणणमोक्कारो व्व देसजिणणमोक्कारो वि सयलकम्म-क्खयकारओ त्ति दट्ठव्वो । सयलासयलजिणडियतिरयणाणं ण समाणत्तं, संपुण्णासंपुण्णाणं समाणत्तविरोहादो । संपुण्णतिरयणकज्जमसंपुण्णतिरयणाणि ण करेंति, असमाणत्तादो त्ति ण, णाण-दंसण-चरणाणमुप्पणंसमाणत्तुवलंभादो । ण च असमाणाणं कज्जं असमाणमेव त्ति णियमो अत्थि, संपुण्णग्गिणा कीरमाणदाहकज्जस्स तदवयवे वि उवलंभादो, अमियघडसएण कीरमाण-णिव्विसीकरणादिकज्जस्स अमियस्स चुलुवे वि उवलंभादो वा । ण च तिरयणाणं देसजिणाडियाणं सयलजिणाडिहहि भेओ, वज्झंतरंगासेसत्थपडिबद्धत्तणेण समाणत्तुवलंभादो । ण

साधु तीव्र कषाय, इन्द्रिय एवं मोहके जीत लेनेके कारण देश जिन हैं ।

शंका—सकलजिननमस्कार पापका नाशक भले ही हो, क्योंकि, उनमें सब गुण पाये जाते हैं । किन्तु देशजिनोंको किया गया नमस्कार पापप्रणाशक नहीं हो सकता, क्योंकि, इनमें वे सब गुण नहीं पाये जाते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सकल जिनोंके समान देश जिनोंमें भी तीन रत्न पाये जाते हैं । और तीन रत्नोंके सिवाय सकल जिनमें देवत्वके कारणभूत अन्य कोई भी गुण हैं नहीं, क्योंकि, वे पाये नहीं जाते । इसलिये सकल जिनोंके नमस्कारके समान देश जिनोंका नमस्कार भी सब कर्मोंका क्षयकारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये ।

शंका—सकल जिनों और देश जिनोंमें स्थित तीन रत्नोंके समानता नहीं हो सकती, क्योंकि, सम्पूर्ण और असम्पूर्णकी समानताका विरोध है । सम्पूर्ण रत्नत्रयका कार्य असम्पूर्ण रत्नत्रय नहीं करते, क्योंकि, वे असमान हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके सम्बन्धमें उत्पन्न हुई समानता उनमें पायी जाती है । और असमानोंका कार्य असमान ही हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, सम्पूर्ण अश्रिके द्वारा किया जानेवाला दाह कार्य उसके अवयवमें भी पाया जाता है, अथवा अमृतके सैकड़ों घड़ोंसे किया जानेवाला निर्विषी-करणादि कार्य चुल्लू भर अमृतमें भी पाया जाता है । इसके अतिरिक्त देश जिनोंमें स्थित तीन रत्नोंका सकल जिनोंमें स्थित रत्नत्रयसे कोई भेद भी नहीं है, क्योंकि, बाह्य और अभ्यन्तर समस्त पदार्थोंसे संबद्ध होनेकी अपेक्षा समानता पायी जाती है । और आविर्भाव

च आविम्भावाणाविम्भावकओ विसेसो तेसिं सरूवेण समाणत्तस्स विणासओ, आविम्भूदसूर-
मंडलस्स अणाविम्भूदसूरमंडलस्स सूरमंडलत्तणेण समाणत्तुवलंभादो ।

एवं दव्वड्डियजणाणुग्गहड्डं णमोक्कारं गोदमभडारओ महाकम्मपयडिपाहुडस्स आदिमिह
काऊण पज्जवड्डियणयाणुग्गहड्डमुत्तरसुत्ताणि भणदि—

णमो ओहिजिणाणं ॥ २ ॥

ओहिसदो अप्पाणम्मि वट्ठे, 'ओहि त्ति आह' इदि एत्थ अप्पाणम्मि पउत्ति-
दंसणादो । सव्भावासव्भावड्डवणासु वि वट्ठे, 'एसो सो ओहि' त्ति आरोववलेण ओहिणा एगत्तं
गयदव्वाणमुवलंभादो । कत्थ वि मज्जाए वट्ठे, जहा 'माणुसखेत्तोही माणुसुत्तरसेलो', 'लोगोही
तणुवायेपेत्तो' त्ति । कत्थ वि णाणे वट्ठे 'ओहिणा जाणदि' त्ति । एत्थ णाणे वट्ठमाणो ओहि-
सदो धेत्तव्वो । मज्जाए रूढो ओहिसदो कथं णाणे वट्ठे ? ण, उवयारेण असिसहिचरियस्स

व अनाविर्भावसे किया गया भेद स्वरूपसे उनकी समानताका विनाशक नहीं है, क्योंकि,
आविर्भूत सूर्यमण्डल और अनाविर्भूत सूर्यमण्डलके सूर्यमण्डलत्वकी अपेक्षा समानता
पायी जाती है ।

इस प्रकार द्रव्यार्थिक जनोंके अनुग्रहार्थ गौतम भट्टारक महाकर्मप्रकृति-
प्राभृतके आदिमें नमस्कार करके पर्यायार्थिकनय युक्त शिष्योंके अनुग्रहार्थ उत्तर सूत्रोंको
कहते हैं—

अवधि जिनोंको नमस्कार हो ॥ २ ॥

अवधि शब्द आत्माके अर्थमें होता है, क्योंकि, 'अवधि इस प्रकार आत्मा कहा
जाता है' (?) इस प्रकार यहां आत्मा अर्थमें अवधि शब्दकी प्रवृत्ति देखी जाती है । सद्भाव
और असद्भाव रूप स्थापनामें भी यह अवधि शब्द रहता है, क्योंकि, 'यह वह अवधि
है' इस प्रकार आरोपके बलसे अवधिके साथ एकताको प्राप्त द्रव्य पाये जाते हैं । कहींपर
मर्यादाके अर्थमें भी इस शब्दका प्रयोग होता है; जैसे, मानुषक्षेत्रकी अवधि (मर्यादा)
मानुषोत्तर पर्वत है; लोककी अवधि तनुवात पर्यन्त है । कहींपर ज्ञान अर्थमें भी यह शब्द
आता है; जैसे अवधि (ज्ञान) से जानता है । यहांपर अवधि शब्दको ज्ञानके अर्थमें
ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—मर्यादा अर्थमें रूढ़ अवधि शब्द ज्ञानके अर्थमें कैसे रहता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिस प्रकार असिसे सहचरित पुरुषके लिये उपचारसे

पुरिसस्स असित्तमिव ओहिसहचरियस्स णाणस्स ओहिताविरोहादो । अथवा अवाग्धानाद-
वधिरिति' व्युत्पत्तेर्ज्ञानस्य अवधित्वं घटते । एदेण वक्खाणेण मदि-सुदणाणाणमोहित्तमोसरिदं ।
पुव्विल्लवक्खाणेण मदि-सुद-मणपज्जवणाणाणमोहिसहचरिदाणमोहिववएसो किण्ण पसज्जदे ?
ण, तेसु तहाविहरूढीए णिमित्ताभावादो । ओहिणाणे ओहिववहारो किण्णिमित्तो ? ओहि-
णाणादो हेड्डिमसव्वणाणाणि सावहियाणि, उवरिमकेवलणाणं णिरवहियमिदि जाणावणड्डमोहि-

असि कहनेमें कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार अवधिसे सहचरित ज्ञानको अवधि कहनेमें भी कोई विरोध नहीं आता ।

अथवा, 'अवाग्धानात् अवधिः' अर्थात् जो अधोगत पुद्गलको अधिकतासे ग्रहण करे वह अवधि है, इस व्युत्पत्तिसे ज्ञानको अवधिपना घटित होता है । इस व्याख्यानसे मति और श्रुत ज्ञानको अवधित्वका निराकरण किया गया है ।

शंका—पूर्वोक्त व्याख्यानसे मति, श्रुत और मनःपर्यय ज्ञानको अवधिसे सहचरित होनेके कारण अवधि संज्ञाका प्रसंग क्यों न आवेगा ?

समाधान—नहीं आवेगा, क्योंकि, उन ज्ञानोंमें उस प्रकार रूढ़िका कोई निमित्त नहीं है ।

शंका—अवधि ज्ञानमें 'अवधि' शब्दके व्यवहारका क्या निमित्त है ?

समाधान—अवधिज्ञानसे नीचेके सब ज्ञान अवधि सहित और उपरिम केवलज्ञान अवधिसे रहित है, यह बतलानेके लिये 'अवधि' शब्दका व्यवहार किया गया है ।

विशेषार्थ—यहां शंका उत्पन्न होती है कि मनःपर्यय ज्ञान भी तो सावधि है । परन्तु वह अवधिज्ञानसे नीचेका ज्ञान नहीं है, किन्तु उससे ऊपरका है । अतः "अवधि-ज्ञानसे नीचेके सब ज्ञान अवधि सहित और उपरिम केवलज्ञान अवधिसे रहित है, यह बतलानेके लिये अवधि शब्दका व्यवहार किया गया है ।" यह समाधान ठीक नहीं मालूम होता ? इस शंकाका समाधान यह है कि मनःपर्ययज्ञानका विषय चूंकि अवधिज्ञानकी अपेक्षा कम है अतः वह भी विषयकी अपेक्षा अवधिज्ञानसे नीचेका ही ज्ञान है । इसलिये उपर्युक्त समाधान संगत ही है । 'मति-श्रुतावधि-मनःपर्यय-केवलानि ज्ञानम्' इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्रादिमें जो मनःपर्ययज्ञानका अवधिज्ञानसे ऊपर निर्देश किया गया है उसका कारण संयमका सहचारित्व है । (देखो कसायपाहुड भा. १ पृ. १७)

१ अवाग्धानादवच्छिन्नविषयाद्वा अवधिः । स. सि. १, ९. अवधिशब्दोऽधःपर्यायवचनः, यथाधः-क्षेपणमवक्षेपणम्, इत्यधोगतभूयोद्वयविषयो धावधिः । त. रा. वा. १, ९, ३. अधस्ताद्वहुतरविषयग्रहणादवधि-रुच्यते । देवाः खलु अवधिज्ञानेन सप्तमनरकपर्यन्तं पश्यन्ति, उपरि स्तोत्रं पश्यन्ति निजविमानध्वजदण्डपर्यन्त-मिन्नर्थः । श्रुतसागरी १, ९.

ववहारो कदो । एसो दव्वड्डियणयणिद्देसो ण होदि, पज्जवड्डियणयाहियारादो । परम-
सव्वानंतोहीणं पि गहणं ण होदि, उवरि तेसिं पुधसुत्तदंसणादो । तदो देसोहीए एसो
णिद्देसो त्ति दड्डव्वो । कधमोहि त्ति णामेगदेसेण देसोही अवगम्मदे ? ण, सत्यहामा भामा,
भीमसेणो सेणो, बलदेवो देवो इच्चाईसु णामेगदेसादो वि णामिल्लविसयणाणुप्पत्तिदंसणादो ।
सा च देसोही तिविहा— जहण्णा उक्कस्सा अजहण्णाणुक्कस्सा चेदि । तत्थ जहण्णदेसोहीए
अण्णहापमाणपरूवणोवायाभावादो जहण्णविसयपरूवणामुहेण जहण्णोहीए पमाणपरूवणा कीरेदे ।
तं जहा— विसओ चउव्विहो दव्व-खेत्त-काल-भावभेएण । तत्थ जहण्णदव्वपमाणे भण्णमाणे
सगविस्ससोवचयसहिदकम्मविरहिद-ओरालियसरीरदव्वे सविस्ससोवचए घणलोगेण भागे हिदे
तत्थ एगभागो जहण्णोहिदव्वं होदि । ओरालियसरीरं सोवचयं भज्जमाणं घणलोगो चव

यह द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा निर्देश नहीं है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका अधि-
कार है । यहां परमावधि, सर्वावधि और अनन्तावधिका भी ग्रहण नहीं होता, क्योंकि, आगे
इनके पृथक् सूत्र देखे जाते हैं । इसी कारण यह देशावधिका निर्देश है ऐसा समझना
चाहिये ?

शंका—‘ अवधि ’ इस नामके एक देशसे देशावधि कैसे जाना जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि भामासे सत्यभामा, सेनसे भीमसेन और देवसे
बलदेव, इत्यादिकोंमें नामके एक देशसे भी नामवालोंको विषय करनेवाले ज्ञानकी उत्पत्ति
देखी जाती है ।

वह देशावधि तीन प्रकार है— जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्यानुत्कृष्ट । उनमें
चूंकि जघन्य अवधिविषयकी प्रमाणप्ररूपणाके विना जघन्य देशावधिकी प्रमाण-
प्ररूपणाका कोई उपाय है नहीं, अतः जघन्य विषयकी प्ररूपणा करते
हुए जघन्य अवधिके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— द्रव्य, क्षेत्र,
काल और भावके भेदसे विषय चार प्रकार है । उनमें जघन्य द्रव्यका प्रमाण कहनेपर
अपने विस्ससोपचय सहित कर्मसे रहित व अपने विस्ससोपचय सहित औदारिकशरीर
(नोकर्म) द्रव्यमें घनलोकका भाग देनेपर उसमें एक भाग प्रमाण जघन्य अवधि द्रव्य
होता है ।

शंका—विस्ससोपचय सहित औदारिकशरीर भाज्य राशि और घनलोक ही

भागहारो होदि त्ति कुदो णव्वदे ? आइरियपरंपरागदुव्वेसादो । ओरालियसरीरं सविस्स-
सोवचयं जहण्णुक्कस्स-तव्वदिरित्तभेएण तिविहं । तत्थ किं घणलोगेण छिज्जदि ? ण जहण्णं
ण उक्कस्सदव्वं, किंतु तव्वदिरित्तदव्वं जिणदिट्ठभावं घणलोगेण छिज्जदि । कुदो ? खविद-
गुणिदविसेसणविसिद्धदव्वणिहेसाभावादो । ण च संखाए चेव एस णियमो त्ति पच्चवट्ठाणं
कादुं जुत्तं, एत्थ वि संखाहियारादो । जहण्णोहिणाणं किमेदमेव दव्वं जाणदि अह अण्णं पि ?
जदि एदमेव जाणदि तो अप्पण्णो ओहिखेत्तव्वंतरे डियाणं जहण्णदव्वक्खंधादो परमाणुत्तर-
दुपरमाणुत्तरादिकमेण डियखंधाणमपरिच्छेदयं होज्ज । ण च एवं, सगखेत्तव्वंतरे डियाणमणंत-
भेदभिण्णखंधाणमपरिच्छित्तिविरोहादो । अह परमाणुत्तरे वि खंधे जइ जाणइ णेदमेव
जहण्णोहिदव्वमण्णेसिं पि जहण्णोहिदव्व्वाणं दंसणादो त्ति ? को एवं भणदि जहण्णोहिदव्व-

भागहार होता है, यह कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान—यह आचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है ।

शंका—औदारिकशरीर विस्रसोपचय सहित जघन्य, उत्कृष्ट और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है । उनमें किसे घनलोकसे भाजित किया जाता है ?

समाधान—न तो जघन्य द्रव्यको और न उत्कृष्ट द्रव्यको घनलोकसे भाजित किया जाता है, किन्तु जिन भगवान्से देखा गया है स्वरूप जिसका ऐसा तद्व्यतिरिक्त द्रव्य घनलोकसे भाजित किया जाता है । कारण कि क्षपित व गुणित विशेषणसे विशिष्ट द्रव्यके निर्देशका अभाव है । संख्यामें ही यह नियम है ऐसा प्रत्यवस्थान (समाधान) करना भी उचित नहीं है, क्योंकि, यहां भी संख्याका अधिकार है ।

शंका—जघन्य अवधिज्ञान क्या इसी द्रव्यको जानता है अथवा अन्यको भी ? यदि इसे ही जानता है तो अपने अवधिक्षेत्रके भीतर स्थित जघन्य द्रव्यस्कन्धसे एक परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक इत्यादि क्रमसे स्थित स्कन्धोंका ग्राहक न हो सकेगा । और ऐसा है नहीं, क्योंकि, अपने क्षेत्रके भीतर स्थित अनन्त भेदोंसे भिन्न स्कन्धोंके ग्रहण न होनेका विरोध है । यदि परमाणु अधिक स्कन्धोंको भी वह जानता है तो यही जघन्य अवधिद्रव्य न होगा, क्योंकि, अन्य भी जघन्य अवधिद्रव्य देखे जाते हैं ?

समाधान—ऐसा कौन कहता है कि जघन्य अवधिद्रव्य एक प्रकार है । किन्तु

१ प्रतिष्ठा ' तं ' इति पाठः ।

२ तज्जघन्यपुद्गलस्कंधस्योपरि एक-द्रवादिप्रदेशोत्तरपुद्गलस्कंधान् न जानातीति न वाच्यम्, सूक्ष्म-
विषयज्ञानस्य स्थूलावबोधने सुघटत्वात् । गो. जी. ३८२, जी. प्र. टीका.

मेयवियप्पमिदि, किंतु अणंतवियप्पं । तेसु अणंतवियप्पजहण्णोहिखंधेसु अइजहण्णो एसो खंधो वरूविदो । एदम्हादो एग-दो-तिण्णिआदिपरमाणूण खंधा देसोहीए जहण्णियाए अविसया, जहण्णोहिविसयदव्वक्खंधव्वाहिरे अवट्ठाणादो । जहण्णोहिविसयउक्कस्सक्खंधपमाणं किं ? जहण्णोहिखेत्तव्वंतरे जो सम्माइ पोग्गलक्खंधो सो तस्स उक्कस्सदव्वं । ततो एग-दो-तिण्णिआदि जाव अणंतपरमाणू सगुक्कस्सदव्वसंबद्धा वि संता ण जहण्णोहिणाणपरिच्छेज्जा, ओहिणाणुज्जोववज्जखेत्ते अवट्ठाणादो । एवं जहण्णोहिदव्वपरूवणा कदा ।

संपहि तस्स खेत्तपरूवणा कीरदे— पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाएण उस्सेहघणंगुले भागे हिदे एगभागो देसोहिजघण्णखेत्तं । कुदो एदं णव्वदे ?

ओगाहणा जहण्णा णियमा दु सुहुमणिगोदजीवस्स ।

जदेही तदेही जहण्णिया खेत्तदो ओही' ॥ ४ ॥

वह अनन्त विकल्परूप है । उन अनन्त विकल्परूप जघन्य अवधिस्कन्धोंमें यह स्कन्ध अति जघन्य कहा गया है । इस स्कन्धसे एक, दो, तीन आदि परमाणुओंके स्कन्ध जघन्य देशावधिके विषय नहीं हैं, क्योंकि, वे जघन्य अवधिके विषयभूत द्रव्यस्कन्धके बाहिर अवस्थित हैं ।

शंका—जघन्य अवधिके विषयभूत उत्कृष्ट स्कन्धका प्रमाण क्या है ?

समाधान—जघन्य अवधिक्षेत्रके भीतर जो पुद्गल स्कन्ध समाता है वह उसका उत्कृष्ट द्रव्य है । उससे एक, दो, तीन आदि अनन्त परमाणु तक अपने उत्कृष्ट द्रव्यसे सम्बद्ध होते हुए भी जघन्य अवधिज्ञानके द्वारा जानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि, वे अवाधिज्ञानके उद्योतसे बाह्य क्षेत्रमें स्थित हैं । इस प्रकार जघन्य अवधिद्रव्यकी प्ररूपणा की गई है ।

अव देशावधिज्ञानकी क्षेत्रप्ररूपणा की जाती है— उत्सेध घनाङ्गुलमें पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण देशावधिका जघन्य क्षेत्र होता है ।

शंका— यह कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान— नियमसे सूक्ष्म निगोद जीवकी जितनी जघन्य अवगाहना होती है उतना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य अवधि है ॥ ४ ॥

१ सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयन्हि । अवरोगाहणमाणं जहण्णयं ओहिखेत्तं तु ॥ गो. जी. ३७८. जावइया तिसमयाहारस्स सुहुमस्स पणगजीवस्स । ओगाहणा जहण्णा ओहीखेत्तं जहण्णं तु ॥ विवे. मा. ५९१.

त्ति वग्गणासुत्तादो णव्वदे । सुहुमणिगोदजहण्णोगाहणा उत्सेहघणंगुलस्स असंखे-
ज्जदिभागो त्ति कधं णव्वदे ? वेयणाए उवरिमभण्णमाणओगाहणप्पाबहुगादो णव्वदे ।
तं जहा —

“ सच्चत्थोवा सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा । सुहुमवाउ-
काइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । सुहुमतेउकाइयअपज्जत्तयस्स जह-
णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । सुहुमआउकाइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा । सुहुमपुढविकाइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । चादर-
वाउकाइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । चादरतेउकाइयअपज्जत्तयस्स
जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । चादरआउकाइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा । चादरपुढविकाइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।
चादरणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । [णिगोदपदिट्ठिअपज्जत्त-
यस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।] चादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरअपज्जत्तयस्स

इस वर्गणासूत्रसे जाना जाता है ।

शंका — सूक्ष्म निगोदजीवकी जघन्य अवगाहना उत्सेध घनांगुलके असंख्यातवें
भाग प्रमाण है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — वेदना अनुयोगद्वारमें आगे कहे जानेवाले अवगाहनाके अल्पबहुत्वसे
जाना जाता है । वह इस प्रकार है —

“ सूक्ष्म निगोदजीव अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना सबसे स्तोक है । सूक्ष्म वाउ-
कायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है । सूक्ष्म तेजकायिक अपर्याप्तकी
जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है । सूक्ष्म अष्कायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना
असंख्यातगुणी है । सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ।
चादर वायुकायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है । चादर तेजकायिक
अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है । चादर अष्कायिक अपर्याप्तकी जघन्य
अवगाहना असंख्यातगुणी है । चादर पृथिवीकायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना
असंख्यातगुणी है । चादर निगोदजीव अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ।
[निगोदप्रतिष्ठित अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ।] चादर वनस्पति-

[illegible][illegible]

ओगाहणा संखेज्जगुणा । पंचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । तीइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । चउरिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । वेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । पंचिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । तीइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । चउरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । बीइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । पंचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।

सुहुमादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सुहुमादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । बादरादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो । बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो संखेज्जसमया ति' । ”

जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है । पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है । त्रीन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । चतुरिन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । द्वीन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्त्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । पंचेन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ।

एक सूक्ष्म जीवसे दूसरे सूक्ष्म जीवकी अवगाहनाका गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । सूक्ष्मसे वादरकी अवगाहनाका गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । वादरसे सूक्ष्मकी अवगाहनाका गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । एक वादर जीवसे दूसरे वादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । [किन्तु द्वीन्द्रिय आदि निर्वृत्त्यपर्याप्त और उन्हींके पर्याप्तकोंमें] वादरसे वादरकी अवगाहनाका गुणकार संख्यात समय है । ”

सुहुमणिगोदलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणिदे संखेज्जघणंगुलमेत्ता महामच्छुक्कस्सोगाहणा हेदि, एत्थ पविट्ठसव्वगुणगाररासीणमण्णोण्ण-
व्भासे कदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तरासिसमुप्पत्तीदो । तेण णव्वदि उस्सेहघणंगुले पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे हिदे सुहुमणिगोदलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा हेदि त्ति । एदेसिं सव्वगुणगाराणमण्णोण्णव्भासो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो चेव, सूचिअंगुलमेत्तो सूचिअंगुलस्स संखेज्जदिभागमेत्तो वा ण हेदि त्ति कधं णव्वदे ? सुहुम-
णिगोदजहण्णोगाहणा पदरंगुलमेत्ता वा हेदि त्ति अभणियं घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता त्ति सुत्तवयणादो णव्वदे । ण च सुहुमणिगोदजहण्णोगाहणा घणंगुलस्स संखेज्जदिभागमेत्ता आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदघणंगुलमेत्ता वा हेदि, महामच्छोगाहणाए असंखेज्ज-
घणंगुलत्तप्पसंगादो । खेत्ताणिओगद्वारे वादरेइंदियपज्जत्तयस्स वेअव्वियखेत्तं माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागो असंखेज्जदिभागो संखेज्जगुणमसंखेज्जगुणं वा हेदि त्ति ण णव्वदे इदि

सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाको पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर संख्यात घनांगुल मात्र महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहना होती है, क्योंकि, इसमें प्रविष्ट सब गुणकार राशियोंका परस्परमें गुणा करनेपर पल्यो-
पमके असंख्यातवें भाग मात्र राशि उत्पन्न होती है । इससे जाना जाता है कि उत्सेध घनांगुलमें पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना होती है ।

शंका—इन सब गुणकारोंके परस्परका गुणनफल पल्योपमका असंख्यातवां भाग ही होता है, सूच्यंगुल मात्र अथवा सूच्यंगुलके संख्यातवें भाग मात्र नहीं होता; यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना प्रतरांगुल मात्र भी होती है, ऐसा न कहकर ' घनांगुलके असंख्यातवें भाग मात्र है ' इस सूत्रवचनसे जाना जाता है कि उक्त गुणकारोंका अन्योन्य गुणनफल पल्योपमके असं-
ख्यातवें भाग मात्र ही है । और सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना घनांगुलके संख्यातवें भाग मात्र अथवा आवलीके असंख्यातवें भागसे भाजित घनांगुल मात्र नहीं हो सकती, क्योंकि, ऐसा होनेसे महामत्स्यकी अवगाहनाके असंख्यात घनांगुल प्रमाण होनेका प्रसंग होगा । अथवा, क्षेत्रानुयोगद्वारमें ' वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका वैक्रियिक-
क्षेत्र मनुष्यलोकके संख्यातवें भाग, असंख्यातवें भाग, अथवा उससे संख्यातगुणा या असं-

एदम्हादो वक्खाणादो वा जाणिज्जदि गुणगाराणमण्णोण्णभासो पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागो चेव होदि त्ति । एदेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण घणंगुले भागे हिदे घणंगुलस्स
असंखेज्जदिभागो सूचिअंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तुस्सेहविकखंभायामो आगच्छदि । एदं
जहण्णोहिकखेत्तं जहण्णोहिणाणेण विसईकदासेसखेत्तमिदि उत्तं होदि । ण च घणपदरा-
गारेणेव सच्चाणि ओहिखेत्ताणि अवट्ठिदाणि त्ति णियमो; किंतु सुहुमणिगोदोगाहणखेत्तं व
अणियदसंठाणाणि ओहिखेत्ताणि संपिडिय घणपदरागारेण काऊण पमाणपरूवणा कीरदे,
अण्णहा तदुवायाभावादो ।

सुहुमणिगोदजहण्णोगाहणमेत्तमेदं सच्चं हि जहण्णोहिकखेत्तमोहिणाणिजीवस्स तेण
परिच्छिज्जमाणदव्वस्स य अंतरमिदि के वि आइरिया भणंति । णेदं घडदे, सुहुमणिगोद-
जहण्णोगाहणादो जहण्णोहिकखेत्तस्स असंखेज्जगुणत्तप्पसंगादो । कधमसंखेज्जगुणत्तं ?
जहण्णोहिणाणविसयवित्थारुस्सेहेहि आयामे गुणिज्जमाणे तत्तो असंखेज्जगुणत्तसिद्धीदो । ण
चासंखेज्जगुणत्तं संभवदि, जदेही सुहुमणिगोदस्स जहण्णोगाहणा तदेहि चेव जहण्णोहि-

ख्यातगुणा है; यह जाना नहीं जाता ' इस व्याख्यानसे जाना जाता है कि गुणकारोंका
अन्योन्य गुणनफल पल्योपमके असंख्यातवें भाग ही है ।

इस पल्योपमके असंख्यातवें भागका घनांगुलमें भाग देनेपर घनांगुलके असं-
ख्यातवें भाग सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र उत्सेध, विष्कम्भ व आयाम रूप क्षेत्र
आता है । यह जघन्य अवधिक्षेत्र अर्थात् जघन्य अवधिज्ञानसे विषय किया गया सम्पूर्ण
क्षेत्र है । और घनप्रतराकारसे ही सब अवधिक्षेत्र अवस्थित हैं, ऐसा नियम नहीं है; किन्तु
सूक्ष्म निगोद जीवके अवगाहनाक्षेत्रके समान अनियत आकारवाले अवधिक्षेत्रोंका
समीकरण कर घनप्रतराकारसे करके प्रमाणप्ररूपणा की जाती है, क्योंकि, ऐसा करनेके
बिना उसका कोई उपाय नहीं है ।

सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना मात्र यह सब ही जघन्य अवधि-
ज्ञानका क्षेत्र अवधिज्ञानी जीव और उसके द्वारा ग्रहण किये जानेवाले द्रव्यका अन्तर है,
ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । परन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा स्वीकार
करनेसे सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहनासे जघन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रके असंख्यात-
गुणे होनेका प्रसंग आवेगा ।

शंका—असंख्यातगुणा कैसे होगा ?

समाधान—क्योंकि, जघन्य अवधिज्ञानके विषयभूत क्षेत्रके विस्तार और उत्सेधसे
आयामको गुणा करनेपर उससे असंख्यातगुणत्व सिद्ध होता है । और असंख्यातगुणत्व
सम्भव है नहीं, क्योंकि, ' जितनी सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना है उतना ही

खेत्तमिदि भणंतेण गाहासुत्तेण सह विरोहादो । जेणोहिणाणी एगोलीए चेव जाणदि तेण ण सुत्त-
विरोहो ति के वि भणंति । णेदं पि घडदे, चक्खिदियणाणादो वि तस्स जहणत्तप्पसंगादो ।
कुदो ? चक्खिदियणाणेण संखेज्जसूचिअंगुलवित्थारुस्सेहायामखेत्तव्भंतरट्ठिदवत्थुपरिच्छेददंस-
णादो, एदस्स जहणोहिखेत्तायामस्स असंखेज्जजोयणत्तुवलंभादो च । होदु णाम असंखेज्जजोयणा-
यामत्तमिच्छिज्जमाणत्तादो ? ण, एदस्स कालादो असंखेज्जगुणअद्धमासकालेण अणुमिदअसंखेज्ज-
गुणभरहोहिक्खेत्ते वि असंखेज्जजोयणायामाणुवलंभादो । किं च उक्कस्सदेसोहिणाणी संजदो
सगुक्कस्सदव्वमार्दि काऊण परमाणुत्तरादिकमेण ट्ठिदसव्वपोगगलक्खंधे घणलोगव्भंतर-
ट्ठिदे किमक्कमेण जाणदि ण जाणदि ति । जदि ण जाणदि, ण तस्स
ओहिक्खेत्तं लोगो हेदि, एगागासोलीए ट्ठिदपोगगलक्खंधपरिच्छेदकरणादो । ण च
एसा एगागासपंती घणलोगपमाणं, तदसंखेज्जदिभागाए घणलोगपमाणत्तव्विरोहादो । ण च सो

जघन्य अवधिका क्षेत्र है ' ऐसा कहनेवाले गाथासूत्रके साथ विरोध होगा ।

चूंकि अवधिज्ञानी एक श्रेणीमें ही जानता है, अतएव सूत्रविरोध नहीं होगा, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । परन्तु यह भी घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर चक्षु इन्द्रिय जन्य ज्ञानकी अपेक्षा भी उसके जघन्यताका प्रसंग आवेगा । कारण कि चक्षु इन्द्रिय जन्य ज्ञानसे संख्यात सूच्यंगुल विस्तार, उत्सेध और आयाम रूप क्षेत्रके भीतर स्थित वस्तुका ग्रहण देखा जाता है । तथा वैसा माननेपर इस जघन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रका आयाम असंख्यात योजन प्रमाण प्राप्त होगा ।

शंका—यदि उक्त अवधिक्षेत्रका आयाम असंख्यातगुणा प्राप्त होता है तो होने दीजिये, क्योंकि, वह इष्ट ही है ?

समाधान — ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, इसके कालसे असंख्यातगुणे अर्ध मास कालसे अनुमित असंख्यातगुणे भरत रूप अवधिक्षेत्रमें भी असंख्यात योजन प्रमाण आयाम नहीं पाया जाता । दूसरे, उत्कृष्ट देशावधिज्ञानी संयत अपने उत्कृष्ट द्रव्यको आदि करके एक परमाणु आदि अधिक क्रमसे स्थित घनलोकके भीतर रहनेवाले सब पुद्गलस्कन्धोंको क्या युगपत् जानता है या नहीं जानता ? यदि नहीं जानता है तो उसका अवधिक्षेत्र लोक नहीं हो सकता, क्योंकि, वह एक आकाशश्रेणीमें स्थित पुद्गलस्कन्धोंको ग्रहण करता है । और यह एक आकाशपंक्ति घनलोक प्रमाण हो नहीं सकती, क्योंकि, घनलोकके असंख्यातवै भाग रूप उसमें घनलोकप्रमाणत्वका विरोध है । इसके अतिरिक्त वह

१ अ-आप्रत्योः ' किं चुक्कस्स ' इति पाठः ।

२ अप्रतौ ' घणलोगव्भंतरट्ठिद किमक्कमेण जाणदि ति ', आप्रतौ ' घणलोगव्भंतरट्ठिय ण किमक्कमेण जाणदि ति ', आप्रतौ ' घणलोगव्भंतरट्ठिदे ण किमक्कमेण जाणदि ति ', मप्रतौ ' ट्ठिद जाणदि ण जाणदि ति ' इति पाठः ।

कुलसेल-मेरुमहीयर-भवणविमाणट्टपुढवी-देव-विज्जाहर-सरड-सरिसवादीणि वि पेच्छइ, एदेसि-
मेगागासे अवड्डाणाभावादो । ण च तेसिमवयवं पि^१ जाणदि, अविण्णादे अवयविमिह एदस्स
एसो अवयवो त्ति णादुमसत्तीदो । जदि अक्कमेण सव्वं घणलोगं जाणदि तो सिद्धो णो
पक्खो, णिप्पडिवक्खत्तादो ।

सुहुमणिगोदोगाहणाए घणपदरागारेण ठइदाए एगागासवित्थाराणेगोलिं चेव जाणदि
त्ति के वि भणंति । णेदं पि घडदे, जदेहं सुहुमणिगोदजहण्णोगाहणा तदेहं जहण्णोहिक्खेत्त-
मिदि भणंतेण गाहासुत्तेण सह विरोहादो । ण चाणेगोलीपरिच्छेदो छदुमत्थाणं विरुद्धो,
चक्खिदियणाणेणाणेगोलिंठियपोगक्खंधपरिच्छेदुवलंभादो ।

अंगुलमावलियाए भागमसंखेज्ज दो त्रि संखेज्जा ।

अंगुलमावलियंतो आवलियं चांगुलपुधत्तं ॥ ५ ॥

कुलाचल, मेरुपर्वत, भवनविमान, आठ पृथिवियों, देव, विद्याधर, गिरगिट और सरीसृपा-
दिकोंको भी नहीं जान सकेगा, क्योंकि, इनका एक आकाशमें अवस्थान नहीं है । और
वह उनके अवयवको भी नहीं जानेगा, क्योंकि, अवयवोंके अज्ञात होनेपर 'यह इसका
अवयव है' इस प्रकार जाननेकी शक्ति नहीं हो सकती । यदि वह युगपत् सब घनलोकको
जानता है तो हमारा पक्ष सिद्ध है, क्योंकि, वह प्रतिपक्षसे रहित है ।

सूक्ष्म निगोद जीवकी अवगाहनाको घनप्रतरांकारसे स्थापित करनेपर एक
आकाश विस्तार रूप अनेक श्रेणीको ही जानता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते
हैं । परन्तु यह भी घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा होनेपर 'जितनी सूक्ष्म निगोद जीवकी
जघन्य अवगाहना है उतना ही जघन्य अवधिका क्षेत्र है', ऐसा कहनेवाले गाथासूत्रके
साथ विरोध होगा । और छद्मस्थोंके अनेक श्रेणियोंका ग्रहण विरुद्ध नहीं है, क्योंकि,
चक्षु इन्द्रिय जन्य ज्ञानसे अनेक श्रेणियोंमें स्थित पुद्गलस्कन्धोंका ग्रहण पाया जाता है ।

देशावधिके उन्नीस काण्डकोंमेंसे प्रथम काण्डकमें जघन्य क्षेत्र घनांगुलके
असंख्यातवें भाग प्रमाण और जघन्य काल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी
काण्डकमें उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुलके संख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल आवलीके
संख्यातवें भाग प्रमाण है । द्वितीय काण्डकमें क्षेत्र घनांगुल प्रमाण और काल कुछ कम
आवली प्रमाण है । तृतीय काण्डकमें क्षेत्र घनांगुलपृथक्त्व और काल पूर्ण आवली
प्रमाण है ॥ ५ ॥

१ प्रतिष्ठ ' हि ' इति पाठः ।

२ गो. जी. ४०४. अंगुलमावलियाणं भागमसंखिज्ज दोसु संखिज्जा । अंगुलमावलियंतो आवलिया
अंगुलपुहुत्तं ॥ विशेष. भा. ६११ (नि. ३२), नं. सू. गा. ५०.

आवलियपुधत्तं पुण हत्थो तह गाउंअं मुहुत्तंतो ।

जोयण भिण्णमुहुत्तं दिवसंतो पण्णवीसं तु^१ ॥ ६ ॥

भरहम्मि अद्धमासो साहियमासो विं जंबुदीवम्मि ।

वासं च मणुअलोए वासपुधत्तं च रुजगम्मि^२ ॥ ७ ॥

पणुवीस जोयणाणि ओही वेत्तर-कुमारवग्गाणं ।

संखेज्जजोयणाणि जोइसियाणं जहणोही^३ ॥ ८ ॥

असुराणमसंखेज्जा कोडीओ सेसजोदिसंताणं ।

संखातीदसहस्सा उक्कस्सो ओहिविसओ दु^४ ॥ ९ ॥

चतुर्थ काण्डकमें काल आवलिपृथक्त्व और क्षेत्र एक हाथ प्रमाण है । पंचम काण्डकमें क्षेत्र गव्यूति अर्थात् एक कोश तथा काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । छठे काण्डकमें क्षेत्र एक योजन और काल भिन्न मुहूर्त अर्थात् एक समय कम मुहूर्त प्रमाण है । सप्तम काण्डकमें काल कुछ कम एक दिवस और क्षेत्र पच्चीस योजन प्रमाण है ॥ ६ ॥

अष्टम काण्डकमें क्षेत्र भरतक्षेत्र और काल अर्ध मास प्रमाण है । नवम काण्डकमें क्षेत्र जम्बूद्वीप और काल एक माससे कुछ अधिक है । दशवें काण्डकमें क्षेत्र मनुष्यलोक और काल एक वर्ष प्रमाण है । ग्यारहवें काण्डकमें क्षेत्र रुचकद्वीप और काल वर्षपृथक्त्व प्रमाण है ॥ ७ ॥

व्यन्तर और भवनवासी देवोंका जघन्य अवधिक्षेत्र पच्चीस योजन और ज्योतिषी देवोंका जघन्य अवधिक्षेत्र संख्यात योजन प्रमाण है ॥ ८ ॥

असुरकुमार देवोंके उत्कृष्ट अवधिज्ञानका विषयभूत क्षेत्र असंख्यात करोड़ योजन है । शेष नौ प्रकारके भवनवासी, व्यन्तर एवं ज्योतिषी देवोंका उत्कृष्ट अवधिक्षेत्र असंख्यात हजार योजन प्रमाण है ॥ ९ ॥

१ म. बं. १, पृ. २१. गो. जी. ४०५. हत्थम्मि मुहुत्तंतो दिवसंतो गाउयम्मि बोद्धव्वो । जोयणदिवस-पुहुत्तं पक्खंतो पण्णवीसाओ । विसे. मा. ६१२ (नि. ३३). नं. सू. गा. ५१.

२ म. बं. १, पृ. २१. गो. जी. ४०६. भरहम्मि अद्धमासो जंबुदीवम्मि साहिओ मासो । वासं च मणुअलोए वासपुहुत्तं च रुजगम्मि ॥ विसे. मा. ६१३ (नि. ३४). नं. सू. गा. ५२.

३ म. बं. १, पृ. २२. पणुवीसजोयणाइं दिवसंतं च य कुमार-भोम्माणं । संखेज्जगुणं खेत्तं बहुगं कालं तु जोइसिगे ॥ गो. जी. ४२६.

४ म. बं. १, पृ. २२. गो. जी. ४२७.

सक्कीसाणा पढमं दोच्चं तु सणक्कुमार-माहिंदा ।
 तच्चं तु बम्ह-लंतय सुक्क-सहस्सारया चोत्थं ॥ १० ॥
 आणद-पाणदवासी तह आरण-अच्चुदा य जे देवा ।
 पस्संति पंचमखिदिं छट्ठिं गेवज्जया जे दु^१ ॥ ११ ॥
 सव्वं च लोयणालिं पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा ।
 सक्खेत्ते य सक्कमे खूवगदमणंतभागो दु^२ ॥ १२ ॥

एदाहि गाहाहि उत्तासेसोहिखेत्ताणमेसो अत्थो जहासंभवं परूवेदव्वो, अण्णहा पुव्वुत्तदोसप्पसंगादो । एवं जहण्णोहिक्खेत्तपरूवणा कदा ।

संपहि जहण्णोहिकालपमाणपरूवणं कस्सामो । तं जहा — आवलियाए असंखेज्जदि-

सौधर्म और ईशान स्वर्गके देव प्रथम पृथिवी तक, सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पके देव द्वितीय पृथिवी तक, ब्रह्म और लान्तव कल्पोंके देव तृतीय पृथिवी तक, तथा शुक्र और सहस्रार स्वर्गोंके देव चतुर्थ पृथिवी तक देखते हैं ॥ १० ॥

आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पोंमें रहनेवाले जो देव हैं वे पंचम पृथिवी तक, तथा त्रैवेयकोंमें उत्पन्न हुए देव छठी पृथिवी तक देखते हैं ॥ ११ ॥

नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरोंमें जो देव हैं वे सब लोकनाली अर्थात् कुछ कम चौदह राजु लम्बी और एक राजु विस्तृत लोकनालीको देखते हैं । स्वक्षेत्र अर्थात् अपने क्षेत्रके प्रदेशसमूहमेंसे एक प्रदेश कम करके अपने अपने अवधिज्ञानावरणकर्म द्रव्यमें एक चार अनन्त अर्थात् ध्रुवहारका भाग देना चाहिये । इस प्रकार एक एक प्रदेश कम करते हुए ध्रुवहारका भाग तब तक देना चाहिये जब तक उक्त प्रदेश समूह समाप्त न हो जावे । ऐसा करनेपर जो द्रव्य प्राप्त हो वह विवक्षित अवधिका विषयभूत द्रव्य जानना चाहिये ॥ १२ ॥

इन गाथाओं द्वारा कहे गये समस्त अवधिक्षेत्रोंका यह अर्थ यथासम्भव कहना चाहिये, क्योंकि, अन्यथा पूर्वोक्त दोषोंका प्रसंग आवेगा । इस प्रकार जघन्य अवधिके क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई है ।

अब जघन्य अवधिके कालकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— आवलीके

१ म. वं. १, पृ. २२. गो. जी. ४३०. विशे. मा. ६९८ (नि. ४८.).

२ म. वं. १, पृ. २३. गो. जी. ४३१.

३ म. वं. १, पृ. २३. गो. जी. ४३२. आणय-पाणयकप्पे देवा पासंति पंचमिं पुढविं । तं चैव आरणच्चुय ओहिण्णाणेण पासंति ॥ छट्ठिं हेट्ठिम-मब्बिमगेविज्जा सत्तमिं च उवरिस्सा । संमिण्णलोयणालिं पासंति अणुत्तरा देवा ॥ विशे. मा. ६९९-७०० (नि. ४९-५०).

भाएण आवलियाए ओवट्टिदाए जहण्णोहिकालो आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो होदि । एत्तिएण कालेण जं भूदं जं च भविस्सदि कज्जं तं जहण्णोहिणाणी जाणदि ति वुत्तं होदि । एदस्स कालो एत्तिओ चेव होदि ति कथं णव्वदे ? ' अंगुलमावलियाए भागमसंखेज्जे ति ' गाहासुत्तवयणादो णव्वदे । एवं जहण्णोहिकालपरूवणा कदा ।

संपहि जहण्णोहिभावपरूवणं कस्सामो । तं जहा— जमप्पणो जाणिदद्वं तस्स अणंतेसु वट्ठमाणपज्जाएसु तत्थ आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तपज्जाया जहण्णोहिणाणेण विसईकया जहण्णभावो । के वि आइरिया जहण्णद्वस्सुवरिड्ढिरूव-रस-गंध-फासादिसव्व-पज्जाए जाणदि ति भणंति । तण्ण घड्दे, तेसिमाणंतियादो । ण च ओहिणाणमुक्कस्सं पि अणंतसंखावगमक्खमं, तहोवदेसाभावादो । द्व्वट्ठियाणंतपज्जाए पच्चक्खेण अपरिच्छिदंतो ओही कथं पच्चक्खेण दव्वं परिच्छिदेज्ज ? ण, तस्स पज्जायावयवगयाणंतसंखं मोत्तूण असंखेज्जपज्जायावयवविसिद्धद्वपरिच्छेदयत्तादो । तीदाणागयपज्जायाणं किण्ण भावववएसो ?

असंख्यातवें भागका आवलीमें भाग देनेपर जघन्य अवधिका काल आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र होता है । इतने मात्र कालमें जो कार्य हो चुका हो और जो होनेवाला हो उसे जघन्य अवधिज्ञानी जानता है, यह उक्त कथनका अभिप्राय है ।

शंका—इसका काल इतना मात्र ही है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—' प्रथम काण्डकमें जघन्य क्षेत्र व काल क्रमशः घनांगुल और आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ' इस गाथासूत्रके कथनसे जाना जाता है ।

इस प्रकार जघन्य अवधिके कालकी प्ररूपणा की गई है ।

अब जघन्य अवधिके विषयभूत भावकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— अपना जो जाना हुआ द्रव्य है उसकी अनन्त वर्तमान पर्यायोंमेंसे जघन्य अवधिज्ञानके द्वारा विषयीकृत आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पर्यायें जघन्य भाव हैं । कितने ही आचार्य जघन्य द्रव्यके ऊपर स्थित रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श आदि रूप सब पर्यायोंको उक्त अवधिज्ञान जानता है, ऐसा कहते हैं । किन्तु वह घटित नहीं होता, क्योंकि, वे अनन्त हैं । और उत्कृष्ट भी अवधिज्ञान अनन्त संख्याके जाननेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि, वैसे उपदेशका अभाव है ।

शंका—द्रव्यमें स्थित अनन्त पर्यायोंको प्रत्यक्षसे न जानता हुआ अवधिज्ञान प्रत्यक्षसे द्रव्यको कैसे जानेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उक्त अवधिज्ञान पर्यायोंके अवयवोंमें रहनेवाली अनन्त संख्याको छोड़कर असंख्यात पर्यायावयवोंसे विशिष्ट द्रव्यका ग्राहक है ।

शंका—अतीत व अनागत पर्यायोंकी ' भाव ' संज्ञा क्यों नहीं है ?

ण, तेसिं कालत्तवुवगमादो । एवं जहण्णभावपरूवणां कदा ।

संपधि जहण्णदव्व-खेत्त-काल-भावपरिवाडीए ठविय विदियमोहिणाणवियप्पं भाणि-
स्सामो । तं जहा — मणदव्ववग्गणाए अणंतिमभागं' देस-सव्व-परमोहिदव्वपरूवणासु मेरुमही-
हरं व अवड्ढिदं विरलेदूण जहण्णदव्वं समखंडं करिय दिण्णे तत्थेगरूवधरिदं दव्वस्स विदिय-
वियप्पो होदि', पुव्विल्लजहण्णदव्वं पेक्खिदूण एग-दोपरमाणुआदीहि परिहीणपोगलखंध-
परिच्छेयणक्खमणाणमिच्चोहिणाणावरणक्खओवसमाभावादो । 'कवमेदं णव्वदे ? 'ओहिणाणा-
वरणस्स असंखेज्जलोगमेत्तीओ चेव पयडीओ ' ति वग्गणसुत्तादो । भावस्स जिणदिट्ठभावो
असंखेज्जगुणगारो दादव्वो । खेत्त-काला जहण्णा चेव, तेसिमेत्थ वुड्डीए अभावादो ।

समाधान — नहीं है, क्योंकि, उन्हें काल स्वीकार किया गया है ।

इस प्रकार जघन्य भावकी प्ररूपणा की गई है ।

अब जघन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको परिपाटीसे स्थापित कर द्वितीय अवधिज्ञानके विकल्पको कहते हैं । वह इस प्रकार है — देशावधि, सर्वावधि और परमावधिके द्रव्यकी प्ररूपणाओंमें मेरु पर्वतके समान अवस्थित मनोद्रव्यवर्गणाके अनन्तवें भागका विरलन करके उसके ऊपर जघन्य द्रव्यको समखण्ड करके देनेपर उसमें एक रूप-धरित खण्ड द्रव्यका द्वितीय विकल्प होता है, क्योंकि, पूर्वोक्त जघन्य द्रव्यकी अपेक्षा करके एक दो परमाणु आदिकोंसे हीन पुद्गलस्कन्धके ग्रहण करनेमें समर्थ ऐसे ज्ञानके निमित्त-भूत अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमका अभाव है ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—वह ' अवधिज्ञानावरणकी असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियां हैं ' इस वर्गणासूत्रसे जाना जाता है ।

भावका-जिन भगवान्से देखा गया है स्वरूप जिसका ऐसा असंख्यात गुणकार देना चाहिये, अर्थात् भावका द्वितीय विकल्प प्रथम विकल्पसे असंख्यातगुणा है । क्षेत्र और काल जघन्य ही रहते हैं, क्योंकि यहां उनकी वृद्धिका अभाव है ।

१ मणदव्ववग्गणाण वियप्पाणंतिमसमं खु धुवहारो । अवरुक्कस्सविसेसा रुवाहिया तव्वियप्पा हु ॥
गो. जी. ३८६.

२ देसोहिअवरदव्वं धुवहारेणवहिदे हवे विदियं । तदिद्यादिवियप्पेसु वि असंखवारो चि एस क्को ॥
गो. जी. ३९५.

तेसिमेत्थ वुड्डीए अभावो कधं णव्वेदे ?

कालो चउण्ण वुड्डी कालो भजियव्वो खेत्तवुड्डीए ।

उड्डीए दच्च-पज्जय भजिदव्वो खेत्त-काला य' ॥ १२ ॥

एदम्हादो वर्गणामुत्तादो णव्वेदे । पुणो बहुरूवधरिदखंडाणि छोडिय एगरूवधरिद-
विदियवियप्पदच्चमवड्ढिदभागहारस्स रूवं पडि समखंडं करिय दिण्णे तत्थेगखंडं तदिय-
वियप्पदच्चं हेदि । विदियभाववियप्पं तप्पाओग्गअसंखेज्जरूवेहि गुणिदे तदियभाववियप्पो
हेदि । खेत्त-काला जहण्णा चेव । सेसखंडाणि अवणेदूण एगरूवधरिदं तदियवियप्पदच्च-
मवड्ढिदविरलणाए समखंडं कादूण दिण्णे चउत्थवियप्पदच्चं हेदि । तदियभावमिह तप्पाओग्ग-
असंखेज्जरूवेहि गुणिदे चउत्थो भाववियप्पो हेदि । एवमव्वामोहेण पंचम-छट्ठ-सत्तमवियप्प-
प्पहुडि अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता दच्च-भाववियप्पा उप्पाएयव्वा । तदो जहण्णखेत्तस्सुवरि
एगो आगासपेदो वड्ढावेदव्वो । एवं वड्ढाविदे खेत्तस्स विदियवियप्पो हेदि । कालो पुण

शंका—यहां उनकी वृद्धिका अभाव है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—कालकी वृद्धि होनेपर द्रव्यादि चारोंकी वृद्धि होती है । क्षेत्रकी वृद्धि-
होनेपर कालवृद्धि भजनीय है, अर्थात् वह होती भी है और नहीं भी होती है । द्रव्य और
भावकी वृद्धि होनेपर क्षेत्र और कालकी वृद्धि भजनीय है ॥ १३ ॥

इस वर्गणामुत्रसे जाना जाता है ।

पश्चात् बहुरूपधरित खण्डोंको छोड़कर एक रूपधरित द्वितीय विकल्प रूप द्रव्यको
अवस्थित भागहारके प्रत्येक रूपके ऊपर समखण्ड करके देनेपर उनमें एक खण्ड तृतीय
विकल्प रूप द्रव्य होता है । द्वितीय भावविकल्पको उसके योग्य असंख्यात रूपोंसे गुणित
करनेपर तृतीय भावविकल्प होता है । क्षेत्र और काल जघन्य ही रहते हैं । शेष खण्डोंको
छोड़ करके एक रूपधरित तृतीय विकल्प रूप द्रव्यको अवस्थित विरलनासे समखण्ड
करके देनेपर चतुर्थ विकल्प रूप द्रव्य होता है । तृतीय भावविकल्पको तत्प्रायोग्य असंख्यात
रूपोंसे गुणित करनेपर चतुर्थ भावविकल्प होता है । इस प्रकार अभ्रान्त होकर पंचम,
छटा, सातवां आदि अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र द्रव्य और भावके विकल्पोंको उत्पन्न
करना चाहिये । तत्पश्चात् जघन्य क्षेत्रके ऊपर एक आकाशप्रदेश बढ़ाना चाहिये । इस
प्रकार बढ़ानेपर क्षेत्रका द्वितीय विकल्प होता है । परन्तु काल जघन्य ही रहता है ।

१ म. व. १, पृ. २२. गो. जी. ४१२. काले चउण्ह वुड्डी कालो भजियव्वु खेत्तवुड्डीए । वुड्डीए दच्च-
पज्जय भजियव्वो खित्त-काला उ ॥ विवे. मा. ६२० (नि. ३६). नं. सु. गा. ५४.

जहण्णो चेव । पुणो तदियदव्ववियप्पमवड्ढिदभागहारस्स समखंडं करिय दिण्णे तत्थ एग-
खंडमुवरिमदव्ववियप्पो हेदि । तदियभावम्हि तप्पाओग्गअसंखेज्जरूवेहि गुणिदे उवरिमोहि-
भाववियप्पो हेदि । एवं पुणो पुणो कादूण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता दव्व-भाव-
वियप्पा उप्पाएयव्वा । एवमुप्पादिदे विदियखेत्तवियप्पस्सुवरि एगो हि आगासपदेसो वड्ढावे-
दव्वो । तदो खेत्तस्स तदियवियप्पो हेदि । कालो जहण्णो चेव । सण्णिं सण्णिमव्वामोहो
अणाउलो समचित्तो सोदारे संबोहेत्तो अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तदव्व-भाववियप्पे उप्पाइय
वक्खाणाइरिओ खेत्तस्स चउत्थ-पंचम-छट्ठ-सत्तमपहुडि जाव अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ते
ओहिखेत्तवियप्पे उप्पाइय तदो जहण्णकालस्सुवरि एगो समओ वड्ढावेदव्वो । एवं वड्ढाविदे
कालस्स विदियवियप्पो हेदि । पुणो वि अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तदव्व-भाववियप्पेसु
गदेसु खेत्तम्हि एगो आगासपदेसो वड्ढावेदव्वो । एदेण कमेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभाग-
मेत्तेसु खेत्तवियप्पेसु गदेसु कालम्मि एगसमयं वड्ढाविय कालस्स तदियवियप्पो उप्पाएदव्वो ।

एत्थं चोदगो भणदि— अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेसु खेत्तवियप्पेसु गदेसु
कालम्मि एगो समओ वड्ढादि त्ति ण घड्ढे, एवं वड्ढाविज्जमाणे देसोहीए उक्कस्सखेत्ताणुप्पत्तीदो,

पश्चात् तृतीय द्रव्यविकल्पको अवस्थित भागहारके ऊपर समखण्ड करके देनेपर उनमें एक
खण्ड उपरिम द्रव्यविकल्प होता है । तृतीय भावविकल्पको तत्प्रायोग्य असंख्यात रूपोंसे
गुणा करनेपर अवधिका उपरिम भावविकल्प होता है । इस प्रकार पुनः पुनः करके
अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र द्रव्य और भावके विकल्प उत्पन्न कराना चाहिये । इस
प्रकार उक्त विकल्पोंको उत्पन्न करानेपर द्वितीय क्षेत्रविकल्पके ऊपर एक आकाशप्रदेशको
बढ़ाना चाहिये । तब क्षेत्रका तृतीय विकल्प होता है । काल जघन्य ही रहता है ।
धीरे धीरे भ्रान्तिसे रहित, निराकुल, समचित्त व श्रोताओंको सम्बोधित करनेवाला
व्याख्यानाचार्य अंगुलके असंख्यातवें भागमात्र द्रव्य और भावके विकल्पोंको उत्पन्न कराके
क्षेत्रके चतुर्थ, पंचम, छठे एवं सातवें आदि अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र तक अवधिके
क्षेत्रविकल्पोंको उत्पन्न कराके पश्चात् जघन्य कालके ऊपर एक समय बढ़ावें । इस प्रकार
बढ़ानेपर कालका द्वितीय विकल्प होता है । फिरसे भी अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र
द्रव्य और भावके विकल्पोंके वीत जानेपर क्षेत्रमें एक आकाशप्रदेश बढ़ाना चाहिये ।
इस क्रमसे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्रविकल्पोंके वीत जानेपर कालमें एक
समय बढ़ाकर कालका तृतीय विकल्प उत्पन्न कराना चाहिये ।

शंका—यहां शंकाकार कहता है कि अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्र-
विकल्पोंके वीत जानेपर कालमें एक समय बढ़ता है, यह घटित नहीं होता; क्योंकि, इस
प्रकार बढ़ानेपर देशावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो सकता, व अपने उत्कृष्ट

संगुक्कस्सकालादो असंखेज्जगुणकालुप्पत्तीए च । तं जहा— देसोहीए उक्कस्सखेत्तं लोगो । उक्कस्सकालो समऊणपल्लं । तत्थ एक्कस्स समयस्स जदि अंगुलस्स असंखेज्जदि-
भागमेत्तखेत्तवियप्पा लब्भंति तो आवलियाए असंखेज्जदिभागूणपल्लम्मि केवडिखेत्तवियप्पे
लभामो ति पमाणेण इच्छागुणिदफलम्मि भागे हिदे असंखेज्जाणि घणंगुलाणि चेव वुप्पज्जंति,
ण उक्कस्सदेसोहिक्खेत्तं लोगो । अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेसु खेत्तवियप्पेसु गदेसु जदि
कालस्स एगो समओ वड्ढदि तो अंगुलस्स असंखेज्जदिभागेणूणलोगम्मि केवडियसमयवुड्ढिं
पेच्छामो ति फलगुणिदिच्छा पमाणेण जदि ओवट्ठिज्जदि तो लोगस्स असंखेज्जदिभागो
आगच्छदि, ण देसोहिउक्कस्सकालो समऊणपल्लं । तम्हा आवलियाए असंखेज्जदिभागेणूण-
समऊणपल्लेण जहण्णोहिक्खेत्तेणूणलोगे भागे हिदे लोगस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि ।
एत्तिएसु खेत्तवियप्पेसु गदेसु कालम्मि एगसमयवुड्ढीए होदव्वमण्णहा पुव्वुत्तदोसप्पसं-
गादो ति ?

णेदं घडदे, एयंतेणेवमिच्छिज्जमाणे वर्गणाए गाहासुत्तउत्तखेत्ताणमणुप्पत्तिप्पसंगादो ।
तं जहा— कालेण आवलियाए संखेज्जदिभागं जाणंते खेत्तेण अंगुलस्स संखेज्जदिभागं

कालसे असंख्यातगुणा काल उत्पन्न होगा । वह इस प्रकारसे— देशावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र
लोक है । उत्कृष्ट काल एक समय कम पत्य है । ऐसी स्थितिमें एक समयके यदि अंगुलके
असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्रविकल्प प्राप्त होते हैं तो आवलीके असंख्यातवें भागसे कम
पत्यमें कितने क्षेत्रविकल्प प्राप्त होंगे, इस प्रकार इच्छा राशिसे गुणित फल राशिमें प्रमाण
राशिका भाग देनेपर असंख्यात घनांगुल ही उत्पन्न होते हैं, न कि उत्कृष्ट देशावधिका क्षेत्र
लोक । अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्रविकल्पोंके वीत जानेपर यदि कालका एक समय
वढता है तो अंगुलके असंख्यातवें भागसे हीन लोकमें कितनी समयवृद्धि होगी, इस
प्रकार फल राशिसे गुणित इच्छा राशिको यदि प्रमाण राशिसे अपवर्तित किया जाय तो
लोकका असंख्यातवां भाग आता है, न कि देशावधिका उत्कृष्ट काल समय कम पत्य ।
इसलिये आवलीके असंख्यातवें भागसे हीन समय कम पत्यका जघन्य अवधिक्षेत्रसे
रहित लोकमें भाग देनेपर लोकका असंख्यातवां भाग आता है । इतने क्षेत्रविकल्पोंके
वीतनेपर कालमें एक समय वृद्धि होना चाहिये, क्योंकि, अन्यथा पूर्वोक्त दोषोंका
प्रसंग आवेगा ?

समाधान—यह घटित नहीं होता, क्योंकि, एकान्ततः ऐसा स्वीकार करनेपर
वर्गणाके गाथासूत्रोंमें कहे हुए क्षेत्रोंकी अनुत्पत्तिका प्रसंग आवेगा । वह इस प्रकारसे—
कालकी अपेक्षा आवलीके संख्यातवें भागको जाननेवाला क्षेत्रसे अंगुलके संख्यातवें

जाणदि त्ति सुत्ते उत्तं । आवलियं किंचूणं कालदो जाणंतो खेत्तदो घणंगुलं जाणदि । कालदो आवलियं जाणंतो खेत्तदो अंगुलपुधत्तं जाणदि । कालदो अद्धमासं जाणंतो खेत्तदो भरहं जाणदि । कालदो साहियमासं जाणंतो खेत्तदो जंबूदीवं जाणदि । कालदो वस्सं जाणंतो खेत्तदो माणुसखेत्तं जाणदि त्ति एवमादियाणि ओहिखेत्ताणि ण उपपज्जंति, लोगस्स असंखेज्जदिभागमेत्तखेत्तवुड्डीए कालम्मि एगसमयउड्डीए अब्भुवगमादो । ण च सुत्तविरुद्धा जुत्ती होदि, तिस्से जुत्तियाभासत्तादो ।

मा घडदु णाम एदं; कधमुक्कस्स-खेत्त-कालाणमुप्पत्ती ? वड्ढिणियमाभावादो तेसिमुप्पत्ती घडदे । पढमं ताव अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेसु खेत्तवियप्पेसु गदेसु कालम्मि एगसमओ वड्ढदि । तं जहा— जहण्णकालं आवलियाण संखेज्जदिभागम्मि सोहिदे अवसेसा आवलियाण संखेज्जदिभागमेत्ता कालउड्डी होदि । इमं विरलिय जहण्णोहिखेत्तेणूणअंगुलस्स संखेज्जदिभागमोहिखेत्तउड्ढिं समखंडं करिय दिण्णे समयं पडि अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो पावदि । एत्थ जदि अवड्ढिदा खेत्तउड्डी तो एगेगरूवधरिदखेत्तेसु

भागको जानता है, इस प्रकार सूत्रमें कहा गया है । कालसे कुछ कम आवलीको जाननेवाला क्षेत्रसे घनांगुलको जानता है । कालकी अपेक्षा आवलीको जाननेवाला क्षेत्रसे अंगुलपृथक्त्वको जानता है । कालकी अपेक्षा अर्ध मासको जाननेवाला क्षेत्रकी अपेक्षा भरत क्षेत्रको जानता है । कालकी अपेक्षा साधिक एक मासको जाननेवाला क्षेत्रसे जम्बूद्वीपको जानता है । कालकी अपेक्षा एक वर्षको जाननेवाला क्षेत्रसे मनुष्यलोकको जानता है, इस प्रकार इत्यादि क्षेत्र नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि, लोकके असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्रकी वृद्धि होनेपर कालमें एक समयकी वृद्धि स्वीकार की है । और सूत्रविरुद्ध युक्ति होती नहीं है, क्योंकि, वह युक्त्याभास रूप होगी ।

शंका—यदि यह नहीं घटित होता है तो न हो । परन्तु फिर उत्कृष्ट क्षेत्र और कालकी उत्पत्ति कैसे सम्भव है ?

समाधान—वृद्धिके नियमका अभाव होनेसे उनकी उत्पत्ति घटित होती है । प्रथमतः अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्रविकल्पोके वीत जानेपर कालमें एक समय बढ़ता है । वह इस प्रकार है—आवलीके संख्यातवें भागमेंसे जघन्य कालको कम कर देनेपर शेष आवलीके संख्यातवें भाग मात्र कालवृद्धि होती है । इसे विरलित कर जघन्य अवधि-क्षेत्रसे कम अंगुलके संख्यातवें भाग मात्र अवधिकी क्षेत्रवृद्धिको समखण्ड करके देनेपर प्रत्येक समयमें अंगुलका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है । यहां यदि अवस्थित क्षेत्रवृद्धि

वड्ढिदेसु कालम्मि वि तस्स चेव खेत्तस्स हेड्डिमसमओ ऐगेगो वड्ढिवियच्चो । अह उड्ढी अण-
वड्ढिदा तो वि पढमवियप्पप्पहुडि' अंगुलस्स असंखेज्जदिभागवुड्ढीए असंखेज्जा वियप्पा
णयच्चा, पढमंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेसु खेत्तवियप्पेसु गदेसु कालम्मि एगो समओ
वड्ढिदि त्ति गुरूवदेसादो । पुणो उवरिमंगुलस्स असंखेज्जदिभागेषु वा तस्सेव संखेज्जदि-
भागेषु वा खेत्तवियप्पेसु गदेसु कालम्मि एगो समओ वड्ढिदि त्ति वत्तव्वं, दोहि वि पयोरेहि
उड्ढीए विरोहाभावादो । जहण्णकालं किंचूणावलियाए सोहिय सेसं विरलिय जहण्णखेत्तूण-
घणंगुलं समखंडं करिय समयं पडि दादूण अवड्ढिदाणवड्ढिदवड्ढिवियप्पेसु अंगुलस्स असंखे-
ज्जदिभाग-संखेज्जदिभागमेत्तखेत्तवियप्पेसु गदेसु कालम्मि एगो समओ वड्ढिदि त्ति पुव्वं
व परूवेदव्वं । एवं गंतूण अणुत्तरविमाणवासियेदेवा कालदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं
खेत्तदो सच्चलोगणांलि जाणंति त्ति जहण्णकालूपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं विरलिय
जहण्णखेत्तूणजहण्णादिअद्धानं समखंडं करिय दिण्णे रूवं पडि लोगस्स असंखेज्जदिभागो
असंखेज्जजगपदरमेत्तो पावेदि । एत्थ एगरूवधरिदमेत्तखेत्तवियप्पेसु गदेसु कालम्मि एगो

है तो एक एक रूपधरित क्षेत्रोंके बढ़नेपर कालमें भी उस ही क्षेत्रका अधस्तन समय
एक एक बढ़ाना चाहिये । अथवा, यदि अनवस्थित वृद्धि है तो भी प्रथम विकल्पसे लेकर
अंगुलके असंख्यातवें भाग वृद्धिके असंख्यात विकल्प ले जाना चाहिये, क्योंकि, प्रथम
अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्रविकल्पोंके वीत जानेपर कालमें एक समय बढ़ता है,
ऐसा गुरुका उपदेश है । पुनः उपरिम अंगुलके असंख्यातवें भाग अथवा उसके ही संख्यातवें
भाग प्रमाण क्षेत्रविकल्पोंके वीतनेपर कालमें एक समय बढ़ता है, ऐसा कहना चाहिये,
क्योंकि, दोनों ही प्रकारोंसे वृद्धि होनेका कोई विरोध नहीं है ।

जघन्य कालको कुछ कम आवलीमेंसे कम करके शेषका विरलन कर जघन्य
क्षेत्रसे हीन घनांगुलको समखण्ड करके प्रत्येक समयके ऊपर देकर अवस्थित व अन-
वस्थित वृद्धिके विकल्पोंमें अंगुलके असंख्यातवें भाग व संख्यातवें भाग मात्र क्षेत्रविकल्पोंके
वीतनेपर कालमें एक समय बढ़ता है, ऐसी पूर्वके समान प्ररूपणा करना चाहिये । इस
प्रकार जाकर अनुत्तर विमानवासी देव कालकी अपेक्षा पल्योपमके असंख्यातवें भाग और
क्षेत्रकी अपेक्षा समस्त लोकनालीकां जानते हैं, अतएव जघन्य कालसे रहित पल्योपमके
असंख्यातवें भागका विरलन कर जघन्य क्षेत्रसे हीन जघन्य आदि अध्यानको समखण्ड
करके देनेपर प्रत्येक रूपके प्रति असंख्यात जगप्रतर मात्र लोकका असंख्यातवां भाग प्राप्त
होता है । यहाँ एक रूपधरित मात्र क्षेत्रविकल्पोंके वीत जानेपर कालमें एक समय बढ़ता

समओ वड्ढिट्ति ण वत्तव्वं, हेड्डिमखेत्त-कालाणमभावप्पसंगादो । तेण घणंगुलस्स असंखे-
ज्जदिभागे कत्थ वि घणंगुलस्स संखेज्जदिभागे कत्थ वि घणंगुले कत्थ वि घणंगुलवग्गे एवं
गंतूण कत्थ वि सेडीए कत्थ वि जगपदरे कत्थ वि असंखेज्जेसु जगपदरेसु अदिकंतेसु एगो
समओ वड्ढिट्ति वत्तव्वं । तेणुक्कस्सखेत्त-कालाणमुप्पत्ती ण विरुद्धिट्ति सिद्धं ।

संपदि एवं ताव पेदव्वं जाव दव्व-खेत्त-काल-भावाणं दुचरिमसमाणवड्ढि^१ ति ।
दुचरिमसमाणवड्ढी णाम का ? जम्हि डाणे चटुण्णमक्कमेण वुड्ढी होदि तिस्से समानवड्ढि ति
सण्णा । तत्थ चरिमसमाणवड्ढिं मोत्तूण हेड्डिमा दुचरिमसमाणउड्ढी णाम । तेत्तियमद्वाणे गंतूण
तत्थ को वि भेदो अत्थि तं भाणिस्सामो — तत्थ दुचरिमसमाणवड्ढीदो उवरि केत्तिया काल-
वियप्पा ? एक्को समओ । खेत्तवियप्पा पुण असंखेज्जसेडीमेत्ता वा संखेज्जसेडीमेत्ता वा
जगसेडीमेत्ता वा सेडीपढमवग्गमूलमेत्ता वा विदियवग्गमूलसेत्ता वा घणंगुलमेत्ता वा घणंगुलस्स
[संखेज्जदिभागमेत्ता वा घणंगुलस्स] असंखेज्जदिभागमेत्ता वा किं भवंति आहो ण भवंति ति

है, ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, इस प्रकार अधस्तन क्षेत्र और कालके अभावका
प्रसंग आवेगा । इसलिये घनांगुलके असंख्यातवें भाग, कहींपर घनांगुलके संख्यातवें भाग,
कहीं घनांगुल, कहीं घनांगुलके वर्ग, इस प्रकार जाकर कहींपर जगश्रेणी, कहीं जगप्रतर
और कहींपर असंख्यात जगप्रतरोंके वीतनेपर एक समय बढ़ता है; ऐसा कहना चाहिये ।
इसलिये उत्कृष्ट क्षेत्र और कालकी उत्पत्तिमें कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध हुआ ।

अब इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिये जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी
द्विचरम समान वृद्धि नहीं प्राप्त होती ।

शंका — द्विचरम समानवृद्धि किसे कहते हैं ?

समाधान — जिस स्थानमें चारोंकी युगपत् वृद्धि होती है उसकी समानवृद्धि ऐसी
संज्ञा है । उसमें चरम समानवृद्धिको छोड़कर उससे नीचेकी वृद्धि द्विचरम समान-
वृद्धि है ।

उतना अध्वान जाकर वहां जो कुछ भी भेद है उसे कहते हैं—वहां द्विचरम समान-
वृद्धिसे ऊपर कितने कालविकल्प हैं ? एक समय रूप एक विकल्प । किन्तु क्षेत्रविकल्प असं-
ख्यात श्रेणी मात्र, अथवा संख्यात श्रेणी मात्र, अथवा जगश्रेणी मात्र, अथवा श्रेणीके प्रथम
वर्गमूल मात्र, अथवा द्वितीय वर्गमूल मात्र, अथवा घनांगुल मात्र, अथवा घनांगुलके
[संख्यातवें भाग मात्र, अथवा घनांगुलके] असंख्यातवें भाग मात्र क्या होते हैं या नहीं

१ अंशुलअसंखभागं संखं वा अंशुलं च तस्सेव । संखमसंखं एवं सेदी-पदरस्स अद्भवग्गे ॥ गो. जी. ४०९.

२ प्रतिपु 'समऊणवड्ढि' इति पाठः ।

पुच्छिदे अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता चेव हँति । कुदो ? आइरियपरंपरागदुवदेसादो । अहवा
ण णव्वेदे, जुत्ति-सुत्ताणमणुवलंमादो । खेत्तवियपेहिँतो दव्व-भाववियप्पा पुण असंखेज्जगुणा ।
गुणगारो अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तदव्व-भाववियपेसु गदेसु
खेत्तम्मि एगागासपदेसवहुँदो । एवं दुचरिमसमाणवड्ढिपरूवणा कदा ।

पुणो दुचरिमसमाणवड्ढीए ओरालियदव्वमवड्ढिद्विरलणाए समखंडं करिय दिण्णे
तदणंतरदव्ववियप्पो होदि । दुचरिमसमाणवड्ढीए भावे तप्पाओग्गासंखेज्जरूवेहि गुणिदे
तदणंतरभाववियप्पो होदि । एवमंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेसु दव्व-भाववियपेसु गदेसु
खेत्तम्मि एगो आगासपदेसो वड्ढि । एवमेदेण कमेण णेदव्वं जाव दव्व-भावानं दुचरिम-
वियप्पो ति । पुणो चरिमदेसोहिउक्कस्सदव्वे उप्पाइज्जमाणे दुचरिमओरालियदव्वमवणेदूण
एगसमयवंबवाओग्गकम्मइयवग्गणदव्वमवड्ढिद्विरलणाए समखंडं करिय दिण्णे देसोहिउक्कस्स-
दव्वं होदि । देसोहिदुचरिमभावं तप्पाओग्गासंखेज्जरूवेहि गुणिदे देसोहिउक्कस्सभावो
होदि । खेत्तस्सुवरि एगागासपदेसे वड्ढिदे लंगो देसोहीए उक्कस्सखेत्तं होदि । कुदो ?

होते, ऐसा पृच्छनेपर उत्तर देते हैं कि वे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र ही होते हैं; कारण
कि ऐसा आचार्यपरम्परागत उपदेश है । अथवा, उक्त क्षेत्रविकल्पोंके विषयमें ज्ञान
नहीं है, क्योंकि, तत्सम्बन्धी युक्ति व सूत्रका अभाव है । क्षेत्रविकल्पोंसे द्रव्य और भावके
विकल्प असंख्यातगुणे हैं । गुणकार अंगुलका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, अंगुलके
असंख्यातवें भाग मात्र द्रव्य और भावके विकल्पोंके वीत जानेपर क्षेत्रमें एक आकाशप्रदेशकी
वृद्धि होती है । इस प्रकार द्विचरम समानवृद्धिकी प्ररूपणा की गई है ।

पुनः द्विचरम समानवृद्धिके औदारिक द्रव्यको अवस्थित विरलनासे समखण्ड
करके देनेपर उससे आगेका द्रव्यविकल्प होता है । द्विचरम समानवृद्धिके भावको उसको
योग्य असंख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर तदनन्तर भावविकल्प होता है । इस प्रकार
अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र द्रव्य व भावके विकल्पोंके वीत जानेपर क्षेत्रमें एक
आकाशप्रदेश बढ़ता है । इस प्रकार इस क्रमसे द्रव्य और भावके द्विचरम विकल्प तक
ले जाना चाहिये । पुनः अन्तिम देशावधिके उत्कृष्ट द्रव्यको उत्पन्न करते समय द्विचरम
औदारिक द्रव्यको छोड़कर एक समय बन्धके योग्य कर्मण वर्गणा द्रव्यको अवस्थित
विरलनासे समखण्ड करके देनेपर देशावधिका उत्कृष्ट द्रव्य होता है । देशावधिके द्विचरम
भावको तत्प्रायोग्य संख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर देशावधिका उत्कृष्ट भाव होता है ।
क्षेत्रके ऊपर एक आकाशप्रदेश बढ़नेपर देशावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र लोक होता है, क्योंकि,

१ एदाहि विमज्जंते दुचरिमदेसावहिँन्नि वग्गणयं । चत्तिं कम्मइयस्सिगिवग्गणमिगिद्वारमज्जिदं वु ॥

वग्गणाए 'जाव लोगो ताव पडिवादी, उवरि अप्पडिवादि' ति वयणादो^१ । दुचरिमकालस्सुवरि एगसमए पक्खित्ते देसोहीए उक्कस्सकालो समऊणपल्लं होदि ।

जो एसो अण्णाइरियाणं वक्खाणकमो परूविदो सो जुत्तीए ण घडदे । कुदो ? सव्वड्ढसिद्धिदेवाणमुक्कस्सोहिदव्वादो उक्कस्सदेसोहिदव्वस्स अणंतगुणत्तप्पसंगादो । तं जहा— लोगस्स संखेज्जदिभागं सलागभूदं ठवेदूण मणदव्ववग्गणाए अणंतिमभाएण सगोहि-
णाणावरणकम्मपदेसु णिव्विस्सासोवचएसु समयविरोहेण खंडिदेसु चरिमेगखंडं सव्वड्ढसिद्धि-
विमाणवासियदेवो जाणदि, उक्कस्सदेसोहिणाणी पुण एगसमयपवद्धमेगवारखंडिदं । ण चेग-
णाणासमयपवद्धकओ विसेसो, एत्थं तग्गुणगारस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तस्स पहाणत्ताभावादो । एसा देवाणमुक्कस्सदव्वुप्पायणविही णासिद्धा, 'संखेत्ते य सकम्मे रूवयद-
मणंतभागो' ति सुत्तसिद्धत्तादो ति । तेण जहण्णदव्वादो तप्पाओग्गवियप्पेसु गदेसु ओरालिय-
दव्वं सविस्ससोवचयमवणेदूण कम्मइयसमयपवद्धो णिव्विस्सासोवचओ दायव्वो, ओरालिय-

वर्गणामें 'जब तक लोक है तब तक प्रतिपाती है, ऊपर अप्रतिपाती है' ऐसा कथन है, अर्थात् क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कर्षसे लोकको विषय करनेवाला देशावधि प्रतिपाती और इससे आगेके परमावधि व सर्वावधि अप्रतिपाती हैं । द्विचरम कालके ऊपर एक समयका प्रक्षेप करनेपर देशावधिका उत्कृष्ट काल एक समय कम पत्य होता है ।

ऐसी जो अन्य आचार्योंके व्याख्यानक्रमकी प्ररूपणा है वह युक्तिसे घटित नहीं होती, क्योंकि, वैसा माननेपर सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देवोंके उत्कृष्ट अवधिद्रव्यसे उत्कृष्ट देशावधिद्रव्यके अनन्तगुणत्वका प्रसंग आवेगा । वह इस प्रकारसे— लोकके संख्यातवें भागको शलाका रूपसे स्थापित करके मनोद्रव्यवर्गणाके अनन्तवें भागका विस्त्रसोपचय रहित अपने अवधिज्ञानावरणकर्मप्रदेशोंमें आगमानुसार भाग देनेपर अन्तिम एक खण्डको सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देव जानता है, परन्तु उत्कृष्ट देशावधिज्ञानी एक चार खण्डित एक समयप्रवद्धको जानता है । और एक समयप्रवद्ध और नाना समयप्रवद्ध कृत भेद भी नहीं है, क्योंकि, यहां पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र उसके गुणकारकी प्रधानताका अभाव है । यह देवोंके उत्कृष्ट द्रव्यकी उत्पादनविधि असिद्ध नहीं है, क्योंकि, वह 'अपने क्षेत्रमेंसे एक प्रदेश उत्तरोत्तर कम करते हुए अपने अवधिज्ञानावरणकर्मका अनन्तवां भाग है' इस सूत्रसे सिद्ध है । इस कारण जघन्य द्रव्यसे आगे उसके योग्य विकल्पोंके वीत जानेपर विस्त्रसोपचय सहित औदारिक द्रव्यको छोड़कर विस्त्रसोपचय रहित कार्मण समयप्रवद्ध देना चाहिये, क्योंकि, औदारिक

१ प्रतिष्ठु 'पडिवादि' इति पाठः ।

२ उक्कस्स माणुसेसु य माणुस-तेरिच्छए जहण्णोही । उक्कस्स लोगमेत्तं पडिवादी तेण परमपडिवादी ॥
ध. अ. प्र. पत्र ११९२. महावंध १, पृ. २३. पडिवादी देसोही अप्पडिवादी हवन्ति सेसाओ । मिच्छन्तं अविरमणं ण य पडिवज्जन्ति चरिमदुगे ॥ गो. जी. ३७५.

विस्सासोवचएहिंते कम्मइयविस्सासोवचयाणमणंतगुणत्तादो । ण चेदमसिद्धं, 'सव्वत्थोवो ओरालियसरीरस्स विस्सासोवचओ, वेउव्वियसरीरस्स विस्सासोवचओ अणंतगुणो, आहार-सरीरस्स विस्सासोवचओ अणंतगुणो, तेयासरीरस्स विस्सासोवचओ अणंतगुणो, कम्मइय-सरीरस्स विस्सासोवचओ अणंतगुणो' ति वग्गणाए सुत्तम्मि अणंतगुणत्तसिद्धीदो ति । विस्सासोवचए अवणेदूण ओरालियपरमाणू चेव अवड्ढिदविरलणाए किण्ण दिज्जंति ? ण, विरलणरासीदो ते अणंतगुणहीणा इदि गुरूवदेसादो । विरलणादो कम्मइयदव्वमणंतगुणमिदि कधं णव्वदे ? आहारवग्गणाए दव्वा थोवा, तेयावग्गणाए दव्वा अणंतगुणा, भासावग्गणाए दव्वा अणंतगुणा, मणवग्गणाए दव्वा अणंतगुणा, कम्मइयवग्गणाए दव्वा अणंतगुणा ति वग्गणासुत्तादो णव्वदे । जदि एवं तो आदिप्पहुडि कम्मइयदव्वं चेव किमिदि मणदव्ववग्गणाए ण खंडिज्जदि ? ण,

विस्त्रसोपचयोंसे कर्मण विस्त्रसोपचय अनन्तगुणे हैं । और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, “ औदारिक शरीरका विस्त्रसोपचय सबसे स्तोक है, उससे वैक्रियिक शरीरका विस्त्रसोपचय अनन्तगुणा है, उससे आहार शरीरका विस्त्रसोपचय अनन्तगुणा है, उससे तैजस शरीरका विस्त्रसोपचय अनन्तगुणा है, उससे कर्मण शरीरका विस्त्रसोपचय अनन्तगुणा है,” इस प्रकार वर्गणासूत्रसे उसे अनन्तगुणत्व सिद्ध है ।

शंका—विस्त्रसोपचयोंको छोड़कर औदारिक परमाणुओंको ही अवस्थित विरलनासे क्यों नहीं देते ?

समाधान—नहीं देते, क्योंकि, वे विरलन राशिसे अनन्तगुणे हीन हैं, ऐसा गुरुका उपदेश है ।

शंका—विरलन राशिसे कर्मण द्रव्य अनन्तगुणा है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—‘आहार वर्गणाके द्रव्य स्तोक हैं, तैजस वर्गणाके द्रव्य उससे अनन्तगुणे हैं, भाषा वर्गणाके द्रव्य उससे अनन्तगुणे हैं, मनो वर्गणाके द्रव्य अनन्तगुणे हैं, कर्मण वर्गणाके द्रव्य अनन्तगुणे हैं,’ इस वर्गणासूत्रसे वह जाना जाता है ।

शंका—यदि ऐसा है तो आदिसे लेकर कर्मण द्रव्यको ही मनोद्रव्यवर्गणा द्वारा क्यों खण्डित नहीं करते ?

तेया-कम्मइयसरीरं तेयादव्वं च भासदव्वं च ।

बोद्धव्वमसंखेज्जा दीव-समुदा य वासा य ॥ १४ ॥

इच्छेदीए सुत्तगाहाए सह विरोहादो । तेण कत्थ वि ओरालियसरीरं, कत्थ वि तेया-सरीरं, कत्थ वि कम्मइयसरीरं, कत्थ वि तेयादव्वं, कत्थ वि भासादव्वं, कत्थ वि मणदव्वं कत्थ वि कम्मइयदव्वं दादव्वमिदि ।

सेसं पुव्वं व वत्तव्वं । असंखेज्जेसु दव्व-भाववियप्पेसु पुव्वं व अदिककेतसु जहण्णोहि-खेत्तमावलियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिज्जदि, तदो खेत्तस्स बिदियवियप्पो होदि । एव-मसंखेज्जेसु खेत्तवियप्पेसु गदेसु जहण्णकालो आवलियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिज्जदि, तदो कालस्स बिदियवियप्पो होदि । एवं णेदव्वं जाव देसोहीए उक्कस्संते । एवं के वि आइरिया देसोहीए परूवणं कुणंति । तण्ण घडदे । कुदो ? पुव्ववक्खाणभणिदद्वाणसमाणमेव किमेदस्स

समाधान - नहीं, क्योंकि, ऐसा होनेपर [देशावधिके मध्य विकल्पोंमें जहां अवधिज्ञान] तैजस शरीर, उसके आगे कर्मण शरीर, उसके आगे तेजोद्रव्य अर्थात् विस्त्रसोपचय रहित तैजस वर्गणा, उसके आगे भाषा द्रव्य अर्थात् विस्त्रसोपचय रहित भाषा वर्गणा [और उससे आगे मनोवर्गणाको] जानता है, वहां क्षेत्र असंख्यात द्वीप-समुद्र और काल असंख्यात वर्ष प्रमाण होता है ॥ १४ ॥

इस सूत्र रूप गाथाके साथ विरोध होगा । इसलिये कहीं औदारिक शरीर, कहीं तैजस शरीर, कहीं कर्मण शरीर, कहीं तैजस द्रव्य, कहीं भाषा द्रव्य, कहीं मन-द्रव्य और कहीं कर्मण द्रव्य देना चाहिये ।

शेष पूर्वके समान कहना चाहिये । पूर्वके समान असंख्यात द्रव्य और भावके विकल्पोंके वीत जानेपर जब जघन्य अवधिक्षेत्रको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणा किया जाता है तब क्षेत्रका द्वितीय विकल्प होता है । इसी प्रकार असंख्यात क्षेत्रविकल्पोंके वीत जानेपर जब जघन्य कालको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित किया जाता है तब कालका द्वितीय विकल्प होता है । इस प्रकार देशावधिके उत्कृष्ट विकल्प तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार कितने ही आचार्य देशावधिका प्ररूपण करते हैं । किन्तु वह घटित नहीं होता है, क्योंकि, यहां हम पूछते हैं कि पूर्व व्याख्यानमें कहे हुए अध्वानके सदृश

१ महावंध १, पृ. २२. देसोहिमब्भमेदे सविस्ससोवचयतेज-कम्मंगं । तेजोमास-मणाणं वग्गणयं केवलं जत्थ ॥ पस्सदि ओही-तत्थ असंखेज्जाओ हवंति दीउवही । वासाणि असंखेज्जा हंति असंखेज्जगुणिदकमा ॥ गो. जी. ३९५-३९६. तेया-कम्मसरीरे तेयादव्वे य भासदव्वे य । बोद्धव्वमसंखेज्जा दीव-समुदा य कालो य ॥ विक्षे. मा. ६७६ (नि. ४३).

वक्खाणस्सद्वाणमाहो विनरिसमिदि ? ण ताव समाणपक्खो जुज्जदे, खेत्त-कालाणमसंखेज्ज-
लोगत्तप्पसंगादो । तं जहा — आवलियाए असंखेज्जदिभागछेदणएहि लोगछेदणए ओन्नट्टिय
लद्धं विरलेदूण रूवं पडि गुणगारभूदआवलियाए असंखेज्जदिभागो दादव्वो । विरलणमेत्तेसु
खेत्तवियण्णेषु गंदेषु ओहिखेत्तमसंखेज्जलोगमेत्तं होदि, विरलणमेत्तेसु आवलियाए असंखेज्जदि-
भागेषु अण्णोण्णगुणिंदेषु लोगुप्पत्तीदो । एत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागद्वाणे चेव
ओहिखेत्तमसंखेज्जलोगमेत्तं जादमेदम्हादो उवरि गच्छमाणे सुतरामेव खेत्तस्स असंखेज्ज-
लोगत्तं पसज्जदे । एदं च गेच्छिज्जदि, लोगमेत्तमुक्कस्सदेसोहिखेत्तमिदि अब्भुवगमादो ।
एवं कालस्स वि असंखेज्जलोगप्पसंगो पक्खेदव्वो । ण च कालो उक्कस्सओ असंखेज्जलोगो
त्ति देसोहीए इच्छिज्जदि, आइरियपरंपरागदुवदेसेण देसोहिउक्कस्सकालस्स समऊणपल्ल-
पमाणत्तमिद्धीदो ।

ण त्रिदियपक्खो वि, पुच्चिल्लद्वाणादो अहियद्वाणे अब्भुवगम्ममाणे पुच्चिल्लदोस-
प्पसंगादो । ण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तखेत्तवियण्णव्भुवगमो वि, देसोहीए असंखेज-
लोगमेत्तव्भुवसमवियण्णमभावप्पसंगादो, कालस्सावलियाए असंखेज्जदिभागत्तप्पसंगादो च ।

ही इस व्याख्यानका अध्वान है अथवा विसदृश ? उक्त दो पक्षोंमें समान पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि ऐसा होनेपर क्षेत्र और कालको असंख्यात लोकपनेका प्रसंग होगा। वह इस प्रकारसे — आवलीके असंख्यातवें भाग अर्धच्छेदोंसे लोकके अर्धच्छेदोंको अपवर्तित करके प्राप्त राशिका विरलनकर प्रत्येक रूपके प्रति गुणकारभूत आवलीका असंख्यातवां भाग देना चाहिये। विरलन मात्र क्षेत्रविकल्पोंके बीत जानेपर अवधिका क्षेत्र असंख्यात लोक-प्रमाण होता है, क्योंकि, विरलन मात्र आवलीके असंख्यात भागोंको परस्पर गुणित करनेपर लोककी उत्पत्ति होती है। यहां पल्योपमके असंख्यातवें भाग अध्वानमें ही अवधिक्षेत्र असंख्यात लोक मात्र हो गया है। इससे ऊपर जानेपर स्वयमेव क्षेत्रको असंख्यात लोकपनेका प्रसंग आवेगा। और यह इष्ट नहीं है, क्योंकि, उत्कृष्ट देशावधिका क्षेत्र लोक मात्र है, ऐसा स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार कालके भी असंख्यात लोकपनेके प्रसंगकी प्ररूपणा करना चाहिये। और देशावधिका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, ऐसा अभीष्ट नहीं है, क्योंकि, आचार्यपरम्परागत उपदेशसे देशावधिका उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्य प्रमाण सिद्ध है।

द्वितीय (असमान) पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि, पूर्वोक्त अध्वानसे अधिक अध्वान स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त दोषका प्रसंग आवेगा। यदि पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्रविकल्पोंको स्वीकार करें तो वह भी नहीं बनता, क्योंकि, ऐसा स्वीकार करनेपर देशावधिक असंख्यात लोक मात्र क्षयोपशमविकल्पोंके अभावका प्रसंग होगा, तथा कालके आवलीके असंख्यातवें भागत्वका प्रसंग भी होगा। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र और

किं च खेत्त-कालाणं खओवसमा णांसंखेज्जगुणक्कमेण देसोहिम्मि अवड्ढिदा,

अंगुलमावलियाए भागमसंखेज्ज दो वि संखेज्जा ।

अंगुलमावलियंतो आवलियं चांगुलपुधत्तं ॥ १५ ॥

इच्छादिगाहावगणसुत्तोहि सह विरोहादो । एवमोही परूविदा ।

अवध्यश्च ते जिनाश्च अवधिजिनाः । कधमोहिणाणस्स गुणस्स गुणितं जुज्जदे ?
ण, गुणिव्वदिरेगेण गुणाणमभावादो । किमड्ढमोहिणा जिणा विसेसिज्जंते ? अण्णोहिजिण-
पडिसेहट्ठं । के ओहिजिणा ? तिरयणसहिदोहिणाणिणो । तेसिं णमो णमोक्करो होदि त्ति

कालके क्षयोपशम असंख्यातगुणित क्रमसे देशावधिमें अवस्थित नहीं हैं, क्योंकि,

प्रथम काण्डकमें जघन्य देशावधिका क्षेत्र अंगुलका असंख्यातवां भाग और जघन्य काल आवलीका असंख्यातवां भाग है । इसी काण्डकमें उत्कृष्ट क्षेत्र और काल क्रमशः अंगुल व आवलीके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । द्वितीय काण्डकमें क्षेत्र घनांगुल और काल कुछ कम आवली प्रमाण है । तृतीय काण्डकमें क्षेत्र अंगुलपृथक्त्व और काल आवली प्रमाण है ॥ १५ ॥

इत्यादि वर्गणा खण्डके गाथासूत्रोंके साथ विरोध होगा । इस प्रकार अवधिज्ञानकी प्ररूपणा की गई है ।

अवधिज्ञान स्वरूप जो जिन वे अवधिजिन हैं ।

शंका—गुण स्वरूप अवधिज्ञानके गुणीपना कैसे युक्त है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, गुणीको छोड़कर गुणोंका अभाव है । अर्थात् गुण और गुणीमें भेद न होनेसे अवधिज्ञान स्वरूप जिनके कहनेमें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—जिनोंको अवधिसे विशेषित किसलिये किया जाता है ?

समाधान—अन्य अवधिजिनोंके प्रतिपेधार्थ जिनोंको अवधिसे विशेषित किया गया है ।

शंका—अवधिजिन कौन हैं ?

समाधान—रत्नत्रय सहित अवधिज्ञानी अवधिजिन हैं ।

ऐसे अवधिजिनोंको नमः अर्थात् नमस्कार हो यह अभिप्राय है ।

वुत्तं होदि । महव्वयविरहिदोरयणहराणं ओहिणाणीणमणोहिणाणीणं च किमडं णमोक्कारो ण कीरदे ? गारवगरूवेसु र्जावेसु चरणाचारपयट्ठावणडं उत्तिमंगविसयभत्तिपयासणडं च ण कीरदे । एवं देसोहिजिणाणं णमोक्कारं काऊण परमोहिजिणाणं णमोक्कारकरणडमुत्तरसुत्तं भणदि—

णमो परमोहिजिणाणं ॥ ३ ॥

परमो ज्येष्ठः, परमश्चासौ अवधिश्च परमावधिः । कथमेदस्स ओहिणाणस्स जेड्डा ? देसोहिं पेक्खिदूण महाविसयत्तादो, मणपज्जवणाणं व संजदेसु चेव समुप्पत्तीदो, सगुप्पणभवे चेव केवलणाणुप्पत्तिकारणत्तादो, अप्पडिवादित्तादो वा जेड्डा । परमावधयश्च ते जिनाश्च परमावधिजिनाः, तेभ्यो नमः । जदि देसोहिणाणादो परमोहिणाणं जेड्डं होदि तो एदस्सेव पुव्वं

शंका—महाव्रतोंसे रहित दो रत्नों अर्थात् सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके धारक अवधिज्ञानी तथा अवधिज्ञानसे रहित जीवोंको भी क्यों नहीं नमस्कार किया जाता ?

समाधान — अहंकारसे महान् जीवोंमें चरणाचार अर्थात् सम्यक् चारित्र्य रूप प्रवृत्ति करानेके लिये तथा प्रवृत्तिमार्गविषयक भक्तिके प्रकाशनार्थ उन्हें नमस्कार नहीं किया जाता है ।

इस प्रकार देशावधिजिनोंको नमस्कार करके परमावधिजिनोंको नमस्कार करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

परमावधिजिनोंको नमस्कार हो ॥ ३ ॥

परम शब्दका अर्थ ज्येष्ठ है । परम ऐसा जो अवधि वह परमावधि है ।

शंका—इस अवधिज्ञानके ज्येष्ठपना कैसे है ?

समाधान—चूंकि यह परमावधि ज्ञान देशावधिकी अपेक्षा महा विषयवाला है, मनःपर्ययज्ञानके समान संयत मनुष्योंमें ही उत्पन्न होता है, अपने उत्पन्न होनेके भवमें ही केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है, और अप्रतिपाती है अर्थात् सम्यक्त्व व चारित्र्यसे व्युत्त होकर मिथ्यात्व एवं असंयमको प्राप्त होनेवाला नहीं है; इसीलिये उसके ज्येष्ठपना सम्भव है ।

परमावधि रूप ऐसे वे जिन परमावधि जिन हैं । उनके लिये नमस्कार है ।

शंका—यदि देशावधि ज्ञानसे परमावधि ज्ञान ज्येष्ठ है तो इसको ही पहिले

णमोक्कारो किण्ण कदो ? ण, देसोहीदो चेव परमोहिसरूवावगमो, ण अण्णहा त्ति जाणावण्डं देसोहीए पुवं णमोक्कारकरणादो, परमोहिसरूवावगमणिमित्तत्तणेण परमोहिं पेक्खिय महल्लत्तादो वा । कधं देसोहीदो परमोहिसरूवमवगम्मदे ? उच्चदे एत्थ सुत्तगाहा—

परमोहि असंखेज्जाणि लोगमेत्ताणि समयकालो दु ।

रूवगद लहइ दव्वं खेतोवमअगणिजीवेहि' ॥ १६ ॥

एदीए गाहाए परमोहिदव्व-खेत-काल-भावाणं परूवणा कदा । तं जहा— परमावधिरसंख्येयानि लोकमात्राणि लोकप्रमाणानि लभते जानातीत्यर्थः । एदेण खेतपमाणं परूविदं ।

नमस्कार क्यों नहीं किया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, देशावधिसे ही परमावधिके स्वरूपका ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होता; इस बातके ज्ञापनार्थ देशावधिको पूर्वमें नमस्कार किया है । अथवा परमावधिके स्वरूपके जाननेका निमित्त होनेसे परमावधिकी अपेक्षा चूंकि देशावधि महान् है, अतः उसे पहिले नमस्कार किया है ।

शंका— देशावधिसे परमावधिके स्वरूपका ज्ञान कैसे होता है ?

समाधान— यहां सूत्र गाथा कहते हैं—

परमावधि उत्कर्षसे क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात लोकमात्रों और कालकी अपेक्षा असंख्यात लोक मात्र समय रूप कालको जानता है । वही [शलाकाभूत] क्षेत्रोपम अशिकायिक जीवोंसे परिच्छिन्न रूपगत द्रव्यको उत्कर्षसे विषय करता है ॥ १६ ॥

विशेषार्थ— परमावधिका विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है और उत्कृष्ट काल भी असंख्यात लोक मात्र ही है । उसीके विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्यको जाननेके लिये निम्न प्रक्रिया है— तेजकायिक जीवकी जघन्य अवगाहनाको उसकी ही उत्कृष्ट अवगाहनामेंसे घटाकर शेषमें एक रूप मिला देनेपर जो प्राप्त हो उसे तेजकायिक राशिसे गुणा करनेपर शलाका राशि उत्पन्न होती है । अब देशावधिके उत्कृष्ट द्रव्यमें मनोवर्गणाके अनन्तवें भाग रूप ध्रुवहारका बार बार भाग देकर शलाका राशिमेंसे एक एक कम करते जाना चाहिये । इस प्रकार शलाका राशिके समाप्त होनेपर अन्तमें जो द्रव्यविकल्प प्राप्त होता है वह रूपगत है, और वही परमावधिका उत्कृष्ट विषय है । यही शलाका राशि परमावधिके विषयभूत क्षेत्र, काल एवं भावके विकल्पोंके जाननेमें भी निमित्त है ।

इस गाथा द्वारा परमावधिके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी प्ररूपणा की गई है । वह इस प्रकारसे— परमावधि असंख्यात लोक मात्र अर्थात् लोक प्रमाणोंको प्राप्त करता है, जानता है । इससे क्षेत्रप्रमाणकी प्ररूपणा की है । समय ऐसा जो काल वह समय-

१-महाब्रंथ १, पृ. २२. परमोहि असंखेज्जा लोगमिन्ना समा असंखिज्जा । रूवगयं लहइ सव्वं खेतोवमियं अगणिजीवा ॥ विशे. मा. ६८८ (नि. ४५).

‘ समयकालो दु ’ समयश्चासौ कालश्च समयकालः । समयविसेसणं किमडुं ? दच्चकालपडि-
सेहडुं । किमडुं दच्चकालपडिसेहो कीरदे ? तेणेत्थ पओजणाभावादो । दुसहो अविसदत्थे’
दट्टच्चो । अवधेः समयकालोऽपि असंख्येयलोकमात्रः । एदेण परमोहीए उक्कस्सकाल-भावाणं
परूवणा कदा । होदु कालपरूवणा एसा, ण भावपरूवणा; काल-भावाणमेयत्तविरोहादो । ण
एस दोसो, अदीदाणागयपज्जया तीदाणागयकालो, वट्टमाणपज्जया वट्टमाणकालो । तेसिं
चेव भावसण्णा वि, ‘ वर्तमानपर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भावः ’ इदि पओअदंसणादो । तीदाणागय-
कोलेहोतो वट्टमाणकालो भावसण्णिदो कालत्तणेण अभिण्णो ति काल-भावाणमेयत्ताविरोहादो ।
एदेण वक्खाणेण जहण्णपरमोहिकालो ण सूचिदो, सो कधं लब्भदे ? ‘ परमोहीए असंखेज्जा

काल है ।

शंका—यहां समय विशेषण किसलिये दिया है ?

समाधान—द्रव्य कालका प्रतिषेध करनेके लिये समय विशेषण दिया है ।

शंका—द्रव्य कालका प्रतिषेध किसलिये किया जाता है ?

समाधान—क्योंकि, उसका यहां प्रयोजन नहीं है ।

‘ तु ’ शब्द अपि (भी) शब्दके अर्थमें जानना चाहिये । अवधिका समय रूप
काल भी असंख्यात लोक मात्र है । इससे परमावधिके उत्कृष्ट काल और भावकी
प्ररूपणा की है ।

शंका—यह कालप्ररूपणा भले ही हो, किन्तु भावप्ररूपणा नहीं हो सकती;
क्योंकि, काल और भावकी एकताका विरोध है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अतीत और अनागत पर्यायें अतीत
अनागत काल हैं, तथा वर्तमान पर्यायें वर्तमान काल हैं । उन्हीं पर्यायोंकी ही भाव संज्ञा
भी है, क्योंकि, ‘ वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्य भाव है ’ ऐसा प्रयोग देखा जाता है ।
अतीत और अनागत कालसे चूंकि भाव संज्ञावाला वर्तमान काल कालस्वरूपसे अभिन्न
है, अतः काल और भावकी एकतामें कोई विरोध नहीं है ।

शंका — इस व्याख्यानसे जघन्य परमावधिका काल नहीं सूचित किया गया है,
वह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—‘ परमावधिका असंख्यात समय-काल है, ’ इस सूत्रसे वह जाना

१ प्रतिपु ‘ अविसदत्थे ’ इति पाठः ।

२ स. सि. १, ५. स. रा. १, ५, ८.

समयकालो ' ति सुत्तादो लब्भदे । खेतोवमअगणिजीवेहि, क्षेत्रोपमाश्च ते अग्निजीवाश्च क्षेत्रोपमाग्निजीवाः, तेहि खेतोवमागणिजीवेहि सलागभूदेहि जं सिद्धं पोग्गलद्ववं तं लहदि जाणदि । रूवयद-विसेसणं किमट्ठं ? अरूविदव्वपडिसेहट्ठं । जदि रूविदव्वस्सेव एदेण परिच्छेदो कीरदि तो ण तीदाणागय-वट्ठमाणपज्जायाणमेदेण परिच्छेदो कीरदे, तेसिं रूवित्ता-भावादो । तदभावो वि दव्वत्ताभावादो ति ? ण एस दोसो, तेसिं पोग्गलपज्जायाणं कथंचि रूविदव्वत्तसिद्धीदो । एसो रूवयदसदो मज्झदीवओ ति हेट्ठोवरिमोहिणाणेषु सव्वत्थ जोज्जे-यव्वो । एदेण दव्वपरूवणा कदा ।

संपहि एदीए गाहाए सूचिदत्थस्स णिण्णयट्ठमिमा परूवणा कीरदे । तं जहा—सुहुमतेउकाइयअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो । तं वादरतेउ-क्काइयपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहाणाए ततो असंखेज्जगुणाए सोहिय सुद्धेससम्मि जहण्णो-गाहणवियप्पागमणट्ठं रूवं पक्खिविय सामण्णतेउक्काइयरासिम्मि गुणिदे खेतोवमअगणिजीव-

जाता है ।

क्षेत्रोपम अग्नि जीव—क्षेत्रोपम ऐसे वे अग्नि जीव क्षेत्रोपम अग्नि जीव हैं । उन शलाकाभूत क्षेत्रोपम अग्नि जीवोंसे जो पुद्गल द्रव्य सिद्ध है उसे परमावधि प्राप्त करता है अर्थात् जानता है ।

शंका—रूपगत विशेषण किस लिये दिया है ?

समाधान—अरूपी द्रव्यका प्रतिषेध करनेके लिये रूपगत विशेषण दिया है ।

शंका—यदि इसके द्वारा केवल रूपी द्रव्यका ही ग्रहण किया जाता है तो फिर इससे अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंका ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि, वे रूपी नहीं हैं । रूपीपनेका अभाव भी उनमें द्रव्यत्वके अभावसे है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उन पुद्गलपर्यायोंके कथंचित् रूपी द्रव्यत्व सिद्ध है ।

यह रूपगत शब्द चूंकि मध्यदीपक है, अतएव इसे अधस्तन और उपरिम अवधि-ज्ञानोंमें सर्वत्र जोड़ लेना चाहिये । इस व्याख्यान द्वारा द्रव्यप्ररूपणा की गई है ।

अब इस गाथा द्वारा सूचित अर्थके निर्णयार्थ यह प्ररूपणा की जाती है । वह इस प्रकार है—सूक्ष्म तेजकायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना अंगुलके असंख्यातवें भाग है । उसे उससे असंख्यातगुणी वादर तेजकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनामेंसे कम करके शेषमें जघन्य अवगाहनाके विकल्पोंको लानेके लिये एक रूपका प्रक्षेप करके सामान्य तेज-कायिक राशिको गुणित करनेपर क्षेत्रोपम अग्नि जीवोंका प्रमाण होता है । यह परमावधिके

पमाणं होदि । एसो परमोहीए दव्व-खेत्त-काल-भावाणं सलागरासि त्ति पुध ड्वेदव्वो । पुणो दो आवलियाए असंखेज्जदिभागा समसंखा, ते वि पुध ड्वेदव्वो । तत्थ दाहिणपासट्ठियस्स पडिगुणगारो अवड्ढिदगुणगारो त्ति दोणिण णामाणि । तत्थ जो सो वामपासट्ठिदो तस्स खेत्त-कालगुणगारो अणवड्ढिदगुणगारो त्ति दोणिण णामाणि । एवं ठविय तदो देसोहिउक्कस्सदव्व-मवड्ढिदविरलणाए समखंडं करिय दिण्णे तत्थ एगरूवधरिदं परमोहिजहण्णदव्वं होदि^१ । देसोहि-उक्कस्सभावे तप्पाओग्गअसंखेज्जरूवेहि गुणिदे परमोहीए जहण्णभावो होदि । देसोहीए उक्कस्सखेत्तं लोमणवड्ढिदगुणगारेण गुणिदे परमोहीए जहण्णं खेत्तं होदि । पुणो समऊण-पल्लमुक्कस्सदेसोहिकालं तेणेव अणवड्ढिदगुणगारेण गुणिदे परमोहिजहण्णकालो होदि । सलागार्हितो एगरूवमवणेदव्वं । पुणो परमोहिजहण्णदव्वमवड्ढिदविरलणाए समखंडं करिय दिण्णे तत्थ एगखंडं परमोहीए विदियदव्ववियप्पो होदि । परमोहीए जहण्णभावं तप्पाओग्ग-असंखेज्जरूवेहि गुणिदे तस्सेव विदियवियप्पो होदि । पुणो परमोहिजहण्णखेत्तं पडिगुणगारेण गुणिदेहेड्ढिभवियप्पगुणगारेण गुणिदे परमोहिखेत्तस्स विदियवियप्पो होदि । एदेणेव गुणगारेण

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी शलाका राशि है; अतः उसे पृथक् स्थापित करना चाहिये । पुनः समान संख्यावाले आवलीकेदो असंख्यात भागोंको लेकर उन्हें भी पृथक् स्थापित करना चाहिये । उनमेंसे दाहिने पार्श्वमें स्थित राशिको प्रतिगुणकार व अवस्थित गुणकार इस प्रकार दो संज्ञायें हैं । उनमें जो वह वाम पार्श्वमें स्थित है उसके क्षेत्र-कालगुणकार और अनवस्थित गुणकार ये दो नाम हैं । इस प्रकार स्थापित करके पश्चात् देशावधिके उत्कृष्ट द्रव्यको अवस्थित विरलनासे समखण्ड करके देनेपर उनमें एक रूपधरित परमावधिका जघन्य द्रव्य होता है । देशावधिके उत्कृष्ट भावको उसके योग्य असंख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर परमावधिका जघन्य भाव होता है । देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र लोकको अनवस्थित गुणकारसे गुणित करनेपर परमावधिका जघन्य क्षेत्र होता है । पुनः एक समय कम पल्य रूप देशावधिके उत्कृष्ट कालको उसी अनवस्थित गुणकारसे गुणित करनेपर परमावधिका जघन्य काल होता है । शलाकाओंमेंसे एक रूप कम करना चाहिये । पुनः परमावधिके जघन्य द्रव्यको अवस्थित विरलनासे समखण्ड करके देनेपर उनमें एक खण्ड परमावधिका द्वितीय द्रव्यविकल्प होता है । परमावधिके जघन्य भावको उसके योग्य असंख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर उसका ही द्वितीय विकल्प होता है । पुनः परमावधिके जघन्य क्षेत्रको प्रतिगुणकारसे गुणित अधस्तन विकल्पके गुणकारसे गुणित करनेपर परमावधिके क्षेत्रका द्वितीय विकल्प होता है । इसी गुणकारसे परमावधिके जघन्य कालको गुणित करनेपर

१ देशावहिवरदव्वं धुवहारेणवहिदे हवे नियमा । परमावहिस्स अवरं दव्वपमाणं तु जिणदिट्ठं ॥
परमावहिस्स मेदा सगउगाहणवियप्पहदतेज । चरिमे हारपमाणं जेहस्स य होदि दव्वं तु ॥ गो. जी. ४१३-४१४.

परमोहिजहणकाले गुणिदे कालस्स विदियवियप्पो होदि । सलागासु एगरूवमवणेदव्वं । पुणो विदियवियप्पजहणदव्वमवड्ढिविरलणाए समखंडं करिय दिण्णे तत्थ एगखंडं तदिय-
वियप्पदव्वं होदि । विदियवियप्पभावे तप्पाओरगअसंखेज्जरूवेहि गुणिदे तदियवियप्पभावो
होदि । अवड्ढिदगुणगारगुणिदविदियवियप्पगुणगारेण विदियवियप्पखेत्त-काले गुणिदे तदिय-
वियप्पखेत्त-काला होंति । सलागासु अण्णेगरूवमवणेदव्वं । चउत्थ-पंचम-छट्ठ-सत्तमादि-
वियप्पाणमेवं चेव णेदव्वं । णत्थि एत्थ कोच्छि विसेसो । एवं गच्छमाणे अणवड्ढिदगुणगारो
कम्हि उद्देसे घणलोगमेत्तो होदि ति वुत्ते वुच्चदे— आवलियाए असंखेज्जदिभागस्स
छेदणएहि लोणछेदणए ओवट्ठिय लद्धमेत्तमद्धाने गदे अणवड्ढिदगुणगारो लोणमेत्तो होदि,
विरलणरासिमेत्तअवड्ढिदगुणगाराणमण्णोण्णवत्थरासिस्स तत्थुवलंभादो । तदो प्पहुडि उवरि
सव्वत्थ अणवड्ढिदगुणगारो असंखेज्जलोणमेत्तो होदि, वियप्पं पडि अवड्ढिदगुणगारेण गुणिज्ज-
माणत्तादो । एवं णेदव्वं जाव परमोहीए दुचरिमवियप्पो ति ।

संपधि चरिमवियप्पो उच्चदे— परमोहीए दुचरिमदव्वमवड्ढिविरलणाए समखंडं

कालका द्वितीय विकल्प होता है । शलाकाओंमेंसे एक रूप कम करना चाहिये । पुनः
द्वितीय विकल्प रूप जघन्य द्रव्यको अवस्थित विरलनासे समखण्ड करके देनेपर उनमें
एक खण्ड तृतीय विकल्प रूप द्रव्य होता है । द्वितीय विकल्प रूप भावको उसके योग्य
असंख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर तृतीय विकल्प रूप भाव होता है । अवस्थित गुणकारसे
गुणित द्वितीय विकल्पके गुणकारसे द्वितीय विकल्पभूत क्षेत्र व कालको गुणित करनेपर
तृतीय विकल्प रूप क्षेत्र व काल होते हैं । शलाकाओंमेंसे अन्य एक रूप कम करना
चाहिये । चतुर्थ, पंचम, छठे और सातवें आदि विकल्पोंको इसी प्रकार ही ले जाना
चाहिये, क्योंकि, यहां कोई भी विशेषता नहीं है ।

शंका — इस प्रकार जानेपर अनवस्थित गुणकार किस स्थानमें घनलोक मात्र
होता है ?

समाधान — इस प्रकार पूछनेपर उत्तर कहते हैं— आवलीके असंख्यातवें भागके
अर्धच्छेदोंसे लोकके अर्धच्छेदोंको अपवर्तित करके लब्ध मात्र अध्वान जानेपर अनवस्थित
गुणकार लोक मात्र होता है, क्योंकि, विरलन राशि मात्र अवस्थित गुणकारोंकी
अन्योन्याभ्यस्त राशि वहां पायी जाती है ।

वहांसे लेकर ऊपर सर्वत्र अनवस्थित गुणकार असंख्यात लोक मात्र होता है,
क्योंकि, प्रत्येक विकल्पके प्रति वह अवस्थित गुणकारसे गुणिज्यमान है । इस प्रकार
परमावधिके द्विचरम विकल्प तक ले जाना चाहिये ।

भव अन्तिम विकल्पको कहते हैं— परमावधिके द्विचरम द्रव्यको अवस्थित

करिय दिण्णे चरिम- [दव्व-] वियप्पो होदि । दुचरिमभावं तप्पाओग्गअसंखेज्जरूवेहि गुणिदे परमोहीए चरिमभावो होदि । परमोहीए असंखेज्जलोगमेत्तदुचरिमअणवट्ठिदगुणगारमण्णेण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिय तेण गुणिदरासिणा दुचरिमखेत्त-काले गुणिदे परमोहीए उक्कस्सखेत्त उक्कस्सकालो च होदि । सलागासु एगरूवमवणिदे सव्वसलागाओ एत्थ णिड्ढिदाओ । खेतोवमअगणिजीवेहि देसोहिउक्कस्सदव्व-खेत्त-काल-भावाणं खंडण-गुणणवार-सलागाहि सोहिददव्व-खेत्त-काल-भावे उक्कस्सपरमोही जाणदि त्ति सिद्धं । तेण देसोहीए पुव्वं णमोक्कारो कदो, पच्छा परमोहीए ।

णमो सव्वोहिजिणाणं ॥ ४ ॥

सर्वं विश्वं कृत्स्नमवधिर्मर्यादा यस्य स बोधः सर्वावधिः । एत्थ सव्वसदो सयलदव्व-वाचओ ण धेत्तव्वो, परदो अविज्जमाणदव्वस्स ओहिताणुववत्तीदो । किंतु सव्वसदो सव्वेगदेसमिह रूवयदे वट्ठमाणो धेत्तव्वो । तेण सव्वरूवयदं ओही जिस्से^१ त्ति संबंधो कायव्वो । अधवा, सरति गच्छति आकुंचन-विसर्पणादीनीति पुद्गलद्रव्यं सर्वं, तमोही जिस्से^१ सा सव्वोही । असेससंसारि-

चिरलनासे समखण्ड करके देनेपर अन्तिम द्रव्यविकल्प होता है । द्विचरम भावको उसके योग्य असंख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर परमावधिका अन्तिम भाव होता है । परमावधिके असंख्यात लोक मात्र द्विचरम अनवस्थित गुणकारको अन्य आवलीके असंख्यातवै भागसे गुणित करके उस गुणित राशिसे द्विचरम क्षेत्र और कालको गुणित करनेपर परमावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल होता है । शलाकाओंमेंसे एक रूप कम करनेपर सब शलाकायें यहां समाप्त हो जाती हैं । क्षेत्रोपम अग्नि जीवोंसे देशावधिके उत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी खण्डन और गुणन रूप वारशलाकाओंसे शोधित द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको उत्कृष्ट परमावधि जानता है, यह सिद्ध हुआ । इसीलिये देशावधिको पूर्वमें नमस्कार किया है, पश्चात् परमावधिको ।

सर्वावधि जिनोंको नमस्कार हो ॥ ४ ॥

विश्व और कृत्स्न ये सर्व शब्दके समानार्थक शब्द हैं । सर्व है मर्यादा जिस ज्ञानकी वह सर्वावधि है । यहां सर्व शब्द समस्त द्रव्यका वाचक नहीं ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, जिसके पर अन्य द्रव्य न हो उसके अवधिपना नहीं बनता । किन्तु सर्व शब्द सबके एक देश रूप रूपी द्रव्यमें वर्तमान ग्रहण करना चाहिये । इसलिये सर्व रूपगत है अवधि जिसकी, इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये । अथवा, जो आकुंचन और विसर्पणादिकोंको प्राप्त हो वह पुद्गल द्रव्य सर्व है, वही जिसकी मर्यादा है वह सर्वावधि है ।

जीव-पोगलदव्वपरिच्छेदकारित्तादो परमोहिजिणेहिंतो महल्लणं सव्वोहिजिणाणं किमिदि पुच्चमेव णमोक्कारो ण कदो ? ण, सव्वोहिमहल्लत्तावगमणगुणेण सव्वोहीदो परमोहीए महल्लत्तं पेक्खिय तिससे पुच्चं णमोक्कारविहाणादो । कथं परमोहीदो सव्वोहिमहल्लत्तसवगम्मदे ? उच्चदे— परमोहिउक्कस्सदव्वमवड्ढिविरलणाए समखंडं करिय दिण्णे रूवं पंडि एगेगो परमाणू पावदि, सो सव्वोहीए विसओ । एत्थ जहण्णुक्कस्स-तव्वदिरित्तवियप्पा णत्थि, सव्वोहीए एयवियप्पादो' । परमोहिउक्कस्सभावं तप्पाओगगअसंखेज्जरूवेहि गुणिदे सव्वोहीए उक्कस्सभावो होदि । परमोहिउक्कस्सखेत्तं तप्पाओगगअसंखेज्जलोमेहि गुणिदे सव्वोहीए उक्कस्सखेत्तं होदि । सव्वोहिउक्कस्सखेत्तुप्पायणड्ढं परमोहिउक्कस्सखेत्तं तिससे चैव चरिम-अणवड्ढिदगुणगारेण आवलियाए असंखेज्जदिभागपदुप्पणेण गुणिज्जदि त्ति के वि भणंति । तण्ण घड्ढे, परियम्मे वुत्तओहिणिवद्धखेत्ताणुप्पत्तीदो । तं जहा— परमोहिखेत्तपरूवणा ताव

शंका—चूंकि सर्वावधि जिन समस्त संसारी जीव और पुद्गल द्रव्यको जानते हैं, अतः परमावधिजिनोंकी अपेक्षा महान् होनेसे उन्हें ही पूर्वमें नमस्कार क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं किया, क्योंकि, सर्वावधिके महत्त्वका ज्ञान कराने रूप गुणसे सर्वावधिकी अपेक्षा परमावधिके महत्त्वको देखकर उसे पहिले नमस्कार किया है ।

शंका—परमावधिकी अपेक्षा सर्वावधिकी महत्ता कैसे जानी जाती है ?

समाधान—इस शंकाका उत्तर देते हैं— परमावधिके उत्कृष्ट द्रव्यको अवस्थित विरलनासे समखण्ड करके देनेपर रूपके प्रति जो एक एक परमाणु प्राप्त होता है, वह सर्वावधिका विषय है । यहाँ जघन्य, उत्कृष्ट और तद्व्यतिरिक्त विकल्प नहीं हैं, क्योंकि, सर्वावधि एक विकल्प रूप है । परमावधिके उत्कृष्ट भावको उसके योग्य असंख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर सर्वावधिका उत्कृष्ट भाव होता है । परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रकों उसके योग्य असंख्यात लोकोंसे गुणित करनेपर सर्वावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है । सर्वावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रको उत्पन्न करानेके लिये परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रको आवलीके असंख्यातवें भागसे उत्पन्न उसके ही अन्तिम अनवस्थित गुणकारसे गुणा किया जाता है, ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । किन्तु वह वदित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर परिकर्ममें कहे हुए अवधिसे निवद्ध क्षेत्र नहीं बनते । वह इस प्रकारसे— पहिले परमावधिके क्षेत्रकी प्ररूपणा करते हैं । तेजकायिक जीवोंके अव-

कीरदे, अगणिकाइयओगाहणट्ठाणगुणिदअगणिकाइयजीवरासिं गच्छं काऊण एगादिएगुत्तर-
संकलणमाणिदे तेउक्काइयरासिवग्गमइच्छिदूण तदुवरिमवग्गादो हेड्डा एसो रासी उप्पज्जदि ।
एदं सलागसंकलणरासिं विरलेदूण आवलियाए असंखेज्जदिभागं रूवं पडि दादूण अण्णोण्णगुणं
करिय देसोहिउक्कस्सखेत्तं घणलोगं गुणिदे परमोहिउक्कस्सखेत्तं होदि । एदस्स अद्धाणगवे-
सणा कीरदे — विरलणरासिछेदणया दिण्णरासिछेदणयजुदा उप्पण्णरासिस्स वग्गसलागा होति ।
विरलणरासिछेदणया णाम एत्थ तेउक्काइयाणमद्धच्छेदणेहिंतो दुगुणा सादिरेया, तेउक्काइय-
रासिवग्गवग्गादो हेड्डा द्विरासिमद्धच्छेदणए कदे समुप्पण्णत्तादो । केहि एत्थ सादिरेयत्तं ?
ओगाहणट्ठाणवग्गद्धच्छेदणएहि दिज्जमाणरासिवग्गसलागाहि य । एदेसु पक्खित्तसु आदिवग्ग-
प्पहुडि परमोहिखेत्तस्स चडिदद्धाणं होदि । एदं चडिदद्धाणं तेउक्काइयरासिअद्धच्छेदणेहिंतो
दुगुणसादिरेयमेत्तं तेउक्काइयरासिवग्गसलागाहि छिंदिय अद्धरूपूणेण तेउक्काइय-
रासिवग्गसलागाओ गुणिदे तेउक्काइयरासीदो उवरि चडिदद्धाणं होदि । एदं

गाहनास्थानोंसे गुणित तेजकायिक जीवोंकी राशिको गच्छ करके एकको आदि लेकर एक
एक अधिक संकलनके [जैसे—प्रथम स्थानमें १, द्वि. में १+२=३, तृ. में १+२+३=६, च. में
१+२+३+४=१० इत्यादि] लानेपर तेजकायिक राशिके वर्गको लांघकर उससे उपरिम
वर्गके नीचे यह राशि उत्पन्न होती है । इस शलाका संकलन राशिका विरलन करके
आवलीके असंख्यातवें भागको प्रत्येक रूपके प्रति देकर परस्पर गुणित करके उससे देशा-
वधिके उत्कृष्ट क्षेत्र घनलोकको गुणित करनेपर परमावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है । इसके
अध्वानकी खोज करते हैं—देय राशिके अर्धच्छेदोंसे युक्त विरलन राशिके अर्धच्छेद
उत्पन्न राशिकी वर्गशलाका होते हैं । विरलन राशिके अर्धच्छेद यहां तेजकायिक जीवोंके
अर्धच्छेदोंसे कुछ अधिक दूने हैं, क्योंकि, वे तेजकायिक राशिके वर्गके वर्गसे नीचे स्थित
राशिके अर्धच्छेद करनेपर उत्पन्न होते हैं ।

शंका—किनसे यहां अधिकता है, अर्थात् उस अधिकताका प्रमाण क्या है ?

समाधान—अवगाहनास्थानके वर्गके अर्धच्छेद और दीयमान राशिकी वर्ग-
शलाकाओंसे यहां अधिकता है ।

इनका प्रक्षेप करनेपर आदिके वर्गसे लेकर परमावधिके चडित अध्वान होता है ।
तेजकायिक राशिके अर्धच्छेदोंसे कुछ अधिक दुगुणे मात्र इस चडित अध्वानको तेजकायिक
राशिकी वर्गशलाकाओंसे खण्डित कर अर्ध रूप कम इससे तेजकायिक राशिकी वर्ग-
शलाकाओंको गुणित करनेपर तेजकायिक राशिसे ऊपर चडित अध्वान होता है । यह परमा-

१ आवलिअसंखमागा इच्छिदगच्छघणमाणमेत्ताओ । देसावहिस्स खेत्ते काले वि य होति संवग्गे ॥

गो. जी. ४१७.

छ. क. ७.

परमोहिउक्कस्सखेत्तं तेउक्काइयकायट्ठिदीदो थोवं, तेउक्काइयअद्धच्छेदणेहिंतो दुगुण-
सादिरेयमेत्तवग्गसलागत्तादो । तेउक्काइयकायट्ठिदी बहुआ, तेउक्काइयरासीदो उवरि असं-
खेज्जलोगमेत्तवग्गट्ठाणाणि गंतूणुप्पण्णवग्गसलागत्तादो । एदं परमोहिउक्कस्सखेत्तं तेउ-
क्काइयकायट्ठिदीदो हेट्ठा असंखेज्जलोगमेत्तवग्गट्ठाणाणि ओसरिय ट्ठिदं आवलियाए असंखे-
ज्जदिभागगुणिदपरमोहिचरिमअणवट्ठिदगुणगारेण गुणिदे ओहिणिवद्धखेत्तं ण उप्पज्जदि,
परमोहिखेत्तस्स असंखेज्जदिभागेणेदेण गुणगारेण परमोहिखेत्ते गुणिदे तदुवरिमवग्गस्स वि
अणुप्पत्तीदो । पुणो केदहो गुणगारो होदि त्ति वुत्ते वुच्चदे — परमोहिखेत्तेण तेउक्काइय-
कायट्ठिदि-ओहिणिवद्धखेत्तणोण्णगुणगारवग्गद्धछेदणयसलागाणमुवरि असंखेज्जलोगमेत्तवग्ग-
ट्ठाणाणि गंतूण ट्ठिदओहिणिवद्धखेत्तम्मि भागे हिदे लद्धमेत्तो गुणगारो होदि, ण अण्णो;
उत्तदोसप्पसंगादो । परमोहिकालं पि तप्पाओग्गअसंखेज्जरूवेहि गुणिदे सव्वोहिउक्कस्स-
कालो होदि । एसो एक्को चेव लोगो, परमोहि-सव्वोहीओ असंखेज्जलोगे जाणंति त्ति कथं
घड्ढे ? ण एस दोसो, सव्वो पोग्गलरासी जदि' असंखेज्जलोगे आवूरिऊण अवचेट्ठदि तो

वधिका उत्कृष्ट क्षेत्र तेजकायिक जीवोंकी कायस्थितिसे स्तोक है, क्योंकि, तेजकायिक राशिके
अर्धच्छेदोंसे कुछ अधिक दुगुणे प्रमाण उसकी वर्गशलाकायें हैं । तेजकायिकोंकी काय-
स्थिति बहुत है, क्योंकि, तेजकायिक राशिसे ऊपर असंख्यात लोक मात्र वर्गस्थान जाकर
उसकी वर्गशलाकायें उत्पन्न होती हैं । तेजकायिकोंकी कायस्थितिसे नीचे असंख्यात लोक
मात्र वर्गस्थानोंको छोड़कर स्थित इस परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रको आवलीके असंख्यातवें
भागसे गुणित परमावधिके अन्तिम अनवस्थित गुणकारसे गुणा करनेपर अवधिनिबद्ध
क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि, परमावधिके क्षेत्रके असंख्यातवें भाग रूप इस गुणकारसे
परमावधिके क्षेत्रको गुणित करनेपर उसका उपरिम वर्ग भी नहीं उत्पन्न होता ।

शंका— तो फिर कितना गुणकार है ?

समाधान—ऐसा पूछनेपर कहते हैं— परमावधिके क्षेत्रका तेजकायिकोंकी काय-
स्थिति और अवधिनिबद्ध क्षेत्रके परस्पर गुणकारके वर्गकी अर्धच्छेद शलाकाओंके ऊपर
असंख्यात लोक मात्र वर्गस्थान जाकर स्थित अवधिनिबद्ध क्षेत्रमें भाग देनेपर जो लब्ध
हो उतने मात्र गुणकार होता है, अन्य नहीं; क्योंकि, उक्त दोषका प्रसंग आता है ।

परमावधिके कालको उसके योग्य असंख्यात रूपोंसे गुणा करनेपर सर्वावधिका
उत्कृष्ट काल होता है ।

शंका— यह एक ही लोक है, परमावधि और सर्वावधि असंख्यात लोकोंको
जानते हैं, यह कैसे घटित होता है ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यदि सब पुद्गल राशि असंख्यात

वि जाणंति त्ति तेसिं सत्तिप्पदंसणादो । परमोहि-सव्वोहीणं जिणत्ताविणाभाविणीणं किमड्ढं जिणविसेसणं कीरेदे ? सच्चमेदं, किंतु एत्थ सव्व-परमोहीओ विसेसणं जिणा विसेसियं, अणेय-पयाराणमाहारत्तादो । तेण ण दोसो त्ति सिद्धं । सर्वावधयश्च ते जिनाश्च सर्वावधिजिनाः, तेभ्यो नमः ।

णमो अणंतोहिजिणाणं ॥ ५ ॥

अणंते त्ति उत्ते उक्कस्सअणंतस्स गहणं, दव्वड्डियणयावलंबणादो । सो उक्कस्साणंतो ओही जस्स सो' अणंतोही । ओही णाम' वत्थुणिबंधणा । ण च एत्थ उक्कस्साणंतादो बज्झं किं पि अत्थि, तम्हा उक्कस्साणंतस्स ओहित्तं ण जुज्जदि त्ति ? ण, ओही व ओहि त्ति उव-यारेण उक्कस्साणंतस्स ओहित्तविरोहाभावादो । ओही किमुक्कस्साणंतादो पुधभूदा आहो

लोकोंको पूर्ण करके स्थित हो तो भी वे जान लेंगे । इस प्रकार उनकी शक्तिका प्रदर्शन किया गया है ।

शंका—जिनत्वके साथ अविनाभाव रखनेवाले परमावधि और सर्वावधिके जिन विशेषण किसलिये किया जाता है ?

समाधान—यह सत्य है, किन्तु यहां सर्वावधि और परमावधि विशेषण हैं और जिन विशेष्य है, क्योंकि, वे अवधिज्ञानके अनेक प्रकारोंके आधार हैं, अतएव उक्त विशेषण-विशेष्य भावमें कोई दोष नहीं है, यह सिद्ध है ।

सर्वावधि रूप जो जिन हैं वे सर्वावधि जिन हैं, उनके लिये नमस्कार हो ।

अनन्तावधि जिनोंको नमस्कार हो ॥ ५ ॥

‘अनन्त’ इस प्रकार कहनेपर उत्कृष्ट अनन्तका ग्रहण है, क्योंकि, यहां द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन है । वह उत्कृष्ट अनन्त है अवधि जिसकी वह अनन्तावधि है ।

शंका—अवधि वस्तु निमित्तक होती है । और यहां उत्कृष्ट अनन्तसे बाह्य कोई भी वस्तु है नहीं, अतः उत्कृष्ट अनन्तको अवधिपना उचित नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ‘अवधिके समान जो है वह अवधि है’ इस प्रकार उपचारसे उत्कृष्ट अनन्तको अवधि माननेमें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—अवधि क्या उत्कृष्ट अनन्तसे पृथग्भूत है, अथवा उत्कृष्ट अनन्त ही अवधि

१ प्रतिष्ठ ‘ओहि विस्स सो’ इति पाठः ।

२ अप्रती ‘णामादो’, आ-काप्रत्योः ‘णामदो’ इति पाठः ।

उक्कस्साणंतो चेव ओहि ति ? ण पढमपक्खो, उक्कस्साणंतादो वदिस्सिदव्व-पज्जायाण-
मणुवलंभादो । ण च उक्कस्साणंतो चेव ओही, उक्कस्साणंतस्स दोसु वि पासेसु अण्णेसि-
मभावेण तस्स ओहित्तविरोहादो ति ? ण पढमपक्खो, अणव्भुवगमादो । ण विदियपक्खुत्तदोसो
वि संभवदि, अभिविहिग्गहणादो । ण च एककम्हि दुब्भावो विरुज्झदे, अणेयंते एककम्हि
तदविरोहादो । अधवावयविणासाणं वाचओ अंतसदो धेत्तव्वो । ओही मज्जाया उक्कस्साणं-
तादो पुधभूदा । अन्तश्च अवधिश्च अन्तावधी, न विद्यते तौ यस्य स अनन्तावधिः । अभेदा-
ज्जीवस्यापीयं संज्ञा । अनन्तावधयश्च ते जिनाश्च अनन्तावधिजिनाः । तेभ्यो नमः ।

अणंतोहिजिणा णाम केवलणाणिणो, तदो ते सव्वजिणेहितो महल्ला । तेसिं पुव्वमेव
णमोक्कारो किण्ण कदो ? ण, केवलणाणमहल्लत्तजाणावणगुणेण केवलणाणादो महल्लाए
सव्वोहीए पुव्वमेव णमोक्कारकरणे विरोहाभावादो । मिच्छत्तादो सम्मतस्स माहप्पं जाणि-
ज्जदि ति सम्मतभत्तीए मिच्छत्तस्स णमोक्कारो किण्ण कीरदे ? ण एस दोसो,

है ? इनमें प्रथम पक्ष तो वनता नहीं है, क्योंकि, उत्कृष्ट अनन्तको छोड़कर द्रव्य व उनकी
पर्यायें पायी नहीं जातीं । और वह उत्कृष्ट अनन्त ही हो सो भी नहीं है, क्योंकि, उत्कृष्ट
अनन्तके दोनों ही पार्श्व भागोंमें अन्य वस्तुओंका अभाव होनेसे उसे अवधि माननेमें
विरोध है ?

समाधान—शंकाकारने जिन दो पक्षोंमें दोष दिखाये हैं उनमेंसे प्रथम पक्ष तो है
ही नहीं, क्योंकि, वैसा स्वीकार ही नहीं किया गया । द्वितीय पक्षमें कहा गया दोष भी
सम्भव नहीं है, क्योंकि, यहां अभिविधिका ग्रहण है । दूसरी बात यह कि एक वस्तुमें द्वित्वका
विरोध भी नहीं है, क्योंकि, अनेकान्तका आश्रय कर एकमें द्वित्वका अविरोध है । अथवा,
यहां अवयविनाशोंका वाचक अन्त शब्द ग्रहण करना चाहिये । अवधिका अर्थ मर्यादा
है । वह उत्कृष्ट अनन्तसे पृथग्भूत है । अन्त और अवधि जिसके नहीं हैं वह अनन्तावधि
है । अभेद होनेसे जीवकी भी यह संज्ञा है । अनन्तावधि रूप जो जिन वे अनन्तावधि
जिन हैं, उनको नमस्कार हो ।

शंका—अनन्तावधिका अर्थ केवलज्ञानी है, इसलिये वे सर्वावधि जिनोंसे महान्
हैं । उनको पहिले ही नमस्कार क्यों नहीं किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, केवलज्ञानके माहात्म्यका ज्ञान कराने रूप गुणकी
अपेक्षा केवलज्ञानसे सर्वावधि महान् है । अतएव उसे पहिले ही नमस्कार करनेमें कोई
विरोध नहीं है ।

शंका—मिथ्यात्वसे चूंकि सम्यक्त्वका माहात्म्य जाना जाता है, अतः सम्यक्त्वकी
भक्तिमें मिथ्यात्वको नमस्कार क्यों नहीं किया जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जिस प्रकार मति, श्रुत और अवधि

जहा सदि-सुद-ओहिणाणेहिंते केवलणाणमाहप्पमवगम्मदे तहा मिच्छतादो सम्मत्तमाहप्पस्स अवगमाभावादो । ण च जो जस्स भत्तो भित्तो वा सो तव्विरोहीणं भत्तिं कुणइ, विरोहादो । पञ्छाणुपुच्चिकमप्पदंसणइं वा देसोहिजिणादीणं पुवं णमोक्कारो कदो । संपवि सुद-मण-पज्जवणाणत्तवाइं मदिणाणपुव्वा इदि कट्टु मइणाणम्मि समुप्पणसंद्धो गोदमभंडारओ उत्तर-सुत्तेहि मदिणाणीणं णमोक्कारं कुणदि—

णमो कोट्टबुद्धीणं ॥ ६ ॥

कोष्ठयः शालि-व्रीहि-यव-गोधूमादीनामाधारभूतः कुस्थली^१ पल्यादिः । सा चसिसैद्व-पज्जायधारणगुणेण कोट्टसमाणा बुद्धी कोट्टो, कोट्टा च सा बुद्धी च कोट्टबुद्धी^१ । एदिस्से अत्थधारणकालो जहण्णेण संखेज्जाणि उक्कस्सेण असंखेज्जाणि वासाणि । कुदो १^१ काल-

ज्ञानोंसे केवलज्ञानका माहात्म्य जाना जाता है उस प्रकार मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वका माहात्म्य नहीं जाना जाता । दूसरे, जो जिसका भक्त अथवा मित्र होता है वह उसके विरोधियोंकी भक्ति नहीं करता है, क्योंकि, ऐसा करनेमें विरोध है । अथवा, पश्चादनुपूर्वी अर्थात् विपरीत क्रम दिखलानेके लिये देशावधि जिनादिकोंको पूर्वमें नमस्कार किया है ।

अब श्रुत और मनःपर्यय ज्ञान तथा तप आदि चूंकि मतिज्ञानपूर्वक होते हैं अतः मतिज्ञानमें श्रद्धा उत्पन्न होनेसे गौतम भट्टारक उत्तर सूत्रोंसे मतिज्ञानियोंको नमस्कार करते हैं—

कोष्ठबुद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो ॥ ६ ॥

शालि, व्रीहि, जौ और गेहूं आदिके आधारभूत कोथली, पल्ली आदिका नाम कोष्ठ है । समस्त द्रव्य व पर्यायोंको धारण करने रूप गुणसे कोष्ठके समान होनेसे उस बुद्धिको भी कोष्ठ कहा जाता है । कोष्ठ रूप जो बुद्धि वह कोष्ठबुद्धि है । इसका अर्घधारण-काल जघन्यसे संख्यात वर्ष और उत्कर्षसे असंख्यात वर्ष है, क्योंकि, 'असंख्यात और

१ प्रतिष्ठु 'कुस्थनी' इति पाठः ।

१ प्रतिष्ठु 'सादासेस-' इति पाठः ।

३ उक्कसिधारणाए जुत्तो पुरिसो गुरुवएसेण । णाणाविहगथेसं वित्थारे लिंगसद्धीनाणि ॥ गहिज्ज णियमदीए मिस्सेण विणा धोवे मदिक्कोट्टे । जो कोइ तस्स बुद्धी णिद्धिक्का कोट्टबुद्धि चि ॥ ति. प. ४, ९७८, ९७९. कौष्ठागारिकस्थापितानामसंकीर्णानामविनष्टानां भूयसां धान्यबीजानां यथा कोष्ठवस्थानं तथा परोपदेशादन-वधारितानामर्थग्रन्थवीजानां भूयसामव्यतिकीर्णानां बुद्धावस्थानं कोष्ठबुद्धिः । त. रा. ३, ३६, २. कोट्टयधनसुनिगठ-सुत्तथा कोट्टबुद्धीथा ॥ प्रवचनसारोद्धार १५०२.

मसंखं संखं च धारणा ' ति सुचुवलंभादो । कुदो एदं होदि ? धारणावरणीयस्स कम्मस्स तिव्वखओवसमादो । बुद्धिमंताणं पि कोट्टबुद्धी सण्णा, गुण-गुणीणं भेदाभावादो । जिणसदो उवरि सव्वत्थ पवाहसरूवेण अणुवट्ठवेदव्वो, अण्णहा सुत्तट्ठाणुवत्तीदो । जदि जिणसदो णुवट्ठदे^१ तो देस-परम-सव्व्वाणंतोहिकिदियकम्मसुत्तेसु किमट्ठं जिणसदो उच्चदे ? ण, तदणु-व्वुत्तिप्पदंसणट्ठं तत्थ तदुत्तीदो । तदो णमो कोट्टबुद्धीणं^२ जिणाणमिदि सिद्धं ! धारणा-मदिणाणजिणाणं णमोक्कारो किण्ण कदो ? ण, कोट्टबुद्धीए अवगाहिदासेसंधारणाणाण-वियप्पाए णमोक्कारे कदे सव्वधारणाणं णमोक्कारसिद्धीदो । मदिणाणादो ओहि-केवलणाणाणं विसयविसेसावगमादो तदुप्पत्तिकारणादो च पुव्वमेव मदिणाणीणं णमोक्कारो किण्ण करेदि ?

संख्यात काल तक धारणा रहती है ' ऐसा सूत्र पाया जाता है ।

शंका—यह कहाँसे होता है ?

समाधान — धारणावरणीय कर्मके तीव्र क्षयोपशमसे होता है ।

उक्त बुद्धिके धारकोंकी भी कोष्ठबुद्धि संज्ञा है, क्योंकि, गुण और गुणीके कोई भेद नहीं है । जिन शब्दकी ऊपर सर्वत्र प्रवाह रूपसे अनुवृत्ति लेना चाहिये, क्योंकि, उसके बिना सूत्रोंका अर्थ नहीं बनता ।

शंका—यदि जिन शब्दकी अनुवृत्ति लेते हैं तो फिर देशावधि, परमावधि, सर्वावधि और अनन्तावधि धारकोंके नमस्कार सूत्रोंमें जिन शब्दका उच्चारण किसलिये किया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिन शब्दकी अनुवृत्तिको दिखलानेके लिये वहाँ जिन शब्द कहा है । इसलिये ' कोष्ठबुद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो ' ऐसा सिद्ध हुआ ।

शंका—धारणामतिज्ञानी जिनोंको नमस्कार क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं किया, क्योंकि, समस्त धारणाज्ञानके विकल्पोंका अवगाहन करनेवाली कोष्ठबुद्धिको नमस्कार करनेपर सब धारणाज्ञानियोंको नमस्कार सिद्ध है ।

शंका—मतिज्ञानसे अवधि और केवल ज्ञानके विषयकी विशेषताका ज्ञान होनेसे तथा उनकी उत्पत्तिका कारण होनेसे पहिले ही मतिज्ञानियोंको नमस्कार क्यों नहीं करते ?

१ अ-आप्रत्योः णुववट्ठदे ' इति पाठः ।

२ अप्रतौ ' तदणुववत्ति ', आप्रतौ ' तदणुववत्ति ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' णमोक्कारं बुद्धीणं ' इति पाठः ।

४ प्रतिषु ' अवगाहदासेस- ' इति पाठः ।

ण, गोमदथेराणमेत्थ एवंविहभावाभावादो । तदभावो कुदो वगम्मदे ? मदिणाणीं पुव्वं किदिकम्माकरणादो । परोक्खं मदिणाणं, ओहि-केवलाणि पच्चक्खाणि; इंदियजं मदिणाणं, ओहि-केवलणाणाणि अणिंदियाणि त्ति मदिणाणादो ओहि-केवलणाणमाहप्पं पेक्खिय तेषिमग्ग-पूजा कदा । गोदमथेरस्स एसो अहिप्पाओ त्ति कधं णव्वदे ? अहिप्पायाविणाभाविवयण-कज्जादो । वीजबुद्धिआदीणमग्गगूजा किण्ण कदा ? ण, तत्तो धारणाए गुणगरिमुवलंभादो । कुदो ? धारणाए विणा वीजबुद्धिआदीणं विहलत्तुवलंभादो ।

णमो वीजबुद्धीणं ॥ ७ ॥

जिणाणमिदि अणुवट्ठदे^१ । तदो णमो वीजबुद्धीणं जिणाणमिदि एद्वहं सुत्तमिदि

समाधान — नहीं करते, क्योंकि, गौतम स्थविरका यहां ऐसा अभिप्राय नहीं है ।

शंका—उनका ऐसा अभिप्राय नहीं रहा, यह कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान—मतिज्ञानियोंको पहिले नमस्कार न करनेसे उनके उक्त अभिप्रायका अभाव जाना जाता है । मतिज्ञान परोक्ष है, किन्तु अवधि और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हैं; मतिज्ञान इन्द्रियजन्य है और अवधि व केवल ज्ञान अतीन्द्रिय हैं; इस प्रकार मतिज्ञानसे अवधि और केवल ज्ञानके माहात्म्यकी अपेक्षा करके उनकी पहिले पूजा की है ।

शंका—गौतम स्थविरका ऐसा अभिप्राय रहा है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—उक्त अभिप्रायके बिना न होनेवाले वचन रूप कार्यसे वह जाना जाता है ।

शंका—वीजबुद्धि आदिके धारकोंकी पहिले पूजा क्यों नहीं की ?

समाधान—नहीं की, क्योंकि, वीजबुद्धि आदिकी अपेक्षा धारणाके गुणगौरव अधिक पाया जाता है । कारण कि धारणाके विना वीजबुद्धि आदिकोंकी विफलता देखी जाती है ।

वीजबुद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो ॥ ७ ॥

यहां 'जिनोंको' पदकी अनुवृत्ति है । इस कारण वीजबुद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो, इस प्रकार इतना सूत्र है; ऐसा ग्रहण करना चाहिये । वीजके समान वीज

संखेज्जं चेव जाणदि त्ति तत्थ णियमाभावादो । णासेसपयत्था सुदणाणेण परिच्छिज्जंति,

पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं ।

पण्णवणिज्जाणं पुण अणंतभागो सुदणिवद्धो' ॥ १७ ॥

इदि वयणादो त्ति उत्ते होदु णाम सयलपयत्थाणमणंतिमभागो दव्वसुदणाणविसओ, भावसुदणाणविसओ पुण सयलपयत्था; अण्णहा तित्थयराणं वागदिसयत्ताभावप्पसंगादो । [वदो] बीजपदपरिच्छेदकारिणी बीजबुद्धि त्ति सिद्धं । बीजपदद्विदपदेसादो हेट्ठिमसुदणाणुप्पत्तीण् कारणं होदूण पच्छा उवरिमसुदणाणुप्पत्तिणिमित्ता बीजबुद्धि त्ति के वि आइरिया भणंति । तण्ण घडदे, कोट्टबुद्धियादिचटुण्हं णाणाणमक्कमेणेक्कम्हि जीवे संव्वदा अणुप्पत्तिप्पसंगादो । तं कथं ? बीजबुद्धिसहिदजीवे ण ताव अणुसारी पडिसारी वा संभवदि, उहय-

ऐसा यहां नियम नहीं है ।

शंका — श्रुतज्ञान समस्त पदार्थोंको नहीं जानता है, क्योंकि,

वचनके अगोचर ऐसे जीवादिक पदार्थोंके अनन्तवें भाग प्रज्ञापनीय अर्थात् तीर्थंकरकी सातिशय दिव्य ध्वनिमें प्रतिपाद्य होते हैं । तथा प्रज्ञापनीय पदार्थोंके अनन्तवें भाग द्वादशांग श्रुतके विषय होते हैं ॥ १७ ॥

इस प्रकारका वचन है ।

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि समस्त पदार्थोंका अनन्तवां भाग द्रव्य श्रुतज्ञानका विषय भले ही हो, किन्तु भाव श्रुतज्ञानका विषय समस्त पदार्थ हैं; क्योंकि, ऐसा माननेके बिना तीर्थंकरोंके वचनातिशयके अभावका प्रसंग होगा । [इसलिये] बीजपदोंको ग्रहण करनेवाली बीजबुद्धि है, यह सिद्ध हुआ ।

बीजपदसे अधिष्ठित प्रदेशसे अधस्तन श्रुतके ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण होकर पीछे उपरिम श्रुतके ज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्त होनेवाली बीजबुद्धि है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । किन्तु वह घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर कोष्ठबुद्धि आदि चार ज्ञानोंकी युगपत् एक जीवमें सर्वदा उत्पत्ति न हो सकनेका प्रसंग आवेगा ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—बीजबुद्धि सहित जीवमें अनुसारी अथवा प्रतिसारी बुद्धि सम्भव

दिसाविसयसुदणाणजणणक्खमबीजबुद्धिमहिद्धिदजीवे वीजबुद्धिविरुद्धाणमणु-पडिसारीणमव-
 द्धाणविरोहादो । णोभयसारी वि, हेद्धिमसुदणाणुप्पत्तीए कारणं होदूणवरिमसुदणाणुप्पत्तीए कारणं
 होदि ति णियमपडिन्नद्धबीजबुद्धिमहिद्धिदजीवे अणियमेणुहयदिसाविसयसुदणाणुप्पायणसहावो-
 भयसारिबुद्धीए अवद्धानविरोहादो । ण च एककम्हि जीवे सव्वदा चदुण्हं धुद्धीणं अणकमेण
 अणुप्पत्ती चेव,

बुद्धि तवो वि य लद्धी विउव्वणलद्धी तहेव ओसहिंया ।

रस-बल-अक्खीणा वि य लद्धीओ सत्त पण्णत्ता ॥ १८ ॥

ति सुत्तगांहाए वक्खाणम्मि गणहरदेवाणं चदुरमलबुद्धीणं दंसणादो । किं च अत्थि
 गणहरदेवेसु चत्तारि बुद्धीओ, अण्णहा दुवालसंगाणमणुप्पत्तिप्पसंगादो । तं कथं ? ण ताव तत्थ
 कोट्टबुद्धीए अभावो, उप्पणसुदणाणस्स अवद्धानेण विणा विणासप्पसंगादो । ण वीजबुद्धीए
 अभावो, ताए विणा अणवगयतिट्ठयरवयणविणिगयअक्खराणक्खरप्पयवहुलिंगालिंगियवीज-

नहीं हैं, क्योंकि, उभय [अधस्तन व उपरिम] दिशा विषयक श्रुतज्ञानके उत्पन्न करनेमें
 समर्थ ऐसी बीजबुद्धिको प्राप्त जीवमें बीजबुद्धिके विरुद्ध अनुसारी और प्रतिसारी
 बुद्धियोंके अवस्थानका विरोध है । उभयसारी बुद्धि भी सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, 'वह अध-
 स्तन श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिका कारण होकर उपरिम श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिका कारण होती है'
 ऐसे नियमसे सम्बद्ध बीजबुद्धि युक्त जीवमें अनियमसे उभय दिशा विषयक श्रुतज्ञानको
 स्वभावसे उत्पन्न करनेवाली उभयसारी बुद्धिके अवस्थानका विरोध है । और एक जीवमें
 सर्वदा चार बुद्धियोंकी एक साथ उत्पत्ति हो ही नहीं, ऐसा है नहीं; क्योंकि,

बुद्धि, तप, विक्रिया, औषधि, रस, बल और अक्षीण, इस प्रकार ऋद्धियां सात
 कही गई हैं ॥ १८ ॥

इस सूत्रगाथाके व्याख्यानमें गणधर देवोंके चार निर्मल बुद्धियां देखी जाती हैं ।
 तथा गणधर देवोंके चार बुद्धियां होती हैं, क्योंकि, उनके विना बारह अंगोंकी उत्पत्ति न
 हो सकनेका प्रसंग आवेगा ।

शंका—बारह अंगोंकी उत्पत्ति न हो सकनेका प्रसंग कैसे होगा ?

समाधान—गणधर देवोंमें कोष्ठबुद्धिका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि, ऐसा होने-
 पर अवस्थानके विना उत्पन्न हुए श्रुतज्ञानके विनाशका प्रसंग आवेगा । बीजबुद्धिका अभाव
 नहीं हो सकता, क्योंकि, उसके विना गणधर देवोंको तीर्थंकरके मुखसे निकले हुए अक्षर

पदानं गणहरदेवाणं दुवालसंगाभावप्पसंगादो । वीजपदसरूवावगमो वीजबुद्धी, ततो दुवाल-संगुप्पत्ती । ण च ताए विणा तमुप्पज्जदि, अइप्पसंगादो । ण च तत्थ पदानुसारिसण्णिद-णाणाभावो, वीजबुद्धीए अवगयसरूवेहिंतो कोट्टबुद्धीए पत्तावट्ठाणेहिंतो वीजपदेहिंतो ईहावाएहि विणा वीजपदुभयदिसाविसयसुदणाणक्खर-पद-वक्क-तदट्ठविसयसुदणाणुप्पत्तीए अणुववत्तीदो । ण संभिण्णसोदारत्तस्स अभावो, तेण विणा अक्खराणक्खरप्पांए सत्तसदट्ठारसकुभास-भाससरूवाए णाणाभेदभिण्णवीजपदसरूवाए पडिक्खणमण्णणभावमुवगच्छंतीए दिव्वज्जुणीए गहणाभावादो दुवालसंगुप्पत्तीए अभावप्पसंगो ति । तम्हा वीजपदसरूवाव-गमो वीजबुद्धि ति सिद्धं । ततो भेदाभावादो जीवो वि वीजबुद्धी । तेसिं वीजबुद्धीणं जिणाणं णमो इदि वुत्तं होदि । एसा कुदो होदि ? विसिद्धोग्गहावरणीयक्खओवसमादो ।

णमो पदानुसारीणं ॥ ८ ॥

और अनक्षर स्वरूप बहुत लिंगालिङ्गिक वीजपदोंका ज्ञान न होनेसे द्वादशांगके अभावका प्रसंग आवेगा । वीजपदोंके स्वरूपका जानना वीजबुद्धि है, इससे द्वादशांगकी उत्पत्ति होती है । उस वीजबुद्धिके बिना द्वादशांगकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि, ऐसा होनेमें अतिप्रसंग आता है । उनमें पदानुसारी नामक ज्ञानका अभाव नहीं है, क्योंकि, वीज-बुद्धिसे जाना गया है स्वरूप जिनका तथा कोष्ठबुद्धिसे प्राप्त किया है अवस्थान जिन्होंने ऐसे वीजपदोंसे ईहा और अचायके बिना वीजपदकी उभय दिशा विषयक श्रुतज्ञान तथा अक्षर, पद, वाक्य और उनके अर्थ विषयक श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति बन नहीं सकती । उनमें संभिन्नश्रोतृत्वका अभाव नहीं है, क्योंकि, उसके बिना अक्षरानक्षरात्मक, सात सौ कुभापा और अठारह भाषा स्वरूप, नाना भेदोंसे भिन्न वीजपद रूप, व प्रत्येक क्षणमें भिन्न भिन्न स्वरूपको प्राप्त होनेवाली ऐसी दिव्यध्वनिका ग्रहण न होनेसे द्वादशांगकी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग होगा ।

इस कारण वीजपदोंके स्वरूपका जानना वीजबुद्धि है, ऐसा सिद्ध हुआ । उक्त बुद्धिसे भिन्न न होनेके कारण जीव भी वीजबुद्धि है । उन वीजबुद्धिके धारक जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अभिप्राय है ।

शंका—यह वीजबुद्धि कहांसे होती है ?

समाधान—वह विशिष्ट अवग्रहावरणीयके क्षयोपशमसे होती है ।

पदानुसारी ऋद्धिके धारक जिनोंको नमस्कार हो ॥ ८ ॥

एत्थ जिणसदो णुवट्टदे, तेण णमो पदानुसारीणं जिणाणमिदि वत्तव्वं । पमाण-
मज्झिमादिपदेहि एत्थ पओजणाभावादो वीजपदस्स गहणं । पदमनुसरति अनुकुरुते इति
पदानुसारी बुद्धिः । वीजबुद्धीए वीजपदमवगंतूण एत्थ इदं एदेसिमक्खराणं लिंणं होदि ण
होदि ति ईहिदूण सयलसुदक्खस्-पदाइमवगच्छंती पदानुसारी । तेहि पदेहिंतो समुप्पज्जमाणं
णाणं सुदणाणं ण अक्खर-पदविसयं, तेसिमक्खर-पदाणं वीजपदंतत्त्वावादो । सा च पदानु-
सारी अणु-पदि-तदुभयसारिभेदेण तिविहो । वीजपदादो हेड्डिमपदाइं चेव वीजपदड्डियलिंणेण
जाणंती पदिसारी णाम । उवरिमाणि चेव जाणंती अणुसारी णाम । दोपासड्डियपदाइं
णियमेण विणा णियमेण वां जाणंती उभयसारी णाम । एदेसिं पदानुसारिजिणाणं णिसुद्धियं

यहां जिन शब्दकी अनुवृत्ति आती है, इसलिये पदानुसारी ऋद्धि धारक जिनोंको
नमस्कार हो, ऐसा कहना चाहिये । प्रमाण और मध्यम आदि पदोंसे यहां प्रयोजन न
होनेके कारण वीजपदका ग्रहण है । पदका जो अनुसरण या अनुकरण करती है वह
पदानुसारी बुद्धि है । वीजबुद्धिसे वीजपदको जानकर यहां यह इन अक्षरोंका लिंग होता
है और इनका नहीं, इस प्रकार विचार कर समस्त श्रुतके अक्षर-पदोंको जाननेवाली
पदानुसारी बुद्धि है । उन पदोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान है, वह अक्षर-पद-
विषयक नहीं है; क्योंकि, उन अक्षर-पदोंका वीजपदमें अन्तर्भाव है । वह पदानुसारी
बुद्धि अनुसारी, प्रतिसारी और तदुभयसारीके भेदसे तीन प्रकार है । जो वीजपदसे अध-
स्तन पदोंको ही वीजपदस्थित लिंगसे जानती है वह प्रतिसारी बुद्धि है । जो उपरिम
पदोंको ही जानती है वह अनुसारी बुद्धि है । दोनों पार्श्वस्थ पदोंको नियमसे अथवा विना
नियमके भी जो जानती है वह उभयसारी बुद्धि है । इन पदानुसारी जिनोंको नत होकर

१ अप्रतौ ' अवगच्छंतीति ' इति पाठः ।

२ अप्रतौ ' जाणंतीति ' इति पाठः ।

३ बुद्धी वियक्खणाणं पदानुसारी ह्वेदि तिविहण्णा । अणुसारी पडिसारी जहत्थणामा उमयसारी ॥
आदि-अवसाण-मज्जे शुरुवदेसेण एक्कवीजपदं । गेण्हय उवरिमगंथं जा गिण्हदि सा मदी हु अणुसारी ॥ आदि-
अवसाण-मज्जे शुरुवदेसेण एक्कवीजपदं । गेण्हय हेड्डिमगंथं बुज्झदि जा सा च पडिसारी ॥ णियमेण अणियमेण
य जुगवं एगस्स वीजसदस्स । उवरिम-हेड्डिमगंथं जा बुज्झइ उमयसारी सा ॥ ति. प. ४, ९८०-९८३. पदानु-
सारित्वं त्रैधा— अनुश्रोतः प्रतिश्रोतः उभयथा चेति । एकं पदस्यार्थं परतः उपश्रुत्यादौ अन्ते च मध्ये वा शेष-
प्रत्यर्थार्थवधारणं पदानुसारित्वम् ॥ त. रा. ३, ३६, २. जो सुत्तपण्णं बहुं सुयमण्णधावइ पयाणुसारी सो ।
प्रवचनसारोद्धार १५०३. ४ प्रतिषु ' निमुद्धिय ' इति पाठः ।

णिवदिदो किदियम्मं करोमि त्ति भणिदं होदि । कुदो एदं होदि ? ईहावायावरणीयाणं तिच्चक्खओवसमेण ।

णमो संभिणसोदाराणं' ॥ ९ ॥

जिणाणमिदि अणुवट्ठे' । सम्यक् श्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमेन भिन्नाः अनुविद्धाः संभिन्नाः, संभिन्नाश्च ते श्रोतारश्च संभिन्नश्रोतारः । अणेगाणं सद्दाणं अक्खराणक्खरसरूपाणं कधंचियाणमक्कमेण पयत्ताणं' सोदारा संभिणसोदारा त्ति णिदिट्ठा' ।

नवनागसहस्राणि नागे नागे शतं रथाः ।

रथे रथे शतं तुरगाः तुरगे तुरगे' शतं नराः ॥ १९ ॥

भूमिपतित हुआ नमस्कार करता हूँ, यह सूत्रका अभिप्राय है ।

शंका—यह कहाँसे होती है ?

समाधान—ईहावरणीय और अवायावरणीयके तीव्र क्षयोपशमसे होती है ।

संभिन्नश्रोता जिनोंको नमस्कार हो ॥ ९ ॥

'जिनोंको' इस पदकी अनुवृत्ति आती है । सं अर्थात् भले प्रकार श्रोत्रेन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे जो भिन्न— अनुविद्ध अर्थात् सम्यक् हैं, वे संभिन्न हैं; संभिन्न ऐसे जो श्रोता वे संभिन्नश्रोता हैं । कथंचित् युगपत् प्रवृत्त हुए अक्षर-अनक्षर स्वरूप अनेक शब्दोंके श्रोता संभिन्नश्रोता हैं, ऐसा निर्देश किया गया है ।

एक अश्वोहिणीमें नौ हजार हाथी, एक हाथीके आश्रित सौ रथ, एक एक रथके आश्रित सौ घोड़े और एक एक घोड़ेके आश्रित सौ मनुष्य होते हैं ॥ १९ ॥

१ प्रतिपु 'सोदाराणं' इति पाठः ।

२ प्रतिपु 'अणुवट्ठे' इति पाठः ।

३ प्रतिपु 'पयत्ताणं' इति पाठः ।

४ सादिदियमुदणाणावरणाणं वीरियंतरायाए । उक्कस्सखउवसमे उदिदंगोवंगणामक्कम्ममि ॥ सोदुक्कस्स-
हिदीदो वाहिं सखेज्जजोयणपएसे । संटियणर-तिरियाणं बहुविइसदे समुट्ठते ॥ अक्खर-अणक्खरमए सोदूणं दसदिसासु
पएक्कं । जं दिज्जदि पडिवयणं तं विय संभिणसोदित्तं ॥ ति. प. ४, ९८४-९८६. द्वादशयोजनायामे नव-
योजनविस्तारे चक्रधरस्कंधावारे गज-वाजि-खरोष्ट्र-मनुष्यादीनां अक्षरानक्षररूपाणं नानाविधशब्दानां युगपदुपपन्नानां
तपोविशेषवज्जलामापादितसर्वजीवप्रदेशश्रोत्रेन्द्रियपरिणामात् सर्वेषामेककालग्रहणं संभिन्नश्रोतृत्वम् ॥ त. रा.
३, ३६, २. जो सुणइ सव्वओ सुणइ सव्वविसए उ सव्वसोएहि । सुणइ बहुए वि सदे भिन्ने संभिन्नसोओ सो ॥
प्रवचनसारोद्धार १४९८.

५ प्रतिपु 'तुरगाः तुरगे तुरगे' इति पाठः । स तु न छन्दोनियमानुसारी ।

एदमेक्कखोहिणीए पमाणं । एरिसियाओ चत्तारि अक्खोहिणीओ सग-सगमासाहि अक्खराणक्खरसरूवाहि अक्कमेण जदि भणंति तो वि संभिण्णसोदारो अक्कमेण सव्व-भासओ घेत्तूण पटुप्पादेदि । एदेहिंतो संखेज्जगुणभासासंभलिदतित्थयरवयणविणिग्गयज्जुणि-समूहमक्कमेण गहणक्खमम्मि संभिण्णसोदारे ण चेदमच्छेरयं । कुदो एदं होदि ? बहु-बहुविहक्खिप्पावरणीयाणं खओवसमेण । एदेसिं संभिण्णसोदाराणं जिणाणं णमो इदि उत्तं होदि । संपहि ओग्गह-ईहावाय-धारणजिणाणमेदेसु चेव अंतव्भावो होदि त्ति पुध णमोक्कारो ण कदो । उजुमदीणं णमोक्कारकरणडमुत्तरसुत्तं भणदि—

णमो उजुमदीणं ॥ १० ॥

परकीयमतिगतोऽर्थः उपचारेण मतिः । ऋज्वी अवक्रा । कथमृजुत्वम् ? यथार्थ-मत्यारोहणात् यथार्थमभिधानगतत्वात् यथार्थमभिनयगतत्वाच्च । ऋज्वी मतिर्यस्य सः ऋजु-

यह एक अक्षौहिणीका प्रमाण है । ऐसी यदि चार अक्षौहिणी अक्षर-अनक्षर स्वरूप अपनी अपनी भाषाओंसे युगपत् बोलें तो भी संभिन्नश्रोता युगपत् सब भाषाओंको ग्रहण करके उत्तर देता है । इनसे संख्यातगुणी भाषाओंसे भरी हुई तीर्थकरके मुखसे निकली ध्वनिके समूहको युगपत् ग्रहण करनेमें समर्थ ऐसे संभिन्नश्रोताके विषयमें यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है ।

शंका—यह कहाँसे होती है ?

समाधान—बहु, बहुविध और क्षिप्र ज्ञानावरणीय कमोंके क्षयोपशमसे होती है ।

इन संभिन्नश्रोता जिनोंको नमस्कारें हो, यह सूत्रका अभिप्राय है । अब अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप जिनोंका चूंकि इन्हींमें अन्तर्भाव है, अतः उन्हें पृथक् नमस्कार नहीं किया । ऋजुमति जिनोंको नमस्कार करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानियोंको नमस्कार हो ॥ १० ॥

दूसरेकी मति अर्थात् मनमें स्थित अर्थ उपचारसे मति कहा जाता है । ऋजुका अर्थ वक्रता रहित है ।

शंका—ऋजुता कैसे है ?

समाधान—यथार्थ मतिका विषय होने, यथार्थ वचनगत होने और यथार्थ अभि-नय अर्थात् शारीरिक चेष्टागत होनेसे उक्त मतिमें ऋजुता है ।

ऋजु है मति जिसकी वह ऋजुमति कहा जाता है । सरलतासे मनोगत, सरलतासे

मतिः^१ । उज्जुवेण मणोगदं उज्जुवेण वचि-कायगदमत्थमुज्जुवं जाणंतो तव्विवरीदमणुज्जुव-
मत्थमजाणंतो मणपज्जवणाणी उज्जुमदि त्ति भण्णदे । अचित्तिदमणुत्तमणभिणइदमत्थं किमिदि
ण ज्ञाणदे ? ण, विसिद्धखओवसमाभावादो । मदिणाणेण वा सुदणाणेण वा मण-वचि-काय-
भेदं णादूण पच्छत्तत्थद्विदमत्थं पच्चक्खेण जाणंतस्स मणपज्जवणाणस्स दव्व-खेत्त-काल-
भावभेएण विसओ चउव्विहो । तत्थ उज्जुमदी एगसमइयमोरालियसरीरस्स णिज्जरं जहण्णेण
जाणदि^२ । सा तिविहा जहण्णुक्कस्स-तव्वदिरित्तओरालियसरीरणिज्जरा त्ति । तत्थ कं
जाणदि ? तव्वदिरित्तं । कुदो ? सामण्णणिइसादो । उक्कस्सेण एगसमइयमिंदियणिज्जरं

वचनगत व कायगत ऋजु अर्थको जाननेवाला, और उससे विपरीत वक्क अर्थको न
जाननेवाला मनःपर्ययज्ञानी ऋजुमति कहा जाता है ।

शंका — ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानी मनसे अचिन्तित, वचनसे अनुक्त और अनभि-
नीत अर्थात् शारीरिक चेष्टाके अविषयभूत अर्थको क्यों नहीं जानता है ?

समाधान — नहीं जानता, क्योंकि, उसके विशिष्ट क्षयोपशमका अभाव है ।

मतिज्ञान अथवा श्रुतज्ञानसे मन, वचन व कायके भेदको जानकर पीछे वहां
स्थित अर्थको प्रत्यक्षसे जाननेवाले मनःपर्ययज्ञानका विषय द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावके
भेदसे चार प्रकार है । इनमें ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान जघन्यसे एक समय सम्बन्धी
औदारिक शरीरकी निर्जराको जानता है ।

शंका — वह औदारिक शरीरकी निर्जरा जघन्य, उत्कृष्ट और तद्व्यतिरिक्तके
भेदसे तीन प्रकार है । उनमेंसे किस निर्जराको वह जानता है ?

समाधान — तद्व्यतिरिक्त औदारिक शरीरकी निर्जराको जानता है, क्योंकि, यहां
सामान्य निर्देश है ।

उक्त ज्ञान उत्कर्षसे एक समय सम्बन्धी इन्द्रियनिर्जराको जानता है ।

१ रिउ सामन्नं तम्मत्तगाहिणी रिउमई मणोनानं । पायं विसेसविमुहं षड्मेत्तं चित्तिं सुणइ ॥
प्रवचंचसरोद्धार १४९९. २ प्रतिष्ठु ' मउत्त ' इति पाठः ।

३ यः कर्मणद्रव्यानन्तसागोऽन्यः सर्वावधिना हातस्तस्य पुनरनन्तभागीकृतस्यान्यो भागः ऋजुमते-
र्विषयः । स. सि. १, २४. अवरं दव्वमुरालियसरीरणिज्जणसमयवद्धं तु । चक्खिंदियणिज्जणं उक्कस्सं उज्जु-
मदिस्स हवे ॥ गो. जी. ४५१. तत्थ दव्वओ णं उज्जुमई णं अणंते अणंतपप्पसिए खंधे जाणइ पासइ ॥
नं. सु. १८.

जाणदि । ओरालियसरीरिंदियणिज्जराणं ण भेदो, इंदियवदिरित्तओरालियसरीराभावादो त्ति उत्ते ण एस दोसो, सव्विंदियाणमग्गहगादो । पुणो किमिंदियं वेप्पदि ? चक्खिंदियं । कुदो ? सेसेदिएहिंतो अप्पपरिमाणत्तादो, सगारंभकपोग्गलखंधाणं सण्णहत्तादो वा । इदमेव इंदियं वेप्पदि त्ति कथं णव्वदे ? गुरुवदेसादो । घाण-सोदिदिएहिंतो चक्खिंदियस्स महल्लत्तं दिस्सदे चे ण, चक्खुगोलयमज्झड्डियाए मसूरियागाराए ताराए चक्खिंदियत्तम्भुवगमादो । चक्खिंदियणिज्जरा वि जहण्णुक्कस्स-तत्त्वदिरित्तभेएण तिविहा, तत्थ काए गहणं ? तत्त्व-दिरित्ताए । कुदो ? सामण्णणिदेसादो । जहण्णुक्कस्सदव्वाणं मज्झिमदव्ववियप्पे तत्त्वदिरित्ता उज्जुमदी जाणदि । खेत्तेण जहणं गाउवपुधत्तं, उक्कस्सेण जोयणपुधत्तं । जहण्णुक्कस्स-

शंका—औदारिक शरीरनिर्जरा और इन्द्रियनिर्जराके बीच कोई भेद नहीं है, क्योंकि, इन्द्रियोंसे भिन्न औदारिक शरीरका अभाव है ?

समाधान—इस शंकापर कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यहां सब इन्द्रियोंका ग्रहण नहीं है ।

शंका—फिर कौनसी इन्द्रियका ग्रहण है ?

समाधान—चक्षुरिन्द्रियका ग्रहण है, क्योंकि, वह शेष इन्द्रियोंकी अपेक्षा अल्प-प्रमाण रूप है व अपने आरम्भक पुद्गलोंकी श्लक्ष्णता अर्थात् सूक्ष्मतासे भी युक्त है ।

शंका—यही इन्द्रिय ग्रहण की गई है, यह कहांसे जाना जाता है ?

समाधान—यह गुरुके उपदेशसे जाना जाता है ।

शंका—घ्राण और श्रोत्र इन्द्रियकी अपेक्षा चक्षुरिन्द्रियके विशालता देखी जाती है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, चक्षुगोलकके मध्यमें स्थित मसूरके आकार ताराको चक्षुरिन्द्रिय स्वीकार किया है ।

शंका—चक्षुरिन्द्रियनिर्जरा भी जघन्य, उत्कृष्ट और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है, उनमें कौनसी निर्जराका ग्रहण है ?

समाधान—तद्व्यतिरिक्त निर्जराका ग्रहण है, क्योंकि, उसका सामान्य निर्देश है ।

जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यके मध्यम द्रव्यविकल्पोंको तद्व्यतिरिक्त ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानी जानता है । क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्यसे वह गव्यूतिपृथक्त्व और उत्कर्षसे

खेत्ताणं मज्झिमवियप्पे तव्वदिरित्ता उज्जुमदी जाणदि । कालदो जहण्णेण दोणिण भवग्गहणाणि जाणदि । तीदाणि अणागयाणि च भवग्गहणाणि दो चेव जाणदि, वट्टमाणेण सह तिणिण' । ण वट्टमाणभवग्गहणं सुजाणंति तीदाणागयाउ-संपयासंपय-भुत्त-कय-पडिसेवियादिणाणासुहुमत्था-इणस्स सुजाणत्तविरोहादो । उक्कस्सेण सत्तट्टभवग्गहणाणि । तीदाणागयाणि सत्त, वट्टमाणेण सह अट्ट भवग्गहणाणि जाणदि । जहण्णुक्कस्सकालाणं मज्झिमवियप्पं तव्वदिरित्तउज्जुमदी जाणदि । भावेण जहण्णुक्कस्सदव्वेसु तप्पाओग्गे असंखेज्जे भावे' जहण्णुक्कस्सउज्जुमदिणो जाणंति' । एतेस्यः ऋजुमतिजिनेभ्यो नमः ।

योजनपृथक्त्वको जानता है । जघन्य व उत्कृष्ट क्षेत्रके मध्यम विकल्पोंको तद्व्यतिरिक्तं ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान जानता है । कालको अपेक्षा जघन्यसे दो भवग्रहणोंको जानता है । अतीत और अनागत दो ही भवग्रहणोंको जानता है । वर्तमान भवके साथ तीन भवोंको जानता है । किन्तु वर्तमान भवग्रहणको भले प्रकार नहीं जानते, क्योंकि, जो भव अतीत और अनागत आयु, सम्पत्, असम्पत्, भुक्त, कृत, प्रतिसेवित आदि नाना सूक्ष्म अर्थोंसे आकीर्ण है उसके सुज्ञातपना माननेमें विरोध आता है । उत्कर्षसे सात-आठ भवग्रहणोंको जानता है । अतीत और अनागत सात, तथा वर्तमानके साथ आठ भवग्रहणोंको जानता है । जघन्य और उत्कृष्ट कालके मध्यम विकल्पको तद्व्यतिरिक्तं ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान जानता है ।

भावकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्योंमें उसके योग्य असंख्यात पर्यायोंको जघन्य व उत्कृष्ट ऋजुमति जानते हैं । इन ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानी जिनोंके लिये नमस्कार हो ।

खेत्ताओ ण उज्जुमई अ जहणेण अंगुलस्स असंखेज्जयभागं । उक्कोस्सेण अहे जाव इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए उवरिम-हेट्ठिल्ले खुट्ठगपर्यं, उट्ठे जाव जोइस्स उवरिमत्ते, तिरियं जाव अंतोमणुस्सिखित्ते अट्ठाइज्जेसु दीव-समुद्देसु पन्नरससु कम्मभूमिसु तीसाए अकम्मभूमिसु छप्पन्नाए अंतरदीवगेसु सविपंचिदिआणं पज्जत्ताणं मणोगए भावे जाणइ पासइ ॥ नं. सू. १८.

१ तत्र ऋजुमतिर्भनःपर्ययः कालतो जघन्येन जीवानामात्मनश्च द्वि-त्रीणि भवग्रहणाणि, उत्कर्षेण सप्ताष्टौ गत्यागालदिभिः प्ररूपयति । स. सि. १, २३. त. रा. १, २३, ९. दुग-तिगमवा हु अवरं सत्तट्टमवा हवंति उक्कस्सं । गो. जी. ४५७. कालओ ण उज्जुमई जहनेणं पलिओवमस्स असंखिज्जइभागं उक्कोस्सेण वि पलिओ-वमस्स असंखिज्जइभागं अतीयमणागयं वा कालं जाणइ पासइ । नं. सू. १८.

२ प्रतिपु ' भागे ' इति पाठः ।

३ आवलिअसंखभागं अवरं च वरं च वरमसंखगुणं । गो. जी. ४५८. भावओ ण उज्जुमई अणंते भावे जाणइ पासइ सव्वभावाणं अणंतभागं जाणइ पासइ । नं. सू. १८.

णमो विउलमदीणं ॥ ११ ॥

परकीयमतिगतोऽर्थो मतिः । विपुला विस्तीर्णा । कुतो वैपुल्यम् ? यथार्थं मनोगमनात् अयथार्थं मनोगमनात् उभयथापि तदवगमनात्, यथार्थं वचोगमनात् अयथार्थं वचोगमनात् उभयथापि तत्र गमनात्, यथार्थं कायगमनात् अयथार्थं कायगमनात् ताभ्यां तत्र गमनाच्च वैपुल्यम् । विपुला मतिर्यस्य सः विपुलमतिः^१ । तद्योगाज्जिनोऽपि विपुलमतिः । उज्जुवाणुज्जुवमण-वचि-कायगयं तेहि दोहि वि पयारेहि तेसिमगयमद्दगयं च वत्थुं जाणंतस्स विउलमदिस्स जहण्णुक्कस्स-तव्वदिरित्तदव्व-खेत्त-काल-भावाणं परूवणा कीरदे— दव्वदो जहण्णेण एगसमय-मिदियणिज्जरं जाणदि^२ । उज्जुमदिउक्कस्सदव्वमेव कधं विउलमदिस्स ततो बहुवरस्स विसओ होदि ? ण, चक्खिदियस्स णिज्जराए अजहण्णुक्कस्साए अणंतवियप्पाए उज्जुमदि-

विपुलमति जिनोंको नमस्कार हो ॥ ११ ॥

दूसरेकी मतिमें स्थित पदार्थ मति कहा जाता है । विपुलका अर्थ विस्तीर्ण है ।

शंका—विपुलता किस कारणसे है ?

समाधान — यथार्थ मनको प्राप्त होनेसे, अयथार्थ मनको प्राप्त होनेसे और दोनों प्रकारसे भी मनको प्राप्त होनेसे; यथार्थ वचनको प्राप्त होनेसे, अयथार्थ वचनको प्राप्त होनेसे और उभय प्रकारसे भी उसमें प्राप्त होनेसे; यथार्थ कायको प्राप्त होनेसे, अयथार्थ कायको प्राप्त होनेसे तथा उन दोनों प्रकारोंसे भी वहां प्राप्त होनेसे विपुलता है ।

विपुल है मति जिसकी वह विपुलमति कहा जाता है । विपुल मतिके सम्बन्धसे जिन भी विपुलमति कहलाते हैं । ऋजु या अनृजु मन, वचन व कायमें स्थित उन दोनों ही प्रकारोंसे उनको अप्राप्त और अर्धप्राप्त वस्तुको जाननेवाले विपुलमतिके जघन्य, उत्कृष्ट और तद्व्यतिरिक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावकी प्ररूपणा करते हैं—द्रव्यकी अपेक्षा वह जघन्यसे एक समय रूप इन्द्रियनिर्जराको जानता है ।

शंका — ऋजुमतिका उत्कृष्ट द्रव्य ही उससे बहुत श्रेष्ठ विपुलमतिका विषय कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अनन्त विकल्प रूप चक्षुरिन्द्रियकी अजघन्यानुत्कृष्ट

१ विउलं वत्थुवित्तेसण नाणं तग्गाहिणी मई विउला । चितियमणुसरइ षडं पसंगओ पज्जवसएहिं ॥ प्रवचनसारोद्धार १५००.

२ मणदव्ववगणानमणंतिममाणेण उज्जुगज्जकस्सं । खंडिदमेत्तं होदि हु विउलमदिस्सावरं दव्वं ॥ गो. जी. ४५२.

विसईकयउक्कस्सदव्वादो तप्पाओग्गहाणिमुवगयएगसमइयइंदियणिज्जरादव्वस्स विउलमदि-
विसयत्तेण अब्भुवगमादो । उक्कस्सदव्वजाणावणडं तप्पाओग्गासंखेज्जाणं कप्पाणं समए
सलागभूदे ठविय मणदव्ववग्गणाए अणंतिमभागं विरलिय अजहण्णुक्कस्समेगसमयपवद्धं
विस्सासोवचयविरहिदमडंक्रम्पडिवद्धं समखंडं करिय दिण्णे तत्थ एगखंडं विदियवियप्पो
होदि । सलागरासीदो एगरूवभवणेदव्वं । एवमणेण विहाणेण णेदव्वं जाव सलागरासी समत्तो
त्ति । एत्थ अपच्छिमदव्ववियप्पमुक्कस्सविउलमदी जाणदि^१ । जहण्णुक्कस्सदव्वाणं मज्झिम-
वियप्पे तव्वदिरित्तविउलमदी जाणदि ।

खेत्तेण जहण्णं जौयणपुधत्तं । ण च उज्जुविउलमदिउक्कस्स-जहण्णखेत्ताणं समाणत्तं,
जौयणपुधत्तम्मि अणेयभेयदंसणादो । उक्कस्सेण माणुसुत्तरसेलस्स अब्भंतरदो, णो वहिद्धा^२ ।
पणदालीसजौयणलक्खवणपदरं जाणदि त्ति उत्तं होदि^३ । एगागाससेडीए चेव जाणदि त्ति

निर्जराके ऋजुमति द्वारा विषय किये गये उत्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा उसके योग्य हानिको
प्राप्त एक समय रूप इन्द्रियनिर्जराका द्रव्य विपुलमतिका विषय माना गया है ।

उत्कृष्ट द्रव्यके द्वापनार्थ उसके योग्य असंख्यात कल्पोंके समयोंको शलाका रूपसे
स्थापित करके मनोद्रव्यवर्णनाके अनन्तघं भागका विरलन कर विस्त्रसोपचय रहित व आठ
कर्मोंसे सम्बद्ध अजघन्यानुत्कृष्ट एक समयप्रवद्धको समखण्ड करके देनेपर उनमें एक
खण्ड द्रव्यका द्वितीय विकल्प होता है । इस समय शलाका राशिमेंसे एक रूप कम करना
चाहिये । इस प्रकार इस विधानसे शलाका राशि समाप्त होने तक ले जाना चाहिये ।
इनमें अन्तिम द्रव्यविकल्पको उत्कृष्ट विपुलमति जानता है । जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यके
मध्यम विकल्पोंको तद्द्रव्यतिरिक्त विपुलमति जानता है ।

क्षेत्रकी अपेक्षा विपुलमतिका जघन्यसे योजनपृथक्त्व विषय है । ऋजुमतिका
उत्कृष्ट और विपुलमतिका जघन्य क्षेत्र यहां समान नहीं है, क्योंकि, योजनपृथक्त्वमें
अनेक भेद देखे जाते हैं । उत्कर्षसे वह मानुषोत्तर पर्वतके भीतरकी वात जानता है,
बाहरकी नहीं । तात्पर्य यह कि पैतालीस लाख योजन घनप्रतरको जानता है ।

एक आकाशश्रेणीमें ही जानता है ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । किन्तु वह घटित

१ अट्ठण्हं कम्माणं प्रमथपवद्धं विविस्ससोवचयं । धुवहारेणिगिवारं भज्जिदे विदियं हवे दव्वं ॥ तव्विदियं
कप्पाणमसंखेज्जाणं च समयसंखसमं । धुवहरिणवहीरेदे होदि हु उक्कसयं दव्वं ॥ गो. जी. ४५३-४५४.

२ क्षेत्रतो जघन्थेन योजनपृथक्त्वम्, उत्कर्षेण मानुषोत्तरशैलस्याग्यन्तरं न वहिः । स. सि. १, २३.
स. रा. १, २३, १०. विउलमदिसस थ अवरं तस्स पुयत्तं वरं खु णरलोयं ॥ गो. जी. ४५५.

३ णरलोए त्ति य वयणं विक्खंमणियामयं ण वट्ठस्स-1 जम्हा तग्घणपदरं मणपञ्जवखेत्तपुडिद्धं ॥
गो. जी. ४५६.

के वि भणंति । तण्ण घड्दे, देव-माणुस्सविज्जाहराइसु तस्स णाणस्स अप्पउत्तिप्पसंगादो । 'माणुसुत्तरसेलस्स अब्भंतरदो चेव जाणदि णो वहिद्धा' ति वग्गणसुत्तेण णिद्धिउत्तादो माणुसखेत्तअब्भंतरद्धिदसव्वमुत्तिदव्वाणि जाणदि णो चाहिराणि ति के वि भणंति । तण्ण घड्दे, माणुसुत्तरसेलसमीवे ठाइदूण चाहिरदिसाए कओवयोगस्स णाणाणुप्पत्तिप्पसंगादो । होदु चे ण, तदणुप्पत्तीए कारणाभावादो । ण ताव खओवसमाभावादो, अब्भंतरदिसाविसयणाणुप्पत्तीए अण्णहाणुववत्तीदो खओवसमस्स अत्थित्तसिद्धीए । ण माणुसुत्तरसेलेण अंतरिदत्तादो परभागाद्धिदत्थेसु णाणाणुप्पत्ती, अण्णिंदियस्स पच्चक्खस्स तीदाणागयपज्जाएसु वि असंखेज्जेसु वावरंतस्स' अब्भंतरदिसाए पव्वदादीहि अंतरिदत्थे वि जाणंतस्स मणपज्जवणाणिसस्स माणुसुत्तरसेलेण पडिघाडाणुववत्तीदो । तदो माणुसुत्तरसेलअब्भंतरवयणं ण खेत्तणियामयं, किंतु माणुसुत्तरसेलअब्भंतरपणदालीसजोयणलक्खणियामयं, विउलमदिमणपज्जवणाणुज्जोयसहिदखेत्तं घणागारेण ठाइदे पणदालीसलक्खमेत्तं चेव होदि ति । अथवा उवदेसं लद्धूण वत्तव्वं ।

कालदो जहण्णं सत्तट्ठभवग्गहणाणि, उक्कस्सेण असंखेज्जाणि भवग्गहणाणि

नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर देव, मनुष्य एवं विद्याधरादिकोंमें विपुलमति मनःपर्यय-ज्ञानकी प्रवृत्ति न हो सकनेका प्रसंग आवेगा । 'मानुषोत्तर पर्वतके भीतर ही स्थित पदार्थको जानता है, उसके बाहिर नहीं' ऐसा वर्णनासूत्र द्वारा निर्दिष्ट होनेसे मानुष-क्षेत्रके भीतर स्थित सब मूर्त द्रव्योंको जानता है, उससे बाह्य क्षेत्रमें नहीं; ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । किन्तु वह घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा स्वीकार करनेपर मानुषोत्तर पर्वतके समीपमें स्थित होकर बाह्य दिशामें उपयोग करनेवालेके ज्ञानकी उत्पत्ति न हो सकनेका प्रसंग होगा । यदि कहा जाय कि उक्त प्रसंग आता है तो आने दीजिये, सो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि, उसके उत्पन्न न हो सकनेका कोई कारण नहीं है । क्षयोपशमका अभाव होनेसे उसकी उत्पत्ति न हो सो तो है नहीं, क्योंकि, उसके बिना मानुषोत्तर पर्वतके अभ्यन्तर दिशाविषयक ज्ञानकी उत्पत्ति भी घटित नहीं होती । अतः क्षयोपशमका अस्तित्व सिद्ध है । मानुषोत्तर पर्वतसे व्यवहित होनेके कारण परभागमें स्थित पदार्थोंमें ज्ञानकी उत्पत्ति न हो, यह भी नहीं हो सकता; क्योंकि, असंख्यात अतीत व अनागत पर्यायोंमें व्यापार करनेवाले तथा अभ्यन्तर दिशामें पर्वतादिकोंसे व्यवहित पदार्थोंको भी जाननेवाले मनःपर्ययज्ञानीके अनिन्द्रिय प्रत्यक्षका मानुषोत्तर पर्वतसे प्रतिघात हो नहीं सकता । अत एव 'मानुषोत्तर पर्वतके भीतर' यह वचन क्षेत्रका नियामक नहीं है, किन्तु मानुषोत्तर पर्वतके भीतर पैतालीस लाख योजनाओंका नियामक है, क्योंकि, विपुलमति मनःपर्ययज्ञानके उद्योत, सहित क्षेत्रको घनाकारसे स्थापित करनेपर पैतालीस लाख योजना मात्र ही होता है । अथवा उपदेश प्राप्त कर इस विषयका व्याख्यान करना चाहिये ।

कालकी अपेक्षा वह जघन्यसे सात-आठ भवग्रहणोंको और उत्कर्षसे असंख्यात

जाणदि' । भावेण जं जं दिट्ठं दव्वं तस्स तस्स असंखेज्जपज्जाए जाणदि । एवंविधेभ्यो विपुलमतिभ्यो नम इति यावत् । संपधि विउलमदिजिणाणं णमोक्कारं काऊण सुदणाणजिणाणं णमोक्कारकरणडमुत्तरसुत्तं भणदि—

णमो दसपुव्वियाणं ॥ १२ ॥

एत्थ दसपुव्विणो भिण्णाभिण्णभेएण दुविहा होंति । तत्थ एक्कारसंगाणि पढिदूण पुणो परियम्म-सुत्त-पढमाणियोग-पुव्वगय-चूलिया त्ति पंचहियारणिबद्धदिट्ठिवादे पढिज्जमाणे उप्पाद-पुव्वमार्दि कादूण पढंताणं दसपुव्वीए विज्जाणुपवादे' समत्ते रोहिणीआदिपंचसयमहाविज्जाओ सत्तसयदहरविज्जाहिं अणुगयाओ किं भयवं आणवेदि त्ति दुक्कंति । एवं दुक्काणं सव्वविज्जाणं जो लोभं गच्छदि सो भिण्णदसपुव्वी । जो पुण ण तासु लोभं करेदि कम्मक्खयत्थी होंतो सो अभिण्णदसपुव्वी णाम' । तत्थ अभिण्णदसपुव्विजिणाणं णमोक्कारं करेमि त्ति उत्तं हेदि ।

भवग्रहणोंको जानता है । भावकी अपेक्षा जो जो द्रव्य ज्ञात है उस उसकी असंख्यात पर्यायोंको जानता है । इस प्रकारके विपुलमति मनःपर्ययज्ञानी जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अभिप्राय है । अब विपुलमति जिनोंको नमस्कार करके श्रुतज्ञानी जिनोंको नमस्कार करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

दशपूर्वीक जिनोंको नमस्कार हे ॥ १२ ॥

यहां भिन्न और अभिन्नके भेदसे दशपूर्वी दो प्रकार हैं । उनमें ग्यारह अंगोंको पढ़कर पश्चात् परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका, इन पांच अधिकारोंमें निबद्ध दृष्टिवादके पढ़ते समय उत्पादपूर्वको आदि करके पढ़नेवालोंके दशम पूर्व विद्यानु-प्रवादके समाप्त होनेपर सात सौ क्षुद्र विद्याओंसे अनुगत रोहिणी आदि पांच सौ महा-विद्यायें ' भगवन् क्या आज्ञा देते हैं ' ऐसा कहकर उपस्थित होती हैं । इस प्रकार उप-स्थित हुई सब विद्याओंके लोभको जो प्राप्त होता है वह भिन्नदशपूर्वी है । किन्तु जो कर्मक्षयका अभिलाषी होकर उनमें लोभ नहीं करता है वह अभिन्नदशपूर्वी कहलाता है । उनमें अभिन्नदशपूर्वी जिनोंको नमस्कार करता हूं, यह सूत्रका अर्थ है ।

१ द्वितीयं कालतो जवन्येन सप्ताष्टौ भवग्रहणानि, उत्कर्षेणासंख्येयानि गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति । स. सि. १, २३. त. रा. १, २३, १०. अड णमवा हु अवरमसंखेज्जं विउलउक्कसं ॥ गो. जी. ४५७.

२ अप्रती ' दसपुव्वी विज्जापवादे ' इति पाठः ।

३ रोहिणिपहुदीण महाविज्जाणं देवदाउ पंच सया । अणुद्वपसेणाहं खुदअविज्जाण सत्त सया ॥ एत्तूण पेयणाहं मग्गति दसमपुव्वपदणम्मि । नेच्छंति संजमंता ताओ जे ते अभिण्णदसपुव्वी ॥ भुवणेसु सुप्पसिद्धा विज्जाहर-समणणामपज्जाया । ताणं मुणीण बुद्धी दसपुव्वी णाम वोद्धव्वा ॥ ति. प. ४, ९९८-१०००. महारोहिण्यादि-मिस्सिमिरागताभिः प्रलेक्मात्मीयरूपसामर्थ्याविकरण-कथनकुशलामिर्वेगवतीमिर्विधादेवताभिरविचलितचरित्रस्य दश-पूर्व-सप्तद्रोत्तरणं दशपूर्वित्वम् । त. रा. ३, ३६, २.

भिण्णदसपुव्वीणं कधं पडिणियत्ती ? जिणसद्धानुवुत्तीदो । ण च तेसिं जिणत्तमत्थि, भग्ग-
महव्वएसु जिणत्ताणुववत्तीदो । आचारांगादिहेड्डिमअंग-पुव्वधराणं णमोक्कारो किण्ण कदो ?
ण, तेसिं पि णमोक्कारो कदो चेव, तेसिमेत्थुवलंभादो । चोदसपुव्वहराणं पुव्वं णमोक्कारो
किण्ण कदो ? ण, जिणवयणपच्चयद्वाणपदुप्पायणदुवारेण दसपुव्वीणं चागमहप्पदरिसण्डं
पुव्वं तण्णमोक्कारकरणादो । सुदपरिवाडीए वा पुव्वं दसपुव्वीणं णमोक्कारो कदो ।

णमो चोदसपुव्वियाणं ॥ १३ ॥

जिणाणमिदि एत्थाणुवट्ठे । सयलसुदणाणधारिणो चोदसपुव्विणो । तेसिं चोदस-

शंका — भिन्नदशपूर्वियोंकी व्यावृत्ति कैसे होती है ?

समाधान — जिन शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे उनकी व्यावृत्ति होती है । भिन्नदश-
पूर्वियोंके जिनत्व नहीं है, क्योंकि, जिनके महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व घटित
नहीं होता ।

शंका — आचारांगादि अधस्तन अंग और पूर्वके धारकोंको नमस्कार क्यों नहीं
किया ?

समाधान — नहीं, उनको भी नमस्कार किया ही है, क्योंकि, वे इनमें पाये
जाते हैं ।

शंका — चौदह पूर्वोंके धारकोंको पहिले नमस्कार क्यों नहीं किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिनवचनोंपर प्रत्ययस्थान अर्थात् विश्वास उत्पा-
दन द्वारा दशपूर्वियोंके त्यागकी महिमा दिखलानेके लिये पूर्वमें उन्हें नमस्कार किया
गया है । अथवा, श्रुतकी परिपाटीकी अपेक्षासे पहिले दशपूर्वियोंको नमस्कार किया
गया है ।

चौदहपूर्विकिं जिनोंको नमस्कार हो ॥ १३ ॥

यहां 'जिनोंको' इस पदकी अनुवृत्ति आती है । समस्त श्रुतज्ञानके धारक

१ सयलंगमपारागया सुद्धकेवलिणामसुप्पसिद्धा जे । एदाण बुद्धिरिद्धी चोदसपुव्वि चि णामेण ॥ ति. प.
४, १००१. सम्पूर्णश्रुतकेवलिता चतुर्दशपूर्विवम् । त. १। ३, ३६, २।

पुव्वीणं जिणाणं णमो इदि उत्तं होदि । सेसहेट्ठिमपुव्वीणं णमोक्कारो किण्ण कदो ? ण, तेसिं पि कदो चेव, तेहि विणा चौदसपुव्वानुववत्तीदो । चौदसपुव्वस्सेव णामणिदेसं कादूण किमहं णमोक्कारो कीरदे ? विज्जाणुपवादस्स समत्तीए इव चौदसपुव्वसमत्तीए वि जिणवयण-पच्चयदंसणादो । चौदसपुव्वसमत्तीए को पच्चओ ? चौदसपुव्वानि समाणिय रत्तिं काओसग्गेण डिदस्स पहादसमए भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिय-कप्पवासियदेवेहि कयमहापूजा संख-काहला-तूररवसंकुला होदु । एदेसु दोसु डाणेसु जिणवयणपच्चओवलंभो । जिणवयणत्तं पडि सव्वंग-पुव्वानि समाणाणि त्ति तेसिं सव्वेसिं णामणिदेसं काऊण णमोक्कारो किण्ण कदो ? ण, जिणवयणत्तणेण सव्वंग-पुव्वेहि सरिसत्ते संते वि विज्जाणुप्पवाद-लोगविंदुसाराणं महल्लत्त-मत्थि, एत्थेव देवपूजोवलंभादो । चौदसपुव्वहरो मिच्छत्तं ण गच्छदि, तम्हि भवे असंजमं च ण पडिवज्जदि, एसो एदस्स विसेसो ।

चौदहपूर्वों कोहे जाते हैं । उन चौदहपूर्वों जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अभिप्राय है ।

शंका—शेष अधस्तनपूर्वियोंको नमस्कार क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, उनको भी नमस्कार किया ही है, क्योंकि, अधस्तन पूर्वोंके बिना चौदह पूर्व घटित ही नहीं होते ।

शंका—चौदह पूर्वका ही नामनिर्देश करके किसलिये नमस्कार किया जाता है ।

समाधान—क्योंकि, विद्यानुप्रवादकी समाप्तिके समान चौदह पूर्वकी समाप्तिमें भी जिनवचनपर विश्वास देखा जाता है ।

शंका—चौदह पूर्वकी समाप्तिमें कौनसा विश्वास है ?

समाधान—चौदह पूर्वोंको समाप्त करके रात्रिमें कायोत्सर्गसे स्थित साधुकी प्रभात समयमें भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देवों द्वारा शंख, काहला और तूर्यके शब्दसे व्याप्त महापूजा की जाती है । इन दो स्थानोंमें जिन वचनोंपर विश्वास पाया जाता है ।

शंका—जिनवचनकी अपेक्षासे सब अंग और पूर्व समान हैं, अतएव उन सबका नामनिर्देश करके नमस्कार क्यों नहीं किया गया ?

समाधान—नहीं, जिनवचन रूपसे सब अंग और पूर्वोंमें सदृशताके होनेपर भी विद्यानुप्रवाद और लोकविन्दुसारका महत्व है, क्योंकि, इनमें ही देवपूजा पायी जाती है । चौदह पूर्वका धारक मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता और उस भवमें असंयमको भी नहीं प्राप्त होता, यह इसकी विशेषता है ।

णमो अट्टंगमहाणिमित्तकुसलाणं ॥ १४ ॥

अंग-सर-वंजण-लक्खण-छिण्ण-भौम-सुमिणंतरिक्खाणि महाणिमित्ताणमट्टअंगाणि ।
उत्तं च —

अंगं सरो वंजण-लक्खणाणि छिण्णं च भौम्मं सुमिणंतरिक्खं ।

एदे णिमित्तेहि य राहणिज्जा^१ जाणंति लोयस्स सुहासुहाइं ॥ १९ ॥

तत्थ अंगगयमहाणिमित्तं णाम मणुस-तिरिक्खाणं सत्त-सहाव-वादै-पित्त-सैम-रस-
रुधिर-मांस-मेदङ्गि-मज्ज-सुक्काणि सरीरवण्ण-गंध-रस-फासणिणुण्णदाणि जोएदूण जीविद-मरण-
सुह-दुख-लाहालाह-पवासादिविसयावगमो^२ । खर-पिंगलोलूव-वायस सिव-सियाल-णर-णारीसरं
सोऊण लाहालाह-सुह-दुक्ख-जीविद-मरणादीणं अवगमो सरमहाणिमित्तं णाम^३ । तिल-याणूयं-

अष्टांग महानिमित्तोमें कुशलताको प्राप्त जिनोको नमस्कार हो ॥ १४ ॥

अंग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अन्तरिक्ष, ये महा-
निमित्तोंके आठ अंग हैं । कहा भी है—

अंग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अन्तरिक्ष, इन निमित्तोंसे
आराधनीय साधु जनसमुदायके शुभाशुभको जानते हैं ॥ १९ ॥

उनमें मनुष्य और तिर्यचोंके घात, पित्त व कफ व रस, रुधिर, मांस,
मेदा, अस्थि, मज्जा, एवं शुक्र सत्व स्वभाव रूप, तथा शरीरके निम्न व
उन्नत वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शको देखकर जीवित, मरण, सुख, दुख,
लाभ, अलाभ और प्रवासादि विषयक ज्ञान अंगगत महानिमित्त है । खर, पिंगल,
[नेवला, वन्दर या सर्पविशेष] उल्लू, काक, शिवा, शृगाल, नर और नारीके स्वरको
सुनकर लाभालाभ, सुख-दुख और जीवित-मरणादिको जानना स्वरमहानिमित्त कहा जाता

१ अप्रतौ ' राणिहिज्जा ', आप्रतौ ' राणिहिच्चा ', काप्रतौ ' राहिणिच्चा ' इति पाठः ।

२ अप्रतौ ' सत्त सहावाद ' इति पाठः ।

३ वातादिप्पगिदीओ रुहिरप्पहुदिस्सहावसत्ताइं । णिण्णाण उण्णयाणं लंगोवंगाण दंसणा पाप्पा ॥ णर-
तिरियाणं दट्ठं जं जाणइ दुक्ख-सोक्ख-मरणाइं । कालत्तयणिप्पाणं अंगणिमित्तं पसिद्धं तु ॥ ति. प. ४, १००६-
१००७. अंग-प्रत्यंगदर्शनादिमिहिकालमाविस्सुख-दुःखादिविमावन्नमंगम् । त. रा. ३, ३६, २.

३ णर-तिरियाण विचित्तं सद्धं सोदूण दुक्ख सोक्खाइं । कालत्तयणिप्पणं जं जाणइ तं सरणिमित्तं ॥
ति. प. ४, १००८. अक्षरानक्षरशुभाशुभशब्दश्रवणेनेष्टानिष्टफलाविर्मावन्नं महानिमित्तं स्वरम् । त. रा. ३, ३६, २.

५ प्रतिष्ठु ' तिलयाणंग- ' इति पाठः ।

मसादिं दट्ठण तेसिमवगमो वंजणं^१ णाम महाणिमित्तं । सोत्थिय-णंदावत्त-सिरीवच्छ-संख-
चक्कंकुस-चंद-सूर-रयणायरादिलक्खणाणि उर-ललाट-हत्थ-पादतलादिसु जहाकमेण अट्ठुत्तर-
सद-चउसड्ढि-वत्तीसं दट्ठण तित्थयर-चक्कवट्ठि-वलदेव-वासुदेवत्तावगमो लक्खणं^२ णाम महा-
णिमित्तं । अंगछायाविवज्जास-वत्थालंकारछेदं मणुव-तिरिक्खादीणं चेड्ढा-संठाणाणि दट्ठण
सुहासुहावगमो छिण्णं^३ णाम महाणिमित्तं । भूमिगतलक्खणाणि दट्ठण गाम-णयर-खेट-कच्चड-
घर-पुरादीणं वुद्धि-हाणिपटुप्पायणं भौम्मं^४ णाम महाणिमित्तं । छिण्ण-माला-सुमिणाणं सरूवं

है । तिल, आनुअ और मशा आदिको देखकर उन सुख-दुःखादिकका जानना व्यञ्जन
महानिमित्त है । उर, ललाट, हस्ततल और पादतलादिकमें यथाक्रमसे एक सौ आठ, चौंसठ
व वत्तीस स्वस्तिक, मन्थावर्त, श्रीवृक्ष, शंख, चक्र, अंकुश, चन्द्र, सूर्य एवं रत्नाकर आदि
लक्षणोंको देखकर तीर्थंकरत्व, चक्रवर्तित्व एवं वलदेवत्व व वासुदेवत्वका जानना लक्षण
नामक महानिमित्त है । शरीरछायाकी विपरीतता, वत्थ व अलंकारका छेद तथा मनुष्य
और तिर्यंच आदिकोंकी चेष्टा व आकारको देखकर शुभाशुभका जानना छिन्न महानिमित्त
कहा जाता है । भूमिगत लक्षणोंको देखकर ग्राम, नगर, खेड़ा, कर्वट, घर व पुरादिकोंकी
वृद्धि-हानिको कहना भौम नामक महानिमित्त है । छिन्न स्वप्न और माला स्वप्नके

१ सिर-मुह-कंधपहुदिस्स तिल-मसयप्पहुदिआइ दट्ठणं । जं तियकालसुहाइं जाणइ तं वंजणणिमित्तं ॥
ति. प. ४, १००९. शिरोमुख-ग्रीवादियु तिलक-मशकलश्मन्नखणादिवीक्षणेन त्रिकालहिताहितवेदनं व्यंजनम् ।
त. रा. ३, ३६, २.

२ कर-चरणतलपहुदिस्स पंकय-कुलिसादियाणि दट्ठणं । जं तियकालसुहाइं लक्खइ तं लक्खणणिमित्तं ॥
ति. प. ४, १०१०. श्रीवृक्ष-स्वस्तिक-भृंगार-कलशादिलक्षणवीक्षणात् त्रैकालिकस्थानमानैश्वर्यादिविशेषज्ञानं लक्षणम् ।
त. रा. ३, ३६, २.

३ मुर-दाणव-रक्खस-णर-तिरिएहिं-छिण्णसत्थ-वत्थाणि । पासाद-णयर-देसादियाणि चिण्हाणि दट्ठणं ॥
कालत्तयसंभूदं सुहासुहं मरण-विविहदच्चं च । सुह-दुक्खाइं लक्खइ चिण्हाणिमित्तं ति तं जाणइ ॥ ति. प. ४,
१०११-१०१२. वल्ल-शल्ल-शत्रोपानदासन-शयनादियु देव-मानुष-राक्षसादिविभागैः शल्ल-कण्टक-मूषिकादिकृत-
छेदनदर्शनात् कालत्रयविषयलामालाभ-सुख-दुःखादिसूचनं छिन्नम् । त. रा. ३, ३६, २.

४ अप्रतौ ' कच्चडघपुरायादीणं ', आ-काप्रलोः ' कच्चडघपुरारायादीणं ', मप्रतौ ' कच्चडघारादीणं '
इति पाठः ।

५ घण-मुसिर-णिट्ठ-लक्खप्पहुदिण्णे भाविदूण भूमिए । जं जाणइ खय-वाट्ठिं तम्मयस-कणय-रजदपसुहाणं ॥
दिसि-विदिसजंतरेसुं चउरंगवलं ठिदं च दट्ठणं । जं जाणइ जयमजयं तं मउमणिमित्तमुद्धिं ॥ ति. प. ४,
१००४-१००५. भुवो घन-शुषिर-स्निग्ध-रक्षादिविभावनेन पूर्वादिदिक्सूत्रनिवासेन वा वृद्धि-हानि-जय-पराजयादि-
विज्ञानं भूमेरन्तर्निहितसुवर्ण-रजतादिसंसूचनं च भौमं । त. रा. ३, ३६, २.

दट्टण भाविकज्जावगमो सुमिणं' णाम महाणिमित्तं । तत्थ वसह-मायंग-सीह-सायर-चंदाइच्च-जलकलियकलस-पउमाहिसेय-जलण-पउमायर-भवणविमाण-रयणरासि-सीहासण-कीडंतमच्छ-पफुल्लदामजुवलाणं अण्णोण्णसंवंधविरहियाणं सुत्तत्तिथयरमादूणं सोलसण्णं दंसणं छिण्ण-सुमिणओ णाम । पुच्चावरेण घडंताणं भावाणं सुमिणंतरेण दंसणं मालासुमिणओ णाम । चंदाइच्च-गहाणमुदयत्थवण-जय-पराजय-गहघट्टण-विज्जुचडक-किंदाउह-चंदाइच्च-परिवेसुवराग-विम्बेयादिं दट्टण सुहासुहावगमो अंतरिक्खं णाम महाणिमित्तं । एदेसु अट्ठंगमहाणिमित्तेसु कुसलाणं जिणाणं णमो इदि उत्तं होदि । जिणसद्धानुवुत्तीदो णासंजद-संजदासंजदाणं गहणं । णाणेण विसेसिदजिणाणं पुच्चेमेव णमोक्कारो किमट्ठं कदो ? चारित्तदो णाणस्स पहाणत्तपदु-

स्वरूपको देखकर भावी कार्यको जानना स्वप्न नामक महानिमित्त है । उनमें वृषभ, हाथी, सिंह, समुद्र, चन्द्र, सूर्य, जलसे परिपूर्ण कलश, लक्ष्मीका अभिषेक, अग्नि, तालाब, भवनविमान, रत्नराशि, सिंहासन, क्रीड़ा करती मछलियोंका युगल और पुष्पमालाओंका युगल, इन परस्परके सम्बन्धसे रहित सोलह स्वप्नोंका सोती हुई जिनजननीको जो दर्शन होता है वह छिन्न स्वप्न है । पूर्वापरसे सम्बन्ध रखनेवाले भावोंका स्वप्नान्तरसे देखना माला स्वप्न है । चन्द्र, सूर्य एवं ग्रहके उदय व अस्तमन तथा जय-पराजय, ग्रहघर्षण, विजलीकी ध्वनि, कर्कषायुध, चन्द्र व सूर्यके परिवेष, उपराग एवं विम्बभेदादिको देखकर शुभाशुभका जानना अन्तरिक्ष नामक महानिमित्त है । इन अष्टांगमहानिमित्तोंमें कुशल जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अभिप्राय है । जिन शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे असंयत और संयतासंयतोंका ग्रहण नहीं है ।

शंका—ज्ञानसे विशिष्ट जिनोंको पहिले ही नमस्कार किसलिये किया ?

समाधान—चारित्र्यकी अपेक्षा ज्ञानकी प्रधानता बतलानेके लिये ज्ञानविशिष्ट

१ वातादिदोसच्चो पच्छिमरत्ते मुयंक-रविपहुदिं । णियमुहकमलपविट्ठं देक्खियं सउणम्मि सुहसउणं ॥ घडतेलम्भंगादिं रासह-करमादिणसु आरुहणं । परदेसगमण सच्चं जं देक्खइ असुहसउणं तं ॥ जं भासइ दुक्ख-सुहण्यमुहं कालत्तए वि संजादं । तं चिय सउणणिमित्तं चिण्हो मालो ति दोमेदं ॥ करि-केशरिपहुदीणं दंसणमेत्तादिं चिण्हसउणं तं । पुच्चावरसंवंधं सउणं तं मालसउणो ति ॥ ति. प. ४, १०१३-१०१६. वात-पित्त-श्लेष्मदोषोदयरहितस्य पश्चिमरात्रिविभागे चन्द्र-सूर्यधरादिसमुद्रमुखप्रवेशनसकलमहीमण्डलोपगृहनादिशुभ-श्रुत-तैलात्तात्मीयदेहखर-करमारुदा-वदिगमनाद्यशुभस्त्रप्रदर्शनादागामिजीवित-मरण-सुख-दुःखाद्यानिर्मावकः स्वप्नः । त. रा. ३, ३६, २.

२ रवि-ससि-गहपहुदीणं उदयत्थमणादिआइं दट्टणं । खीणत्तं दुक्ख-सुहं जं जाणइ तं हि णहणिमित्तं ॥ ति. प. ४-१००३. तत्र रवि-शशि-ग्रह-नक्षत्र-भगणोदयास्तमयादिभिरतीतानागतफलप्रविभागदर्शनमंतरिक्षम् ॥ त. रा. ३, ३६, २.

प्पायणडं । कुदो तत्तो तस्स पहाणत्तं ? णाणेण विणा चरणानुववत्तीदो । चरणफलविसेसिय-
जिणपणमण्डमुत्तरसुत्तं मणदि--

णमो विउव्वणपत्ताणं ॥ १५ ॥

अणिमा महिमा लहिमा पत्ती पागम्मं ईसित्तं वसित्तं कामरूपित्तमिदि विउव्वणमडुविहं ।
तत्थ महापरिमाणं सरीरं संकोडिय परमाणुपमाणसरीरेण अवड्डाणमणिमा णामं । परमाणुपमाण-
देहस्स मेरुगिरिसरिससरीरकरणं महिमा णाम । मेरुपमाणसरीरेण मक्कडत्तंतुदि परिसक्कण-
णिमित्तसत्ती लधिमा णामं । भूमिडियस्स करेण चंदाइच्चविंवच्छिव्रणसत्ती पत्ती णामं ।

जिनोंको पहिले ही नमस्कार किया है ।

शंका—चारित्रसे ज्ञानकी प्रधानता क्यों है ।

समाधान—चूंकि बिना ज्ञानके चारित्र होता नहीं है, अतः ज्ञान प्रधान है ।

चारित्रके फलसे विशेषताको प्राप्त जिनोंको नमस्कार करनेके लिये उत्तर सूत्र
कहते हैं—

विक्रिया ऋद्धिको प्राप्त हुए जिनोंको नमस्कार हो ॥ १५ ॥

अणिमा, महिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामरूपित्व,
इस प्रकार विक्रिया ऋद्धि आठ प्रकार है । उनमें महा परिमाण युक्त शरीरको संकुचित
करके परमाणु प्रमाण शरीरसे स्थित होना अणिमा नामक विक्रिया ऋद्धि है । परमाणु
प्रमाण शरीरको मेरु पर्वतके सदृश करनेको महिमा ऋद्धि कहते हैं । मेरु प्रमाण
शरीरसे मकईके तंतुओंपरसे चलनेमें निमित्तभूत शक्तिका नाम लधिमा है । भूमिमें
स्थित रहकर हाथसे चन्द्र व सूर्यके विम्बको छूनेकी शक्ति प्राप्ति ऋद्धि कही जाती है ।

१ अंशुतणुकरणं अणिमा अणुछिदे पत्रिसिद्धूण तत्थेव । विकरदि खंदावारं णिएसमवि चक्कवट्टिस्स ॥
ति. प. ४-१०२६. तत्राणुशरीरविकरणमणिमा विसच्छिदमपि प्रविश्याऽऽसित्वा तत्र च चक्कवर्तिपरिवारविभूतिं सृजेत् ।
त. रा. ३, ३६, २.

२ मेरुप्रमाणदेहा महिमा अणिलाउ लघुतरो लधिमा । ति. प. ४-१०२७. मेरोरपि महत्तरशरीरविकरणं
महिमा । वायोरपि लघुतरशरीरता लधिमा ॥ त. रा. ३, ३६, २.

३ भूमौ चिदंतो अंगुलिजग्गेण सूर-ससिपहुदि । मेरुसिहराणि अण्णं जं पावदि पवरिद्धी सा ॥ ति. प.
४-१०२८. भूमौ स्थित्वांगुल्यग्रेण मेरुशिखर-दिवाकरादित्यर्शनसामर्थ्यं प्राप्तिः । त. रा. ३, ३६, २.

कुलसेल-मेरुमहीहर-भूमीणं बाहमकाऊण तासु गमणसत्ती तवच्छरणवलेणुप्पण्णा पागम्मं^१ णाम । सव्वेसिं जीवाणं गाम-णयर-खेडादीणं च भुंजणसत्ती समुप्पण्णा ईसित्तं^२ णाम । माणुस-मायंग-हरि-तुरयादीणं संगिच्छाए विउव्वणसत्ती वसित्तं^३ णाम । ण च वसित्तस्स ईसित्तम्मि पवेसो, अवसाणं पि हदाकारेण ईसित्तकरणवल्भादो । इच्छिदरूवगगहणसत्ती कामरूवित्तं^४ णाम । ईसित्त-वसित्ताणं कथं वेउव्वियत्तं ? ण, विविहगुणइड्डिजुत्तं वेउव्वियमिदि तेसिं वेउव्वियत्ता-विरोहादो । एत्थ एगसंजोगादिणा विसदपंचवंचासविउव्वणभेदा उप्पाएदव्वा, तंकारणस्स

कुलाचल और मेरु पर्वतके पृथिवीकायिक जीवोंको बाधा न पहुंचाकर उनमें तपश्चरणके बलसे उत्पन्न हुई गमनशक्तिको प्राकाम्य ऋद्धि कहते हैं । सब जीवों तथा ग्राम, नगर एवं खेड़े आदिकोंके भोगनेकी जो शक्ति उत्पन्न होती है वह ईशित्व ऋद्धि कही जाती है । मनुष्य, हाथी, सिंह एवं घोड़े आदिक रूप अपनी इच्छासे विक्रिया करनेकी शक्तिका नाम वशित्व ऋद्धि है । वशित्वका ईशित्व ऋद्धिमें अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि, अवशीकृतोंका भी उनका आकार नष्ट किये बिना ईशित्वकरण पाया जाता है । इच्छित रूपके ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम कामरूपित्व है ।

शंका—ईशित्व और वशित्वके विक्रियापन कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नाना प्रकार गुण व ऋद्धि युक्त होनेका नाम विक्रिया है, अतएव उन दोनोंके विक्रियापनेमें कोई विरोध नहीं है ।

यहां एकसंयोग, द्विसंयोग आदिके द्वारा दो सौ पचवन विक्रियाके भेद उत्पन्न कराना चाहिये, क्योंकि, उनके कारण विचित्र हैं । [एकसंयोगी ८, द्विसंयोगी $\frac{८ \times ७}{१ \times २}$

= २८; त्रिसंयोगी $\frac{८ \times ७ \times ६}{१ \times २ \times ३} = ५६$; चतुःसंयोगी $\frac{८ \times ७ \times ६ \times ५}{१ \times २ \times ३ \times ४} = ७०$; पंचसंयोगी

$\frac{८ \times ७ \times ६ \times ५ \times ४}{१ \times २ \times ३ \times ४ \times ५} = ५६$; षट्संयोगी $\frac{८ \times ७ \times ६ \times ५ \times ४ \times ३}{१ \times २ \times ३ \times ४ \times ५ \times ६} = २८$, सप्त-

संयोगी $\frac{८ \times ७ \times ६ \times ५ \times ४ \times ३ \times २}{१ \times २ \times ३ \times ४ \times ५ \times ६ \times ७} = ८$; अष्टसंयोगी १; समस्त ८ + २८ + ५६ +

१ सलिले वि य भूमीए उम्मज्ज-णिमज्जणाणि जं कुणदि । भूमीए वि य सलिले गच्छदि पाकम्मरिद्धी सा ॥ ति. प. ४-१०२९. अप्सु भूमात्रिव गमनं भूमौ जल इवोन्मज्जनकरणं प्राकाम्यम् । त. रा. ३, ३६, २.

२ णिस्सेसाण पडुवं जगाण ईसवणामरिद्धी सा । वसमेति तववलेणं जं जीवोहा वसिवरिद्धी सा ॥ ति. प. ४-१०३०. त्रैलोक्यस्य प्रभुता ईशित्वम् । सर्वजीववशीकरणलब्धिर्वशित्वम् । त. रा. ३, ३६, २.

३ जुगवं बहुरूवाणि जं विसयदि कामरूवरिद्धी सा ॥ ति. प. ४-१०३२. युगपदनेकाकाररूपविकरण-शक्तिः कामरूपित्वमिति । त. रा. ३, ३६, २.

वइचित्तियत्तादो । एदेहि अट्ठहि विउव्वणसत्तीहि सहियाणं णमोक्करो कीरेदे । अट्ठगुणरिद्धि-
जुत्ताणं देवाणं एसो णमोक्करो किण्ण पावदे ? ण एस दोसो, जिणसद्धानुवट्ठेण तण्णिरा-
करणादो । ण च देवाणं जिणत्तमात्थि, तत्थ संजमाभावादो । एत्तो उवरि जहातहाणुपुत्वि-
क्कमो दट्ठव्वो, महल्लपरिवाडीए अणुवलंभादो ।

णमो विज्जाहराणं ॥ १६ ॥

तिविहाओ विज्जाओ जादि-कुल-तवविज्जाभेएण । उत्तं च—

जादीसु होइ विज्जा कुलविज्जा तह य होइ तवविज्जा ।

विज्जाहरेसु एदा तवविज्जा होइ साहूणं^१ ॥ २० ॥

तत्थ सगमादुपक्खादो लद्धविज्जाओ जादिविज्जाओ णाम । पिदुपक्खुवलद्धाओ
कुलविज्जाओ । छट्ठमादिउववासविहाणेहि साहिदाओ तवविज्जाओ । एवमेदाओ तिविहाओ

७० + ५६ + २८ + ८ + १ = २५५ भंग होते हैं ।] इन आठ विक्रिया शक्तियोंसे सहित
जिनोंको नमस्कार किया जाता है ।

शंका—आठ गुण ऋद्धियोंसे युक्त देवोंको यह नमस्कार क्यों नहीं प्राप्त होगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जिन शब्दोंकी अनुवृत्ति आनेसे उसका
निराकारण हो जाता है । कारण कि देव जिन नहीं हैं, क्योंकि, उनमें संयमका अभाव है ।

यहांसे आगे यथा-तथा-आनुपूर्वीक्रम समझना चाहिये, क्योंकि, महानताकी परि-
पाटी नहीं पाई जाती ।

विद्याधरोंको नमस्कार हो ॥ १६ ॥

जातिविद्या, कुलविद्या और तपविद्याके भेदसे विद्यायें तीन प्रकार हैं । कहा
भी है—

जातियोंमें विद्या अर्थात् जातिविद्या है, कुलविद्या तथा तपविद्या भी विद्या हैं ।
ये विद्यायें विद्याधरोंमें होती हैं । किन्तु तपविद्या स्त्रियोंके होती है ॥ २० ॥

इन विद्याओंमें स्वकीय मातृपक्षसे प्राप्त हुई विद्यायें जातिविद्यायें और पितृपक्षसे
प्राप्त हुई कुलविद्यायें कहलाती हैं । षष्ठ और अष्टम आदि उपवासोंके करनेसे सिद्ध कीं

१ कुल-जाईविज्जाओ साहियविज्जा अण्यमेयाओ । विज्जाहरपुरिस-पुरंधियाण वरसोक्खज्जणीओ ॥
ति. प. ४-१३८.

विज्जाओ हौंति विज्जाहराणं । तेण वेअड्डणिवासिमणुआ वि विज्जाहरा, सयलविज्जाओ छंडिऊण गहिदसंजमविज्जाहरा वि हौंति विज्जाहरा, विज्जाविसयविण्णाणस्स तत्थुवलंभादो । पढिदविज्जाणुपवादा वि विज्जाहरा, तेसिं पि विज्जाविसयविण्णाणुवलंभादो । केसिमेत्थ गहणं ? ण ताव वेयड्डुप्पणअसंजदाणं गहणं, तेसिं जिणत्ताभावादो । परिसेसादो सेसदुविह-विज्जाहरा एत्थ घेतत्त्वा । दसपुव्वहराणमेत्थ ण गहणं, पउणरुत्तियादो ? ण, तत्थ दस-पुव्वविसयणाणुवलक्खियजिणाणं णमोक्कारकरणादो, एत्थ सिद्धासेसविज्जापेसणपरिच्चागेणु-वलक्खियजिणाणं विज्जाहरत्तम्भुवगमादो ति । सिद्धविज्जाणं पेसणं जे ण इच्छंति केवलं धरंति चेव अण्णाणणिवित्तीए ते विज्जाहरजिणा णाम । तेभ्यो नमः ।

णमो चारणाणं ॥ १७ ॥

जल-जंघ-तंतु-फल-पुष्प-बीज-आकाश-सेडीभेएण अट्टविहा चारणा । उत्तं च—

गई तपविद्यार्ये हैं । इस प्रकार ये तीन प्रकारकी विद्यार्ये विद्याधरोंके होती हैं । इससे वैताढ्य पर्वतपर निवास करनेवाले मनुष्य भी विद्याधर होते हैं, सब विद्याओंको छोड़कर संयमको ग्रहण करनेवाले भी विद्याधर होते हैं, क्योंकि, विद्याविषयक विज्ञान वहां पाया जाता है । जिन्होंने विद्यानुप्रवादको पढ़ लिया है वे भी विद्याधर हैं, क्योंकि, उनके भी विद्याविषयक विज्ञान पाया जाता है ।

शंका—इन तीन प्रकारके विद्याधरोंमेंसे यहां किनका ग्रहण है ?

समाधान —वैताढ्य पर्वतपर उत्पन्न असंयतोंका यहां ग्रहण नहीं है, क्योंकि, वे जिन नहीं हैं । पारिशेष न्यायसे शेष दो प्रकारके विद्याधरोंका यहां ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—दशपूर्वधरोंका ग्रहण यहां नहीं करना चाहिये, क्योंकि, पुनरुक्ति दोष आता है ?

समाधान—पेसा नहीं है, क्योंकि, वहां दश पूर्व विषयक ज्ञानसे उपलक्षित जिनोंको नमस्कार किया गया है, किन्तु यहां सिद्ध हुई समस्त विद्याओंके कार्यके परि-त्यागसे उपलक्षित जिनोंको विद्याधर स्वीकार किया है । जो सिद्ध हुई विद्याओंसे काम लेनेकी इच्छा नहीं करते, केवल अज्ञानकी निवृत्तिके लिये उन्हें धारण ही करते हैं, वे विद्याधर जिन हैं । उनके लिये नमस्कार हो ।

चारण ऋद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो ॥ १७ ॥

जल, जंघा, तंतु, फल, पुष्प, बीज, आकाश और श्रेणीके भेदसे चारण ऋद्धि-धारक आठ प्रकार हैं । कहा भी है—

जल-जंघ-तंतु-फल-पुष्प-बीज-आगास-सेडिगइकुसला ।

अट्टविहचारणगणा पइरिक्कसुहं पविहरंति' ॥ २१ ॥

तत्थ भूमीए इव जलकाइयजीवाणं पीडमकाऊण जलमफुसंता जहिच्छाए जलगमण-समत्था रिसओ जलचारणा' णाम । पउमणिपत्तं व जलपासेण विणा जलमज्झगामिणो जल चारणा त्ति किण्ण उच्चंति ? ण एस दोसो, इच्छिज्जमाणत्तादो । जलचारण-पागम्मरिद्धीणं दोण्हं को विंसेसो ? घणपुढवि-मेरुसायराणंतो संव्वसरीरेण पवेससत्ती पागम्मं णाम । तत्थ जीवपरिहरणकउसलं चारणत्तं । तंतु-फल-पुष्प-बीजचारणाणं पि जलचारणाणं व वत्तव्वं । भूमीए

जल, जंघा, तन्तु, फल, पुष्प, बीज, आकाश और श्रेणीका आलम्बन लेकर गमनमें कुशल ऐसे आठ प्रकारके चारणगण, अत्यन्त सुखपूर्वक विहार करते हैं ॥ २१ ॥

उनमें जो ऋषि जलकायिक जीवोंको पीड़ा न पहुंचाकर जलको न छूते हुए इच्छानुसार भूमिके समान जलमें गमन करनेमें समर्थ हैं वे जलचारण कहलाते हैं ।

शंका—पक्षिनीपत्रके समान जलको न छूकर जलके मध्यमें गमन करनेवाले जलचारण क्यों नहीं कहलाते ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ऐसा अभीष्ट ही है ।

शंका—जलचारण और प्राकाम्य इन दोनों ऋद्धियोंमें क्या विशेषता है ?

समाधान—सघन पृथिवी, मेरु और समुद्रके भीतर सब शरीरसे प्रवेश करनेकी शक्तिको प्राकाम्य ऋद्धि कहते हैं, और वहां जीवोंके परिहारकी कुशलताका नाम चारण ऋद्धि है ।

तन्तुचारण, फलचारण, पुष्पचारण और बीजचारणका स्वरूप भी जलचारणोंके

१ चारणरिद्धी बहुविधवियप्पसंदोहवित्थरिदा ॥ जल-जंघा-फल-पुष्प-पचगिसिहाण धूम-मेघाणं । धारा-मक्कडतंतु-जोदी-मरुदाण चारणा कमसो ॥ ति. प. ४-१०३५. तत्र चारणा अनेकविधाः जल-जंघा-तंतु-पत्र-श्रेण्यभि-शिखाचालव्रनगमनाः । त. रा. ३, ३६, २. अइसयचरणसमत्था जंघा-विज्जाहिं चरणा मुणओ । जंघाहिं जाइ पदमो नीसं काई रविकेरे वि । एगुप्पाएण गओ रयगवरमिओ तओ पडिनियत्तो । बीएणं णंदिस्सरमिहं तओ एइ तइएणं ॥ पदमेण पंडगवणं बीओप्पाएण णंदणं एइ । तइओप्पाएण तओ इह जंघाचारणो हो (ए) इ ॥ पदमेण माणुसोत्तरनगं स नंदिस्सरं तु विइएण । एइ तओ तइएणं कयचेइयवंदणो इहइ ॥ पदमेण नंदणवणे बीओप्पाएण पंडगवणंमि । एइ इहं तइएणं जो विज्जाचारणो होइ ॥ विसे. भा. ७८९-७९३.

२ अविराहियप्पुकाए जंघि पदखेवणेहिं जं जादि । धावेदि जलहिमज्जे स चिय जलचारणा रिद्धी ॥ ति. प. ४-३०३६.

पुढविकाइयजीवाणं चाहमकाऊण अणेगजोयणसयगामिणो जंघचारणा^१ णाम । धूमग्गि-गिरि-तरु-तंतुसंताणेसु उड्डारोहणसत्तिसंजुत्ता सेडीचारणा णाम । चउहि अंगुलेहिंतो अहियपमाणेण भूमीदो उवरि आयासे गच्छंतो आगासचारणा णाम । आगासचारणाणमुवरि उच्चमाणआगास-गामीणं च को विसेसो ? उच्चदे — जीवपीडाए विणा पादुक्खेवेण अग्गासगामिणो आगास-चारणा णाम । पलियंक-काउसग्ग-सयणासण-पादुक्खेवादिसव्वपयोरेहि आगासे संचरणसमत्था आगासगामिणो । चारणागमेत्थ एगसंजोगादिकमेण विसदपंचवंचास भंगा उप्पाएदव्वा । कध-मेगं चारित्तं विचित्तसत्तिसमुप्पाययं ? ण, परिणामभेएण णाणभेदमिण्णचारित्तादो चारणवहुत्तं पडि विरोहाभावादो । कधं पुण चारणा अट्ठविहा ति जुज्जदे ? ण एस दोसो, णियमाभावादो,

समान कहना चाहिये । भूमिमें पृथिवीकार्यिक जीवोंको बाधा न करके अनेक सौ योजन गमन करनेवाले जंघाचारण कहलाते हैं । धूम, अग्नि, पर्वत और वृक्षके तन्तुसमूहपरसे ऊपर चढ़नेकी शक्तिसे संयुक्त श्रेणीचारण हैं । चार अंगुलोंसे अधिक प्रमाणमें भूमिसे ऊपर आकाशमें गमन करनेवाले ऋषि आकाशचरण कहे जाते हैं ।

शंका—आकाशचारण और आगे कहे जानेवाले आकाशगामीके क्या भेद है ?

समाधान — इस शंकाकारका उत्तर कहते हैं । जीवपीडाके विना पैर उठाकर आकाशमें गमन करनेवाले आकाशचारण हैं । पल्यंकासन, कायोत्सर्गासन, शयनासन और पैर उठाकर इत्यादि सब प्रकारोंसे आकाशमें गमन करनेमें समर्थ ऋषि आकाशगामी कहे जाते हैं ।

यहां चारण ऋषियोंके एकसंयोग द्विसंयोगादिके क्रमसे दो सौ पचवन भंग उत्पन्न करना चाहिये । (देखो सूत्र १५ की टीका) १

शंका—एक ही चारित्र इन विचित्र शक्तियोंका उत्पादक कैसे हो सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, परिणामके भेदसे ज्ञाना प्रकार चारित्र होनेके कारण चारणोंकी अधिकतामें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—जब चारणोंके भेद दो सौ पचवन हैं तो फिर उन्हें आठ प्रकार बतलाना कैसे युक्त है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उनके आठ प्रकार होनेका नियम

१ चउरंगुलमेत्तमहिं छंडिय गयणम्मि कुडिलजाण्ण विणा । जं बहुजोयणगमणं सा जंघाचारणा रिद्धी ॥
ति. ८. ४-१०३७.

विसदपंचवंचासचारणाणं अडुविहचारणेहिंतो एयंतेण पुधत्ताभवादो च । एदेसिं चारणजिणाणं णमो इदि उत्तं होदि ।

कधं चारणाणं अडुसंखाणियमो ? ण, इदरेसिं चारणाणमेत्थंतब्भावादो । तं जहा—
चिक्खल्ल-छार-गोवर-भुसादिचारणाणं जंघचारणेसु अंतब्भावो, भूमीदो चिक्खल्लादीणं कधंचि
भेदाभावादो । कुंथुदेही-मत्कुण-पिपीलियादिचारणाणं फलचारणेसु अंतब्भावो, तसजीवपरि-
हरणकुसलत्तं पडि भेदाभावादो । पत्तंकुर-तृण-प्रवालादिचारणाणं पुष्पचारणेसु अंतब्भावो, हरिद-
कायपरिहरणकुसलत्तेण साहम्मादो । ओस-करवास-धूमरी-हिमादिचारणाणं जलचारणेसु अंत-
ब्भावो, आउक्काइयजीवपरिहरणकुसलत्तं पडि साहम्मदंसणादो । धूमग्गि-वाद-मेहादिचारणाणं
तंतु-सेडिचारणेसु अंतब्भावो, अणुलोम-विलोमगमणेसु जीवपीडाअकरणसत्तिसंयुत्तत्तादो ।
एवमण्णेसिं' पि चारणाणमेत्थेव अंतब्भावो दडुव्वो ।

णमो पणसमणाणं ॥ १८ ॥

नहीं है, तथा दो सौ पचास चारण आठ प्रकार चारणोंसे एकान्ततः पृथक् भी नहीं हैं ।

इन चारणजिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अभिप्राय है ।

शंका — चारणोंकी आठ संख्याका नियम कैसे बनता है ?

समाधान— नहीं, अन्य चारणोंका इनमें अन्तर्भाव होनेसे उक्त संख्यानियम बन जाता है । वह इस प्रकारसे— कीचड़, भस्म, गोवर और भूसे आदि परसे गमन करनेवालोंका जंघाचारणोंमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, भूमिसे कीचड़ आदिमें कथंचित् अभेद है । कुंथु जीव, मत्कुण और पिपीलिका आदि परसे संचार करनेवालोंका फलचारणोंमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, इनमें व्रस जीवोंके परिहारकी कुशलताकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है । पत्र, अंकुर, तृण और प्रवाल आदि परसे संचार करनेवालोंका पुष्पचारणोंमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, हरितकाय जीवोंके परिहारकी कुशलताकी अपेक्षा इनमें समानता है । ओस, ओला, कुहरा और वर्ष आदि पर गमन करनेवाले चारणोंका जलचारणोंमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, इनमें जलकायिक जीवोंके परिहारकी कुशलताके प्रति समानता देखी जाती है । धूम, अग्नि, वायु और मेघ आदिके आश्रयसे चलनेवाले चारणोंका तंतु-श्रेणीचारणोंमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, वे अनुलोम और प्रतिलोम गमन करनेमें जीवोंको पीड़ा न करनेकी शक्तिसे संयुक्त हैं । इसी प्रकार अन्य चारणोंका भी इनमें ही अन्तर्भाव समझना चाहिये ।

प्रज्ञाश्रवणोंको नमस्कार हो ॥ ९ ॥

१ प्रतिपु 'एदमण्णेसिं' इति पाठः ।

औत्पत्तिकी वैनयिकी कर्मजा पारिणामिकी चेति चतुर्विधा प्रज्ञा । तत्थ जम्मंतरे चउव्विहणिम्मलमदिबलेण विणएणावहारिदुबालसंगस्स देवेसुप्पज्जिय मणुस्सेसु अविणङ्ग-संसकोरेणुप्पणस्स एत्थ भवस्मि पढण-सुणण-पुच्छणवावारविरहियस्स पण्णा अउप्पत्तिया णाम । उत्तं च—

विणएण सुदमधीदं' किह वि पमादेण होदि विस्सरिदं ।

तमुव्वहादि परभवे केवलणाणं च आहवदि ॥ २२ ॥

एसो उप्पत्तिपण्णसमणो छम्मासोपवासगिलाणो वि तव्वुद्धिमाहप्पजाणावणहं पुच्छा-वावदचोदसपुव्विस्स वि उत्तरवाहओ । विणएण दुबालसंगाई पढंतस्सुप्पण्णा वेणइया णाम, परोवदेसेण जादपण्णा वा । तवच्छरणबलेण गुरुवदेसणिरपेक्खेणुप्पणपण्णा कम्मजा णाम, ओसहसेवाबलेणुप्पणपण्णा वा । सग-सगजादिविसेसेण समुप्पणपण्णा पारिणामिया णाम' ।

औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी इस प्रकार प्रज्ञा चार प्रकार है । उनमें जन्मान्तरमें चार प्रकारकी निर्मल बुद्धिके बलसे विनयपूर्वक वारह अंगोंका अवधारण करके देवोंमें उत्पन्न होकर पश्चात् अविनष्ट संस्कारके साथ मनुष्योंमें उत्पन्न होनेपर इस भवमें पढ़ने, सुनने व पूछने आदिके व्यापारसे रहित जीवकी प्रज्ञा औत्पत्तिकी कहलाती है । कहा भी है—

विनयसे अधीत श्रुतज्ञान यदि किसी प्रकार प्रमादसे विस्मृत हो जाता है तो उसे [औत्पत्तिकी प्रज्ञा] पर भवमें उपस्थित करती है और केवलज्ञानको बुलाती है ॥ २२ ॥

यह औत्पत्तिप्रज्ञाश्रमण छह मासके उपवाससे कृश होता हुआ भी उस बुद्धिके माहात्म्यको प्रकट करनेके लिये पूछने रूप क्रियामें प्रवृत्त हुए चौदहपूर्वोंको भी उत्तर देता है । विनयसे वारह अंगोंको पढ़नेवालेके उत्पन्न हुई बुद्धिका नाम वैनयिक है । अथवा परोपदेशसे उत्पन्न बुद्धि भी वैनयिक कहलाती है । गुरुके उपदेशके बिना तपश्चरणके बलसे उत्पन्न बुद्धि कर्मजा है । अथवा औषधसेवाके बलसे उत्पन्न बुद्धि भी कर्मजा है । अपनी अपनी जातिविशेषसे उत्पन्न बुद्धि पारिणामिका कही जाती है ।

१ प्रतिष्ठ 'मदीदं' इति पाठः ।

२ पगडीए सुदणाणावरणाए वीरियंतरायाए । उक्कस्सक्खउवसमे उप्पज्जइ पण्णसमणद्धीं ॥ पण्णा-समणद्धिबुद्धो चोदसपुव्वीसु विसयसुहुमत्तं । सव्वं हि सुदं जाणदि अकअज्झअणो वि णियमेण ॥ भासंति तस्स बुद्धी पण्णासमणद्धिं सा च चउभेदा । अउपत्तिअ-परिणामिय वइणइकी कम्मजा णेया ॥ अउपत्तिकी भवंतसुदविणएणं समुल्लसिदमावा । णिय-णियजादिविसेसे उप्पण्णा पारिणामिकी णामा ॥ वइणइकी विणएणं उप्पज्जदि वारसंगसुद-जोगं । उवदेसेण विणा तवविसेसलाहेण कम्मजा ठुरिमा ॥ ति. प. ४, १०१७-१०२१.

उसहसेणादीणं तित्थयरवयणविणिग्गयवीजपदङ्कावहारयाणं पण्णां कंथंतम्भावो' ? पारिणा-
मियाए, विणय-उप्पत्ति-कम्मेहि विणा उप्पत्तीदो । पारणामिय-उप्पत्तिघाणं को विसेसो ? जादि-
विसेसजणिदकम्मकखओवसमुप्पण्णा पारिणामिया, जम्मंतरविणयजणिदसंसकारसमुप्पण्णा अउ-
प्पत्तिया ति अत्थि विसेसो । एदेसु पण्णसमणेषु केषिं गहणं ? चट्ठणं पि गहणं । प्रज्ञा एव
श्रवणं येषां ते प्रज्ञाश्रवणाः । तदो ण वैणइयपण्णसमणाणं गहणमिदि ? ण, अदिट्ठ-अस्सुदेसु
अट्ठेसु णाणुप्पायणजोगत्तं पण्णा णाम, तिस्से सत्त्वत्थ उवलंभादो । गुरुवदेसेणावगम्यचोदस-
पुत्वे कहमस्सुदत्थावगमो ? ण, अणभिलप्पत्थविसयणाणुप्पायणसत्तीए तत्थाभावे सयलसुद-

शंका—तीर्थंकरके मुखसे निकले हुए वीजपदोंके अर्थका निश्चय करनेवाले वृषभ-
सेनादि गणधरोंकी प्रज्ञाका कहां अन्तर्भाव होता है ?

समाधान — उसका पारिणामिक प्रज्ञामें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, वह विनय,
उत्पत्ति और कर्मके बिना उत्पन्न होती है ।

शंका — पारिणामिक और औत्पत्तिक प्रज्ञामें क्या भेद है ?

समाधान—जातिविशेषमें उत्पन्न कर्मक्षयोपशमसे आविर्भूत हुई प्रज्ञा पारिणामिक
है, और जन्मान्तरमें विनयजनित संस्कारसे उत्पन्न प्रज्ञा औत्पत्तिकी है; यह दोनोंमें
भेद है ।

शंका—इन प्रज्ञाश्रवणोंमें यहां किनका ग्रहण है ?

समाधान — चारों ही प्रज्ञाश्रवणोंका ग्रहण है, क्योंकि, 'प्रज्ञा ही है श्रवण जिनका
वे प्रज्ञाश्रवण हैं' ऐसी निरुक्ति है ?

शंका—तो फिर वैयर्थिक प्रज्ञाश्रवणोंका ग्रहण नहीं हो सकेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अदृष्ट और अश्रुत अर्थोंमें ज्ञानोत्पादनकी योग्यताका
नाम प्रज्ञा है, सो वह सर्वत्र पायी जाती है ।

शंका—गुरुके उपदेशसे चौदह पूर्वोंका ज्ञान प्राप्त करनेवाले प्रज्ञाश्रवणके अश्रुत
अर्थका ज्ञान कैसे कहा जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उसमें अवक्तव्य पदार्थ ~~विषयक ज्ञानके उत्पादनकी~~

णाणुप्पत्तिविरोहादो । असंजदणं णं पण्णंसमणणं गहणं, जिणसद्दाणुउत्तीदो । एदेसिं पण्ण-
समणजिणणं णमो । पण्णाए णाणस्स य को विसेसो ? णाणहेदुजीवसत्ती गुरुवएसणिरेक्खा
पण्णा णाम, तक्कारियं णाणं; तदो अत्थि भेदो ।

णमो आगासगामीणं ॥ १९ ॥

आगासे जहिच्छाए गच्छता इच्छिदपदेसं माणुसुत्तरपव्वयावरुद्धं आगासगामिणो' ति
धेत्तव्वा । देव-विज्जाहराणं ण गहणं, जिणसद्दाणुउत्तीदो । आगासचारणाणमागासगामीणं च
को विसेसो ? उच्चदे — चरणं चारित्तं संजमो पावकिरियाणिरोहो ति एयड्ढो, तम्हि कुसलो
णिउणो चारणो । तवविसेसेण जणिदआगासड्डियजीव [-वध] परिहरणकुसलत्तणेण सहिदो

शक्तिका अभाव होनेपर समस्त श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिका विरोध होगा ।

यहां असंयत प्रज्ञाश्रवणोंका ग्रहण नहीं है, क्योंकि, जिन शब्दकी अनुवृत्ति आती
है । इन प्रज्ञाश्रवण जिनोंको नमस्कार हो ।

शंका—प्रज्ञा और ज्ञानके बीच क्या भेद है ?

समाधान—गुरुके उपदेशसे निरपेक्ष ज्ञानकी हेतुभूत जीवकी शक्तिका नाम प्रज्ञा
है, और उसका कार्य ज्ञान है; इस कारण दोनोंमें भेद है ।

आकाशगामी जिनोंको नमस्कार हो ॥ १९ ॥

आकाशमें इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वतसे धिरे हुए इच्छित प्रदेशमें गमन करने-
वाले आकाशगामी हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । यहां देव व विद्याधरोंका ग्रहण नहीं
है, क्योंकि, जिन शब्दकी अनुवृत्ति है ।

शंका—आकाशचारण और आकाशगामीके क्या भेद है ?

समाधान—इसका उत्तर कहते हैं—चरण, चारित्र, संयम व पापक्रियानिरोध,
इनका एक ही अर्थ है । इसमें जो कुशल अर्थात् निपुण है वह चारण कहलाता है । तप-
विशेषसे उत्पन्न हुई आकाशस्थित जीवोंके [वधके] परिहारकी कुशलतासे जो सहित

१ दुविहा किरियारिद्धी णहवलगामित्त-चारणत्तेहि । उट्ठीओ आसीणो कांडस्सर्गेणं इंदरेण ॥ गच्छेदि जीए
एसा रिद्धी गयणगामिणी णाम । ति. प. ४, १०३३-१०३४. पर्यंकावस्था निषण्णा वा कांयोत्सर्गसरीरा वा पादोद्धात-
निक्षेपणविधिर्मतरेणाकाशगमनकुशला आकाशगामिनः । त. रा. ३, ३६, २.

आगासचारणो' । आगासगमणमेत्तजुत्तो आगासगामी । आगासगामित्तादो जीववधपरिहरण-
कुसलत्तणेण विसेसिदआगासगामित्तस्स विसेसुवलंभादो अत्थि विसेसो । एदेसिं तवोवलेण
आगासगामीणं जिणाणं णमो त्ति उत्तं होदि ।

णमो आसीविसाणं ॥ २० ॥

अविद्यमानस्यार्थस्य आशंसनमाशीः, आशीर्विषं एषां ते आशीर्विषाः । जेसिं जं पडि
मरिहि त्ति वयणं णिप्पडिदं तं मोरदि, भिक्खं भमेत्ति वयणं भिक्खं भमावेदि, सीसं छिज्जउ
त्ति वयणं सीसं छिंददि, ते आसीविसा' णाम समणा । कथं वयणस्स विससण्णा ? विसमिव
विसमिदि उवयारादो । आसी अविसममियं जेसिं ते आसीविसा । जेसिं वयणं थावर-जंगम-
विसपूरिदजीवे पडुच्च ' णिच्चिसा होंतु ' त्ति णिस्सरिदं ते जीवावेदि, वाहिवेयण-दालिहादि-

हैं वह आकाशचारण है। आकाशमें गमन करने मात्रसे संयुक्त आकाशगामी कहलाता है।
सामान्य आकाशगामित्वकी अपेक्षा जीवोंके वधपरिहारकी कुशलतासे विशेषित आकाश-
गामित्वके विशेषता पायी जानेसे दोनोंमें भेद है। तपके बलसे आकाशमें गमन करने-
वाले इन जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अभिप्राय है।

आशीर्विष जिनोंको नमस्कार हो ॥ २० ॥

अविद्यमान अर्थकी इच्छाका नाम आशिप् है, आशिप् है विष जिनका वे आशी-
र्विष कहे जाते हैं। ' मर जाओ ' इस प्रकार जिसके प्रति निकला हुआ जिनका वचन उसे
मारता है, ' भिक्षाके लिये भ्रमण करो ' ऐसा वचन भिक्षार्थ भ्रमण कराता है, ' शिरका छेद
हो ' ऐसा वचन शिरको छेदता है, वे आशीर्विष नामक साधु हैं।

शंका—वचनके विष संज्ञा कैसे सम्भव है ?

समाधान—विषके समान विष है, इस प्रकार उपचारसे वचनको विष संज्ञा
प्राप्त है।

आशिप् है अविष अर्थात् अमृत जिनका वे आशीर्विष हैं। स्थावर अथवा जंगम
विषसे पूर्ण जीवोंके प्रति ' निर्विष हों ' इस प्रकार निकला हुआ जिनका वचन उन्हें

१ प्रतिपु ' आगासचारिणो ' इति पाठः ।

२ मर इदि भणिदि जीओ मरेइ सइस त्ति जीए सत्तीए । दुक्खरतंवज्जुदंमुणिणा आसीविसाणामरिद्धी सा ॥
ति. प. ४-१७७८. प्रकृष्टतपोवला यतयो यं श्रुते प्रियस्वेति स तत्क्षण एव महाविषपरीतो प्रियते ते आस्यविषाः ।
त. रा. ३, ३६, २. आसी दाटा तगय महाविसाऽऽसीविसा इविहमेया । ते कम्म-जाइमेण्ण णेगहा ऋउच्चिइ-
विकप्पा ॥ प्रवचनसारोद्धार १५०१. विशे. मा. ७९४.

विलयं पडुच्च णिप्पडिदं संतं तं तं कज्जं करेदि ते वि आसीविसा' त्ति उत्तं हेदि । तवो-
बलेण एवंविहसत्तिसंजुत्तवयणा होदूण जे जीवाणं णिग्गहाणुग्गहं ण कुणंति, ते आसीविसा
त्ति वेत्तव्वा । कुदो ? जिणाणुत्तीदो । ण च णिग्गहाणुग्गहेहि संदरिसिदरोस-तोसाणं जिणत्त-
मत्थि, विरोहादो । एदेसिं सुहासुहलद्धिसहियाणमासीविसाणं जिणाणं णिसुद्धिय महिवीढंणिवदिदो
किदियकम्मं करेमि त्ति उत्तं हेदि ।

णमो दिट्ठिविसाणं ॥ २१ ॥

दृष्टिरिति चक्षुर्मनसोर्ग्रहणं, तत्रोभयत्र दृष्टिशब्दप्रवृत्तिदर्शनात् । तत्साहचर्यात्कर्मणोऽ-
पि । रुद्धो जदि जोएदि चिंतेदि किरियं करेदि वा ' मारेमि ' त्ति तो मारेदि, अण्णं पि
असुहकम्मं संरंभपुव्वावलोयणेण कुणमाणो दिट्ठिविसो^१ णाम । एवं दिट्ठिअमियाणं^२ पि जाणि-

जिलाता है, व्याधिवेदना और दारिद्र्य आदिके विनाश हेतु निकला हुआ जिनका वचन उस
उस कार्यको करता है, वे भी आशीर्विष हैं, यह सूत्रका अभिप्राय है । तपके प्रभावसे जो इस
प्रकारकी शक्ति युक्त वचनोंसे संयुक्त हो करके जीवोंके निग्रह व अनुग्रहको नहीं करते हैं
वे आशीर्विष हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि, जिन शब्दकी अनुवृत्ति है । और
निग्रह व अनुग्रह द्वारा क्रमशः क्रोध व हर्षको दिखलानेवालोंके जिनत्व सम्भव नहीं है,
क्योंकि, विरोध है । इन शुभ व अशुभ लब्धि सहित आशीर्विष जिनोंको नत होता हुआ
पृथिवीतलपर गिरकर वन्दना करता हूं, यह कहनेका तात्पर्य है ।

दृष्टिविष जिनोंको नमस्कार हो ॥ २१ ॥

दृष्टि शब्दसे यहां चक्षु और मनका ग्रहण है, क्योंकि, उन दोनोंमें दृष्टि शब्दकी
प्रवृत्ति देखी जाती है । उसकी सहचरतासे क्रियाका भी ग्रहण है । रुष्ट होकर
वह यदि ' मारता हूं ' इस प्रकार देखता है, सोचता है व क्रिया करता है तो मारता है,
तथा क्रोधपूर्वक अवलोकनसे अन्य भी अशुभ कार्यको करनेवाला दृष्टिविष कहलाता है ।

१ तिचादिविविहमण्णं विसजुचं जीए वयणमेत्तेणं । पावेदि णिव्विसचं सा रिद्धी वयणणिव्विसा णामा ॥
अहवा बहुवाहीहि परिभूदा झत्ति होंति णीरोगा । सोदुं वयणं जीए सा रिद्धी वयणणिव्विसा णामा ॥ ति. प.
४-१०७४-१०७५. उग्रविषसंपृक्तोऽप्याहारो येषामास्यगतो त्रिर्विषीभवति यदीयास्यविनिर्गतवचःश्रवणाद्धा महाविष-
परीता अपि निर्विषीभवन्ति ते आस्याविषाः । त. रा. ३, ३६, २.

२ प्रतिषु ' महीविद- ' इति पाठः ।

३ जीए जीओ दिट्ठो महासिणा रोसमरिदहिदएण । अहिदडुं व मरिज्जदि दिट्ठिविसा णाम सा रिद्धी ॥
ति. प. २-१०७९. उत्कृष्टतपसो यतयः रुद्धा यमीक्षन्ते स तदैवोग्रविषपरीतो भ्रियते ते दृष्टिविषा । त. रा.
३, ३६, २.

४. रोग-विसेहिं पहंदा दिट्ठीए जीए झत्ति पावन्ति । णीरोग-णिव्विसचं सा भणिदा दिट्ठिणिव्विसा रिद्धी ॥
ति. प. ४-१०७६. येषामालोकनमात्रादेवातितीव्रविषदूषिता अपि संतः विगतविषा भवन्ति ते दृष्टिविषाः ।
त. रा. ३, ३६, २.

दूण लक्खणं वत्तव्वं । जिणाणमिदि अणुवंड्ढे, अण्णहा दिट्ठिविसाणं सप्पाणं पि णमोक्कार-
प्पसंगादो । एदेसिं सुहासुहलद्धिजुत्ताणं तोस-रोसुम्मुक्काणं छव्विहाणं पि दिट्ठिविसाणं जिणाणं
णमो इदि उत्तं होदि ।

णमो उग्गतवाणं ॥ २२ ॥

उग्गतवा दुविहा उग्गुग्गतवा अवट्ठिदुग्गतवा चेदि । तत्थ जो एक्कोववासं काऊण
पारिय दो उववासे करेदि, पुणरवि पारिय तिण्णि उववासे करेदि । एवमेगुत्तरवड्ढीए जाव
जीविदंतं तिगुत्तिगुत्तो होदूण उववासे करंतो^१ उग्गुग्गतवो^२ णाम । एदस्सुववास-पारणा-
णयणे^३ सुत्तं—

उत्तरगुणिते तु धने पुनरप्यष्टापितेऽत्र गुणमादिम् ।

उत्तरविशेषतं वर्गितं च योज्यानयेन्मूलम् ॥ २३ ॥

इसी प्रकार दृष्टि-अमृतोंका भी लक्षण जानकर कहना चाहिये । 'जिनोंको' इसकी
अनुवृत्ति आती है, क्योंकि, इसके बिना दृष्टिविषय सपोंको भी नमस्कार करनेका प्रसंग
आता है । इन शुभ व अशुभ लब्धिसे युक्त तथा हर्ष व क्रोधसे रहित छह प्रकारके ही
दृष्टिविषय जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अर्थ है ।

उग्रतप जिनोंको नमस्कार हो ॥ २२ ॥

उग्रतप ऋद्धि धारक दो प्रकार हैं— उग्रोग्रतप ऋद्धि धारक और अवस्थित
उग्रतप ऋद्धि धारक । उनमें जो एक उपवासको करके पारणा कर दो उपवास करता है,
पश्चात् फिर पारणा कर तीन उपवास करता है । इस प्रकार एक अधिक वृद्धिके साथ
जीवन पर्यन्त तीन गुप्तियोंसे रक्षित होकर उपवास करनेवाला उग्रोग्रतप ऋद्धिका धारक
है । इसके उपवास और पारणाओंको लानेके लिये सूत्र—

विशेषार्थ—इन तीन करणसूत्रोंका पाठ कुछ अशुद्ध प्रतीत होता है जिससे
उनका ठीक अर्थ नहीं बैठया जा सका । किन्तु उनमें जिस गणितकी विवक्षा है वह स्पष्ट

१ प्रतिपु ' करंतवो ' इति पाठः ।

२ उग्गतवा दो भेदा उग्गोग्ग-अवट्ठिदुग्गतवणामा ॥ दिक्खोववासमादिं कादूण एक्काहिएक्कपचएणं ।
आमरणंतं जवणं सा होदि उग्गोग्गतवरिद्धी ॥ ति. प. १०५०-१०५१.

३ प्रतिपु ' पारणाणयणा ' इति पाठः

आदिं त्रिगुणं मूलादपास्य शेषं चएन हतलब्धम् ।

सैकं दलितं च पदं शेषं तु धनं विनिर्दिष्टम् ॥ २४ ॥

मिश्रधने अष्टगुणो त्रिरूपवर्गेण संयुते मूलम् ।

मूलोद्धं च पदंशे शेषं तु धनं विनिर्दिष्टम् ॥ २५ ॥

एदेहि दोहि सुत्तेहि पदमाणिय धणम्मि सोहिदे उववासदिवसा । पदमेत्ताओ पारणाओ । एवं संते छम्मासेहिंतो वड्ढिमा' उववासा होंति । तदो णेदं घडदि त्ति ? ण एस दोसो, घादाउआणं मुणीणं छम्मासोववासणियमब्भुवगमादो, णाघादाउआणं, तेसिमकाले

है । गोम्मटसार जीवकाण्डकी टीका (पृ. १२० आदि) में उल्लिखित करणसूत्रोंके अनुसार उपवास और पारणाके दिनोंकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है—

मान लीजिये कि एक उग्रोत्र तपस्वी प्रतिपदासे प्रारम्भ कर एकोत्तर वृद्धि क्रमसे चतुर्दशी तक निम्न प्रकारसे उपवास (उ) व पारणा (पा) करता है—

१ २	३ ४ ५	६ ७ ८ ९	१० ११ १२ १३ १४
उ पा	उ उ पा	उ उ उ पा	उ उ उ उ पा
१	२	३	४

इसका सर्वधन या पदधन ' मुह-भूमिजोगदले पदगुणिदे पदधणं होदि ' इस सूत्रके अनुसार हुआ—

$$\{ (२ + ५) \div २ \} \times ४ = १४ \text{ पद धन या सर्वधन ।}$$

इसमें पदसंख्या अर्थात् कितने चार उपवास और पारणायें हुई इसकी गणना ' आदी अंते सुद्धे वड्ढिहदे रुवसंजुदे ठाणे ' इस सूत्रके अनुसार हुई—

$$(५ - २) \times १ + १ = ४ \text{ पद ।}$$

अब धवलाकारके अनुसार धनमेंसे पदकी संख्या घटानेपर $१४ - ४ = १०$ उववास दिवस हुए, और पदमात्र अर्थात् ४ पारणादिन ।

इन दो सूत्रोंसे पदको लाकर धनमेंसे कम करनेपर उपवासदिन होते हैं । पारणाएं पद प्रमाण होती हैं ।

शंका—ऐसा होनेपर छह मासोंसे अधिक उपवास हो जाते हैं । इस कारण यह घटित नहीं होता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, घातायुष्क मुनियोंके छह मासोंके उपवासका नियम स्वीकार किया है, अघातायुष्क मुनियोंके नहीं; क्योंकि, उनका अकालमें

मरणाभावादो । अघादाउआ वि छम्मासोववासा चेव होंति, तदुवरि सँकिलेसुप्पत्तीदो त्ति उत्ते होदु णाम एसो णियमो ससंकिलेसाणं सोवक्कमाउआणं च, ण सँकिलेसविरहिदणिरुवक्कमाउआणं^१ तवोवलेणुप्पण्णविरियंतराइयक्खओवसमाणं तव्वलेणेव मंदीकयासादावेदणीओदयाणमेस णियमो, तत्थ तव्विरोहादो । एरिसी सत्ती महानस्सुप्पज्जदि त्ति कवं णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । कुदो ? छम्मासेहिंतो उवरि उववासाभावे उग्गुग्गतवाणुववत्तीदो ।

तत्थ दिक्खड्डमेगोववासं काऊण पारिय पुणो एकहंतरेण गच्छंतस्स किंचिणिमित्तेण छट्ठोववासो जादो । पुणो तेण छट्ठोववासेण विहरंतस्स अट्ठमोववासो जादो । एवं दसमदुवालसादिककमेण हेट्ठा ण पदंतो जाव जीविदंतं जो विहरदि अवड्ढिदुग्गतवो णाम । एदं पि तवोविहाणं वीरियंतराइयक्खओवसमेण होदि । दोणं पि तवाणमुक्कड्डफलं णिव्वुई, अवर-

मरण नहीं होता ।

शंका—अघातायुष्क भी छह मास तक उपवास करनेवाले ही होते हैं, क्योंकि, इसके आगे संक्लेश भाव उत्पन्न हो जाता है ?

समाधान—इसके उत्तरमें कहते हैं कि संक्लेश सहित और सोपक्रमायुष्क मुनियोंके लिये यह नियम भले ही हो, किन्तु संक्लेश भावसे रहित निरुपक्रमायुष्क और तपके बलसे उत्पन्न हुए वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे संयुक्त तथा उसके बलसे ही असातावेदनीयके उदयको मन्द कर चुकनेवाले साधुओंके लिये यह नियम नहीं है, क्योंकि, उनमें इसका विरोध है ।

शंका—ऐसी शक्ति किसी महाजन अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषके उत्पन्न होती है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे ही यह जाना जाता है, क्योंकि, छह मासोंसे ऊपर उपवासका अभाव माननेपर उग्रोग्र तप बन नहीं सकता ।

दीक्षाके लिये एक उपवास करके पारणा करे, पश्चात् एक दिनके अन्तरसे ऐसा करते हुए किसी निमित्तसे षष्ठोपवास हो गया । फिर उस षष्ठोपवाससे विहार करनेवालेके अष्टमोपवास हो गया । इस प्रकार दशम-द्वादशम आदिके क्रमसे नीचे न गिरकर जो जीवन पर्यंत विहार करता है वह अवस्थित-उग्रतप ऋद्धिका धारक कहा जाता है । यह भी तपका अनुष्ठान वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे होता है । इन दोनों ही तपोंका उत्कृष्ट

१ प्रतियु 'विरहिणिरुवक्कमाउआणं' इति पाठः ।

मणुककडफलं । एदेसिमुग्गतवाणं जिणाणं णमो इदि उत्तं होदि ।

णमो दित्ततवाणं ॥ २३ ॥

दीप्तिहेतुत्वादीप्तं तपः । दीप्तं तपो येषां ते दीप्ततपसः । चउत्थ-छट्टमादि-
उववासेसु कीरमाणेसु जेसिं तवजणिदलद्धिमाहप्पेण सरीरतेजो पडिदिणं^१ वड्ढदि धवलपक्ख-
चंदस्सेव ते रिसओ दित्ततवा^२ । तेसिं ण केवलं दित्ती चेव वड्ढदि, किंतु बलो वि वड्ढदि;
सरीरबल-मांस-रुहोरोवचएहि विणा सरीरदीत्तिवुड्ढीए अणुववत्तीदो । तेण ण तेसिं भुत्ती वि,
तक्कारणाभावादो । ण च भुक्खादुक्खुवसमण्डं भुंजंति, तदभावादो । तदभावो कुदो
वग्गम्मदे ? दित्ति-बल-सरीरोवचयादो । तेसिं दित्ततवाणं मण-वयण-कौएहिं णमो ।

णमो तत्ततवाणं ॥ २४ ॥

फल मोक्ष है, अन्य अनुत्कृष्ट फल है । इन उग्रतप ऋद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो,
यह सूत्रका अभिप्राय है ।

दीप्ततप ऋद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो ॥ २३ ॥

दीप्तिका कारण होनेसे तप दीप्त कहा जाता है । दीप्त है तप जिनका वे दीप्त-
तप हैं । चतुर्थ व छट्टम आदि उपवासोंके करनेपर जिनका शरीरतेज तप जनित लब्धिके
माहात्म्यसे प्रतिदिन शुक्ल पक्षके चन्द्रके समान बढ़ता जाता है, वे ऋषि दीप्ततप
कहलाते हैं । उनकी केवल दीप्ति ही नहीं बढ़ती है, किन्तु बल भी बढ़ता है, क्योंकि,
शरीरबल, मांस और रुधिरकी वृद्धिके बिना शरीरदीप्तिकी वृद्धि हो नहीं सकती ।
इसीलिये उनके आहार भी नहीं होता, क्योंकि, उसके कारणोंका अभाव है । यदि कहा
जाय कि भूखके दुखको शान्त करनेके लिये वे भोजन करते हैं, सो भी ठीक नहीं है;
क्योंकि, उनके भूखके दुखका अभाव है ।

शंका—उसका अभाव कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान—दीप्ति, बल और शरीरकी वृद्धिसे वह जाना जाता है ।

उन दीप्ततप ऋद्धिधारकोंको मन, वचन और कायसे नमस्कार हो ।

तप्ततप ऋद्धिधारकोंको नमस्कार हो ॥ २४ ॥

१ प्रतिष्ठु 'पदादीणं' इति पाठः ।

२ बहुविहउववासेहिं रविसमवड्ढुत्तकायकिरणोघो । काय-मण-वयणबलिणो जीए सा दित्ततवरिद्धी ॥
ति. प. ४-१०५२. महोपवासकरणेऽपि प्रवर्धमानकाय-वाङ्मानसबलाः विगन्धरहितवदनाः पदमोत्पलादिमृगमि-
निश्वासाः अप्रच्युतमहादीप्तिशरीराः दीप्ततपसः । त. रा. ३, ३६, २.

तप्तं दग्धं विनाशितं मूत्र-पुरीष-शुक्रादि येन तपसा तदुपचारेण तप्ततपः । जेसिं
भुत्तचउव्विहाहारस्स तत्तलोहपिंडागरिसिदपाणियस्सेव णीहारो णत्थि ते तत्ततवा^१ । एदाए
रिद्धीए सहियाणं जिणाणं णमो इदि उत्तं होदि ।

णमो महातवाणं ॥ २५ ॥

अणिमादिअट्ठगुणोवेदो जलचारणादिअट्ठविहचारणगुणांलकरियो फुरंतसरीरप्पहो दुविह-
अक्खीणलद्धिजुत्तो सव्वोसहिसरूवो पाणिपत्तणिवदिदसव्वाहारे अमियसादसरूवेण पल्लट्ठावण-
समत्थो सयल्लिंदेहिंतो वि अणंतवलो आसी-दिद्धिविसलद्धिसमण्णिओ तत्ततवो सयलविज्जाहरो
मदि-सुद-ओहि-मणपज्जवणाणेहि मुणिदतिहुवणवावारो मुणी महातवो^१ णाम । कस्मात् ?
महत्त्वहेतुस्तपोविशेषो महानुच्यते उपचारेण, स येषां ते महातपसः इति सिद्धत्वात् । अथवा

जिस तपके द्वारा मूत्र, मल और शुक्रादि तप्त अर्थात् दग्ध व विनष्ट कर दिया
जाता है वह उपचारसे तप्ततप है । जिनके ग्रहण किये हुए चार प्रकारके आहारका तपे
हुए लोहपिण्ड द्वारा आकृष्ट पानीके समान नीहार नहीं होता वे तप्ततप ऋद्धिके धारक
हैं । इस ऋद्धिसे सहित जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अर्थ है ।

महातप ऋद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो ॥ २५ ॥

जो अणिमादि आठ गुणोंसे सहित है, जलचारणादि आठ प्रकारके चारणगुणोंसे
अलंकृत है, प्रकाशमान शरीरप्रभासे संयुक्त है, दो प्रकारकी अक्षीण ऋद्धिसे युक्त है,
सर्वोपधि स्वरूप है, पाणिपात्रमें गिरे हुए सब आहारोंको अमृतस्वरूपसे पलटानेमें
समर्थ है, समस्त इन्द्रोंसे भी अनन्तगुणे बलका धारक है, आशीर्विष और दृष्टिविष
लब्धियोंसे समन्वित है, तप्ततप ऋद्धिसे संयुक्त है, समस्त विद्याओंका धारक है; तथा
मति, श्रुत, अंधवि एवं मनःपर्यय ज्ञानोंसे तीनों लोकके व्यापारको जाननेवाला है, वह
मुनि महातप ऋद्धिका धारक है । कारण कि महत्त्वके हेतुभूत तपविशेषको उपचारसे
महान् कहा जाता है । वह जिनके होता है वे महातप ऋषि हैं, ऐसा सिद्ध है । अथवा,

१ प्रतिपु 'तत्थ' इति पाठः ।

२ तत्ते लोहकडाहे पडिअंबुकणं व जीए भुत्तणं । झिज्जदि धारुहिं सा णियझाणाएहिं तत्ततवा ॥ ति. प.
४-१०५३. तप्तायसकटाहपतितजलकणवदाशुशुष्काल्पाहारतया मल-रुधिरादिमात्रपरिणामविरहिताभ्यवहाराः तप्त-
तपसः । त. रा. ३, ३६, २.

३ मंदरपंतिप्पमुहे महोववासि करेदि सव्वे वि । चउसण्णाणंवलेणं जीए सा महातवा रिद्धी ॥ ति. प.
४-१०५४. सिंहनिःक्रीडितादिमहोपवासाद्युद्यानपरायणयतयो महातपसः । त. रा. ३, ३६, २.

महसां हेतुः तप उपचारेण महा इति भवति । सेसं सुगमं । एदेसिं महातवाणं मण-वयण-
कायेहि णमोक्कारं करेमि ।

णमो घोरतवाणं ॥ २६ ॥

उववासेसु छम्मासोववासो, ओमोदरियासु एकककवलो, उत्तिपरिसंखासु चच्चरे
गोयराभिग्गहो, रसपरिच्चागोसु उण्हजलजुदोयेणभोयणं, विवित्तसयणासणेसु वय-वग्घ-तरच्छ-
छवल्लादिसावयसेवियासु सज्झ-विज्झुडईसु णिवासो, कायकिलेसेसु तिव्वहिमवासादिणिव-
दंतविसएंसु अब्भोकासैस्सखमूलादावणजोगग्गहणं । एवमब्भंतरतवेसु वि उक्कट्ठतवरूपणा
कायव्वा । एसो बारहविहो वि तवो कायरजणाणं सज्झसजणणो त्ति घोरत्तवो । सो जेसिं ते
घोरत्तवा । बारसव्विहत्तउक्कट्ठवट्ठाए वट्ठमाणा घोरतवा^१ त्ति भणिदं होदि । एसो वि तव-
जणिदरिद्धी चेव, अण्णहा एवंविहाचरणानुववत्तीदो । एदेसिं घोरतवाणं णमो इदि उत्तं होदि ।

महस् अर्थात् तेजोंका हेतुभूत जो तप है वह उपचारसे 'महा' होता है । शेष सुगम है ।
इन महातप ऋद्धिधारकोंको मन, वर्चन व कायसे नमस्कार करता हूं ।

घोरतप ऋद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो ॥ २६ ॥

उपवासोंमें छह मासका उपवास, अवमोदर्य तपोंमें एक ग्रास, वृत्तिपरिसंख्याओंमें
चत्वर अर्थात् चौराहेमें भिक्षाकी प्रतिज्ञा, रसपरित्यागोंमें उष्ण जल युक्त ओदनका भोजन;
विविक्तशय्यासनोंमें वृक, व्याघ्र, तरक्ष, छवल्ल आदि श्वापद अर्थात् हिंस्र जीवोंसे सेवित
सह्य, विन्ध्य आदि अटवियोंमें निवास, कायक्लेशोंमें तीव्र हिमालय आदिके अन्तर्गत
देशोंमें खुले आकाशके नीचे अथवा वृक्षमूलमें आतापन योग अर्थात् ध्यान ग्रहण करना ।
इसी प्रकार अभ्यन्तर तपोंमें भी उत्कृष्ट तपकी प्ररूपणा करना चाहिये । यह बारह प्रकार
ही तप कायर जनोंको भयोत्पादक है, इसी कारण घोर तप कहलाता है । वह तप जिनके
होता है वे घोर तप ऋद्धिके धारक हैं । बारह प्रकारके तपोंकी उत्कृष्ट अवस्थामें वर्तमान
साधु घोरतप कहलाते हैं, यह तात्पर्य है । यह भी तपजनित ऋद्धि ही है, क्योंकि, बिना
तपके इस प्रकारका आचरण बन नहीं सकता । इन घोरतप ऋषीश्वरोंको नमस्कार हो,
यह सूत्रका अर्थ है ।

१ प्रतिपु 'बुदोयण' इति पाठः ।

२ प्रतिपु 'अब्भोवास-' इति पाठः ।

३ जलसूलप्पमुहाणं रेणेणच्चंतपीडिअंगा वि । साहंति दुद्धरतवं जीए सा घोरतवरिद्धी ॥ ति. प.
४-१०५५. वात-पित्त-श्लेष्म-सन्निपातसमुद्भूतज्वर-कास-श्वासाक्षि-शूल-कुष्ठे-प्रमेहादिविविधरोगसंतापितदेहा अप्य-
प्रच्युतानशन-कायक्लेशादितर्पसो भीमस्मशानाद्रिमस्तकग्रहा-दरी-कंदर-शून्यग्रामादिषु प्रदुष्टयक्ष-राक्षस-पिशाचप्रवृत्तवेताल-
रूपविकारेषु पुरुषशिवास्तानुपरसिंह-व्याघ्रादि-व्याल मृगभीषणस्त्रन-पौरचौरादिप्रचरितेष्वमिरुचितावासाश्च घोरतपसः ।
त. रा. ३, ३६, २.

• णमो घोरपरक्कमाणं ॥ २७ ॥

तिहुवणुवसंहरण-महीवीढंगसण-सयलसायरजलसोसण-जलगिसिलापच्चदादिवरिसण-सत्ती घोरपरक्कमो णाम । घोरो परक्कमो जेसिं जिणाणं ते घोरपरक्कमा^१ । तेसिं णमो इदि भणिदं होदि । ण कूरकम्माणं असुराणं णमोक्कारो पसज्जदे, जिणाणुवत्तीदो ।

णमो घोरगुणाणं ॥ २८ ॥

घोरा रुद्धा गुणा जेसिं ते घोरगुणा । कधं चउरासीदिलक्खगुणाणं घोरत्तं ? घोर-कज्जकारिसत्तिजणणादो । तेसिं घोरगुणाणं णमो इदि उत्तं होदि । णादिप्पसंगो, जिणाणु-वत्तीदो । ण गुण-परक्कमाणमेयत्तं, गुणजणिदसत्तीए परक्कमववएसोदो ।

घोरपराक्रम ऋद्धि धारक जिनोंको नमस्कार हो ॥ २७ ॥

तीनों लोकोंका उपसंहार करने, पृथिवीतलको निगलने, समस्त समुद्रके जलको सुखाने; तथा जल, अग्नि एवं शिलापर्वतादिके धरसानेकी शक्तिका नाम घोरपराक्रम है । घोर है पराक्रम जिन जिनोंका वे घोरपराक्रम कहलाते हैं । उनको नमस्कार हो, यह अभिप्राय है । यहां जिन शब्दकी अनुवृत्ति आनेसे क्रूर कर्म करनेवाले असुरोंको नमस्कार करनेका प्रसंग नहीं आता ।

घोरगुण जिनोंको नमस्कार हो ॥ २८ ॥

घोर अर्थात् रौद्र हैं गुण जिनके वे घोरगुण कहे जाते हैं ।

शंका—चौरासी लाख गुणोंके घोरत्व कैसे सम्भव है ?

समाधान—घोर कार्यकारी शक्तिको उत्पन्न करनेके कारण उनके घोरत्व सम्भव है ।

उन घोरगुण जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अर्थ है । जिन शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे यहां अतिप्रसंग भी नहीं आता । गुण और पराक्रमके एकत्व नहीं है, क्योंकि, गुणसे उत्पन्न हुई शक्तिकी पराक्रम संज्ञा है ।

१ आप्रतौ ' -पडिक्कमाणं ', काप्रतौ ' परिक्कमाणं ' इति पाठः । २ प्रतियु ' महीविद ' इति पाठः ।

३ गिरिवरमवद्वृततवा तिहुवणसंहरणकरणसत्तिजुदा । कंटय-सिलगि-पच्चय-धृमुक्कापहुदिवरिसणसमत्था ॥ सहस चि सयलसायरसलिलुण्णील्लस सोसणसमत्था । जायंति जीए सुणिणो घोरपरक्कमतव चि सा रिद्धी ॥ पि. प. ४, १०५६-१०५७. त. एव गृहीततपोयोगवर्धनपरा-घोरपराक्रमाः । त. रा. ३, ३६, २.

णमो घोरगुणवंभचारीणं ॥ २९ ॥

ब्रह्म चारित्रं पंचव्रत-समिति-त्रिगुण्यात्मकम्, शान्तिपुष्टिहेतुत्वात् । अघोरान्ता गुणा यस्मिन् तदघोरगुणं, अघोरगुणं ब्रह्म चरन्तीति अघोरगुणब्रह्मचारिणः । जेसिं तवोमाहप्येण डमरादि-मारि-दुम्भिवख-वडर-कलह-वध-बंधन-रोहादिपसमणसत्ती समुप्पण्णा ते अघोरगुण-बम्हचारिणो^१ ति उत्तं होदि । तेसिं अघोरगुणवंभचारीणं णमो इदि उत्तं होदि । एत्थ अकारो किण्ण सुणिज्जेद ? संधिणिद्देसादो । दिड्ढिमियाणमघोरवंभचारीणं च को विसेसो ? उव-जोगसहेज्जदिंढीए ढिदलद्धिजुत्ता दिड्ढिविसा णाम । अघोरवंभचारीणं पुण लद्धी असंखेज्जा सव्वंगगया, एदेसिमंगलगवादे वि सयलोवद्वविणासणसत्तिदंसणादो ! तदो अत्थि भेदो ।

अघोरगुणब्रह्मचारी जिनोंको नमस्कार हो ॥ २९ ॥

ब्रह्मका अर्थ पांच व्रत, पांच समिति और तीन गुणित स्वरूप चारित्र है, क्योंकि, वह शान्तिके पोषणका हेतु है । अघोर अर्थात् शान्त हैं गुण जिसमें वह अघोरगुण है, अघोरगुण ब्रह्मका आचरण करनेवाले अघोरगुणब्रह्मचारी कहलाते हैं । जिनके तपके प्रभावसे डमरादि (राष्ट्रीय उपद्रव आदि), रोग, दुर्भिक्ष, वैर, कलह, वध, बन्धन और रोध आदिको नष्ट करनेकी शक्ति उत्पन्न हुई है वे अघोरगुणब्रह्मचारी हैं, यह तात्पर्य है । उन अघोरगुण-ब्रह्मचारी जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अभिप्राय है ।

शंका—‘ णमो घोरगुणवंभचारीणं ’ इस सूत्रमें अघोर शब्दका अकार क्यों नहीं सुना जाता ?

समाधान—सन्धियुक्त निर्देश होनेसे उक्त अकारका यहां श्रवण नहीं होता ।

शंका—दृष्टि-अमृत और अघोरब्रह्मचारीके क्या भेद है ?

समाधान—उपयोगकी सहायता युक्त दृष्टिमें स्थित लब्धिसे संयुक्त दृष्टिविष कहलाते हैं । किन्तु अघोरब्रह्मचारियोंकी लब्धियां सर्वांगगत असंख्यात हैं । इनके शरीरसे स्पृष्ट वायुमें भी समस्त उपद्रवोंको नष्ट करनेकी शक्ति देखी जाती है । इस कारण दोनोंमें भेद है ।

१ अ-काप्रत्योः ‘ बम्हचारिणं ’ इति पाठः । २ प्रतिषु ‘ दमरिदि ’, मप्रतौ ‘ दमरीदि ’ इति पाठः ।

३ जीए ण होंति सुणिणो खेचम्मि वि चोरपहुदिवाधाओ । काल-महाजुद्धादी रिद्धी साघोरबम्हचारिणा ॥ उक्खस्सक्खउवसमे चारिटावरणमोहकम्मस्स । जा दुस्सिमणं णाइस रिद्धी साघोरबम्हचारिणा ॥ अहवा— सव्वगुणेहिं अघोरं महेसिणो बम्हसइचारिणं । विष्फुरिदाए जीए रिद्धी साघोरबम्हचारिणा ॥ ति. प. ४, १०५८-१०६०. भित्तिपितास्खलितब्रह्मचर्यवासाः प्रकृष्टचारित्रमोहनीयक्षयोपशमान् प्रणष्टदुःस्वप्नाः घोरब्रह्मचारिणः । तं. रा. ३, ३६, २.

णवरि असुहलद्धीणं पउत्ती लद्धिमंताणमिच्छावसवट्टणी । सुहाणं लद्धीणं पउत्ती पुण दोहि वि पयारेहि संभवदि, तदिच्छाए विणा वि पउत्तिदंसणादे ।

णमो आमोसहिपत्ताणं ॥ ३० ॥

आमर्षः औषधत्वं प्राप्तो येषां ते आमर्षौषधप्राप्ताः । सुप्ते सकारो किण्ण सुणिज्जदि ? 'आई-मज्झंतवण्ण-सरलोवो' ति लक्खणादो । ओसहि ति इकारो कतो ? 'एए छच्चे समाणा' ति

विशेष इतना है कि अशुभ लब्धियोंकी प्रवृत्ति लब्धियुक्त जीवोंकी इच्छाके वशसे होती है । किन्तु शुभ लब्धियोंकी प्रवृत्ति दोनों ही प्रकारोंसे सम्भव है, क्योंकि, उनकी इच्छाके बिना भी उक्त लब्धियोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है ।

आमर्षौषधिप्राप्त ऋषियोंको नमस्कार हो ॥ ३० ॥

जिनका आमर्ष अर्थात् स्पर्श औषधपनेको प्राप्त है वे आमर्षौषध प्राप्त हैं ।

शंका—सूत्रमें सकार क्यों नहीं सुना जाता है ?

समाधान—' [प्राकृतमें] किन्हीं पदोंके आदि, मध्य व अन्तके वर्ण और स्वरका लोप कर दिया जाता है ' इस व्याकरणके नियमसे सकारका लोप हो गया, अतः वह नहीं सुना जाता ।

शंका—' औषधि ' में इकार कहांसे आया ?

समाधान—' अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ये छह समान स्वर [तथा ए और ओ ये दो सन्ध्यक्षर, ये आठों स्वर विना विरोधके एक दूसरेके स्थानमें आदेशको प्राप्त होते हैं] । इस व्याकरणके नियमसे ' औषधि ' यहां इकार किया गया है ।

विशेषार्थ—यद्यपि संस्कृतमें ' औषधि ' और ' औषध ' दोनों शब्द हैं, तथापि यहां केवल औषधिसमूह रूप ' औषध ' शब्दसे अभिप्राय होनेके कारण उक्त प्रकार समाधान किया गया है ।

१ कौरव पयाण काण वि आई-मज्झंतवण्णसरलोवो—(जयध. भाग १, पृ. ३२६).

२ एए छच्च समाणा दोणिण अ संज्झक्खरा सरा अट्ठ । अण्णोण्णस्सविरोहा उवेंति सज्जे समाएसं ॥
(जयध. १, पृ. ३२६).

लक्खणादो । तवोमाहप्पेण जेसिं फासो सयलोसहसरूवत्तं पत्तो तेसिमामोसहिपत्ता' त्ति सण्णा । एवंविहाणमोसहिपत्ताणं णमो इदि भणिदं होदि । ण च एदेसिमघोरगुणंवभयारीणं अंतव्भावो, एदेसिं वाहिविणासणे चेव सत्तिदंसणादो ।

णमो खेलोसहिपत्ताणं ॥ ३१ ॥

सैंभ-लाल-सिंघाण-विप्पुसादीणं खेलो त्ति सण्णा । एसो खेलो ओसहितं पत्तो जेसिं ते खेलोसहिपत्ता' । तेसिं खेलोसहिपत्ताणं जिणाणं णमो ।

णमो जल्लोसहिपत्ताणं ॥ ३२ ॥

जल्लो अंगमलो वाहिरो । सो ओसहितं पत्तो जेसिं तवोवलेण ते जल्लोसहि-

तपके प्रभावसे जिनका स्पर्श-समस्त औषधोंके स्वरूपको प्राप्त हो गया है उनकी आमशौषधिप्राप्त ऐसी संज्ञा है । इस प्रकारके औषधिप्राप्त ऋषियोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अर्थ है । इनका अघोरगुणब्रह्मचारियोंमें अन्तर्भाव नहीं होता, क्योंकि, इनके केवल व्याधिके नष्ट करनेमें ही शक्ति देखी जाती है ।

खेलौषधिप्राप्त ऋषियोंको नमस्कार हो ॥ ३१ ॥

श्लेष्म, लार, सिंहाण अर्थात् नासिकामल और विप्पु आदिकी खेल संज्ञा है । जिनका यह खेल औषधित्वको प्राप्त हो गया है वे खेलौषधिप्राप्त ऋषि हैं । उन खेलौषधिप्राप्त जिनोंको नमस्कार हो ।

जल्लौषधिप्राप्त जिनोंको नमस्कार हो ॥ ३२ ॥

वाह्य अंगमल जल्ल कहलाता है । वह तपके प्रभावसे जिनके औषधिपनेके प्राप्त

१ रिसिकर-चरणादीणं अल्लियमेत्तस्मि जीए पासम्मि । जीवा होंति णिरोगा साअम्मरिसोसही रिद्धी ॥ ति. प. ४-१०६८. आमर्शनः संस्पर्शः, यदीयहस्त-पादाधामर्श-औषधिप्राप्तो यैस्ते आमशौषधिप्राप्ताः । त. रा. ३, ३६, २. संफरिसणमामोसो— संस्पर्शनमामर्शः, स एवौषधिर्यस्यासात्रामशौषधिः । करादिसंस्पर्शमात्रादेव त्रिविधव्याधिव्यपनयनसमर्थो लब्धि-लब्धिमतोरभेदोपचारात् साधुरेवामशौषधिरित्यर्थः । इदमत्र तात्पर्यम्— यत्प्रभावात् स्वहस्त-पादाद्यवयवपरामर्शमात्रेणैवात्मनः परस्य वा सर्वेऽपि रोगाः प्रणश्यन्ति सा आमशौषधिः । प्रवचनसारोद्धार १४९६ (वृत्ति).

२ प्रतिषु 'लालि' इति पाठः ।

३ जीए लाला-सेमच्छीमल-सिंहाणआदिआ सिग्घं । जीवाण रोगहरणा स च्चिय खेलोसही रिद्धी ॥ ति. प. ४-१०६९. खेलो निष्ठीवन्नमौषधिर्येषां ते खेलौषधिप्राप्ताः । त. रा. ३, ३६; २. खेलः श्लेष्मा, जल्लो मलः कर्ण-वदन-नासिका-नयन-जिह्वा-समुद्भवः शरीरसम्भवश्च, तौ खेल-जल्लौ यत्प्रभावात् सर्वरोगापहारकौ सुरभी च भवतः सा क्रमेण खेलौषधिर्जल्लौषधिश्च । प्रवचनसारोद्धार १४९६ (वृत्ति).

पत्ता' । [तेसिं जल्लोसहिपत्ता-] णं जिणाणं णमो ।

णमो विट्ठोसहिपत्ताणं ॥ ३३ ॥

विट्ठसद्धो जेण देसामासिओ तेण मुत्त-विट्ठा-सुत्ताणं गहणं । एदे ओसहितं पत्ता जेसिं ते विट्ठोसहिपत्ता, तेसिं विट्ठोसहिपत्ताणं जिणाणं णमो ।

णमो सव्वोसहिपत्ताणं ॥ ३४ ॥

रस-रुहिर-मांस-मेदङ्गि-मज्ज-सुक्क-फुप्फस-खरीस-कालेज्ज-मुत्त-पित्तुच्चारदओ सव्वे ओसहितं पत्ता जेसिं ते सव्वोसहिपत्ता' । तेसिं सव्वोसहिपत्ताणं णमो । एत्थ जेत्तियाओ

हो गया है वे जल्लौपधिप्राप्त जिन हैं । उन जल्लौपधिप्राप्त जिनोंको नमस्कार हो ।

विष्टौपधिप्राप्त जिनोंको नमस्कार हो ॥ ३३ ॥

विष्टा शब्द चूँकि देशामर्शक है, अतएव उससे मूत्र, मल व स्रुत अर्थात् शरीरके क्षरितका ग्रहण है । ये जिनके औषधित्वको प्राप्त हो गये हैं वे विष्टौपधिप्राप्त जिन हैं । उन विष्टौपधिप्राप्त जिनोंको नमस्कार हो ।

सर्वौपधिप्राप्त जिनोंको नमस्कार हो ॥ ३४ ॥

रस, रुधिर, मांस, मेदा, अत्थि, मज्जा, शुक्र, फुफ्फुस, खरीप, कालेय, मूत्र, पित्त, अंतड़ी, उच्चार अर्थात् मल आदिक सब जिनके औषधिपनेको प्राप्त हो गये हैं वे सर्वौपधिप्राप्त जिन हैं । उन सर्वौपधिप्राप्त जिनोंको नमस्कार हो । यहां लोकमें जितनी

१. सयजलो अंगरयं जल्लं षण्णे ति जीए तेणावि । जीवाण रोगहरणं रिद्धी जल्लोसर्हा णामा ॥ ति. प. ४-१०७०. स्वेदालंबनो रजोनिचयो जल्लः, स औषधिं प्राप्तो येषां ते जल्लौपधिप्राप्ताः । त. रा. ३, ३६, २.

२. मुत्त पुरीसो वि पुटं दारुणवहुर्जाववायसंहरणा । जीए महामुणीणं विप्पोसहि णाम सा रिद्धी ॥ ति. प. ४-१०७२. विट्ठच्चार औषधियेषां ते विट्ठौपधिप्राप्ताः । त. रा. ३, ३६ २. मुत्त-पुरीसाण विप्पुसो वावि (वयवा) । अवे विडित्ति विट्ठा भांसति पडति पासवणं ॥ 'मुत्त-पुरीसाण विप्पुसो वावि' (ऽवयवा) ति मूत्र-पुरीपयो-विप्पुपः— अवयवाः इह विमुड्डय्यते, 'विप्पुसो वाऽवि' ति पाठस्तु ग्रन्थान्तरेऽन्यदुपेक्षितः, अथ चावश्यमे-तद्व्याख्यानं प्रयोजनं तदेतत् व्याख्येयम्— वा-शब्दः समुच्चये, अपि-शब्द एवकारार्थो भिन्नक्रमश्च, ततो मूत्र-पुरीपयोरेवावयवा इह विमुड्डय्यते इति । अन्ये तु भाषन्ते— विडित्ति विष्टा, पत्ति प्रश्रवणं मूत्रम्, 'सूचकत्वात्सूत्रस्ये-ति ××× यन्माहात्म्यान्मूत्र-पुरीपावयवमात्रमपि रोगराशिप्रणाशाय संपद्यते सुरभि च सा विमुड्ढौपधिः । प्रवचन-साराद्धार १४९६ (वृत्ति) .

३. जीए पस्सजलाणिल-रोम-णहादीणि वाहिहरणाणि । दुक्करतवज्जुत्ताणं रिद्धी सव्वोसही णामा ॥ ति. प. ४-१०७३. अंग-प्रत्यंग-नख-दन्त-केशादिवयवः तत्संस्पर्शां वाय्वादिसर्वः औषधिप्राप्तो येषां ते सर्वौपधिप्राप्ताः । त. रा. ३, ३६, २. तथा यन्माहात्म्यतो विष्णुमूत्र-केश-नखादयश्च सर्वेऽवयवाः समुदिताः सर्वत्र भेषजीभावं सौरभं च भजन्ते सा सर्वौपधिरिति । प्रवचनसाराद्धारवृत्ति १४९६-१४९७.

छ. क. १३.

वाहीओ लोए अत्थि ताओ सव्वाओ ठवेदूण आमास-खेल-जल्ल-विट्ठ-सव्वोसहीणमेगसंजोगादि-
भंगा णाणाकालजिणे' असिसदूण परूवेदव्वा, विचित्तचरित्तेण लद्धीणं वड्ढित्तियाविरोहादो ।

णमो मणवलीणं ॥ ३५ ॥

वारहंगुद्धित्तिकालगोयराणंतट्ठ-वंजण-पज्जायाइण्णल्लदव्वाणि णिरंतरं चित्तिदे' वि खेया-
भावो मणवलो । एसो मणवलो जेसिमत्थि ते मणवल्लिणो' । एसो वि मणवलो लद्धी, विसिट्ठ-
तवोबलेणुप्पज्जमाणत्तादो । कधमण्णहा वारहंगडो मुहुत्तेणेक्केण बहूहि वासेहि बुद्धिगोयरमा-
बण्णो चित्तखेयं ण कुणेज्ज ? तेसिं मणवलीणं णमो ।

णमो वचिबलीणं ॥ ३६ ॥

वारसंगाणं बहुवारं पडिवाडिं काऊण वि जो खेयं ण गच्छइ सो वचिबलो,

व्याधियां हैं उन सबको स्थापित कर आमर्षौपधि, खेलौपधि, जल्लौपधि, विष्टौपधि और
सर्वौपाधिके एकसंयोगादि रूप भंगोंकी नाना काल सम्बन्धी जिनोंका आश्रय करके प्ररूपणा
करना चाहिये, क्योंकि, विचित्र चरित्रसे लब्धियोंकी विचित्रतामें कोई विरोध नहीं है ।

मनबल ऋद्धि युक्त जिनोंको नमस्कार हो ॥ ३५ ॥

वारह अंगोंमें निर्दिष्ट त्रिकालविषयक अनन्त अर्थ व व्यञ्जन पर्याओंसे व्याप्त
छह द्रव्योंका निरन्तर चिन्तन करनेपर भी खेदको प्राप्त न होना मनबल है । यह मनबल
जिनके है वे मनवली कहलाते हैं । यह मनबल भी लब्धि है, क्योंकि, वह विशिष्ट तपके
प्रभावसे उत्पन्न होता है । अन्यथा बहुत वर्षोंमें बुद्धिगोचर होनेवाला वारह अंगोंका अर्थ
एक मुहूर्तमें चित्तखेदको कैसे न करेगा ? अर्थात् करेगा ही । उन मनवली ऋषियोंको
नमस्कार हो ।

वचनबली ऋषियोंको नमस्कार हो ॥ ३६ ॥

वारह अंगोंका बहुत बार प्रतिवाचन करके भी जो खेदको नहीं प्राप्त होता है,

१ प्रतिपु ' जिणो ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' णिरं चित्तिदे ' इति पाठः ।

३ वल्लिखी तिविहप्पा मण-वयणं-सरीरयाण मेणुण । मुदणाणावरणाए पगडीए वीर्यंतरायाए ॥ उक्कस्स-
क्खवसमे मुहुत्तमेत्तंतरम्मि संयलमुदं । चित्तइ जाणइ जीए-सा रिद्धी मणवला णामा । ति. प. ४, १०६०-१०६१.
तत्र मनःश्रुतावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्षे सत्यन्तमुद्धर्ते सकलश्रुतार्थचिन्तनेऽवदाता मनोवलिनः । त. रा. ३, ३६, २०.

तवोमाहपुप्पाइदवयणवलो वचिवली^१ ति उत्तं होदि । तेसिं विसुद्धमण-वयण-काएहि णमो ।

णमो कायवलीणं ॥ ३७ ॥

तिहुवणं करंगुलियाए^२ उद्धरिदूण अण्णत्थं डवणक्खमो कायवली^३ णाम । एसा वि कायसत्ती चारित्तविसेसादो चेव उप्पज्जदे, अण्णहाणुवलंभादो । एदेसिं कायवलीणं णमो ।

णमो खीरसवीणं ॥ ३८ ॥

खीरं दुद्धं । सविसादो खीरस्स सवी खीरसवी । पाणिपत्तणिवदिदासेसाह्वारणं

यह वचनवल है । तपके माहात्म्यसे जिसने वचनवलको उत्पन्न किया है वह वचनवली है, यह इसका अभिप्राय है । उनको विशुद्ध मन, वचन व कायसे नमस्कार हो ।

कायवली ऋषियोंको नमस्कार हो ॥ ३७ ॥

तीनों लोकोंको हाथकी अंगुलीसे ऊपर उठाकर अन्यत्र रखनेमें जो समर्थ है वह कायवली है । यह भी कायशक्ति चारित्र्यविशेषसे ही उत्पन्न होती है, क्योंकि, उसके बिना वह पायी नहीं जाती । इन कायवल ऋद्धिधारकों नमस्कार हो ।

क्षीरसवी जिनोंको नमस्कार हो ॥ ३८ ॥

क्षीरका अर्थ दूध है । विष सहित वस्तुसे भी क्षीरको वहानेवाला क्षीरसवी कहलाता है । हाथ रूपी पात्रमें गिरे हुए सब आहारोंको क्षीर स्वरूप उत्पन्न करनेवाली शक्ति

१ जिम्भिदिय-णोइदिय सुदणानावरण-विरियविघाणं । उक्कस्सखओवसमं मुहुत्तमेत्तंरम्मि मुणी ॥ सयलं पि सुदं जाणइ उच्चारइ जाए विप्फुरंतीए । असमो अहिंकंठो सा रिद्धी च णेया वयणवलणामा ॥ ति. प. ४, १०६३-१०६४. मनोजिह्वा-श्रुतावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपशमातिशये सत्यन्तमुद्धतं सकलश्रुतोच्चारणसमर्थाः सततमुच्चैरुच्चारणे सत्यपि श्रमविरहिता अहीनकंठाश्च वाग्वलिनः । त. रा. ३, ३६, २.

२ प्रतिपु ' कालंगुलियाए ' इति पाठः ।

३ उक्कस्सक्खववसमे पत्रिसेसे विरियविघपगडीण । मास-चउमासपमुहे काउस्सग्गे वि समहीणा ॥ उच्च-ट्टिय तेल्लोक्कं झत्ति कण्हिंठुलीए अण्णत्थं । थविदुं जाए समत्था सा रिद्धी कायवलणामा ॥ ति. प. ४, १०६५-१०६६. वीर्यान्तरायक्षयोपशमातिश्रुतासाधारणकायवलव्वांन्मासिक-चातुर्मासिक-सांवत्सरिकादिप्रतिमायोगधारणेऽपि भ्रम-क्लमविरहिताः कायवलिनः । त. रा. ३, ३६, २.

खीरसादुप्पायणसत्ती त्रि कारणे कज्जोवयारादो खीरसवी' णाम । कधं रसंतरेसु द्वियदच्चाणं तक्खणादेव खीरासादसरूवेण परिणामो ? ण, अभियसमुद्दम्मिं णिवदिद्विसस्सेव पंचमह-
व्वय-समिद्ध-तिगुत्तिकलावघडिदंजलिउदणिवदियाणं तदविरोहादो । सा जेसिमत्थि ते खीर-
सविणो । तेसिं णमो ।

णमो सप्पिसवीणं ॥ ३९ ॥

सर्पिष्वृतं । जेसिं तवोमाहप्पेण अंजलिउदणिवदिदासेसाहारा घदासादसरूवेण
परिणमंति ते सप्पिसविणो' जिणा । तेसिं णमो ।

णमो मधुसवीणं ॥ ४० ॥

भी कारणमें कार्यके उपचारसे क्षीरसूची कही जाती है ।

शंका—अन्य रसोंमें स्थित द्रव्योंका तत्काल ही क्षीर स्वरूपसे परिणमन कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार अमृतसमुद्रमें गिरे हुए विषका अमृत रूप परिणमन होनेमें कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार पांच महाव्रत, पांच समिति व तीन गुप्तियोंके समूहसे घटित अंजलिपुटमें गिरे हुए सब आहारोंका क्षीर स्वरूप परिणमन करनेमें कोई विरोध नहीं है ।

वह शक्ति जिनके है वे क्षीरसूची कहलाते हैं । उनको नमस्कार हो ।

सर्पिसूची जिनोंको नमस्कार हो ॥ ३९ ॥

सर्पिष्वृतशब्दका अर्थ घृत है । जिनके तपके प्रभावसे अंजलिपुटमें गिरे हुए सब आहार घृत स्वरूपसे परिणमते हैं वे सर्पिसूची जिन हैं । उनको नमस्कार हो ।

मधुसूची जिनोंको नमस्कार हो ॥ ४० ॥

१ करयलणिविखचाणि खखाहारादियाणि तत्कालं । पावन्ति खीरभावं जीए खीरोसवी रिद्धी ॥ ति. प. ४-१०८१. विरसंमप्यशनं येषां पाणिपुटविक्षिप्तं [-निक्षिप्त] क्षीरसगुणपरिणामि जायते, येषां वा वचनानि क्षीरवत् क्षीणानां संतर्पकाणि भवन्ति ते क्षीरासविणः । त. रा. ३, ३६, २.

२ प्रतिषु ' समुद्द्वि ' इति पाठः ।

३ रिसिपाणितलणिविखचं खखाहारादियं पि खणमेत्ते । पावेदि सप्पिरूवं जीए सा सप्पियासवी रिद्धी ॥ अहवा दुक्खप्पमुहं सवणेण मुणिददिव्वयणस्स । उवसामदि जीवाणं एसा सप्पियासवी रिद्धी ॥ ति. प. ४, १०८६-१०८७. येषां पाणिपात्रगतमद्यं रुक्षमपि सर्पासवीर्यविपाकानानोति सर्पिरिव वा येषां भापितानि प्राणिनां संतर्पकाणि भवन्ति ते सर्पिरासविणः । त. रा. ३, ३६, २.

महुवयणेण गुड-खंड-सक्करादीणं ग्रहणं, मधुरसादं पडि एदासिं साहम्भुवलंभादो ।
हत्थक्खित्तोसेसाहाराणं महु-गुड-खंड-सक्करासादसरूवेण परिणमणक्खमा महुसविणो' जिणा ।
तेसिं मण-वयण-काएहि णमो ।

णमो अमडसवीणं ॥ ४१ ॥

जेसि हत्थं पत्ताहारो अमडसादसरूवेण परिणमइ ते अमडसविणो' जिणा । एत्थ-
वट्ठिया संता जे देवाहारभोजिणो तेसिममडसवीणं णमो इत्ति उत्तं होदि ।

णमो अक्खीणमहाणसाणं ॥ ४२ ॥

एत्थ अक्खीणमहाणससदो जेण देसामासओ तेण वसहिअक्खीणाणं पि ग्रहणं ।
कूरो' धियं तिम्मणं वा जस्स परिविसिदूण पच्छा चक्कवट्ठिखंधावारे भुंजाविज्जमाणे वि ण

मधु शब्दसे गुड़, खांड और शक्कर आदिका ग्रहण किया गया है, क्योंकि,
मधुर स्वादके प्रति इनके समानता पायी जाती है। जो हाथमें रखे हुए समस्त आहारोंको
मधु, गुड़, खांड और शक्करके स्वाद स्वरूप परिणमन करानेमें समर्थ हैं वे मधुस्रवी जिन
हैं। उनको मन, वचन व कायसे नमस्कार हो।

अमृतस्रवी जिनोंको नमस्कार हो ॥ ४१ ॥

जिनके हाथको प्राप्त हुआ आहार अमृत स्वरूपसे परिणत होता है वे अमृतस्रवी
जिन हैं। यहां अवस्थित होते हुए जो देवाहारको ग्रहण करनेवाले हैं; उन अमृतस्रवी
जिनोंको नमस्कार हो, यह सूत्रका अर्थ है।

अक्षीणमहानस जिनोंको नमस्कार हो ॥ ४२ ॥

यहां चूंकि अक्षीणमहानस शब्द देशामर्शक है, अतएव उससे वसतिअक्षीण
जिनोंका भी ग्रहण होता है। जिसके भात, घृत व भिगोया हुआ अन्न स्वयं परोस लेनेके
पश्चात् चक्रवर्तीकी सेनाको भोजन करानेपर भी समाप्त नहीं होता है वह अक्षीणमहानस

१. मृणिकरणिक्खित्ताणं लुवखाहारादियाणि हंति खणे । जीए मधुरसाइं स च्चिय महुवोसवी रिद्धी ॥
अह्वा दुक्खप्पहुदी जीए मृणिवयणसवणमेत्तेणं । णासदि णर-तिरियाणं स च्चिय महुवासवी रिद्धी ॥ ति. प.
४, १०८२-१०८३. येषां पाणिपुटपतित आहारो नीरसोऽपि मधुरससर्वीर्यपरिणामो भवति, येषां वंचांसि श्रोतृणां
दुःखादिज्ञानामपि मधुगुणं पुष्पन्ति ते मध्वापविणः । त. रा. ३, ३६, २.

२. मृणिपाणिसंठियाणि रुक्खाहारादियाणि जीय खणे । पावन्ति अमियभावं एसा अमियाससवी रिद्धी ॥
अह्वा दुक्खादीणं महंसिवयणस्स सवणकालम्मि । णासन्ति जीए सिग्घं सा रिद्धी अमियासवी णामा ॥ ति. प.
४, १०८४-१०८५. येषां पाणिपुटप्राप्तं भोजनं यत्किंचिदमृततामास्कंदति, येषां वा व्याहृतानि प्राणिनां अमृत-
वदनुप्राहकाणि भवन्ति तेऽमृतास्रविणः । त. रा. ३, ३६, २.

३. प्रतिपु अतः प्राक् 'पि' इत्यधिकं पदं समुपलभ्यते ।

णिट्ठादि सो अक्खीणमहाणसो णामं । जम्हि चउहत्थाए वि गुहाए अच्छिदे संते चक्कवट्ठि-
खंधावरं पि सा गुहा अवगाहदि सो अक्खीणावासो' णाम । तेसिमक्खीणमहाणसाणं णमो ।
कथमेदामिं सत्तीणमत्थित्तमवगम्भदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो णव्वदे, जिणेसु अण्णहा-
वाइत्ताभावादो ।

णमो लोए सव्वसिद्धायदणाणं ॥ ४३ ॥

सव्वसिद्धवयणेण पुव्वं परूविदासेसजिणाणं गहणं कायव्वं, जिणेहिंतो पुधभूददेस-
सव्वसिद्धाणमणुवलंभादो । सव्वसिद्धाणमायदणाणि सव्वसिद्धायदणाणि । एदेण कट्ठिमा-
कट्ठिमजिणहराणं जिणपडिमाणमीसिपम्भारुज्जंत-चंपा-पावाणयरादिविसयणिसीहियाणं' च गहणं ।
तेसिं जिणायदणाणं णमो ।

ऋद्धिधारक कहलाता है । जिसके चार हाथ प्रमाण भी गुफामें रहनेपर चक्रवर्तीका सैन्य
भी उस गुफामें रह सकता है वह अक्षीणावास ऋद्धिधारक है । उन अक्षीणमहानस
जिनोंको नमस्कार हो ।

शंका— इन शक्तियोंका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

समाधान— इसी सूत्रसे उनका अस्तित्व जाना जाता है, क्योंकि, जिन भगवान्
अन्यथावादी नहीं हैं ।

लोकमें सब सिद्धायतनोंको नमस्कार हो ॥ ४३ ॥

'सब सिद्ध' इस वचनसे पूर्वमें कहे हुए समस्त जिनोंका ग्रहण करना चाहिये;
क्योंकि, जिनोंसे पृथग्भूत देशसिद्ध व सर्वसिद्ध पाये नहीं जाते । सब सिद्धोंके जो
आयतन हैं वे सर्व-सिद्धायतन हैं । इससे कृत्रिम व अकृत्रिम जिनगृह, जिनप्रतिमा तथा
ईपत्तप्राग्भार, ऊर्जयन्त, चम्पापुर व पावानगर आदि क्षेत्रों व निपीधिकाओंका भी ग्रहण
करना चाहिये । उन जिनायतनोंको नमस्कार हो ।

१ लाभंतरायकम्मवखउवसमसंजुदाए जीए फुडं । मुणिभुत्तेसमण्णं धामत्थं पियं जं कं पि ॥ तद्विसे खज्जंतं
खंधावारेण चक्कवट्ठिस्स । झिज्जइ ण लवेण वि सा अक्खीणमहाणसा रिद्धी ॥ जीए चउधणुमाणे समचउरसालयम्मि
णर-तिरिया । मंति यंसखेज्जा सा अक्खीणमहालया रिद्धी ॥ ति. प. ४, १०८९-१०९१. लाभान्तरायक्षयोपशम-
प्रकर्षप्राप्तेभ्यो यतिभ्यो यतो भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चक्रधरस्कंधावारोऽपि यदि भुंजीत तद्विसे नान्नं क्षीयते ते
अक्षीणमहानसाः । अक्षीणमहालयलब्धिप्राप्ता यतयो यत्र वसन्ति देव-मनुष्य-तैर्यग्योना यदि सर्वेऽपि तत्र निवसेयुः
परस्परमवाधमानाः सुखमासते । त. रा. ३, ३६, २. अक्खीणमहाणसिया मिक्खं जेणाणियं पुणो तेणं । परिभुत्तं
चिय खिज्जइ बहुएहि वि न उण अवेदि ॥ प्रवचनसारोद्धार १५०४.

२ मतिपु 'विसणिसीहियाणं' इति पाठः ।

णमो वद्धमाणबुद्धरिसिस्स ॥ ४४ ॥

वद्धमाणभयवंतस्स पुब्बं कयणमोक्कारस्स किमड्ढं पुणो वि एत्थ णमोक्कारो कदो ? जस्संतियं....मणसा वि णिच्चमिच्चेदस्स णियमस्स आइरियपरंपरागयस्स पदुप्पायणड्ढं कदो ।

णिवद्धाणिवद्धभेएण दुविहं मंगलं । तत्थेदं किं णिवद्धमाहो अणिवद्धमिदि ? ण ताव णिवद्धमंगलमिदं, महाकम्मपयडिपाहुडस्स कदियादिचउवीसअणियोगावयवस्स आदीए गोदम-सामिणा परूविदस्स भूदवलिभडारएण वेयणाखंडस्स आदीए मंगलड्ढं तत्तो आणेदूण ठविदस्स णिवद्धत्तविरोहादो । ण च वेयणाखंडं महाकम्मपयडिपाहुडं, अवयवस्स अवयवित्तविरोहादो । ण च भूदवली गोदमो, विगलसुदधारयस्स धरसेणाइरियसीसस्स भूदवलिस्स सयलसुदधारय-वद्धमाणंतेवासिगोदमत्तविरोहादो । ण चाण्णो पयारो णिवद्धमंगलत्तस्स हेदुभूदो अत्थि । तम्हा

वर्धमान बुद्ध ऋषिको नमस्कार हो ॥ ४४ ॥

शंका — जब कि वर्धमान भगवान्को पूर्वमें नमस्कार किया जा चुका है तो फिर यहां दुबारा नमस्कार किस लिये किया गया है ?

समाधान—‘ जिसके समीप धर्मपथ प्राप्त हो उसके निकट चिनयका व्यवहार करना चाहिये । तथा उसका शिर आदि पांच अंग एवं काय, वचन और मनसे नित्य ही सत्कार करना चाहिये ।’ इस आचार्यपरम्परागत नियमको बतलानेके लिये पुनः नमस्कार किया गया है ।

शंका — निवद्ध और अनिवद्धके भेदसे मंगल दो प्रकार है । उनमेंसे यह मंगल निवद्ध है अथवा अनिवद्ध ?

समाधान — यह निवद्ध मंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि, कृति आदि चौबीस अनुयोगद्वार रूप अवयवोंवाले महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके आदिमें गौतम स्वामीने इसकी प्ररूपणा की है और भूतवलि भट्टारकने वेदनाखण्डके आदिमें मंगलके निमित्त इसे वहांसे लाकर स्थापित किया है, अतः इसे निवद्ध माननेमें विरोध है । और वेदनाखण्ड महाकर्म-प्रकृतिप्राभृत है नहीं, क्योंकि, अवयवके अवयवी होनेका विरोध है । और न भूतवलि गौतम ही हैं, क्योंकि, विकलश्रुतधारक और धरसेनाचार्यके शिष्य भूतवलिको सकल श्रुतके धारक और वर्धमान स्वामीके शिष्य गौतम होनेका विरोध है । इसके अतिरिक्त निवद्ध मंगलत्वका हेतुभूत और कोई प्रकार है नहीं, अतः यह अनिवद्ध मंगल है । अथवा, यह

अणिबद्धमंगलमिदं । अथवा होदु णिबद्धमंगलं । कधं वेयणाखंडादिखंडगंथस्स महाकम्मपयडि-
पाहुडत्तं ? ण, कदियादिचउवीसअणियोगद्वारेहिंतो एयंतेण पुधभूदमहाकम्मपयडिपाहुडा-
भावादो । एदेसिमणियोगद्वाराणं कम्मपयडिपाहुडत्ते संते पाहुडवहुत्तं पसज्जदे ? ण एस दोसो,
कधंचि इच्छिज्जमाणत्तादो । कधं वेयणाए महापरिणामाए उवसंहारस्स इमस्स वेयणाखंडस्स
वेयणाभावो ? ण, अवयवेहिंतो एयंतेण पुधभूदअवयविस्स अणुवलंभादो । ण च वेयणाए
बहुत्तमणिट्ठमिच्छिज्जमाणत्तादो । कधं भूदबलिस्स गोदमत्तं ? किं तस्स गोदमत्तेण ?
कधमण्णहा मंगलस्स णिबद्धत्तं ? ण, भूदबलिस्स खंडं गंथं पडि कत्तारत्ताभावादो ।
ण च अण्णेण कयगंथाहियाराणं एगदेसस्स पुव्विल्लसदत्थसंदब्भस्स परूवओ कत्तारो होदि,

निबद्ध मंगल भी हो सकता है ।

शंका—वेदनाखण्डादि स्वरूप खण्डग्रन्थके महाकर्मप्रकृतिप्राभृतपना कैसे सम्भव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, कृति आदि चौबीस अनुयोगद्वारोंसे एकान्ततः पृथग्भूत महाकर्मप्रकृतिप्राभृतका अभाव है ।

शंका — इन अनुयोगद्वारोंको कर्मप्रकृतिप्राभृत स्वीकार करनेपर बहुत प्राभृत होनेका प्रसंग आवेगा ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ऐसा कथंचित् इष्ट ही है ।

शंका — महा प्रमाणवाली वेदनाके उपसंहाररूप इस वेदनाखण्डके वेदनापना कैसे सम्भव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अवयवोंसे सर्वथा पृथग्भूत अवयवी पाया नहीं जाता । यदि कहा जाय कि इस प्रकारसे बहुत वेदनाओंके माननेका अनिष्ट प्रसंग आवेगा, सो भी नहीं है; क्योंकि वैसा इष्ट ही है ।

शंका—भूतबलिके गौतमपना कैसे सम्भव है ?

प्रतिशंका -- उनके गौतम होनेसे क्या प्रयोजन है ?

प्र. शं. समाधान — क्योंकि, भूतबलिको गौतम स्वीकार किये बिना मंगलके निबद्धता बन ही कैसे सकती है ?

शंका - समाधान — नहीं क्योंकि, भूतबलिके खण्डग्रन्थके प्रति कर्तृत्वका अभाव है । और दूसरेके द्वारा किये गये ग्रन्थाधिकारोंके एक देश रूप पूर्वोक्त शब्दार्थसन्दर्भका

अइप्पसंगादो । अथवां भूदवली गोदमो चेव, एगाहिप्पायत्तादो । तदो सिद्धं णिवद्धमंगलत्तं पि ।

उत्तरि उच्चमाणेसु तिसु खंडेसु कस्सेदं मंगलं ? तिण्णं खंडाणं । कुदो ? वग्गणा-
महावंधाणमादीए मंगलाकरणादो । ण च मंगलेण विणा भूदवलिभडारओ गंथस्स पारंमदि,
तस्स अणाइरियत्तप्पसंगादो । कधं वेयणाए आदीए उत्तं मंगलं सेसदोखंडाणं होदि ? ण,
कदीए आदिमिह उत्तस्स एदस्सेव मंगलस्स सेसतेवीसअणियोगद्वारेसु पउत्तिदंसणादो । महा-
कम्मपयडिपाहुडत्तणेण चउवीसण्हमणियोगद्वाराणं भेदाभावादो एगत्तं । तदो एगस्स एयं
मंगलं तत्थ ण विरुज्जदे । ण च एदेसिं तिण्हं खंडाणमेयत्तमेगखंडप्पसंगादो ? ण एस दोसो,
महाकम्मपयडिपाहुडत्तणेण एदेसिं पि एगत्तदंसणादो । कदि-पास-कम्म-पयडिअणियोगद्वाराणि
वि एत्थ परुविदाणि । तेसिं खंडग्गीसण्णमकाऊण तिण्णि चेव खंडाणि ति किमइं उच्चदे ।

प्ररूपक कर्ता हो नहीं सकता, क्योंकि, अतिप्रसंग दोष आता है । अथवा भूतवलि गौतम ही हैं, क्योंकि, दोनोंका एक ही अभिप्राय रहा है । इस कारण निवद्ध मंगलत्व भी सिद्ध है ।

शंका—आगे कहे जानेवाले तीन खण्डोंमें किस खण्डका यह मंगल है ?

समाधान—यह आगे कहे जानेवाले तीनों खण्डोंका मंगल है, क्योंकि, वर्गणा और महाबन्ध इन दो खण्डोंके आदिमें मंगल नहीं किया गया है । और भूतवलि भट्टारक मंगलके विना ग्रन्थका प्रारम्भ करते नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा करनेसे उनके अनाचार्यत्वका प्रसंग आता है ।

शंका—वदनाखण्डके आदिमें कहा गया मंगल शेष दो खण्डोंका कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कृतिअनुयोगद्वारके आदिमें कहे गये इसी मंगलकी शेष तेइस अनुयोगद्वारोंमें प्रवृत्ति देखी जाती है ।

शंका—महाकर्मप्रकृतिप्राभृत रूपसे चौथीस अनुयोगद्वारोंके कोई भेद न होनेसे उनके एकता है । अतएव वहां एक ग्रन्थका एक मंगल विरोधको प्राप्त नहीं होता । परन्तु इन तीन खण्डोंके एकता नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेपर उनके एक खण्ड होनेका प्रसंग आवेगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, महाकर्मप्रकृतिप्राभृत रूपसे इनके भी एकता देखी जाती है ।

शंका—कृति, स्पर्श, कर्म और प्रकृति अनुयोगद्वारोंकी भी तो यहां प्ररूपणा की गई है । उनकी खण्डग्रन्थ संज्ञा न करके तीन ही खण्ड हैं, ऐसा किस लिये कहा जाता है ?

ण, तेसिं पहाणत्ताभावादो । तं पि कुदो णव्वदे ? संखेवेण परूवणादो ।

एसो सव्वो वि मंगलदंडओ देसामासओ, णिमित्तादीणिं सूचयत्तादो । तदो एत्थं मंगलस्सेव णिमित्तादीणिं परूवणा कायव्वा । तं जहा— गंधावयारस्स सिस्सा णिमित्तं, वयणपउत्तीए परट्ठाए चेय दंसणादो । केण हेतुणा पढिज्जदे ? मोक्खद्वं । सग्गादओ किण्ण मग्गिज्जंते ? ण, तत्थ अच्चंतदुहाभावादो^१ संसारकारणसुहत्तादो रागं मोत्तूण तत्थ सुहाभावादो च । परिमाणं उच्चदे— गंधत्थप्परिमाणं^२भेएण दुविहं परिमाणं । तत्थ गंधदो अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्तिअणियोगदोरेहि संखेज्जं । अत्थदो अणंतं । अधवा खंडगंधं पडुच्च वेयणाए सोलसपदसहस्साणि । ताणि च जाणिदूण वत्तव्वाणि । वेदणा ति गुणशामं ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनकी प्रधानता नहीं है ।

शंका—वह भी कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान—यह संक्षेपमें की गई प्ररूपणासे जाना जाता है ।

यह सब मंगलदण्डक देशामर्शक है, क्योंकि, निमित्तादिकका सूचक है । इस कारण यहां मंगलके समान निमित्तादिककी प्ररूपणा करना चाहिये । वह इस प्रकारसे— ग्रन्थावतारके निमित्त शिष्य हैं, क्योंकि वचनोंकी प्रवृत्ति परके निमित्त ही देखी जाती है ।

शंका—यह शास्त्र किस हेतुसे पढ़ा जाता है ।

समाधान—मोक्षके हेतु पढ़ा जाता है ।

शंका—स्वर्गादिककी खोज क्यों नहीं की जाती है ?

समाधान—नहीं की जाती, क्योंकि, वहां अत्यन्त दुखका अभाव होनेसे संसार-कारण रूप सुख है, तथा रागको छोड़कर वहां सुख है भी नहीं ।

परिमाण कहाँ जाता है— ग्रन्थपरिमाण और अर्थपरिमाणके भेदसे परिमाण दो प्रकार है । उनमें ग्रन्थकी अपेक्षा अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति व अनुयोगद्वारोंसे वह संख्यात है । अर्थकी अपेक्षा वह अनन्त है । अथवा खण्डग्रन्थका आश्रय करके वेदनामें सोलह हजार पद हैं । उनको जानकर कहना चाहिये । नामकी अपेक्षा 'वेदना' यह गुणनाम अर्थात् सार्थक नाम है ।

१ प्रतिपु 'तहाभावादो' इति पाठः ।

२ अ-काप्रलोः 'गंधपरिमाण-', 'आप्रतो 'गंधपरिमाण-' इति पाठः ।

कत्तारा दुविहा अत्थकत्तारो गंथकत्तारो चेदि^१ । तत्थ अत्थकत्तारो भयवं महावीरो । तस्स दच्च-खेत्त-काल-भावेहि परूवणा कीरदे गंथस्स पमाणत्तपटुप्पायण्डं । केरिसं महावीर-सरीरं ? समचउरससंठाणं वज्जरिसहवड्ढरणारायणसरीरसंघडणं ससुअंधगंधेण आमोइयतिहुवणं सतेजपरिवेदेण विच्छाईकयसुज्जसंधायं सयलदोसवज्जियमिदि । कधमेदम्हादो सरीरादो गंथस्स पमाणत्तमवगम्मदे ? उच्चदे— णिराउहत्तादो जाणाविदकोह-माण-माया-लोह-जाइ-जरा-मरण-भय-हिंसाभावं, णिफंदक्खेक्खणादो जाणाविदतिवेदोदयाभावं । णिराहरणत्तादो जाणा-विदरागाभावं, भिउडिविरहादो जाणाविदकोहाभावं । वग्गण-णच्चण-हसण-फोडणक्खसुत्त-जडा-मउड-णरसिरमालाधरणविरहादो^२ मोहाभावलिं। णिरंवरत्तादो लोहाभावलिं। ण तिरि-क्खेहि वियहिचारो, वड्ढम्मादो । ण दालिदिएहि वियहिचारो, अहुत्तरसयलक्खणेहि अव-गयदालिद्वाभावादो । ण गहछलिएहि वियहिचारो, अहुत्तरसयलक्खणेहि अव-गयतिहुवणाहिवइत्तस्स गहच्छलणाभावादो । णिव्विसयत्तादो^३ णिस्सेसदोसाभावलिं ।

कर्ता दो प्रकार हैं— अर्थकर्ता और ग्रन्थकर्ता । उनमें अर्थकर्ता भगवान् महावीर हैं । ग्रन्थकी प्रमाणताको बतलानेके लिये उसकी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे प्ररूपणा करते हैं । महावीरका शरीर कैसा है ? वह समचतुरस्रसंस्थानसे युक्त, वज्रर्पभवज्र-नाराचशरीरसंहननसे सहित, सुगन्ध युक्त गन्धसे तीनों लोकोंको सुगन्धित करनेवाला, अपने प्रभामण्डलसे सूर्यसमूहको फीका करनेवाला, तथा समस्त दोषोंसे रहित है ।

शंका—इस शरीरसे ग्रन्थकी प्रमाणता कैसे जानी जाती है ?

समाधान—इसका उत्तर कहते हैं— वह शरीर निरायुध होनेसे क्रोध, मान, माया, लोभ, जन्म, जरा, मरण, भय और हिंसाके अभावका सूचक है । स्पन्द रहित नेत्रदृष्टि होनेसे तीनों वेदोंके उदयके अभावका ज्ञापक है, निराभरण होनेसे रागके अभावको प्रकट करनेवाला है । भृकुटि रहित होनेसे क्रोधके अभावका ज्ञापक है । गमन, नृत्य, हास्य, विदारण, अक्षसूत्र, जटा-मुकुट और नरमुण्डमालाको न धारण करनेसे मोहके अभावका सूचक है । वस्त्र रहित होनेसे लोभके अभावका सूचक है । यहां तिर्यच्चोंसे व्यभिचार नहीं है, क्योंकि, उनमें साधर्म्यका अभाव है । दरिद्रोंसे भी व्यभिचार नहीं है, क्योंकि, एक सौ आठ लक्षणोंसे महावीरके दरिद्रताका अभाव जाना जाता है । न गृहछलियोंसे (गृहस्खलित अर्थात् गृहभृष्ट मनुष्योंसे) व्यभिचार है, क्योंकि, एक सौ आठ लक्षणोंसे जिनके तीनों लोकोंका अधिपतित्व निश्चित है उनके गृहस्खलन हो नहीं सकता । वह शरीर निर्विषय होनेसे समस्त दोषोंके अभावका सूचक

१ प्रतिपु ' णिक्कदंखेक्खणादो जाणाविदे ' इति पाठः । २ प्रतिपु ' विहादो ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' णिव्वियाथदो ', मप्रतौ ' णिव्वियत्थदो ' इति पाठः ।

अग्नि-विसासणि-वज्जाउहादीहि बाहाभावादो घाइकम्माभावलिङ्गं । ण विज्जावाईहि^१ वियहि-
चारो, सोहम्मिदादिदेवेहि अवहिरिदविज्जासत्तिम्हि तब्बाहाणुवलंभादो सणिवंधणाणिवंधणाणं
साहम्माभावादो वा । ण देवेहि वियहिचारो, णिराउहादिविसेसणविसिद्धस्स अग्नि-विसासणि-
वज्जाउहादिबाहाभावादो त्ति सविसेसणसाहणप्पओगादो । पुव्विल्ललिङ्गेहि जाणाविदमोहाभावेण
वा अवगमिदधादिकम्मामावं । वलियावलेयणाभावादो सगासेसजीवपदेसड्डियणाण-दंसणावरणाणं
णिस्सेसाभावलिङ्गं^२ । सव्वावयवेहि पच्चक्खावगमादो^३ अणिंदियजणिदणाणत्तलिङ्गं । आगास-
गमणेण पहापरिवेढेण तिहुवणभवणविसारिणा समुरहिगंधेण च जाणाविदअमाणुसमावं । अधवा,
ण इमे पादेक्कहेदओ, किंतु एदेसिं समूहो एक्को हेउ त्ति वेत्तव्वो । तदो एदं सरीरं राग-
दोस-मोहाभावं जाणावेदि, तदभावो वि महावीरे मुसावादाभावं जाणावेदि, कारणाभावे

है । अग्नि, विष, अशनि और वज्रायुधादिकोंसे बाधा न होनेके कारण घातिया कर्मोंके
अभावका अनुमापक है । यहां विद्यावादियोंसे व्यभिचार नहीं आता, क्योंकि, सौधर्मेन्द्र आदि
देवों द्वारा जिसकी विद्याशक्ति छीन ली गई है उसमें चूंकि पूर्वोक्त बाधाएं पायी जाती हैं
तथा सकारण और अकारण बाधाभावोंमें साधर्म्य भी नहीं है ।

विशेषार्थ—विद्यावादियोंमें बाधाभाव सकारण है, क्योंकि, वहां उक्त बाधाभाव
विद्याजनित है, न कि जिन भगवान्के समान घातिया कर्मोंके अभावसे उत्पन्न बाधाभाव
जैसा स्वाभाविक । यही दोनोंके बाधाभावमें वैधर्म्य है ।

न देवोंसे व्यभिचार है, क्योंकि, निरायुधादि विशेषणोंसे विशिष्ट उक्त शरीरके
अग्नि, विष, अशनि, और वज्रायुधादिकोंसे कोई बाधा नहीं होती, ऐसे सविशेषणं
साधनका प्रयोग है । अथवा, पूर्वोक्त हेतुओंसे सूचित मोहाभावके द्वारा वह घातिया
कर्मोंके अभावको प्रगट करनेवाला है । वलित अर्थात् कुटिल अवलोकनका अभाव होनेसे
अपने समस्त जीवप्रदेशोंपर स्थित ज्ञानावरण और दर्शनावरणके पूर्ण अभावका सूचक
है । समस्त अवयवों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होनेसे अतीन्द्रिय ज्ञानत्वका सूचक है । तथा आकाश-
गमनसे, प्रभामण्डलसे एवं त्रिभुवनरूप महलमें फैलनेवाली अपनी सुरभित गन्धसे
अमानुषताका ज्ञापक है । अथवा, ये प्रत्येक अलग अलग हेतु नहीं है, किन्तु इनके समूह
रूप एक हेतु है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । इस कारण यह शरीर राग, द्वेष एवं मोहके
अभावका ज्ञापक है । और रागादिका अभाव भी भगवान् महावीरमें असत्य भाषणके

१ प्रतिष्ठा ' ईज्जावाईहि ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठा ' णिस्सेसाभावविद्धं ', मयूतौ ' णिस्सेसाभावविदं ' इति पाठः ।

३ प्रतिष्ठा ' पच्चक्खावरमाप्नो ' इति पाठः ।

‘कज्जस्स अत्थित्तविरोहादो । तदभावो वि आगमस्स पमाणत्तं जाणावेदि । तेण दच्चपरूवणा कायव्वा ।

तित्थुप्पत्ती कम्हि खेत्ते ? रविमंडलं व' समवेद्वे, चारहजोयणविकखंभायामे', एक्किद-
णीलमणिसिलाघडिए', पंचरयणकणयविणिम्मियफुरंततेयचउतुंगगोउरधूलिवायारेण परिवेडिय-
पेरंते, तस्संतो तिवायारवेडिय-तिमेहलापीढोवरिडियमणिमयदिप्पदीहरचउमाणत्थंभविसिद्धं-
विकसितोप्पलकंदोद्धारविंदादिपुप्फाडण्णणंदुत्तरादिवावीणिवहाऊरियधूलीवायारंतम्भाए, णवणिहि-
सहियअडुत्तरसयसंखुवलक्खियअट्टमंगलावूरिदचउगोउरंतरिदसच्छजलकलिदखाइयापरिवेडिदे,
तत्तो परं णाणाविहकुसुमभरेणोण्णयवल्लिवेणेण चउरत्थंतरिएण परिवेडियाए, तत्तो परं सुतत्त-

अभावको प्रकट करता है, क्योंकि, कारणके अभावमें कार्यके अस्तित्वका विरोध है । और असत्य भाषणका अभाव भी आगमकी प्रमाणताका ज्ञापक है । इसलिये द्रव्यसे अर्थकर्ताकी प्ररूपणा करना चाहिये ।

तीर्थकी उत्पत्ति किस क्षेत्रमें हुई है ? जो समवसरणमण्डल सूर्यमण्डलके समान समवृत्त अर्थात् गोल है, चारह योजन प्रमाण विस्तार और आयामसे युक्त है, एक इन्द्रनील मणिमय शिलासे घटित है, पांच रत्नों व सुवर्णसे निर्मित और प्रकाशमान तेजसे संयुक्त ऐसे चार उन्नत गोपुर युक्त धूलि-
सांलसे जिसका पर्यन्त भाग घिरा हुआ है, उसके भीतर तीन प्राकारोंसे वेष्टित तीन कटिनी युक्त पीठके ऊपर स्थित मणिमय दैदीप्यमान दीर्घ चार मानस्तम्भोंसे विशिष्ट व विकसित उत्पल, कंदोद् (नील कमल) एवं अरविंद आदि पुष्पोंसे व्याप्त ऐसी नन्दोत्तरादि वापियोंके समूहसे जिसमें धूलिप्राकारका अभ्यन्तर भाग परिपूर्ण है, जो नौ निधियोंसे सहित व एक सौ आठ संख्यासे उपलक्षित आठ मंगलद्रव्योंसे परिपूर्ण ऐसे चार गोपुरोंसे व्यवहित स्वच्छ जल युक्त खातिकासे वेष्टित है, इसके आगे चार वीथियोंसे व्यवहित व नाना प्रकारके पुष्पोंके भारसे उन्नत ऐसे वल्लीवनसे परिवेष्टित है, इसके आगे तपाये

१ प्रतिपु ' रविमंडलं व व ' इति पाठः ।

२ रविमंडलं च वट्टा सयला वि य खंधइणीलमई । सामण्णखिदी वारस जोयणमेत्तं मि' उसहस्स ॥
तत्तो वेकोणो पत्तेवकं णेमिणाहपज्जंतं । चउमाणेण विरहिदा पासस्स य वड्डमाणस्स ॥ ति. प. ४, ७१६-७१७.

इह केदं आइरिया पण्णारसकम्मभूमिजादाणं । तित्थयरारं वारसजोयणपरिमाणमिच्छंति ॥ ति. प. ४-७१९.

३ प्रतिपु ' ए एक्किद- ' इति पाठः ।

४ प्रतिपु ' फुटीए ' ; मप्रतौ ' घटीए ' इति पाठः ।

५ प्रतिपु ' विसट्ट ' इति पाठः ।

६ प्रतिपु ' सरत्त ' इति पाठः ।

सुवर्णविणिम्मिएण अटुत्तरसयडमंगल-णवणिहि-सयलांहरणसहियधवलतुंगचउगोपुरपायारेण सोहियए, तत्तो परं चउण्हं गोउरवाराणमवभंतरभागे दोपासडिहहि उज्जंतसुगंधदव्वाणं गंधा-
मोइयभुवणेहि दो-दोधूवघडएहि समुब्भडए, तत्तो परं तिभूमीएहि अइधवलरुप्पियरासि-
विणिम्मिएहि सगंगघडिदसुरलोयसारमणिसंघायवहुवण्णकिरणपडिच्छाइएहि^१ वज्जंतसुरवसंघाय-
रववहिरियजीवलोएहि वत्तीसच्छरापडिबद्धवत्तीसपेक्खणयसहियदोदोपासाएहि भूसियए, चउ-
महावहंतरडिहहि मउवसुगंधणयणहरवण्णसुरलोगरयणघडियसमुत्तुंगरुक्खएहि विविहवरसुरहि-
गंधासत्तमत्तमहुवर-महुर-रवविराइयएहि णाणाविहगिरि-सरि-सर-मंडवसंडमंडिहहि^२ चउपासट्टिय-
जिणिंदयंदपडिर्विवसंबंधेण पत्तच्चणचइत्तरुक्खएहि अमो-ग-सत्तच्छद-चंपयंववणेहि^३ अइसोहियए,
तत्तो परं रुप्पियचउगोउरसंवद्धसुवर्णविणिम्मियवणवेइयवेडियए, तत्तो परं चउण्हं रत्थाण-
मंतरेसु डियएहि त्थिरथोरसुरलोयमणित्थंभएहि पादेक्कमटुत्तरसयसंखाएहि एगेगदिसाए दस-

हुए सुवर्णसे निर्मित व एक सौ आठ संख्या युक्त आठ मंगल द्रव्य, नौ निधियों एवं समस्त आभरणोंसे सहित धवल उन्नत चार गोपुर युक्त प्राकारसे सुशोभित है; इसके आगे चार गोपुर द्वारोंके अभ्यन्तर भागमें दोनों पार्श्व भागोंमें स्थित, जलते हुए सुगन्ध द्रव्योंके गन्धसे भुवनको आमोदित करनेवाले ऐसे दो दो धूपघटोंसे संयुक्त है; इसके आगे तीन भूमियोंसे संयुक्त, अत्यन्त धवल चांदीकी राशिसे निर्मित, अपने अवयवोंमें लगे हुए सुरलोकके श्रेष्ठ मणिसमूहकी अनेक वर्णवाली किरणोंसे आच्छादित, वजते हुए मृदंगसमूहके शब्दसे जीवलोकको बहरा करनेवाले, तथा वत्तीस अप्सराओंसे सम्बद्ध वत्तीस नाटकोंसे सहित, ऐसे दो दो प्रासादोंसे भूषित है; चार महापथोंके बीचमें स्थित, मृदु, सुगन्धित एवं नेत्रोंको हरनेवाले वर्णोंसे युक्त सुरलोकके रत्नोंसे निर्मित ऊंचे वृक्षोंसे संयुक्त, अनेक प्रकारकी उत्तम सुगन्धमें आसक्त हुए भ्रमरोंके मधुर शब्दसे विराजित नाना प्रकारके पर्वत, नदी, सरोवर व मण्डपसमूहोंसे मण्डित, तथा चारों पार्श्वभागोंमें स्थित जिनेन्द्र-चन्द्रके प्रतिविम्बके सम्बन्धसे पूजाको प्राप्त हुए चैत्यवृक्षोंसे सहित ऐसे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक व आम्र वनोंसे अतिशय शोभित है; इसके आगे चांदीसे निर्मित चार गोपुरोंसे सम्बद्ध व सुवर्णसे निर्मित ऐसी वनवेदिकासे वेष्टित हैं; इसके आगे चार वीथियोंके मध्य भागोंमें स्थित, स्थिर व स्थूल स्वर्गलोकके मणिमय स्तम्भोंसे संयुक्त, प्रत्येक एक सौ आठ संख्यासे युक्त, एक एक दिशामें दशसे गुणित एक सौ आठ

१ प्रतिषु 'पदच्छाइयएहि' इति पाठः । २ प्रतिषु 'वत्तीसच्छरा', मप्रतौ 'वत्तीसच्छा' इति पाठः ।

३ प्रतिषु 'सरिसरसंदवसंदमंदियएहि', मप्रतौ 'सरिसरवमंदवसंदमंदियएहि' इति पाठः ।

४ प्रतिषु 'वणेहि' इति पाठः ।

गुणइहियसयएहि मल्लंवरद्ध-वरहिण-गरुड-गय-केसरि-वसह-हंस-चक्कद्वयणिवएहि परि-
वेडियए', तत्तो परमवरेण अटुत्तरसयडुमंगल-णवणिहिहरचउगोउरमंडिएण' विविहमणि-रयण-
विचित्तिंयेण अहरणतोरणसयसहियवरेण सुवण्णपायारेण जुत्तए, तस्संतो पुच्चं व दो-दो-डज्जंत-
सुबंधदच्चगन्धिणधूवघडसुरव-महुर-रवविराड्यतिहूमिधवलहरसमुत्तुंगए, तत्थेव चटुसु रत्थंतरेसु
संकप्पियणाणाविहफलदाणसमत्थएहि संतंमहुअर-कलगलकलयंठीकुलसंकुलएहि सगकिरण-
णिवहच्छाड्यंवेरेहि विविहपुर-गिरि-सरि-सरवर-हिंदोल-लयाहरएहि चउगोउरसंवद्धसुवण्णवण-
वेड्यामज्जाएहि सिद्धडियशुद्धिद्धसिद्धत्थपायंयवपवित्तीकयकप्पस्खवणेहि' विहूसियए, तत्तो
परं पउमरायमणिमयदेहाहि संगंगणिग्गयतेएण तंवीकयंवराहि सगसच्चंगेहि संधारियजिणिंद-
यंदाहि मणितोरणंतरियाहि चटुसु रत्थंतरेसु डियधवलमलपासायविहूसियाहि रत्थामज्जडिय-
णव-णवत्थूहाहि' अंचियए, तदो गयणप्फलिहमणिवडिएण अटुत्तरसयडुमंगल-णवणिहि-
सणाहपउमरायमणिविणिम्मियगोउरेण पायारेण' अहिणंदियए, पीढस्स पढममेहलाए फलिह-

[१०८x१०=१०८०], ऐसी माला-अम्बराध्व अर्थात् सूर्य और चन्द्र-अब्ज-मयूर-गरुड-गज-सिंह-
वृषभ-हंस और चक्रके चिह्नसे युक्त ध्वजाओंके समूहसे घिरा हुआ है; इसके आगे एक सौ आठ
मंगल द्रव्य व नौ निधियोंको धारण करनेवाले चार गोपुरोंसे मण्डित, अनेक प्रकारके मणि व
रत्नोंसे विचित्र देहवाले तथा सैकड़ों आभरण व तोरणोंसे सहित द्वारोंसे संयुक्त ऐसे
सुवर्णप्राकारसे युक्त हैं; उसके भीतर पूर्वके समान जलते हुए सुगन्ध द्रव्योंको मध्यमें
धारण करनेवाले दो दो धूपघटोंसे युक्त और मृदंगके मधुर शब्दसे विराजित तीन
भूमियोंवाले धवल घरोंसे उन्नत हैं; वहांपर ही चार वीथियोंके अन्तरालोंमें संकल्पित
नाना प्रकार फलोंके देनेमें समर्थ, गुंजार करनेवाले भ्रमर व सुन्दर गलेवाली कोयलोंके
समूहसे व्याप्त, अपने किरणसमूहसे आकाशको आच्छादित करनेवाले, अनेक प्रकारके
पुर-पर्वत-नदी-सरोवर-हिंडोलों एवं लताग्रहोंसे संयुक्त, चार गोपुरोंसे सम्यद्ध सुवर्णमय
वनवेदिका रूप मर्यादावाले, तथा सिद्धप्रतिमाओंसे दीप्त सिद्धार्थ वृक्षोंसे पवित्र किये गये
ऐसे कल्पवृक्षवनोंसे विभूषित है; इसके आगे पद्मरागमणिमय देहसे संयुक्त, अपने अंगसे
निकलनेवाले तेजसे आकाशको ताम्रवर्ण करनेवाले, अपने सब अंगोंसे जिनेन्द्र-चन्द्रोंको
धारण करनेवाले, मणिमय तोरणोंसे अन्तरित, चार वीथियोंके अन्तरालोंमें स्थित धवल
व निर्मल प्रासादोंसे विभूषित, ऐसे वीथियोंके मध्यमें स्थित नौ नौ स्तूपोंसे व्याप्त है;
इसके आगे आकाश-स्फटिकमणिसे निर्मित तथा एक सौ आठ अष्ट-मंगल-द्रव्यों एवं नौ
निधियोंसे सनाथ व पद्मरागमणिसे निर्मित गोपुरोंवाले प्राकारसे अभिनन्दित है; पीठकी

१ प्रतिपु 'परिडेहियए' इति पाठः । ति. प. ४, ८१८-८१९. ह. पु. ५७-४४. २ प्रतिपु
'मंडिएण' इति पाठः । ३ प्रतिपु 'पावय' इति पाठः । ४ ति. प. ४, ८३३-८३५. ह. पु. ५७-५३.
५ ति. प. ४, ८४४-८४७. ह. पु. ५७-५४. ६ ति. प. ४-८४८. ह. पु. ५७-५६.

पायोरे च विलग्गियाहि फलिहमणिघडियंगियाहि सोलहभितीहि कयवारहकोइएहि मणित्थंभुद्धरियएगागासफलिहघडियमंडवच्छाड्यएहि सुरलोयसारसुअंधगंधगन्धिणएहि चउ-
 विहसंध-कप्पवासिय-मणुव-जोइसिय-वाणवेंतर-भवणवासियजुअईहि भवणवासिय-वाणवेंतर-
 जोइसिय-कप्पवासिय-मणुव-तिरिक्खेहि य अणुक्कमेण अहिउत्तएहि विराइए, तिमेहला-
 पीठेण मत्थएण उड्डवड्डमाणदिवायेण विदियमेहलाए धरियड्डमहाधय-मंगलेण
 मत्थयत्थधम्मचक्कविराइयजक्खकाएण मणिमएण समुत्तुंगवड्डमाणजिणप्पहामंडलतेएण णड्डं-
 धारए, णिवदंतसुरकुसुमवरिसेण णिरंतरकयमंगलोवहारए, बहुकोडाकोडिमहुरसुरतूरवेण वहि-
 रियतिहुवण-भवणए, मरगयमणिघडियखंधोवक्खंधेण पउमरायमणिमयपवालंकुरेण णाणाविह-
 फलकालेण भमर-परहुअ-महुवर-महुरसरविराइएण जिणसासणासोगचिंधेण असोगपायवेण
 णिण्णासियसयलजणसोगसंधए, सिसिरयरकरधवलेण जोयणंतरवित्थारएण सच्छधवलथूलमुत्ता-
 हलदामकलावसोहमाणपेरंतएण गयणट्टियलत्तएण वड्डमाणतिहुवणाहिवत्तचिंधएण सुसोहियए,

प्रथम कटिनी व स्फटिक-प्राकारसे लगी हुई और स्फटिकमणिसे निर्मित देहवाली सोलह भित्तियोंसे विभक्त किये गये, मणिमय स्तम्भोंसे उद्धृत व एक आकाश-स्फटिकसे निर्मित मण्डपसे आच्छादित, स्वर्गलोकके श्रेष्ठ सुगन्ध गन्धद्रव्यको धारण करनेवाले, चतुर्विध मुनिसंघ, कल्पवासिनी, मनुष्यनी, ज्योतिष्कदेवी, व्यन्तरदेवी भवनवासि-
 देवी, भवनवासीदेव, वानव्यन्तरदेव, ज्योतिषीदेव, कल्पवासीदेव, मनुष्य व तिर्यचोंसे क्रमशः संयुक्त, ऐसे वारह कोठोंसे विराजित है; जिसके मस्तकके ऊपर वर्धमान भगवान् रूपी सूर्य स्थित है, जिसकी द्वितीय कटिनीपर आठ ध्वजाएं व मंगल-
 द्रव्य रखे हुए हैं, जो [प्रथम कटिनीपर] मस्तकपर स्थित धर्मचक्रसे विराजित यक्षोंके शरीरसे संयुक्त है, मणियोंसे निर्मित है, तथा उन्नत वर्धमान जिनके प्रभामण्डल युक्त तेजसे सहित है, ऐसे तीन कटिनी युक्त पीठसे अन्धकारको नष्ट करनेवाला है; गिरती हुई पुष्पवृष्टिसे निरन्तर किये गये मंगल-उपहारसे युक्त है; अनेक कोड़ाकोड़ी मधुर स्वरवाले वाद्योंके शब्दसे त्रिभुवन रूपी भवनको वहरा करनेवाला है; मरकतमणिसे निर्मित स्कन्ध व उपस्कन्धसे सहित, पद्मरागमणिमय प्रवालां कुरों (पत्तों) से युक्त, नाना प्रकारके फलोंसे युक्त, भ्रमर कोयल व मधुकरके मधुर स्वरोंसे विराजित तथा जिनशासनके अशोक अर्थात् आत्मसुखके चिह्नस्वरूप अशोक वृक्षसे समस्त जीवोंके शोकसमूहको नष्ट करनेवाला है; चन्द्रकिरणोंके समान धवल, कुछ कम एक योजन विस्तारवाले, स्वच्छ धवल एवं स्थूल मोतियोंकी मालाओंके समूहसे शोभायमान पर्यन्त भागसे संयुक्त तथा वर्धमान भगवान्के तीनों लोकोंके अधिपतित्वके चिह्न रूप ऐसे गगनस्थित तीन छत्रोंसे

१ प्रतिपु 'मंदव' इति पाठः।

२ ति. प. ४, ८५६-८६३. ह. पु. ५७, १४८-१६०.

३ प्रतिपु 'मृत्थएण' इति पाठः। ४ ति. प. ४, ८८०-८८१. ह. पु. ५७-१४१. ५ ति. प. ४, ८७०.

६. पु. ५७-१४०. ६. प्रतिपु 'विधेण' इति पाठः। ७. ति. प. ४, ९१८-९२७. ह. पु. ५७, १६२-१६६.

पंचसेलउरणेरइदिसाविसयअइविउलविउलगिरिमत्थयत्थए, गंगोहोव्व चउहिं सुरविरइयवोरेहिं पविसमाणदेव-विज्जाहर-मणुवजणाण मोहए समवसरणमंडले जिणवइतणुमऊहखीरोवहिणिव्वुडा-सेसदेहम्मि जक्खिंदकरणियेरेहिं विज्जिज्जमाणेयचामरच्छण्हइदिसाविसयम्मि दिव्वामोयगंध-सुरसाराणेयमणिणिवहघडिययम्मि गंधउडिपासायम्मि द्वियसीहासणारूढेण वड्डमाणभडारएण तित्थमुप्पाइदं ।

खेत्तपरूवणा कथं तित्थस्स पमाणत्तं जाणावेदि ? वड्डमाणभयवंतसव्वण्हुत्तलिं गत्तादो । कथं सव्वण्हू वड्डमाणभयवंतो ? चौदसविज्जाठाणवलेण दिट्ठासेसभुवणेण ओहिणाणेण पच्चक्खीकयसगोहिखेत्तम्भंतरद्वियसयलजीवकम्मक्खंधेण घाइचउक्कविणासेणुप्पण्णवकेवल-लद्धीओ अघाइकम्मसंधेण पत्तमुत्तभावजिणद्वियाओ पेच्छंतएण सोहम्मिदेण तस्स कय-पूजणहाणुववत्तीदो । ण च विज्जावाइपूजाए वियहिचारो, अपिड्ढि-णाणवेंतरकयाए महिड्ढि-

सुशोभित है; पंचशैलपुर अर्थात् राजगृह नगरके नैऋत्य दिशाभागमें अत्यन्त विस्तृत विपुला-चलके मस्तकपर स्थित है; तथा जो देवों द्वारा रचे गये चार द्वारोंसे गंगाके प्रवाहके समान प्रवेश करनेवाले देव, विद्याधर एवं मनुष्य जनोंको मोहित करनेवाला है, ऐसे समवसरण-मण्डलमें जिनेन्द्र देवके शरीरकी किरणों रूप क्षीरसमुद्रमें डूबी हुई समस्त देहसे संयुक्त, यक्षेन्द्रोंके हाथोंके समूहोंसे ढरे गये चारोंसे आच्छादित आठ दिशाओंको विषय करने-वाले और दिव्य आमोद-सुगन्ध युक्त एवं देवोंके श्रेष्ठ अनेक मणियोंके समूहसे रचे गये गन्धकुटी रूप प्रासादमें स्थित सिंहासनपर आरूढ़ वर्धमान भट्टारकने तीर्थ उत्पन्न किया।

शंका—क्षेत्रप्ररूपणा तीर्थकी प्रमाणताकी ज्ञापक कैसे है ?

समाधान—क्योंकि, वह वर्धमान भगवान्की सर्वज्ञताका चिह्न है।

शंका—भगवान् वर्धमान सर्वज्ञ थे, यह कैसे सिद्ध होता है ?

समाधान—चौदह विद्यास्थानोंके वलसे समस्त भुवनको देखनेवाले, अवाधि-ज्ञानसे अपने अवधिक्षेत्रके भीतर स्थित सम्पूर्ण जघिोंके कर्मस्कन्धोंको प्रत्यक्ष करनेवाले, तथा चार घातिया कर्मोंके नष्ट होनेसे उत्पन्न और अघातिया कर्मोंके सम्बन्धसे मूर्त-भावको प्राप्त ऐसी जिन भगवान्में स्थित नौ केवललब्धियोंको देखनेवाले सौधमेंन्द्र द्वारा की गई उनकी पूजा चूंकि बिना सर्वज्ञताके बनती नहीं है अतः सिद्ध है कि वर्धमान भगवान् सर्वज्ञ थे।

यह हेतु विद्यावादियोंकी पूजासे व्यभिचरित नहीं होता, क्योंकि, अल्प ऋद्धि व ज्ञान युक्त व्यन्तर देवों द्वारा की गई पूजाका महा ऋद्धि व ज्ञानसे संयुक्त देवेन्द्रों द्वारा की

णाणदेविंदकयपूजाए सह साहम्माभावादो देविद्विच्छायाए विच्छायं गच्छंतीए वेंतरपूजाए इंदकय-
जिणपूजाए इव धुवत्ताभावेण वड्ढम्मियादो वा । होदु णाम दिड्डजिणदच्चमहिमाणं देविंद-
सरूवावगच्छंतजीवाणमिदं जिणसच्चणुत्तलिंगं, ण सेसाणं; लिंगविसयअवगमाभावादो । ण च
अणवगयलिंगस्स लिंगिविसओ अवगमो उप्पज्जदि, अइप्पसंगादो त्ति उत्ते अणेण पयारेण
जिणभावजाणावणड्डं भावपरूवणा कीरदे । तं जहा—

ण जीवो जडसहावो, ससंवेयणापच्चक्खेण अविसंवादसहावेण अजडसहावजीउवलंभादो ।
ण च णिच्चेयणो जीवो चेयणागुणसंवंधेण चेयणसहावो होदि, सरूवहाणिप्पसंगादो । किं च
ण णिच्चेयणो जीवो, तस्साभावप्पसंगादो । तं जहा— ण ताव इंदियणाणेण अप्पा धेप्पइ,
तस्स वज्झत्थे वावारुवलंभादो । ण ससंवेयणाए धेप्पइ, चेयणसरूवाए तिस्से जडजीवे
असंभवादो । ण चाणुमाणेण वि धेप्पइ, दुविहपच्चक्खानमविसएण जीवेण अविणाभाविर्लिंग-

गई पूजाके साथ कोई साधर्म्य नहीं है । अथवा, देवद्विंदकी छायामें कान्तिहीनताको प्राप्त होनेवाली व्यन्तरकृत पूजामें इन्द्रकृत जिनपूजाके समान स्थिरता न होनेसे दोनोंमें साधर्म्यका अभाव है ।

शंका—जिनद्रव्य अर्थात् जिनशरीरकी महिमाको देखनेवाले व देवेन्द्रस्वरूपके जानकार जीवों (सौधमेंन्द्रादिक) के वह जिनदेवकी सर्वज्ञताका साधन भले ही बन सकता हो, किन्तु वह शेष जीवोंके नहीं बनता; क्योंकि, उनके उक्त साधनविषयक ज्ञानका अभाव है । और साधनज्ञानसे रहित व्यक्तिके साध्यविषयक ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता, क्योंकि, ऐसा होनेमें अतिप्रसंग दोष आता है ?

समाधान — इस शंकाके उत्तरमें इस प्रकारसे जिनभावके ज्ञापनार्थ भावपरूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है — जीव जडस्वभाव नहीं है, क्योंकि, विसंवाद रहित स्वभाव-वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अजडस्वभाव जीव पाया जाता है । और अचेतन जीव चेतना-गुणके सम्बन्धसे चेतनास्वभाव भी नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेपर स्वरूपकी हानिका प्रसंग आवेगा ।

दूसरे, जीव अचेतन हो नहीं सकता, क्योंकि, ऐसा होनेसे उसके अभावका प्रसंग आवेगा । वह इस प्रकारसे — इन्द्रियज्ञानके द्वारा तो आत्माका ग्रहण होता नहीं है, क्योंकि, इन्द्रियज्ञानका व्यापार बाह्य अर्थमें पाया जाता है । स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे आत्माका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि, चेतनस्वभाव होनेसे उक्त प्रत्यक्ष जड-जीवमें सम्भव नहीं है । अनुमानसे भी आत्माका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि, दोनों प्रकारके प्रत्यक्षोंके अविषयभूत जीवके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले लिंगका ग्रहण सम्भव

ग्रहणाणुववत्तीदो । ण चागमेण वि वेप्पइ, अपउरुसेयआगमाभावादो । णेदरेण वि, सच्च-
ण्णुणा विणा तस्साभावादो इयरेयरासयदोसप्पसंगादो च । तदो णत्थि जीवो, सयलपमाण-
गोयराइक्कंतत्तादो त्ति द्विदजीवाभावो' मा होहिदि त्ति जीवो सचेयणो त्ति इच्छिदव्वो ।

किं च सचेयणो जीवो, अण्णहा णाणाभावप्पसंगादो । तं जहा— ण ताव णाणो-
वायाणकारणं जीवो, णिच्चेयणस्स तदुवायाणकारणत्तविरोहादो । अविरोहे वा आयासं पि
तदुवायाणकारणं होज्ज, अमुत्त-सच्चगयत्त णिच्चेयणत्तेहि विसेसाभावादो । ण च सद्दुवायाण-
कारणत्तकओ विसेसो, तस्स सज्झसमाणत्तादो । ण चोवायाणकारणेण विणा कज्जुप्पत्ती,
विरोहादो । तम्हा' आयासादीहितो जीवस्स विसेसो अब्भुवगंतव्वो, कधमण्णहा जीवो चेव
णाणस्सुवायाणकारणं होज्ज । सो वि चेयणं मोत्तूण को अण्णो विसेसो होज्ज, अण्णम्हि
दोसुवलेभादो । रूवस्स पोमगलदव्वं व जीवो चेय णाणस्सुवायाणकारणमिदि ण वोत्तुं जुत्तं,

नहीं है । आगमसे भी आत्माका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि, अपौरुषेय आगमका अभाव
है । यदि पौरुषेय आगमसे उसका ग्रहण माना जावे तो वह भी नहीं बनता, क्योंकि,
सर्वज्ञके बिना पौरुषेय आगमका अभाव है, तथा [पहिले जब सर्वज्ञ सिद्ध हो तब उससे
पौरुषेय आगम सिद्ध हो और जब पौरुषेय आगम सिद्ध हो तब उससे सर्वज्ञकी सत्ता
सिद्ध हो, इस प्रकार] अन्योन्याश्रय दोषका प्रसंग भी आता है । इस कारण जीव है ही
नहीं, क्योंकि, वह समस्त प्रमाणोंकी विषयतासे रहित है; इस प्रकार प्रसंगप्राप्त जीवका
अभाव न हो, एतदर्थ ' जीव सचेतन है ' ऐसा स्वीकार करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त जीव सचेतन है, क्योंकि, सचेतनताके बिना ज्ञानके अभावका
प्रसंग आता है । वह इस प्रकारसे— जीव ज्ञानका उपादान कारण नहीं है, क्योंकि,
चैतन्यसे रहित उसके ज्ञानोपादानकारणताका विरोध है । अथवा अचेतन होते हुए भी
उसको ज्ञानका उपादान कारण माननेमें यदि कोई विरोध नहीं माना जाय तो आकाश
भी उसका उपादान कारण हो जावे, क्योंकि अमूर्तत्व, सर्वव्यापकता और अचेतनताकी
अपेक्षा जीवसे आकाशमें कोई विशेषता नहीं है । यदि कहा जाय कि आकाश शब्दका
उपादान कारण है, यही उसमें जीवसे विशेषता है, सो वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि,
शब्दोपादानकारणत्व रूप हेतु साध्यके ही समान असिद्ध है । और उपादानकारणके बिना
कार्यकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है । इस कारण आकाशा-
दिकोंकी अपेक्षा जीवके विशेषता स्वीकार करना चाहिये; अन्यथा जीव ही ज्ञानका उपादान
कारण कैसे हो सकता है ? वह विशेषता भी चेतनताको छोड़कर और दूसरी कौनसी
हो सकती है, क्योंकि, अन्य विशेषतामें दोष पाये जाते हैं । जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य
रूपका उपादान कारण है, उसी प्रकार जीव भी ज्ञानका उपादान कारण है,
ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेपर रूपके समान

रूवस्सेव णाणस्स जावद्वभाविप्पसंगादो । 'ण पज्जायरूवेण वियहिचारो, रूवत्तं पडि समाणजादीयस्स रूवविसेसस्स तत्थावट्ठाणं व णाणत्तं पडि समाणजादीयस्स' णाणविसेसस्स जीवे वि सव्वदा अवट्ठाणप्पसंगादो । तम्हा सचेयणो जीवो त्ति इच्छिद्वो ।

जेसिमण्णोणमविरोहो ते तस्स दव्वस्स जावद्वभाविगुणां पोग्गलदव्वस्स रूव-रस-गंध-पास इव । तदो चेयणा व णाणं पि जावद्वभाविगुणो, चेयणाए सह णाणस्स विरोहाभावो । किं च णाणं जीवस्स जावद्वभाविगुणो, चेयणादो उवजोगत्तं पडि एग-त्तादो । ण च एकस्स उवजोगस्स पमेयभेएण दुव्भावं गयस्स मिण्णदव्वावट्ठाणं जुज्जेदे, विरोहादो । तदो णाण-दंसणसहावो जीवो त्ति सिद्धं । ण च णाणं दिवायरप्पहा व थोवदव्व-गुण-पज्जयपडिवट्ठं, सत्तण्णहाणुवत्तीदो सयलमणेयंतप्पयमिच्चाइयस्स अणुमाणणाणस्स सव्व-दव्वपज्जयगयस्सुवलंभादो । तदो असेसदव्व-पज्जयणाण-दंसणसहावो जीवो त्ति सिद्धं ।

पुणो कसाया णाणविरोहिणो, कसायवट्ठि-हाणीहितो णाणस्स हाणि-वट्ठिणमुवलंभादो ।

ज्ञानके यावद्द्रव्यभावी होनेका प्रसंग आवेगा । पर्यायभूत नील-पीतादि रूपसे व्यभिचार भी नहीं हो सकता, क्योंकि, रूपत्वके प्रति समान जातीय रूपविशेषके वहां अवस्थानके समान ज्ञानत्वके प्रति समानजातीय ज्ञानविशेषके जीवमें भी सर्वदा अवस्थानका प्रसंग आवेगा । अतएव जीव सचेतन है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये ।

जिन गुणोंके परस्परमें कोई विरोध नहीं रहता वे उस द्रव्यके यावद्द्रव्यभावी गुण कहलाते हैं, जैसे पुद्गलद्रव्यके रूप, रस, गन्ध व स्पर्श । इस कारण चेतनाके समान ज्ञान भी यावद्द्रव्यभावी गुण है, क्योंकि, चेतनाके साथ ज्ञानका कोई विरोध नहीं है । और भी, ज्ञान जीवका यावद्द्रव्यभावी गुण है, क्योंकि, चेतनाकी अपेक्षा उपयोगके प्रति उसकी एकता है । और एक उपयोगका प्रमेयके भेदसे द्वित्वको प्राप्त होकर भिन्न द्रव्यमें रहना उचित नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध आता है । अत एव ज्ञान-दर्शन-स्वभाव जीव है, यह सिद्ध हुआ । तथा सूर्यप्रभाके समान ज्ञान स्तोक द्रव्य, गुण व पर्यायोंसे सम्बद्ध नहीं है; क्योंकि, 'समस्त पदार्थ अनेकान्तात्मक हैं, क्योंकि, उसके बिना उनकी सत्ता घटित नहीं होती' इत्यादिक अनुमानज्ञान सब द्रव्य व पर्यायोंमें रहनेवाला पाया जाता है । इस कारण सम्पूर्ण द्रव्य एवं पर्यायोंको विषय करनेवाले ज्ञान-दर्शन स्वरूप जीव है, ऐसा सिद्ध होता है ।

पुनः कपायें ज्ञानकी विरोधी हैं, क्योंकि, कपायोंकी वृद्धि और हानिसे क्रमशः

१ अप्रतौ 'समाणोजाणीयस्स', अप्रतौ 'समाणजीणीयस्स' इति पाठः ।

२ प्रतिपु 'गुणो' इति पाठः ।

ण कसाया जीवगुणा, जावद्व्यभाविणा णाणेण सह विरोहण्णहाणुववत्तीदो । पमादासंजमा^१ वि ण जीवगुणा, कसायकज्जत्तादो । ण अण्णाणं पि, णाणपडिवक्खत्तादो । ण मिच्छत्तं पि, सम्मत्तप्पडिवक्खत्तादो अण्णाणकज्जत्तादो वा । तदो णाण-दंसण संजम-सम्मत्त-खंति-मह-वज्जव-संतोस-विरागादिसहावो जीवो त्ति सिद्धं ।

ण णिच्चाइं कम्माइं, तप्फलाणं जाइ-जरा-मरण तणु-करणार्णमणिच्चत्तण्णहाणुव-वत्तीदो । ण च णिक्कारणाणि, कारणेण विणा कज्जाणमुप्पात्तिविरोहादो । ण णाण-दंसणा-दीणि तक्कारणं, कम्मजणिदकसाएहि सह विरोहण्णहाणुववत्तीदो । ण च कारणाविरोहीण तक्कज्जेहि विरोहो जुज्जेदे, कारणविरोहदुवारेणव सच्चत्थ कज्जेसु विरोहुवलंभादो । तदो मिच्छत्तासंजम-कसायकारणाणि कम्माणि त्ति सिद्धं । सम्मत्त-संजम-कसायाभावा कम्मक्खय-कारणाणि, मिच्छत्तादीणं पडिवक्खत्तादो । ण च कारणाणि कज्जं ण जणेंति चेवेत्ति णियमो अत्थि, तहाणुवलंभादो । तम्हा क्हिं पि काले कत्थ वि जीवे कारणकलावसामग्गीए णिच्छएण

ज्ञानकी हानि और वृद्धि पायी जाती है । कपायें जीवके गुण नहीं हैं, क्योंकि, यावद्द्रव्य-भावी ज्ञानके साथ उनका विरोध अन्यथा घटित नहीं होगा । प्रमाद व असंयम भी जीव-गुण नहीं हैं, क्योंकि, वे कपायोंके कार्य हैं । अज्ञान भी जीवका गुण नहीं है, क्योंकि, वह ज्ञानका प्रतिपक्षी है । मिथ्यात्व भी जीवका गुण नहीं है, क्योंकि, वह सम्यक्त्वका प्रति-पक्षी एवं अज्ञानका कार्य है । इस कारण ज्ञान, दर्शन, संयम, सम्यक्त्व, क्षमा, मृदुता, आर्जव, सन्तोष और विराग आदि स्वभाव जीव है, यह सिद्ध हुआ ।

कर्म नित्य नहीं हैं, क्योंकि, अन्यथा जन्म, जरा, मरण, शरीर व इन्द्रियादि रूप कर्मकार्योंकी अनित्यता बन नहीं सकती । यदि कहा जाय कि जन्म-जरादिक अकारण हैं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, कारणके बिना कार्योंकी उत्पत्तिका विरोध है । यदि ज्ञान-दर्शनादिकोंको उनका कारण माने तो वह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, अन्यथा कर्म-जनित कपायोंके साथ उनका विरोध घटित नहीं होता । और जो कारणके साथ अविरोधी हैं उनका उक्त कारणके कार्योंके साथ विरोध उचित नहीं हैं, क्योंकि, कारणके विरोधके द्वारा ही सर्वत्र कार्योंमें विरोध पाया जाता है । अत एव मिथ्यात्व, असंयम और कपाय कर्मोंके कारण हैं, यह सिद्ध हुआ । सम्यक्त्व, संयम और कपायोंका अभाव कर्मक्षयके कारण हैं, क्योंकि, ये मिथ्यात्वादिकोंके प्रतिपक्षी हैं । और कारण कार्यको उत्पन्न करते ही नहीं हैं, ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता । अत एव किसी कालमें किसी भी जीवमें कारणकलाप सामग्री निश्चयसे होना चाहिये । और इसीलिये किसी भी जीवके

१ अ-आप्रत्यो: ' पमदासंजमा ', काप्रतो ' पमत्तासंजमा ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' युद्धवज्जव ' इति पाठः ।

होदव्वमिदि कस्स वि जीवस्स सयलसहावोलद्धीए होदव्वं, सहाववड्डितारतम्मुवलंभादो; आगरकणय-पाहाणड्डियसुवण्णस्सेव सुक्कपक्खचंदमंडलस्सेव वा । कसायस्स वि णिस्सेसक्खओ कत्थ वि जीवे होदि, हाणितारतम्मुवलंभादो, 'आगरकणए' व दुवलियमाणमलकलंकस्सेव । णिस्सेसं णाणं धूवरंति कम्माइं, आवरणतारतम्मुवलंभादो, चंदमंडलं राहुमंडलं वेत्ति ण वोत्तुं जुत्तं, जावदव्वभावीणं णाण-दंसणाणमभावेण जीवदव्वस्स वि अभावप्पसंगादो । तदो णेदं घडदि त्ति । तदो केवलणाणावरणक्खएण केवलणाणी, केवलदंसणावरणक्खएण केवलदंसणी, मोहणीयक्खएण वीयरओ, अंतराइयक्खएण अणंतवल्लो विग्घविवज्जिओ दरदद्धअवाइकम्भो जीवो कत्थ वि अत्थि त्ति सिद्धं । ण च खीणावरणो परमियं चेव जाणदि, णिप्पडिवंधस्स सयलत्थावगमणसहावस्स परिमियत्थावगमविरोहादो । अत्रोपयोगी श्लोकः —

ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबन्धरि ।

दाह्येऽग्निर्दाहको न स्यादसति प्रतिबन्धरि ॥ २२ ॥

पूर्ण स्वभावकी प्राप्ति होना चाहिये, क्योंकि, स्वभाववृद्धिका तारतम्य पाया जाता है; जैसे—खानके कनकपापाणमें स्थित सुवर्ण अथवा शुक्ल पक्षके चन्द्रमण्डलके । कपायका भी पूर्ण विनाश किसी भी जीवमें होता है, क्योंकि, उसकी हानिका तारतम्य पाया जाता है; जैसे— खानके सुवर्णमें हीयमान मलकलंक ।

शंका — कर्म पूर्ण ज्ञानका आवरण करते हैं, क्योंकि, आवरणका तारतम्य पाया जाता है; जैसे चन्द्रमण्डलको राहुमण्डल । ऐसा भी यहां कहा जा सकता है ?

समाधान — ऐसा अनुमान योग्य नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेपर यावद्द्रव्यभावी ज्ञान-दर्शनके अभावसे जीव द्रव्यके भी अभाव होनेका प्रसंग आवेगा । इस कारण पूर्ण ज्ञानका आवरण घटित नहीं होता ।

अत एव केवलज्ञानावरणके क्षयसे केवलज्ञानी, केवलदर्शनावरणके क्षयसे केवलदर्शनी, मोहनीयके क्षयसे वीतराग, अन्तरायके क्षयसे विघ्नोसे रहित अनन्तवलसे संयुक्त, तथा अघातिया कर्मोंको किंचित् दग्ध करनेवाला जीव कहींपर भी है, यह सिद्ध है । और आवरणके क्षीण हो जानेपर आत्मा परिमितको ही जानता है, यह हो नहीं सकता, क्योंकि, प्रतिबन्धसे रहित और समस्त पदार्थोंके जानने रूप स्वभावसे संयुक्त उसके परिमित पदार्थोंके जाननेका विरोध है । यहां उपयोगी श्लोक—

ज्ञानस्वभाव आत्मा प्रतिबन्धकका अभाव होनेपर ज्ञेयके विषयमें ज्ञान रहित कैसे हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता । [क्या] अग्नि-प्रतिबन्धके अभावमें दाह्य पदार्थका दाहक नहीं होता है ? होता ही है ॥ २२ ॥

१ आ काप्रलो: ' आगरकरणओ ', ' आप्रतौ ' अगरकरणओ ' इति पाठः ।

२ जयध. १, पृ. ६६. स. त. पृ. ६३.

एसो वि एवंविहो वड्डमाणभडारओ चेव, जुत्ति-सत्थाविरुद्धवयणत्तादो । एत्थुव-उज्जंतीओ गाहाओ—

खीणे दंसणमोहे चरित्तमोहे तहेव घाइतिए ।

सम्मत्त-विरियणाणी खइए ते हँति जीवाणं' ॥ २३ ॥

उप्पण्णम्मि अणंते णट्ठम्मि य छादुमत्थिए णाणे ।

देविंद-दाणविंदा करँति महिमं जिणवरस्स' ॥ २४ ॥

एवंविहभावेण वड्डमाणभडारएण तित्थुप्पत्ती कदा ।

दच्च-खेत्त-भावपरूवणाणं संस्करणं कालपरूवणा कीरेदे । तं जहा— दुविहो कालो ओसप्पिणी-उत्सप्पिणीभेएण । जत्थ वलाउ-उत्सेहाणं उत्सप्पणं उड्डी हेदि सो कालो उत्सप्पिणी । जत्थ हाणी सो ओसप्पिणी । तत्थ एक्केक्को सुसम-सुसमादिभेएण' छविहो । तत्थ' एदस्स भरहखेत्तसोसप्पिणीए चउत्थे दुस्समसुसमकाले णवहि दिवसेहि छहि मासेहि य अहियतेत्तीसवासावसेसे $\left[\begin{smallmatrix} ३ \\ ६ \\ ९ \end{smallmatrix} \right]$ तित्थुप्पत्ती जादा । उत्तं च—

यह भी इस प्रकारके स्वरूपसे संयुक्त वर्धमान भट्टारक ही हो सकते हैं, क्योंकि, उनके वचन युक्ति व शास्त्रसे अविरुद्ध हैं । यहां उपयुक्त गाथायें—

दर्शनमोह, चारित्रमोह तथा तीन अन्य घातिया कर्मोंके क्षीण हो जानेपर जीवोंके सम्यक्त्व, वीर्य और ज्ञान रूप वे क्षायिक भाव होते हैं ॥ २३ ॥

अनन्त ज्ञानके उत्पन्न होने और छादमस्थिक ज्ञानके नष्ट हो जानेपर देवेन्द्र एवं दानवेन्द्र जिनेन्द्रदेवकी महिमा करते हैं ॥ २४ ॥

इस प्रकारके भावसे युक्त वर्धमान भट्टारकने तीर्थकी उत्पत्ति की ।

अब द्रव्य, क्षेत्र और भावकी प्ररूपणाओंके संस्कारार्थ कालप्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके भेदसे काल दो प्रकार है । जिस कालमें बल, आयु व उत्सेधका उत्सर्पण अर्थात् वृद्धि होती है वह उत्सर्पिणी काल है । जिस कालमें उनकी हानि होती है वह अवसर्पिणी काल है । उनमें प्रत्येक सुखमा-सुखमादिकके भेदसे छह प्रकार है । उनमें इस भरतक्षेत्रके अवसर्पिणीके चतुर्थ दुखमा-सुखमा कालमें नौ दिन व छह मासोंसे अधिक तेतीस वर्षोंके (३३ वर्ष ६ मास ९ दिन) शेष रहनेपर तीर्थकी उत्पत्ति हुई । कहा भी है—

१ प. सं. पु. १, पृ. ६४, जयघ. १, पृ. ६८. २ जयघ. १, पृ. ६८. ३ प्रतिषु 'सुसमादिभेएण'

इति पाठः । ४ प्रतिषु 'तस्स' इति पाठः ।

इम्मिस्से वसप्पिणीए चउत्थकालस्स पच्छिमे भाए ।

चोत्तीसवाससेसे किंचिविसेसूणकालम्मि' ॥ २५ ॥

तं जहा — पण्णारहदिवसेहिं अड्ढहि मासेहि य अहियं पचहत्तरिवासावसेसे चउत्थ-
काले [७५
१५] पुप्फुत्तरविमाणादो आसाढजोण्णपक्खच्छडीए महावीरो बाहत्तरिवासाउओ तिणाण-
हरो गम्भमोइण्णो' । तत्थ तीसवासाणि कुमारकालो, वारसवासाणि तस्स छदुमत्थकालो, केवलि-
कालो वि तीसं वासाणि; एदेसिं तिण्हं कालाणं समासो बाहत्तरिवासाणि । एदाणि पंचहत्तरि-
वासेसु सोहिदे वड्ढमाणजिणिंदे णिव्वुदे संते जो सेसो चउत्थकालो तस्स पमाणं होदि ।
एदम्मि छासड्ढिदिवसूणकेवलकाले पक्खित्ते णवदिवस-छम्मासाहियतेतीसवासाणि चउत्थकाले
अवसेसाणि होति । छासड्ढिदिवसावणयणं केवलकालम्मि किमड्ढं कीरदे ? केवलणाणे समुप्पण्णे
वि तत्थ तित्थाणुप्पत्तीदो । दिव्वज्जुणीए किमड्ढं तत्थापउत्ती ? गणिंदाभावादो । सोहम्मिंदेण

इसी अवसर्पिणीके चतुर्थ कालके अन्तिम भागमें कुछ कम चौंतीस वर्ष प्रमाण
कालके शेष रहनेपर [धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई] ॥ २५ ॥

वह इस प्रकारसे— पन्द्रह दिन और आठ मास अधिक पचत्तर वर्ष चतुर्थ कालमें
शेष रहनेपर (७५ व. ८ मा. १५ दि.) पुण्योत्तर विमानसे आपाढ़ शुक्ल पक्षीके दिन वहत्तर
वर्ष प्रमाण आयुसे युक्त और तीन ज्ञानके धारक महावीर भगवान् गर्भमें अवतीर्ण हुए ।
इसमें तीस वर्ष कुमारकाल, वारह वर्ष उनका छद्मस्थकाल, केवलिकाल भी तीस वर्ष,
इस प्रकार इन तीन कालोंका योग वहत्तर वर्ष होते हैं । इनको पचत्तर वर्षोंमेंसे कम
करनेपर वर्धमान जिनेन्द्रके मुक्त होनेपर जो शेष चतुर्थकाल रहता है उसका प्रमाण
होता है । इसमें छयासठ दिन कम केवलिकालके जोड़नेपर नौ दिन और छह मास अधिक
तेतीस वर्ष चतुर्थ कालमें शेष रहते हैं ।

शंका—केवलिकालमें छयासठ दिन कम किसलिये किये जाते हैं ?

समाधान—क्योंकि, केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी उनमें तीर्थकी उत्पत्ति
नहीं हुई ।

शंका—इन दिनोंमें दिव्यध्वनिकी प्रवृत्ति किसलिये नहीं हुई ?

समाधान—गणधरका अभाव होनेसे उक्त दिनोंमें दिव्यध्वनिकी प्रवृत्ति
नहीं हुई ।

शंका—सौधर्म इन्द्रने उसी क्षणमें ही गणधरको उपस्थित क्यों नहीं किया ?

१ प. खं. पु. १, पृ. ६२. जयध. १, पृ. ७४.

२ पंचसत्तिवर्षाष्टमास-मासार्धशेषकः । चतुर्थस्तु तदा कालो दुःखमः सुखमोत्तरः ॥ ह. पु. २-२२.

तक्खणे चेव गणिंदो किण्ण ढोइदो ? काललद्धीए विणा असहायस्स देविंदस्स तद्धोयणंसत्तीए अभावादो । सगपादमूलम्मि पडिवण्णमहच्चयं मोत्तूण अण्णमुदिसिय दिव्वज्झुणी किण्ण पयट्ठे ? साहावियादो । ण च सहावो परपज्जणियोगारुहो, अव्ववत्थावत्तीदो । तम्हा चोत्तीस-वाससेसे किंचिविसेमूणचउत्थकालम्मि तित्थुप्पत्ती जादा त्ति सिद्धं ।

अण्ण के वि आइरिया पंचहि दिवसेहि अइहि मासेहि य ऊणाणि वाहत्तरि वासाणि त्ति वडुमाणजिणिंदाउअं परूवेत्ति [५१] । तेसिमहिप्पाएण गम्भत्थ-कुमार-छट्ठमत्थ-केवल-कालाणं परूवणा कीरदे । तं जहा — आसाढजोण्णपक्खच्छीए कुंडलपुरणगराहिव-णाहवंस-सिद्धत्थणरिंदस्स निसिलादेवीए गम्भमागंतूण तत्थ अइदिवसाहियणवमासे अच्छिय चइत्त-सुक्कपक्खेतरसीए उत्तराफग्गुणीणक्खत्ते गम्भादो णिक्खंतो । एत्थ आसाढजोण्णपक्ख-छट्ठिमादिं कादूण जाव पुण्णिमा त्ति दस दिवसा होंति [१०] । पुणो सावणमासमादिं कादूण

समाधान—नहीं किया, क्योंकि, काललद्धिके विना असहाय सौधर्म इन्द्रके उनको उपस्थित करनेकी शक्तिका उस समय अभाव था ।

शंका—अपने पादमूलमें महाव्रतको स्वीकार करनेवालेको छोड़ अन्यका उद्देश कर दिव्यध्वनि क्यों नहीं प्रवृत्त होती ?

समाधान—नहीं होती, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । और स्वभाव दूसरोंके प्रश्नके योग्य नहीं होता, क्योंकि, ऐसा होनेपर अव्यवस्थाकी आपत्ति आती है ।

इस कारण चतुर्थ कालमें कुछ कम चौतीस वर्ष शेष रहनेपर तीर्थकी उत्पत्ति हुई, यह सिद्ध है ।

अन्य कितने ही आचार्य पांच दिन और आठ मासोंसे कम ब्रह्मचर्य वर्ष प्रमाण वर्धमान जिनेन्द्रकी आयु बतलाते हैं (७१ व. ३ मा. २५ दि.) । उनके अभिप्रायानुसार गर्भस्थ, कुमार, छट्ठमस्थ और केवलज्ञानके कालोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—आपाढ़ शुक्ल पक्ष पट्टीके दिन कुण्डलपुर नगरके अधिपति नाथवंशी सिद्धार्थ नरेन्द्रकी त्रिशला देवीके गर्भमें आकर और वहां आठ दिन अधिक नौ मास रहकर चैत्र शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीके दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमें गर्भसे बाहर आये । यहां आपाढ़ शुक्ल पक्षकी पट्टीको आदि करके पूर्णिमा तक दश दिन होते हैं [१० दि.] । पुनः श्रावण मासको आदि करके आठ मास

१. प्रतिष्ठ ' तद्धोयण ' इति पाठः ।

२. मेघती ' अव्ववत्थादो ' इति पाठः ।

३. जय. १,

पृ. ७५-७६. ४. प्रतिष्ठ ' छट्ठमत्था ' इति पाठः ।

अट्टमासे गम्भस्मि गमिय चइत्तमासस्मि सुक्कपक्खतेरसीए उप्पण्णो त्ति अट्ठावीस दिवसा तत्थ लब्भंति । एदेसु पुब्बिल्लदसदिवसेसु पक्खित्तेसु मासो अट्ठदिवसाहिओ लब्भदि । तम्मि अट्टमासेसु पक्खित्ते अट्ठदिवसाहियणवमासा गम्भत्थकालो होदि । तस्स संदिट्ठी [१] ।
एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ—

सुरमहिदो च्चुदकप्पे भोगं दिव्वाणुभागमणुभूदो ।

पुप्फुत्तरणामादो विमाणदो जो चुदो संतो ॥ २६ ॥

बाहत्तरिवासाणि य थोवविहूणाणि लद्धपरमाज ।

आसाढजोण्णपक्खे छट्ठीए जोणिमुवयादो ॥ २७ ॥

कुंडपुरपुरवरिस्सरसिद्धत्थक्खत्तियस्स गाहकुले ।

तिसिलाए देवीए देवीसदसेवमाणाए ॥ २८ ॥

अच्छित्ता णवमासे अट्ठ य दिवसे चइत्तसियपक्खे ।

तेरसिए रत्तीए जादुत्तरफग्गुणीए दु' ॥ २९ ॥

एवं गम्भट्टिदकालपरूवणा कदा ।

गर्भमें विताकर चैत्र मासमें शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको उत्पन्न हुए थे, अतः अट्ठाईस दिन चैत्र मासमें प्राप्त होते हैं। इनको पूर्वोक्त दश दिनोंमें मिला देनेपर आठ दिन सहित एक मास प्राप्त होता है। उसे आठ मासोंमें मिलानेपर आठ दिन अधिक नौ मास गर्भस्थकाल होता है। उसकी संदष्टि [९ मा. ८ दि.] । यहां उपयुक्त गाथाएँ—

वर्धमान भगवान् अच्युत कल्पमें देवोंसे पूजित हो दिव्य प्रभावसे संयुक्त भोगोंका अनुभव कर पुनः पुण्योत्तर नामक विमानसे च्युत होकर कुछ कम बहत्तर वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आयुको प्राप्त करते हुए आषाढ़ शुक्ल पक्षकी षष्ठीके दिन योनिको प्राप्त हुए अर्थात् गर्भमें आये ॥ २६-२७ ॥

तत्पश्चात् कुण्डलपुर रूप उत्तम पुरके ईश्वर सिद्धार्थ क्षत्रियके नाथ कुलमें सैकड़ों देवियोंसे सेव्यमान त्रिशला देवीके [गर्भमें] नौ मास और आठ दिन रहकर चैत्र मासके शुक्ल पक्षमें त्रयोदशीकी रात्रिमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ २८-२९ ॥

इस प्रकार गर्भस्थित कालकी प्ररूपणा की है ।

संपहि कुमारकालो उच्चदे— चइत्तमासस्स दो दिवसे [२] वइसाहमादिं कादूण अट्टावीसं वासाणि [२८] पुणो वइसाहमादिं कादूण जाव कत्तिओ त्ति सत्तमासे च कुमार-त्तेण गमिय [७] तदो मग्गसिरकिण्हपक्खदसमीए णिक्खंतो त्ति एदस्स कालस्स पमाणं बारसदिवस-सत्तमासाहियअट्टवीसवासमेतं होदि [२८] एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ—

मणुवत्तणसुहमउलं देवकयं सेविऊण वासाइं ।

अट्टावीसं सत्त य मासे दिवसे य बारसयं ॥ ३० ॥

आहिणिबोहियबुद्धो छट्ठेण य मग्गसीसवहुले दु ।

दसमीए णिक्खंतो सुरमहिदो णिक्खमणपुज्जो ॥ ३१ ॥

एवं कुमारकालपरूवणा कदा ।

संपधि छट्ठमत्थकालो उच्चदे । तं जहा— मग्गसिरकिण्हपक्खएक्कारसिमादिं काऊण जाव मग्गसिरपुणिमा त्ति वीसदिवसे [२०] पुणो पुस्समासमादिं कादूण बारसवासाणि [१२] पुणो तं चेव मासमादिं कादूण चत्तारिमासे च [४] वइसाहजोण्णपक्खपंचवीसदिवसे

अब कुमारकालको कहते हैं— चैत्र मासके दो दिन [२], वैशाखको आदि लेकर अट्टाईस वर्ष [२८], पुनः वैशाखको आदि करके कार्तिक तक सात मासको [७] कुमार स्वरूपसे विताकर पश्चात् मगसिर कृष्ण पक्षकी दशमीके दिन दीक्षार्थ निकले थे । अतः इस कालका प्रमाण बारह दिन और सात मास अधिक अट्टाईस वर्ष मात्र होता है [२८ वर्ष ७ मास १२ दिन] । यहां उपयुक्त गाथायें—

वर्धमान स्वामी अट्टाईस वर्ष सात मास और बारह दिन देवकृत श्रेष्ठ मानुषिक सुखका सेवन करके आभिनियोधिक ज्ञानसे प्रबुद्ध होते हुए पट्टोपवासके साथ मगसिर कृष्ण दशमीके दिन गृहत्याग करके सुरकृत महिमाका अनुभव कर तप कल्याण द्वारा पूज्य हुए ॥ ३०-३१ ॥

इस प्रकार कुमारकालकी प्ररूपणा की है ।

अब छट्ठमस्थकाल कहते हैं । वह इस प्रकार है— मगसिर कृष्ण पक्षकी एकादशीको आदि करके मगसिरकी पूर्णिमा तक बीस दिन [२०], पुनः पौष मासको आदि करके बारह वर्ष [१२], पुनः उसी मासको आदि करके चार मास [४] और वैशाख शुक्ल पक्षकी दशमी तक वैशाखके पच्चीस दिनोंको

च [२५] छदुमत्थत्तणेणं गमिय वइसाहजोणपक्खदसमीए उज्जुकूलदीतीरे जिंभियगामस्स
 बाहिं छट्ठोववासेण सिलावट्टे आदावेतेण अवरण्हे पादछायाए केवलणाणमुप्पाइदं । तेणेदस्स
 कालस्स प्रमाणं पण्णारसदिवस-पंचमासाहियबारसवासमेत्तं हेदि [१५] । एत्थुवउज्जंतीओ
 गाहाओ —

गमइय छदुमत्थत्तं बारसवासाणि पंच गासे य ।

पण्णरसाणि दिणाणि य तिरयणसुद्धो महावीरो ॥ ३२ ॥

उज्जुकूलदीतीरे जंभियगामे बाहिं सिलावट्टे ।

छट्ठेणादावेतो अवरण्हे पायछायाए ॥ ३३ ॥

वइसाहजोणपक्खे दसमीए खवगसेडिमारूढो ।

हंतूण घाइकम्मं केवलणाणं समावण्णो' ॥ ३४ ॥

एवं छदुमत्थकालो परूविदो ।

संपहि केवलकालो उच्चदे । तं जहा — वइसाहजोणपक्खएक्कारसिमादिं कादूण जाव
 पुणिंमा ति पंच दिवसे [५] पुणो जेडप्पहुडि एगूणतीसवांसाणि [२९] तं चेव मासमादिं

छद्मस्थ स्वरूपसे विताकर वैशाख शुक्ल पक्षकी दशमीके दिन ऋजुकूला नदीके तीर-
 पर जृम्भिका ग्रामके बाहर षष्ठोपवासके साथ शिलापट्टपर आतापन योग सहित होकर
 अपराह्न कालमें पादपरिमित छायाके होनेपर केवलज्ञान उत्पन्न किया । इस लिये इस कालका
 प्रमाण पन्द्रह दिन और पांच मास अधिक बारह वर्ष मात्र होता है [१२ वर्ष ५ मास
 १५ दिन] । यहां उपयुक्त गाथायें—

रत्नत्रयसे विशुद्ध महावीर भगवान् बारह वर्ष, पांच मास और पन्द्रह दिन
 छद्मस्थ अवस्थामें विताकर ऋजुकूला नदीके तीरपर जृम्भिका ग्राममें बाहर शिलापट्टपर
 षष्ठोपवासके साथ आतापन योग युक्त होते हुए अपराह्न कालमें पादपरिमित छायाके होने-
 पर वैशाख शुक्ल पक्षकी दशमीके दिन क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ होकर एवं घातिया कर्मोंको
 नष्ट कर केवलज्ञानको प्राप्त हुए ॥ ३२—३४ ॥

इस प्रकार छद्मस्थकालकी प्ररूपणा की ।

अब केवलकाल कहते हैं । वह इस प्रकार है—वैशाख शुक्ल पक्षकी एकादशीको
 भादि करके पूर्णिमा तक पांच दिन [५], पुनः ज्येष्ठसे लेकर उन्तीस वर्ष [२९], उसी

काऊण जाव आसउज्जेो ति पंचमासे [५] पुणेो कत्तियमासंकिण्हपक्खचोदसदिवसें च केवलणाणेण सह एत्थ गमिय णिव्वुदो [१४] । अमावासीए^१ परिणिव्वाणपूजा संयलदेविंदेहि कयां ति तं पि दिवसमेत्थेव पक्खित्ते पण्णारस दिवसा होंति । तेणेदस्स पमाणं वीसदिवस-पंचमासाहियएगुणतीसवासमेत्तं हेदि [२९/२०] । एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ—

वासाणूणत्तीसं पंच य मासे य वीसदिवसे य ।

चउविहअणगारेहिं वारहहि गणेहि विहरंतो ॥ १५ ॥

पच्छा पात्राणयेरे कत्तियमासे य किण्हचोदसिए ।

सादीए रत्तीए सेसरयं छेतु णिव्वाओ^२ ॥ ३६ ॥

एवं केवलकालो परूविदो ।

परिणिव्वुदे जिणिंदे चउत्थकालस्स जं भवे सेसं ।

वासाणि तिणिण मासा अट्ठ य दिवसा वि पण्णरसा ॥ ३७ ॥

संपदि कत्तियमासम्मि पण्णारसदिवसेसु मग्गसिरादितिणिवासेसु अट्ठमासेसु च महा-

मासको आदि करके आसोज तक पांच मास [५], पुनः कार्तिक मासके कृष्ण पक्षके चौदह दिनोंको भी केवलज्ञानके साथ यहां चिताकर मुक्तिको प्राप्त हुए [१४] । चूंकि अमावस्याके दिन सब देवेन्द्रोंने परिनिर्वाणपूजा की थी, अतः उस दिनको भी इसीमें मिलानेपर पन्द्रह दिन होते हैं । इस कारण इसका प्रमाण वीस दिन और पांच मास अधिक उनतीस वर्ष मात्र होता है [२९ व. ५ मा. २० दि.] । यहां उपयुक्त गाथायें—

भगवान् महावीर उनतीस वर्ष, पांच मास और बीस दिन चार प्रकारके अनगरों व वारह गणोंके साथ विहार करते हुए पश्चात् पावा नगरमें कार्तिक मासमें कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीको स्वाति नक्षत्रमें रात्रिको शेष रज अर्थात् अघ्रातियां कर्मोंको नष्ट करके मुक्त हुए ॥ ३५-३६ ॥

इस प्रकार केवलकालकी प्ररूपणा की ।

महावीर जिनेंद्रके मुक्त होनेपर चतुर्थ कालका जो शेष है वह तीन वर्ष, आठ मास और पन्द्रह दिन प्रमाण है ॥ ३७ ॥

अब भगवान् महावीरके निर्वाणगत दिनसे कार्तिक मासमें पन्द्रह दिन, मगसिरको

वीरणिव्वाणगयदिवसादो गदेसु सावणमासपडिवयाए दुसमकालो ओदिण्णो । $\left| \begin{smallmatrix} ३ \\ १५ \end{smallmatrix} \right|$ । एदं कालं
वड्डमाणजिणिंदाउअस्मि पक्खित्ते दसदिवसाहियपंचहत्तरिवासमेत्तावसेसे चउत्थकाले सग्गादो
वड्डमाणजिणिंदस्स ओदिण्णकालो होदि । $\left| \begin{smallmatrix} ७५ \\ १० \end{smallmatrix} \right|$ ।

दोसु वि उवएसेसु को एत्थ समंजसो, एत्थ ण वाहइ जिब्भमेलाइरियवच्छओ;
अलद्धोवदेसत्तादो दोण्णमेक्कस्स वाहाणुवलंभादो । किंतु दोसु एक्केण होदव्वं । तं जाणिय
मत्तव्वं ।

एवमत्यक्तारपरूवणा कदा ।

संपहि गंधकत्तारपरूवणं कस्सामो । वयणेण विणा अत्थपदुप्पायणं ण सभवइ,
सुहुमत्थाणं सण्णाए परूवणाणुववत्तीदो । ण चाणक्खराए झुणीए अत्थपदुप्पायणं जुज्जदे,
अणक्खरभासतिरिक्खे मोत्तूणण्णेसिं ततो अत्थावगमाभावादो । ण च दिव्वज्जुणी अणक्खर-
पिया चेव, अट्टारस-सत्तसयभास-कुभासप्पियत्तादो । तदो अत्थपरूवओ चेव गंधपरूवओ

आदि लेकर तीन वर्ष और आठ मासोंके बीतनेपर श्रावण मासकी प्रतिपदाके दिन दुखमा
काल अवतीर्ण हुआ [३ व. ८ मा. १५ दि.] । इस कालको वर्धमान जिनेन्द्रकी आयुमें
मिला देनेपर दश दिन अधिक पचत्तर वर्ष मात्र चतुर्थ कालके शेष रहनेपर वर्धमान
जिनेन्द्रके स्वर्गसे अवतीर्ण होनेका काल होता है [७५ व. १० दि.] ।

उक्त दो उपदेशोंमें कौनसा उपदेश यथार्थ है, इस विषयमें एलाचार्यका शिष्य
(वीरसेन स्वामी) अपनी जीभ नहीं चलाता अर्थात् कुछ नहीं कहता, क्योंकि, न तो इस
विषयका कोई उपदेश प्राप्त है और न दोमेंसे एकमें कोई वाधा ही उत्पन्न होती है ।
किन्तु दोनोंमेंसे एक ही सत्य होना चाहिये । उसे जानकर कहना उचित है ।

इस प्रकार अर्थकर्ताकी प्ररूपणा की ।

अब ग्रन्थकर्ताकी प्ररूपणा करते हैं ।

शंका—वचनके बिना अर्थका व्याख्यान सम्भव नहीं है, क्योंकि, सूक्ष्म पदार्थोंकी
संज्ञा अर्थात् संकेत द्वारा प्ररूपणा नहीं बन सकती । यदि कहा जाय कि अनक्षरात्मक ध्वनि
द्वारा अर्थकी प्ररूपणा होसकती है, सो यह भी योग्य नहीं है; क्योंकि, अनक्षर भाषा युक्त
तिर्यचोंको छोड़कर अन्य जीवोंको उससे अर्थज्ञान नहीं हो सकता । और दिव्यध्वनि
अनक्षरात्मक ही हो, सो भी नहीं है; क्योंकि, वह अठारह भाषा एवं सात सौ कुभाषा
स्वरूप है । इसी कारण चूंकि अर्थका प्ररूपक ही ग्रन्थका प्ररूपक होता है, अतः ग्रन्थकर्ताकी

त्ति गंधकत्तारपरूवणा ण कायच्चा इदि ? ण एस दोसो, संखित्तसदरयणमणंतत्थावगमहेटु-
भूदाणेगलिंगसंगयं वीजपदं णाम । तेसिमणेयाणं वीजपदाणं दुवालसंगप्पयाणमद्वारस-सत्त-
सयभास-कुभाससरूवाणं परूवओ अत्थकत्तारो णाम, वीजपदणिलीणत्थपरूवयाणं दुवाल-
संगाणं कारओ गणहरमद्वारओ गंधकत्तारओ त्ति अब्भुवगमादो । वीजपदाणं वक्खाणओ त्ति
वुत्तं होदि । किमदं तस्स परूवणा कीरेदे ? गंधस्स पमाणत्तपटुप्पायणदं । ण च राग-दोस-
मोहोवहओ जहुत्तत्थपरूवओ, तत्थ सच्चवयणणियमाभावादो । तम्हा तप्परूवणा कीरेदे ।
तं जहा— पंचमहव्वयधारओ तिगुत्तिगुत्तो पंचसमिदो णट्ठमदो मुक्कसत्तभओ वीज-कोट्ट-
पदानुसारि-संभिण्णसोदारत्तुवलक्खिओ उक्कट्टोहिणाणेण असंखेज्जलोगमेत्तकालम्भि तीदाणा-
गद-वट्टमाणसेसपरमाणुपेरंतमुत्तिदव्वपज्जायाणं च पच्चक्खेण जाणंतओ तत्ततवलद्धीदो
णीहारविवज्जिओ दित्ततवलद्धिगुणेण सव्वकालोववासो वि संतो सररितेजुज्जोइयदसदिसो

प्ररूपणा नहीं करणा चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, संक्षिप्त शब्दरचनासे सहित व
अनन्त अर्थोंके ज्ञानके हेतुभूत अनेक चिह्नोंसे संयुक्त वीजपद कहलाता है । अठारह भाषा
व सात सौ कुभाषा स्वरूप द्वादशांगात्मक उन अनेक वीजपदोंका प्ररूपक अर्थकर्ता है,
तथा वीजपदोंमें लीन अर्थके प्ररूपक वारह अंगोंके कर्ता गणधर भट्टारक ग्रन्थकर्ता हैं,
ऐसा स्वीकार किया गया है । अभिप्राय यह कि वीजपदोंका जो व्याख्याता है वह ग्रन्थकर्ता
कहलाता है ।

शंका—उक्त कर्ताकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है ?

समाधान—ग्रन्थकी प्रमाणताको बतलानेके लिये कर्ताकी प्ररूपणा की जाती है ।
राग, द्वेष व मोहसे युक्त जीव यथोक्त अर्थोंका प्ररूपक नहीं हो सकता, क्योंकि, उसमें
सत्य वचनके नियमका अभाव है । इसी कारण उसकी प्ररूपणा की जाती है । वह इस
प्रकार है—

पांच महाव्रतोंके धारक, तीन गुण्ठियोंसे रक्षित, पांच समितियोंसे युक्त, आठ
मदोंसे रहित, सात भयोंसे मुक्त; वीज, कोष्ठ, पदानुसारी व सम्भिघ्नश्रोतृत्व बुद्धियोंसे
उपलक्षित; प्रत्यक्षभूत उत्कृष्ट अत्रधिज्ञानसे असंख्यात लोक मात्र कालमें अतीत, अनागत
एवं वर्तमान परमाणु पर्यन्त समस्त मूर्त द्रव्य व उनकी पर्यायोंको जाननेवाले, तप्ततप
लब्धिके प्रभावसे मल-मूत्र रहित, दीप्ततप लब्धिके बलसे सर्व काल उपवास युक्त होकर
भी शरीरके तेजसे दशों दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले, सर्वोपधि लब्धिके निमित्तसे

सव्वोसहिलद्धिगुणेण सव्वोसहसरूवो अणंतवलादो कंरुलियाए^१ तिहुवणचालणक्खमो अमिया-
सवीलद्धिबलेण^२ अंजलिपुडणिवदिदसयलाहारे अमियत्तणेण परिणमणक्खमो महातवगुणेण
कप्परुक्खोवमो महाणसक्खीणलद्धिबलेण सगहत्थणिवदिदाहाराणमक्खयभावुप्पायओ अघोर-
तवमाहप्पेण जीवाणं मण-वयण-कायगयासेसदुत्थियत्तणिवारओ सयलविज्जाहि सेवियपादमूलो
आयासचारणगुणेण रक्खियासेसजीवणिवहो वायाए मणेण य सयलत्थसंपादणक्खमो
अणिमादिअट्टगुणेहि जियासेसेदवणिवहो तिहुवणजणजेडुओ परोवदेसेण विणा अक्खराणक्खर-
सरूवासेसभासंतरकुसलो समवसरणजणमेत्तरूवधारित्तणेण अम्हम्हाणं भासाहि अम्हम्हाणं चेव
कहदि त्ति सव्वेसिं पच्चउप्पायओ समवसरणजणसोदिदिएसु सगमुहविणिग्गयाणियभासाणं
संकरेण पवेसस्स विणिवारओ गणहरदेवो गंथकत्तारो, अण्णहा गंथस्स पमाणत्तविरोहादो
धम्मरसायणेण समोसरणजणपोसणाणुववत्तीदो । एत्थुववज्जंती गाहा—

बुद्धि-तव-विउवणोसह-रस-बल-अक्खीण-सुस्सरत्तादी ।

ओहि-मणपज्जवेहि य हवन्ति गणवालयया सहिया ॥ ३८ ॥

समस्त औषधियों स्वरूप, अनन्त बल युक्त होनेसे हाथकी कनिष्ठ अंगुलि द्वारा तीनों लोकोंको
खलायमान करनेमें समर्थ, अमृतास्रव आदि ऋद्धियोंके बलसे हस्तपुटमें गिरे हुए सब
आहारोंको अमृत स्वरूपसे परिणमानेमें समर्थ, महातप गुणसे कल्पवृक्षके समान, अक्षीण-
महानस लब्धिके बलसे अपने हाथोंमें गिरे हुए आहारोंकी अक्षयताके उत्पादक, अघोरतप
ऋद्धिके माहात्म्यसे जीवोंके मन, वचन एवं काय गत समस्त कष्टोंको दूर करनेवाले,
सम्पूर्ण विद्याओंके द्वारा सेवित चरणमूलसे संयुक्त, आकाशचारण गुणसे सब जीव-
समूहोंकी रक्षा करनेवाले, वचन एवं मनसे समस्त पदार्थोंके सम्पादन करनेमें समर्थ,
आणिमादिक आठ गुणोंके द्वारा सब देवसमूहोंको जीतनेवाले, तीनों लोकोंके जनोंमें
श्रेष्ठ, परोपदेशके विना अक्षर व अनक्षर रूप सब भाषाओंमें कुशल, समवसरणमें स्थित
जन मात्रके रूपके धारी होनेसे 'हमारी-हमारी भाषाओंसे हम-हमको ही कहते हैं' इस
प्रकार सबको विश्वास करानेवाले, तथा समवसरणस्थ जनोंके कर्ण इन्द्रियोंमें अपने
मुहसे निकली हुई अनेक भाषाओंके सम्मिश्रित प्रवेशके निवारकपेसे गणधर देव ग्रन्थकर्ता
हैं, क्योंकि, ऐसे स्वरूपके विना ग्रन्थकी प्रमाणताका विरोध होनेसे धर्म-रसायन द्वारा
समवसरणके जनोंका पोषण बन नहीं सकता । यहां उपयुक्त गाथा—

गणधर देव बुद्धि, तप, विक्रिया, औषध, रस, बल, अक्षीण, सुस्वरत्तादि ऋद्धियों
तथा अवधि एवं मनःपर्यय ज्ञानसे सहित होते हैं ॥ ३८ ॥

१ प्रतिपु ' कालंशुलियाए ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' अमयादिलद्धिबलेण ', मप्रतौ ' अमियादिसादिलद्धिबलेण ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' महाणसक्खीण- ' इति पाठः ।

४. ऋ-काप्रयोः ' विउवणोसारस- ', आप्रतौ ' विउवणोसारस- ', मप्रतौ ' विउवणोसारस- ' इति पाठः ।

संपहि वड्डमाणतित्थगंथकत्तारो वुच्चदे—

पंचेव अयिकाया छज्जीवणिकाया महव्वया पंच ।

अट्ट य पवयणमादा सहेउओ वंध-मोक्खो य ॥ ३९ ॥

कों हेदि त्ति सोहम्मिदचालणादो जादसंदेहेण पंच-पंचसयंतेवासिसहियभादुत्तिदय-
परिवुदेण माणत्थंभदंसणेणेव पणड्डमाणेण वड्डमाणविसोहिणा वड्डमाणजिणिंदसणे वणड्डा-
संखेज्जभवज्जियगरुवकम्मेण जिणिंदस्स तिपदाहिणं करिय पंचमुट्ठीए वंदिय हियएण जिणं
झाड्य पडिवण्णसंजमेण विसोहिवलेण अंतोमुहुत्तस्स उप्पण्णासेसगणिंदलक्खणेण उवलद्ध-
जिणवयणविणिग्गयवीजपदेण गोदमगोत्तेण वम्हणेण इंदभूदिणा आयार-सूदयद-ट्ठाण-समवाय-
वियाहपण्णत्ति-णाहधम्मकहोवासयज्झयणंतयडदस-अणुत्तरोववादियदस-पण्णवायरणं-विवाय-
सुत्त-दिट्ठिवादाणं सामाड्य-चउवीसत्थय-वंदणा-पडिक्कमण-वड्ढणइय-किदियम्म-दसवेयालि-
उत्तरज्झयण-कप्पववहार-कप्पाकप्प-महाकप्प-पुंडरीय-महापुंडरीय-णिसिहियाणं चौदसपइण्णयाण-
मंगवज्झाणं च सावणमासवहुलपक्खजुगादिपडिवयपुव्वादिवसे जेण रयणा कदा तेणिंदभूदि-

अथ वर्धमान जिनके तीर्थमें ग्रन्थकर्ताको कहते हैं—

पांच अस्तिकाय, छह जीवनिकाय, पांच महाव्रत, आठ प्रवचनमाता अर्थात् पांच
समिति और तीन गुप्ति तथा सहेतुक बन्ध और मोक्ष ॥ ३९ ॥

‘उक्त पांच अस्तिकायादिक क्या हैं ?’ ऐसे सौधमेंन्द्रके प्रश्नसे संदेहको प्राप्त हुए,
पांच सौ पांच सौ शिष्योंसे सहित तीन भ्राताओंसे वेष्टित, मानस्तम्भके देखनेसे ही मानसे
रहित हुए, वृद्धिको प्राप्त होनेवाली विशुद्धिसे संयुक्त, वर्धमान भगवान्‌के दर्शन करनेपर
असंख्यात भवोंमें अर्जित महान्‌ कर्मोंको नष्ट करनेवाले; जिनेन्द्र देवकी तीन प्रदक्षिणा
करके पंच मृष्टियोंसे अर्थात् पांच अंगों द्वारा भूमिस्पर्शपूर्वक वंदना करके एवं हृदयसे जिन
भगवान्‌का ध्यान कर संयमको प्राप्त हुए, विशुद्धिके बलसे मुहुर्तके भीतर उत्पन्न हुए समस्त
गणधरके लक्षणोंसे संयुक्त, तथा जिनमुखसे निकले हुए वीजपदोंके ज्ञानसे सहित ऐसे
गौतम गोत्रवाले इन्द्रभूति ब्राह्मण द्वारा चूंकि आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग,
व्याख्याप्रशस्तिअंग, ज्ञानधर्मकथांग, उपासकाध्ययनांग, अन्तकृतदशांग, अनुत्तरोपपादिक-
दशांग, प्रज्ञव्याकरणांग, विपाकसूत्रांग व दृष्टिवादांग, इन बारह अंगों तथा सामायिक,
चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैतथिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन,
कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक व निपिद्धिका, इन अंगवाह्य
चौदह प्रकीर्णकोंकी श्रावण मासके कृष्ण पक्षमें शुभके आदिम प्रतिपदाके पूर्व दिनमें रचना की

१ प्रतिपु ‘उप्पण्णे सेसगणिदि-’ इति पाठः ।

२ अ-आप्रलोः ‘दसवेयादि’, ‘काप्रतौ ‘दसवेयालियादि’ इति पाठः ।

भडारओ वड्डमाणजिणित्थगंथकत्तारो । उत्तं च —

वासस्स पढममासे पढमे पक्खम्मि सावणे बह्ले ।

पाडिवदपुव्वदिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्मि' ॥ ४० ॥

एवं उत्तरतंतकत्तारपरूपा कदा ।

संपहि उत्तरोत्तरतंतकत्तारपरूपां कस्सामो । तं जहा— कत्तियमासकिण्णपक्ख-
चोद्दसरत्तीए पच्छिमभाए महदिमहावीरे णिव्वुदे संते केवलणाणसंताणहरो गोदमसामी जादो ।
वारहवरसाणि केवलविहारेण विहरिय गोदमसामिम्हि णिव्वुदे संते लोहज्जाइरिओ केवलणाण-
संताणहरो जादो । वारहवासाणि केवलविहारेण विहरिय लोहज्जभडारए णिव्वुदे संते जंबू-
भडारओ केवलणाणसंताणहरो जादो । अड्ढत्तीसवस्साणि केवलविहारेण विहरिय जंबूभडारए
परिणिव्वुदे संते केवलणाणसंताणस्स वोच्छेदो जादो भरहक्खेत्तम्मि' । एवं महावीरे णिव्वाणं
गदे वासड्ढिवरसेहि केवलणाणदिवायरो भरहम्मि अत्थमिदि [६२ । ३] । णवरि तक्काले सयल-
सुदणाणसंताणहरो विण्णुआइरियो जादो । तदो अत्तुट्ठसंताणरूवेण णंदिआइरिओ अवराइदो
गोवद्धणो भद्दबाहु ति एदे सकलसुदधारया जादा । एदेसिं पंचण्हं पि सुदकेवलीणं काल-

थी, अतएव इन्द्रभूति भट्टारक वर्धमान जिनके तीर्थमें ग्रन्थकर्ता हुए । कहा भी है—

वर्षके प्रथम मास व प्रथम पक्षमें श्रावण कृष्ण प्रतिपदाके पूर्व दिनमें अभिजित्
नक्षत्रमें तीर्थकी उत्पत्ति हुई ॥ ४० ॥

इस प्रकार उत्तरतंत्रकर्ताकी प्ररूपणा की ।

अब उत्तरोत्तर तंत्रकर्ताओंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— कार्तिक
मासमें कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीकी रात्रिके पिछले भागमें अतिशय महान् महावीर भगवान्‌के
मुक्त होनेपर केवलज्ञानकी सन्तानको धारण करनेवाले गौतम स्वामी हुए । वारह वर्ष तक
केवलविहारसे विहार करके गौतम स्वामीके मुक्त हो जानेपर लोहार्य आचार्य केवलज्ञान-
परम्पराके धारक हुए । वारह वर्ष केवलविहारसे विहार करके लोहार्य भट्टारकके मुक्त हो
जानेपर जम्बू भट्टारक केवलज्ञानकी परम्पराके धारक हुए । अड्ढत्तीस वर्ष केवलविहारसे
विहार करके जम्बू भट्टारकके मुक्त हो जानेपर भरत क्षेत्रमें केवलज्ञानपरम्पराका व्युच्छेद
हो गया । इस प्रकार भगवान्‌ महावीरके निर्वाणको प्राप्त होनेपर वासठ वर्षोंसे केवलज्ञान
रूपी सूर्य भरत क्षेत्रमें अस्त हुआ [६२ वर्षमें ३ के.] । विशेष यह है कि उस कालमें सकल
श्रुतज्ञानकी परम्पराको धारण करनेवाले विण्णु आचार्य हुए । पश्चात् अविछिन्न सन्तान स्वरूपसे
नन्दि आचार्य, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये सकल श्रुतके धारक हुए । इन पांच

समासो वस्ससदं [१००।५] । तदो भद्रवाहुभट्टारए सगं गदे संते भरहक्खत्तेम्मि अत्थ-
मिओ सुदणाण-संपुण्णमियंको, भरहक्खत्तमावूरियमण्णाणंधयोरेण । णवरि एक्कारसण्णमंगाणं
विज्जाणुपवादपेरंतदिट्ठिवादस्स य धारओ विसाहाइरिओ जादो । णवरि उवरिमचत्तारि वि
पुच्चाणि वोच्छिण्णाणि तदेगदेसवारणादो । पुणो तं विगलसुदणाणं पोडिल्ल-खत्तिय-जय-णाग-
सिद्धत्थ-धिदिसेण-विजय-बुद्धिल्ल-गंगदेव-धम्मसेणाइरियपरंपराए तेयासीदिवरिससयाइमागंतूण
वोच्छिण्णं [१८३।११] । तदो धम्मसेणभट्टारए सगं गदे णडे दिट्ठिवादुज्जोए एक्कारसण्ण-
मंगाणं दिट्ठिवादगेदसस्स य धारयो णक्खत्ताइरियो जादो । तदो तमेक्कारसंगं सुदणाणं
जयपाल-पांडु-ध्रुवसेण-कंसो ति आइरियपरंपराए वीसुत्तरवेसदवासाइमागंतूण वोच्छिण्णं ।
[२२०।५] । तदो कंसाइरिए सगं गदे वोच्छिण्णे एक्कारसंगुज्जोवे सुभदाइरियो आया-
रंगस्स सेसंग-पुच्चाणमेगदेसस्स य धारओ जादो । तदो तमायारंगं पि जसभद-जसवाहु-
लोहाइरियपरंपराए अट्टारहोत्तरवरिससयमागंतूण वोच्छिण्णं [११८।४] । सव्वकालसमासो
तेयासीदीए अहियछस्सदमेत्तो [६८३] । पुणो एत्थ सत्तमासाहियसत्तहत्तरिवासेसु [७७]

श्रुतकेवलियोंके कालका योग सौ वर्ष है [१०० वर्षमें ५ श्रु. के.] । पश्चात् भद्रवाहु भट्टारकके
स्वर्गको प्राप्त होनेपर भरतक्षेत्रमें श्रुतज्ञान रूपी पूर्ण चन्द्र अस्तमित हो गया । अब
भरतक्षेत्र अज्ञान अन्धकारसे परिपूर्ण हुआ । विशेष इतना है कि उस समय ग्यारह अंगों
और विद्यानुवाद पर्यन्त दृष्टिवाद अंगके भी धारक विशाखाचार्य हुए । विशेषता यह है
कि इसके आगेके चार पूर्व उनका एक देश धारण करनेसे व्युच्छिन्न हो गये । पुनः
वह विकल श्रुतज्ञान प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिपेण, विजय, बुद्धिल्ल;
गंगदेव और धर्मसेन, इन आचार्योंकी परम्परासे एक सौ तेरासी वर्ष आकर व्युच्छिन्न
हो गया [१८३ वर्षमें ११ एकादशांग-दशपूर्वधर] । पश्चात् धर्मसेन भट्टारकके
स्वर्गको प्राप्त होनेपर दृष्टिवाद-प्रकाशके नष्ट हो जानेसे ग्यारह अंगों और
दृष्टिवादके एक देशके धारक नक्षत्राचार्य हुए । तदनन्तर वह एकादशांग श्रुतज्ञान
जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंस, इन आचार्योंकी परम्परासे दो सौ बीस वर्ष आकर
व्युच्छिन्न हो गया [२२० वर्षमें ५ एकादशांगधर] । तत्पश्चात् कंसाचार्यके स्वर्गको प्राप्त
होनेपर ग्यारह अंग रूप प्रकाशके व्युच्छिन्न हो जानेपर सुभद्राचार्य आचारांगके और शेष
अंगों एवं पूर्वोंके एक देशके धारक हुए । तत्पश्चात् वह आचारांग भी यशोभद्र, यशोवाहु
और लोहाचार्यकी परम्परासे एक सौ अठारह वर्ष आकार व्युच्छिन्न हो गया [११८ वर्षमें
४ आचारांगधर] । इस सब कालका योग छह सौ तेरासी वर्ष होता है [६२ + १०० +
१८३ + २२० + ११८ = ६८३] । पुनः इसमेंसे सात मास अधिक संतत्तर वर्षोंको

अवणिदेसु पंचमासाहियपंचुत्तरछस्सदवासाणि हवंति । एसो वीरजिणिंदणिव्वाणगददिवसादो जाव सगकालस्स आदी होदि तावदियकालो । कुदो ? | ६०५ | एदम्हि काले सगणरिंदकालम्भि पक्खित्ते वड्डमाणजिणणिव्वुदकालागमणादो । वुत्तं च —

पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया ।

सगकालेण य सहिया थायेयव्वो तदो रासी' ॥ ४१ ॥

अण्णे के वि आइरिया चोदससहस्स-सत्तसद-तिणउदिवासेसु जिणणिव्वाणदिणादो अइक्कंतेसु सगणरिंदुप्पत्तिं भणंति | १४७९३ | वुत्तं च —

गुत्ति-पयत्थ-भयाइं चोदसरयणाइ समइक्कंताइं ।

परिणिव्वुदे जिणिंदे तो रज्जं सगणरिंदस्स' ॥ ४२ ॥

अण्णे के वि आइरिया एवं भणंति । तं जहा— सत्तसहस्स-णवसय-पंचाणउदि-

[७७ वर्ष ७ मास] कम करनेपर पांच मास अधिक छह सौ पांच वर्ष होते हैं । यह, वीर जिनेन्द्रके निर्वाण प्राप्त होनेके दिनसे लेकर जब तक शककालका प्रारम्भ होता है, उतना काल है । इस कालके ६०५ वर्ष और ५ माह होनेका कारण यह कि इस कालमें शक नरेन्द्रके कालको मिला देनेपर वर्धमान जिनके मुक्त होनेका काल आता है । कहा भी है—

पांच मास, पांच दिन और छह सौ वर्ष होते हैं । इस लिये शककालसे सहित राशि स्थापित करना चाहिये ॥ ४१ ॥

अन्य कितने ही आचार्य वीर जिनेन्द्रके मुक्त होनेके दिनसे चौदह हजार सात सौ तेरानव वर्षोंके वीत जानेपर शक नरेन्द्रकी उत्पत्तिको कहते हैं [१४७९३] । कहा भी है—

वीर जिनेन्द्रके मुक्त होनेके पश्चात् गुत्ति^१, पदार्थ^२, भय^३ और चौदह^४ रत्नों अर्थात् चौदह हजार सात सौ तेरानव वर्षोंके वीतनेपर शक नरेन्द्रका राज्य हुआ ॥ ४२ ॥

अन्य कितने ही आचार्य इस प्रकार कहते हैं । जैसे— वर्धमान जिनके मुक्त

१ णिव्वाणे वीरजिणे छ्वाससदेसु पंचवरिसेसु । पणमासेसु गदेसु संजादो सगणिवो अहवा ॥ ति. प. ४, १४९९. वर्षाणां षट्शतीं त्यक्त्वा पंचाग्रं मासपंचकम् । मुक्तिं गते महावीरे शकराजस्ततोऽभवत् ॥ ह. पु. ६०, ५५१.

२ चोदससहस्ससगसयतेणउदीवासकालविच्छेदे । वीरसरसिद्धीदो उप्पण्णो सगणिवो अहवा ॥ ति. प. ४, १४९८.

वरिसेसु पंचमासाहिएसु वड्डुमाणजिणणिव्वुददिणादो अइक्कंतेसु सगणरिंदरज्जुप्पत्ती जादो ति । एत्थ गाहा—

सत्तसहस्सा णवसद पंचाणउदी संपंचमासा य ।

अइक्कंता वासाणं जइया तइया सगुप्पत्ती ॥ ४३ ॥ [७९९५]

एदेसु तिसु एक्केण होदव्वं । ण तिण्णमुवदेसाण सच्चत्तं, अण्णोणविरोहादो । तदो जाणिय वत्तव्वं ।

एत्तो उवरि पयदं परूवेमो — लोहाइरिये सग्गलोगं गदे आयार-दिवायरो अत्थमिओ । एवं वारससु दिणयरेसु भरहखेत्तम्मि अत्थमिएसु सेसाइरिया सव्वेसिमंग-पुव्वाणमेगदेसभूद-पेज्जदोस-महाकम्मपयडिपाहुडादीणं धारया जादा । एवं पमाणीभूदमहरिसिपणालेण आगंतूण महाकम्मपयडिपाहुडामियजलपवाहो धरसेणभट्टारयं संपत्तो । तेण वि गिरिणयरचंदगुहाए भूदवलि-पुप्फदंताणं महाकम्मपयडिपाहुडं सयलं समप्पिदं । तदो भूदवलिभट्टारएण सुद-णईपवाहवोच्छेदभीएण भवियलोगाणुग्गहट्ठं महाकम्मपयडिपाहुडमुवसंहारिज्जण छखंडाणि कयाणि । तदो तिकालगोयरासेसपयत्थविसयपच्चक्खाणंतकेवलणानप्पभावादो पमाणीभूद-आइरियपणालेणागदत्तादो दिट्ठिड्विरोहाभावादो पमाणमेसो गंथो । तम्हा मोक्खकंखिणा

होनेके दिनसे पांच मास अधिक सात हजार नौ सौ पंचानवै वर्षोंके वीतनेपर शक नरेन्द्रके राज्यकी उत्पत्ति हुई । यहां गाथा—

जब सात हजार नौ सौ पंचानवै वर्ष और पांच मास वीत गये तब शक नरेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥ ४३ ॥ [७९९५ व. ५ मा.]

इन तीन उपदेशोंमें एक होना चाहिये । तीनों उपदेशोंकी सत्यता सम्भव नहीं है, क्योंकि, इनमें परस्पर विरोध है । इस कारण जानकर कहना चाहिये ।

यहांसे आगे प्रकृतकी प्ररूपणा करते हैं— लोहाचार्यके स्वर्गलोकको प्राप्त होनेपर आचारांगरूपी सूर्य अस्त हो गया । इस प्रकार भरतक्षेत्रमें वारह सूर्योंके अस्तमित हो जानेपर शेष आचार्य सब अंग-पूर्वोंके एकदेशभूत 'पेज्जदोस' और 'महाकम्मपयडिपाहुड' आदिकोंके धारक हुए । इस प्रकार प्रमाणीभूत महर्षि रूप प्रणालीसे आकर महाकम्मपयडिपाहुड रूप अमृत-जल-प्रवाह धरसेन भट्टारकको प्राप्त हुआ । उन्होंने भी गिरिनगरकी चन्द्र गुफामें सम्पूर्ण महाकम्मपयडिपाहुड भूतवलि और पुष्पदन्तको अर्पित किया । पश्चात् श्रुतरूपी नदीप्रवाहके व्युच्छेदसे भयभीत हुए भूतवलि भट्टारकने भव्य जनोंके अनुग्रहार्थ महाकम्मपयडिपाहुडका उपसंहार कर छह खण्ड (पदखंडागम) किये । अतएव त्रिकालविषयक समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाले प्रत्यक्ष अनन्त केवल ज्ञानके प्रभावसे प्रमाणीभूत आचार्यरूप प्रणालीसे आनेके कारण प्रत्यक्ष व अनुमानसे चूंकि विरोधसे रहित है अतः यह ग्रन्थ प्रमाण है । इस कारण मोक्षाभिलाषी भव्य जीवोंको इसका

मवियलोएण अब्भसेयव्वो । ण एसो गंथो थोवो त्ति मोक्खकज्जजणणं पडि असमत्थो,
अमियघडसयवाणफलस्स चुलुवामियवाणे वि उवलंभादो । एवं मंगलादीणं छण्णं पंहुवणं
काऊण पयदगंथस्स संबंधपटुप्पायणंहुमुत्तरसुत्तं भणदि —

**अग्गेणियस्स पुव्वस्स पंचमस्स वत्थुस्स चउत्थो पाहुडो कम्म-
पयडी णाम ॥ ४५ ॥**

तत्थ इमाणि चउवीसअणिओगदाराणि णादव्वाणि भवंति — कदि वेदणाए पस्से कम्मे
पयडीसु बंधणे णिवंधणे पक्कमे उवक्कमे उदए मोक्खे पुण संकमे लेस्सा-लेस्सायम्मे लेस्सा-
परिणामे तत्थेव सादमसादे दीहेरहस्से भवधारणीए तत्थ पोग्गलत्ता णिधत्तमणिधत्तं
णिकाचिदमणिकाचिदं कम्मट्ठिदिपच्छिमक्खंधे अप्पावहुगं च । सव्वत्थ सव्वेसिं गंधाणं
उवक्कमो णिक्खेवो अणुगमो णओ चेदि चउव्विहो अवयारो होदि । तत्थ उपक्रम्यते
अनेनेत्थुपक्रमः, जेण करणभूदेण णाम-पमाणादीहि गंथो अवगम्मदे सो उवक्कमो णाम ।
आणुपुव्वि-णाम-पमाण-वत्तव्वदत्थाहियारभेएण उवक्कमो पंचविहो । तत्थ आणुपुव्विउव-

अभ्यास करना चाहिये । चूंकि यह ग्रन्थ स्तोत्र है अतः वह मोक्षरूप कार्यको उत्पन्न
करनेके लिये असमर्थ है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिये; क्योंकि, अमृतके सौ घडोंके
पीनेका फल चुल्लु प्रमाण अमृतके पीनेमें भी पाया जाता है । इस प्रकार मंगलादिक छहकी
प्ररूपणा करके प्रकृत ग्रन्थके सम्बन्धको बतलानेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

अग्रायणी पूर्वकी पंचम वस्तुके चतुर्थ प्रांभृतका नाम कर्मप्रकृति है ॥ ४६ ॥

उसमें ये चौबीस अनुयोगद्वारा ज्ञातव्य हैं— कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति,
बन्धन, निबन्धन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेश्याकर्म, लेश्यापरिणाम,
वहांपर ही सातासात, दीर्घ-ह्रस्व, भवधारणीय, वहां-पुद्गलात्त, निधत्तानिधत्त, निका-
चित्तानिकाचित्त, कर्मस्थिति, पश्चिमस्कन्ध और अल्पबहुत्व । सर्वत्र सब ग्रन्थोंका
उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय, इस प्रकार चार प्रकारका अवतार होता है । उनमें
'उपक्रम्यते अनेन इति उपक्रमः' इस निरुक्तिके अनुसार जिस साधन द्वारा नाम व
प्रमाणादिकोंसे ग्रन्थ जाना जाता है वह उपक्रम है । यह उपक्रम आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण,
वक्तव्यता और अर्थाधिकारके भेदसे पांच प्रकार है । उनमें आनुपूर्वी उपक्रम तीन प्रकार

१ णाणप्पवादस्स पुव्वस्स दसमस्स वत्थुस्स तदियस्स पाहुडस्स पंचविहो उवक्कमो । तं जहा—आणुपुव्वो,
णामं, पमाणं वत्तव्वदा, अत्थहियारो चेदि ('बू. सू. ') । उपक्रम्यते समीपीक्रियते श्रोत्रां अनेन प्राभृतमित्युपक्रमः ।
अथवा. २, भू. १३.

क्कम्मो तिविहो पुच्चाणुपुच्ची पच्छाणुपुच्ची जहा-तहाणुपुच्ची चेदि । उद्दिट्ठकमेण अत्थाहियार-परूवणा पुच्चाणुपुच्ची नाम । विलोमेण परूवणा पच्छाणुपुच्ची नाम । अणुलोम-विलोमेहि विणा परूवणा जहा-तहाणुपुच्ची । ण च परूवणाए चउत्थो पयारो अत्थि, अणुवलंभादो^१ ।

नामोवक्कमो दसविहो गोण्ण-णोगोण्ण-आदाण-पडिवक्ख-पाधण्ण-नाम-पमाण-अवयव-संयोग-अणादियसिद्धंतपदभेण^२ । गुणेण णिप्पणं गोण्णं । जहा सूरस्स तवण-भक्खर-दिणयरसण्णा, वड्डमाणजिणिंदस्स सच्चणु-वीयराय-अरहंत-जिणादिसण्णाओ^३ । चंदसामी सूरसामी इंदगोवो इच्चादिणामाणि णोगोण्णपदाणि, णामिल्लए पुरिसे सद्धत्याणुवलंभादो^४ । छत्ती-मउली गम्भिणी अइहवा इच्चाईणि आदाणपदणामाणि, इदमेदस्स अत्थि त्ति विवक्खाए-

हैं— पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी । उद्दिष्टके क्रमसे अर्थाधिकारकी प्ररूपणाका नाम पूर्वानुपूर्वी हैं । विरुद्ध क्रमसे की गई प्ररूपणा पश्चादानुपूर्वी कहलाती है । अनुलोम य प्रतिलोम क्रमके विना जो प्ररूपणा की जाती है उसका नाम यथा-तथानु-पूर्वी है । इनके अतिरिक्त प्ररूपणाका और कोई चतुर्थ प्रकार नहीं है, क्योंकि, वह पाया नहीं जाता ।

गौण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद, प्राधान्यपद, नामपद, प्रमाणपद, अवयवपद, संयोगपद और अनादिकसिद्धान्तपदके भेदसे नामोपक्रम दश प्रकार है । जो पद गुणसे सिद्ध है वह गौण्य है । जैसे सूर्यके तपन, भास्कर एवं दिनकर नाम; वर्धमान जिनेन्द्रके सर्वज्ञ, वीतराग, अरहन्त व जिन आदि नाम । चन्द्रस्वामी, सूर्यस्वामी व इन्द्र-गोप इत्यादि नाम नोगौण्य पद हैं; क्योंकि, इन नामोंसे युक्त पुरुषमें शब्दोंका अर्थ नहीं पाया जाता । छत्री, मौली, गम्भिणी और अविधवा इत्यादिक आदानपद रूप नाम हैं,

१ प. खं. पु. १, पृ. ७३. आणुपुच्ची तिविहा । एदस्स सुत्तस्स अत्थो युच्चदे । तं जहा— पुच्चाणुपुच्ची, पच्छाणुपुच्ची, जत्थतत्थाणुपुच्ची चेदि । जं जेण कमेण सुत्तकोरहि ठइदमुप्पणं वा तस्स तेण कमेण गणणा पुच्चाणुपुच्ची नाम । तस्स विलोमेण गणणा पच्छाणुपुच्ची । जत्थ वा तत्थ वा अप्पणो इच्छिदमादिं कादूण गणणा जत्थतत्थाणुपुच्ची । एवमाणुपुच्ची तिविहा चेव, अणुलोम-पडिल्लाम-तदुभएहि वदिरित्तगणणकमाणुवलंभादो । जयध. १, पृ. २७.

२ प. खं. पु. १, पृ. ७४-७९. नामं छव्विहं । एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा— गोण्णपदं णोगोण्णपदे आदाणपदे पडिवक्खपदे अवचयपदे उवचयपदे चेदि । जयध. १, पृ. ३०.

३ गुणेण णिप्पणं गोण्णं । [जहा सूरस्स तवण-भक्खर-] दिणयरसण्णाओ, वड्डमाणजिणिंदस्स सच्चणु-वीयराय-अरहंत-जिणादिसण्णाओ । जयध. १, पृ. ३१.

४ चंदसामी सूरसामी इंदगोव इच्चादिसण्णाओ णोगोण्णपदाओ, णामिल्लए पुरिसे णासत्थाणुवलंभादो । जयध. १, पृ. ३१.

उप्पणत्तादो' । णाणी बुद्धिवंतो इच्छार्हणि णामाणि आदाणपदाणि चेव, इदमेदस्स अत्थि त्ति विवक्खाणिवंधणत्तादो । ण गोणपदाणि, संबंधविवक्खाए विणा गुणसण्णाए दच्चम्मि पउत्तिअदंसणादो' । विहवा रंडा पोरो दुव्विहो इच्छार्हणि पडिवक्खपदाणि अगग्भिणी अमउडी इच्छादीणि वा, इदमेदस्स णत्थि त्ति विवक्खाणिवंधणादो' । अण्णेहि वि रुक्खेहि सहियाणं कयंव-णिवंधरुक्खाणं बहुत्तं पेक्खिय जाणि कयंव-णिवंधवणणामाणि ताणि वाधणपदाणि । किमेत्थ पधाणत्तं ? अप्पियं पहाणत्तमणाप्पियमप्पहाणत्तं भण्णहा पहाणत्ताणुववत्तीदो । अरविंद-सहस्स अरविंदसण्णा णामपदं, णामस्स अप्पाणम्हि चेव पउत्तिदंसणादो । सदं सहस्समिच्छादीणि पमाणपदणामाणि, संखाणिवंधणादो । अवयवो दुव्विहो समवेदो असमवेदो चेदि । सिलीवदी'

क्योंकि, वे 'यह (छत्रादि) इसके है' इस विवक्षासे उत्पन्न हुए हैं । ज्ञानी व बुद्धिमान् इत्यादि नाम आदानपद ही हैं, क्योंकि, इनका कारण 'यह इसके है' यह विवक्षा है । ये गौण्यपद नहीं हैं, क्योंकि, सम्बन्धविवक्षाके बिना द्रव्यमें गुण संज्ञाकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । विधवा, रांड, पोर (अनाथ बालक) व दुर्विध (धनहीन) इत्यादि; अथवा अगग्भिणी व अमुकुटी (मुकुट हीन) इत्यादि प्रतिपक्ष पद हैं; क्योंकि, ये पद 'यह इसके नहीं है' इस विवक्षाके निमित्तसे हैं । अन्य भी वृक्षोंसे सहित कदम्ब, नीम व आमके वृक्षोंके बाहुल्य की अपेक्षा करके जो कदम्बवन, निम्बवन व आम्रवन नाम हैं वे प्राधान्यपद हैं ।

शंका—यहां प्रधानता क्या है ?

समाधान—विवक्षित प्रधानता और अविवक्षित अप्रधानता है, क्योंकि, इसके बिना प्रधानता बन नहीं सकती ।

अरविन्द शब्दकी अरविन्द संज्ञा नाम पद है, क्योंकि, नामकी प्रवृत्ति अपनेमें ही देखी जाती है । शत, सहस्र इत्यादि प्रमाणपद नाम हैं, क्योंकि, वे संख्यानिमित्तक हैं ।

अवयव दो प्रकार है— समवेत और असमवेत । श्लीपद, गलगण्ड, दीर्घनास एवं

१ दंडी छत्री मोली गग्भिणी अइहवा इच्छादिसण्णाओ आदाणपदाओ, इदमेदस्स अत्थि त्ति संबंधणिवंधणत्तादो । जयध. १, पृ. ३१.

२ [णाणी बुद्धिवं-] तो इच्छादीणि वि णामाणि आदाणपदाणि चेव, इदमेदस्स अत्थि त्ति विवक्खाणिवंधणत्तादो । एदाणि गोणपदाणि किण्ण हंति ? ण, गुणमुहेण दच्चम्हि पवुचीए संबंधविवक्खाए विणा अदंसणादो । जयध. १, पृ. ३२.

३ विहवा रंडा पोरा दुव्विहा इच्छार्हणि णामाणि पडिवक्खपदाणि, इदमेदस्स णत्थि त्ति विवक्खाणिवंधणत्तादो । जयध. १, पृ. ३२.

४ अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्यस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया प्रापितं प्राधान्यमर्पितमुपनीतमिति यावत् । तद्विपरीतमनर्पितम् । स. सि. ५, ३२.

५ प्रतिशु 'सिलीवधी' इति पाठः ।

गलयंडो दीहणासो लंबकण्णो ति उवचिदावयवणिबंधणाणि; छिण्णकरो छिण्णणासो काणो कुंटो^१ इच्चादीणि अवचिदणिबंधणाणि^२ ।

संजोगो दच्च-खेत्त-काल-भावभेएण चउव्विहो । तत्थ धणुहासि-परसुआदिसंजोगेण संजुत्तपुरिसाणं धणुहासि-परसुणामाणि दच्चसंजोगपदाणि । भारहओ^३ ऐरावओ माहुरो मागहो ति खेत्तसंजोगपदाणि णामाणि । सारओ वासंतओ ति कालसंजोगपदाणांमाणि । णेरइओ तिरिक्खो कोही माणी चालो जुवाणो इच्चेवमाईणि भावसंजोगपदाणि^४ । भाव-गुणाणं को विसेसो ? ण, जावदच्चभाविणो गुणा, तव्विवरीया भावा इदि भेदुवलंभादो । दमिलो^५ अंधो कण्णाडओ ति

लम्बकर्ण, ये नाम उपचितावयव अर्थात् अवयवोंकी वृद्धिके निमित्तसे; तथा छिन्नकर, छिन्ननास, काना एवं कुण्ट (हस्त हीन) इत्यादि नाम अवयवोंकी हानिके निमित्तसे प्रसिद्ध हैं ।

संयोग द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावके भेदसे चार प्रकार है । उनमें धनुष, अस्त्र व परशु आदिके संयोगसे संयुक्त पुरुषोंके धनुष, अस्त्र व परशु नाम द्रव्यसंयोगपद हैं । भारत, ऐरावत, माथुर व मागध, ये क्षेत्रसंयोगपद नाम हैं । शारद व वासंतक ये काल-संयोगपद नाम हैं । नारक, तिर्यंच, क्रोधी, मानी, चाल एवं युवा, इत्यादिक भावसंयोग पद हैं ।

शंका—भाव और गुणमें क्या भेद है ?

समाधान—नहीं, गुण यावद्द्रव्यभावी अर्थात् समस्त द्रव्यमें रहनेवाले होते हैं, परन्तु भाव यावद्द्रव्यभावी नहीं होते; यह उन दोनोंमें भेद है ।

शंका—द्रविड, आन्ध्र और कर्नाटक, ये नाम कौनसे पद हैं ?

१ प्रतिपु ' कुंटो ' इति पाठः ।

२ प. खं. पु. १, पृ. ७७. सिलीवदी गलगंडो दीहणासो लंबकण्णो इच्चेवमादीणि णामाणि उवचय-पदाणि, सररे उवचिदमवयवमवेक्खिय एदेसि णामाणं पउत्तिदंसणादो । छिण्णकण्णो छिण्णणासो काणो कुंटो [कुंटो] संजो बहुरो इच्चाईणि णामाणि अवचयपदाणि, सरिरावयवविगलत्तमवेक्खिय एदेसि णामाणं पउत्तिदंसणादो । जयध. १, पृ. ३३.

३ प्रतिपु ' आरहओ ' इति पाठः ।

४ प. खं. पु. १, पृ. ७७-७८. दच्च-खेत्त-काल-भावसंजोगपदाणि रायासि-वणु-हर-सुरलोयणयर-भारहय-अहरावय-सायर (सारय-) वासंतय-कोहि-माणिइच्चाईणि णामाणि वि आदाणपदे चेव णिवदंति, इदमेदस्स अत्थि. एत्थ वा इदमत्थि चि विवक्खाए एदेसि णामाणं पवुत्तिदंसणादो । जयध. १, पृ. ३३.

५ प्रतिपु ' धमिलो ' इति पाठः ।

णामाणि किंपदाणि ? दच्चसंजोगपदाणि, भासा-पोगलदच्चसंजोगेण तदुप्पत्तीदो । पमाण-भावाणं को विसेसो ? ण, सगद-इयत्तापरिच्छेदकारणं पमाणं, तच्चिवरीओ भावो त्ति तेसिं भेदुवलंभादो । धम्मत्थिओ अधम्मत्थिओ कालो पुढवी आऊ तेऊ' इच्चादीणि अणादियसिद्धंत-पदाणि' । भाव-गुणपडिसेहदुवारेणुप्पण्णणामाणि भावसंजोगपद-गोण्णाणि हवंति, अवयव-सहस्सेव भाव-गुणाणं देसामासयत्तभुवगमादो । एवं णामोवक्कमसरूपपरूवणा कदा ।

णाम-द्वय-दच्च-खेत्त-काल-भावप्रमाणभेदेण प्रमाणं छव्विहं । तत्थ णामप्रमाणं प्रमाण-

समाधान—ये द्रव्यसंयोगपद हैं, क्योंकि, उनकी उत्पत्ति भाषा (द्राविडी आदि) रूप पुद्गल द्रव्यके संयोगसे है ।

शंका—प्रमाण और भावके क्या भेद है ?

समाधान—नहीं, स्वगत अर्थात् अपने वाच्यगत परिमाणके जाननेका कारण प्रमाण और इससे विपरीत भाव होता है, इस प्रकार उन दोनोंमें भेद पाया जाता है ।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पृथिवी, अप् और तेज, इत्यादिक अनादिक-सिद्धान्तपद हैं । भाव और गुणके प्रतिषेध द्वारा उत्पन्न नाम क्रमशः भावसंयोगपद व गौण्यपद होते हैं, क्योंकि, अवयव शब्दके समान भाव और गुणको देशामर्शक स्वीकार किया गया है ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार अवयवके सद्भाव व अभावके वाचक पदोंका अन्तर्भाव अवयवपदोंमें किया है, उसी प्रकार भावसंयोग व भावासंयोग वाचक पदोंका भाव-संयोगपदोंमें एवं गुणके सद्भाव व असद्भाव वाचक पदोंका अन्तर्भाव गौण्य पदोंमें करना चाहिये ।

इस प्रकार नामोपक्रम स्वरूपकी प्ररूपणा की है ।

नामप्रमाण, स्थापनाप्रमाण, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण और भावप्रमाणके भेदसे प्रमाण छह प्रकार है । उनमेंसे अपनेमें व बाह्य पदार्थमें वर्तमान प्रमाण शब्द नाम-

१ प्रतिपु ' आऊ तेऊ ' इति पाठः ।

२ ' से किं तं अणाइसिद्धंतोणमित्थादि—अमनं अन्तो वाच्य-वाचकरूपतया परिच्छेदः, अनादिसिद्धा-
नान्तश्चानादिसिद्धान्तस्तेन; अनादिकालादारभ्येदं वाचकमिदं तु वाच्यमित्येवं सिद्धः—प्रतिष्ठितो योऽनावन्तः—
परिच्छेदस्तेन किमपि नाम भवतीत्यर्थः । अनु. सू. (मलय. वृत्ति) १३०.

३ प्रतिपु ' भावासंजोग ' इति पाठः ।

सदो अप्पाणम्मि वज्झत्थे च वट्टमाणो । कथं णामस्स पमाणत्तं ? न, प्रमीयते अनेनेति प्रमाणत्वसिद्धेः । सम्भावासम्भावट्टवणा ठवणपमाणं, अण्णसरूवपरिच्छित्तिकारणत्तादो । संखेज्जमसंखेज्जमणंतमिदि दव्वपमाणं पल-तुला-करिसादीणि वा, अण्णदव्वपरिच्छेदकारणत्तादो । अधवा दव्वगयसंखाणं मोत्तूण दव्वमेव पमाणमिदि धेत्तव्वं, दंडादिदव्वेहिंतो अण्णेसिं परिच्छित्तिदंसणादो । अंगुल-विहत्थि-किक्खुआदि क्खेत्तपमाणं । समयावलियादि कालपमाणं । जीवाजीवभावपमाणभेएण भावपमाणं दुविहं । तत्थ अजीवभावपमाणं सखेज्जा

प्रमाण कहा जाता है ।

शंका—नामके प्रमाणता कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण है, इस व्युत्पत्तिसे नामके प्रमाणता सिद्ध है ।

सदभाव और असदभाव रूप स्थापनाका नाम स्थापनाप्रमाण है, क्योंकि, वह अन्य पदार्थोंके स्वरूपको जाननेकी कारण है । संख्यात, असंख्यात व अनन्त तथा पल (मापविशेष), तराजू व कर्प इत्यादिक द्रव्यप्रमाण हैं, क्योंकि, ये अन्य द्रव्योंके जाननेके कारण हैं । अथवा, द्रव्यगत संख्याको छोड़कर द्रव्य ही प्रमाण है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, दण्डादिक द्रव्योंसे अन्य पदार्थोंका ज्ञान देखा जाता है । अंगुल, वितस्ति और किष्कु आदि क्षेत्रप्रमाण हैं । समय और आवली आदि कालप्रमाण हैं । जीवभावप्रमाण और अजीवभावप्रमाणके भेदसे भावप्रमाण दो प्रकार है । इनमें अजीवभावप्रमाण संख्यात, असंख्यात व अनन्तके भेदसे तीन प्रकार है । जीवभाव-

१ पमाणं सत्तविहं । ××× तं जहा— णामपमाणं ट्टवणपमाणं संखपमाणं दव्वपमाणं खेत्तपमाणं कालपमाणं णाणपमाणं चेदि । प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम् । नामाख्यातपदानि नामप्रमाणं प्रमाणशब्दो वा । कुदो ? एदेहिंतो अप्पणो अण्णेसिं च दव्व-पज्जयाणं परिच्छित्तिदंसणादो । जयध. १, पृ. ३७.

२ सो एसो ति अमेदेण कट्ट-सिला-पव्वएसु अप्पियवत्थुण्णासो ट्टवणापमाणं । कथं ठवणाए पमाणत्तं ? ण, ठवणादो एवंहिं सो ति अण्णस्स परिच्छित्तिदंसणादो । मइ-सुद-ओहि-मणपज्जव-केवलणाणाणं सम्भावासम्भाव-सरूवेण त्रिण्णासो वा सयं सहस्समिदि असम्भावट्टवणा वा ठवणपमाणं । जयध. १, पृ. ३८.

३ पल-तुला-कुडवादीणि दव्वंसमाणं, दव्वंतरपरिच्छित्तिकारणत्तादो । जयध. १, पृ. ३८.

४ प्रतिपु ' दव्वमेद ' इति पाठः ।

५ अंगुलादिओगाहणाओ खेत्तपमाणं, ' प्रमीयन्ते अवगाहन्ते अनेन शेषद्रव्याणि ' इति अस्य प्रमाणत्वसिद्धेः । जयध. १, पृ. ३९.

६ समयावलिय-खण-लव-मुहुच-दिवस-पक्ख-मास-उडुवयण-संवच्छर-जुग-पुव्व-पव्व-पल्ल-सागरादि काल-प्रमाणं । जयध. १, पृ. ४१.

संखेज्जाणंतमेएण तिविहं । जीवभावपमाणं आभिणिबोहिय-सुदोधि-मणपज्जव-केवलणाणमेएण पंचविहं । एवं पमाणोवक्कमसरूवपरूवणा कदा ।

ससमय-परसमय-तदुभयवत्तव्वदाभेदेण वत्तव्वदा तिविहा^१ । जदि ससमओ^२ चेव परूविज्जदि सा ससमयवत्तव्वदा । जदि परसमओ चेव परूविज्जदि सा परसमयवत्तव्वदा । जदि दो वि परूविज्जंति सा तदुभयवत्तव्वदा । एवं वत्तव्वदुवक्कमसरूवपरूवणा कदा ।

अत्थाहियारो अणेयविहो, तत्थ संखाणियमाभावादो । एवमत्थहियारोवक्कमसरूव-परूवणा कदा । वुत्तं च—

तिविहा य आणुपुव्वी दसधा णामं च छव्विहं माणं ।

वत्तव्वदा य तिविहा विविहो अत्थाहियारो य^३ ॥ ४४ ॥

एवमुवक्कमसरूवपरूवणा कदा ।

संपहि णिक्खेवसरूवपरूवणा कीरदे । तं जहा— वज्झत्थवियप्पपरूवणा णिक्खेवो

प्रमाण आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञानके भेदसे पांच प्रकार है । इस प्रकार प्रमाणोपक्रमके स्वरूपकी प्ररूपणा की है ।

स्वसमयवक्तव्यता, परसमयवक्तव्यता और तदुभयवक्तव्यताके भेदसे वक्तव्यता तीन प्रकार है । यदि स्वसमयकी ही प्ररूपणा की जाती है तो वह स्वसमयवक्तव्यता है । यदि परसमयकी ही प्ररूपणा की जाती है तो वह परसमयवक्तव्यता है । यदि दोनोंकी ही प्ररूपणा की जाती है तो वह तदुभयवक्तव्यता है । इस प्रकार वक्तव्यतोपक्रमके स्वरूपकी प्ररूपणा की है ।

अर्थाधिकार अनेक प्रकार है, क्योंकि, उसमें संख्याका नियम नहीं है । इस प्रकार अर्थाधिकारोपक्रमके स्वरूपकी प्ररूपणा की है । कहा भी है—

आनुपूर्वीं तीन प्रकार, नाम दश प्रकार, प्रमाण छह प्रकार, वक्तव्यता तीन प्रकार और अर्थाधिकार अनेक प्रकार है ॥ ४४ ॥

इस प्रकार उपक्रमके स्वरूपकी प्ररूपणा की है ।

अब निक्षेपस्वरूपकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— बाह्यार्थके विकल्पोंकी

१ जयध. १, पृ. ९६.

२ प्रतिपु 'समओ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु 'समओ' इति पाठ ।

४ ष. खं. पु. १ पृ. ७२.

णाम, अणधिगदत्थणिराकरणदुवारेण अधिगदत्थपरूवणा वा । णिक्खेवेण विणा परूवणा किण्ण कीरदे ? ण, तेण विणा परूवणाणुववत्तीदो । सो च अण्यविहो—

जत्थ बहं जाणेज्जो अवरीमियं तत्थ णिक्खेवे' णियमा ।

जत्थ य बहं ण जाणदि चउट्ठयं तत्थ णिक्खवउ' ॥ ४५ ॥

इदि वयणादो । एवं णिक्खेवसरूवपरूवणा कदा ।

संपहि अणुगमत्थं वत्तइस्सामो— जम्हि जेण वा वत्तव्वं परूविज्जदि सो अणुगमो । अहियारसण्णिदाणमणिओगद्वाराणं जे अहियारा तेसिमणुगमो ति सण्णा, जहा वेयणाए पदमीमांसादिः । सो च अणुगमो अण्यविहो, संखाणियमाभावादो । अथवा, अनुगम्यन्ते जीवादयः पदार्थाः अनेनेत्यनुगमः । किं प्रमाणम् ? निर्वाधवोधविशिष्टः आत्मा प्रमाणम् । संशय-

प्ररूपणा अथवा अनधिगत पदार्थके निराकरण द्वारा अधिगत अर्थकी प्ररूपणाका नाम निक्षेप है ।

शंका—निक्षेपके विना प्ररूपणा क्यों नहीं की जाती ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उसके विना प्ररूपणा बन नहीं सकती ।

वह निक्षेप अनेक प्रकार है, क्योंकि, जहां बहुत ज्ञातव्य हो वहां नियमसे अपरिमित निक्षेपोंका प्रयोग करना चाहिये । और जहां बहुतको नहीं जानना हो वहां चार निक्षेपोंका उपयोग करना चाहिये ॥ ४५ ॥

ऐसा वचन है । इस प्रकार निक्षेपके स्वरूपकी प्ररूपणा की है ।

अब अनुगमके अर्थको कहते हैं— जहां या जिसके द्वारा वक्तव्यकी प्ररूपणा की जाती है वह अनुगम कहलाता है । अधिकार संज्ञा युक्त अनुयोगद्वारोंके जो अधिकार होते हैं उनका 'अनुगम' यह नाम है, जैसे—वेदानुयोगद्वारके पदमीमांसा आदि अनुगम । वह अनुगम अनेक प्रकार है, क्योंकि, उसकी संख्याका कोई नियम नहीं है । अथवा, जिसके द्वारा जीवादिक पदार्थ जाने जाते हैं वह अनुगम कहलाता है ।

शंका—प्रमाण किसे कहते हैं ?

समाधान—निर्वाध ज्ञानसे विशिष्ट आत्माको प्रमाण कहते हैं ।

१ प्रतिपु ' णिक्खेवे ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' णिक्खवओ ' इति पाठः । प. खं. पु. १, पृ. ३०.

विपर्ययानध्यवसायबोधविशिष्टस्यात्मनः न प्रामाण्यं, संशय-विपर्ययोस्सबाधयोर्निर्वाधविशेषणस्य असत्वात् । अनध्यवसायस्स चार्थानुगमस्याभावात् । ज्ञानस्यैव प्रामाण्यं किमिति नेष्यते ? न, जानाति परिच्छिनत्ति जीवादिपदार्थानिति ज्ञानमात्मा, तस्यैव प्रामाण्याभ्युपगमात् । न ज्ञान-पर्यायस्य स्थितिरहितस्य उत्पाद-विनाशलक्षणस्य प्रामाण्यम्, तत्र त्रिलक्षणाभावतः अवस्तुनि परिच्छेदलक्षणार्थक्रियाभावात्, स्मृति-प्रत्यभिज्ञानुसंधानप्रत्ययादीनामभावप्रसंगाच्च ।

तच्च प्रमाणं द्विविधम्, प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाणभेदात् । तत्र प्रत्यक्षं द्विविधं, सकल-विकलप्रत्यक्षभेदात् । सकलप्रत्यक्षं केवलज्ञानम्, विषयीकृतत्रिकालगोचराशेषार्थत्वात् अतीन्द्रियत्वात् अक्रमवृत्तित्वात् निर्व्यवधानात् आत्मार्थसन्निधानमात्रप्रवर्तनात् । उक्तं च—

क्षायिकमेकमनंतं त्रिकालसर्वार्थयुगपद्विभासम् ।

निरतिशयमत्ययच्युतमव्यवधानं^१ जिनज्ञानम् ॥ ४६ ॥ इति

संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय ज्ञानसे विशिष्ट आत्माके प्रमाणता नहीं हो सकती, क्योंकि, संशय और विपर्ययके बाधायुक्त होनेसे उनमें निर्वाध विशेषणका अभाव है, तथा अनध्यवसायके अर्थबोधका अभाव है ।

शंका—ज्ञानको ही प्रमाण स्वीकार क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि 'जानातीति ज्ञानम्' इस निरुक्तिके अनुसार जो जीवादि पदार्थोंको जानता है वह ज्ञान अर्थात् आत्मा है, उसीको प्रमाण स्वीकार किया गया है । उत्पाद व व्यय स्वरूप किन्तु स्थितिसे रहित ज्ञानपर्यायके प्रमाणता स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप लक्षणत्रयका अभाव होनेके कारण अवस्तुस्वरूप उसमें परिच्छित्ति रूप अर्थक्रियाका अभाव है, तथा स्थिति रहित ज्ञान-पर्यायको प्रमाणता स्वीकार करनेपर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान व अनुसंधान प्रत्ययोंके अभावका भी प्रसंग आता है ।

वह प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणके भेदसे दो प्रकार है । उनमें प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्षके भेदसे दो प्रकार है । केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, क्योंकि, वह त्रिकालविषयक समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला, अतीन्द्रिय, अक्रमवृत्ति, व्यवधानसे रहित और आत्मा एवं पदार्थकी समीपता मात्रसे प्रवृत्त होनेवाला है । कहा भी है—

जिन भगवान्का ज्ञान क्षायिक, एक अर्थात् असहाय, अनन्त, तीनों कालोंके सब पदार्थोंको एक साथ प्रकाशित करनेवाला, निरतिशय, विनाशसे रहित और व्यवधानसे विमुक्त है ॥ ४६ ॥

अवधि-मनःपर्ययज्ञाने विकलप्रत्यक्षम्, तत्र साकल्येन प्रत्यक्षलक्षणाभावात्^१ । तदपि कुतोऽवगम्यते ? मूर्तेद्रव्येष्वेव प्रवृत्तिदर्शनात् सक्षयत्वात् मूर्तेष्वप्यर्थेषु त्रिकालगोचरानन्तपर्यायेषु साकल्येन प्रवृत्तेरदर्शनात्^२ । अतीन्द्रियाणामवधि-मनःपर्यय-केवलानां कथं प्रत्यक्षता ? नैष दोषः, अक्ष आत्मा, अक्षमक्षं प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षमवधि-मनःपर्यय-केवलानीति तेषां प्रत्यक्षत्वसिद्धेः^३ । परोक्षं द्विविधं मति-श्रुतभेदेन । परोक्षमिति किम् ? उपात्तानुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम् ।

अवधि और मनःपर्यय ज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि, उनमें सकल प्रत्यक्षकालक्षण नहीं पाया जाता ।

शंका—वह भी कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, उक्त दोनों ज्ञान मूर्त द्रव्योंमें ही प्रवर्तमान हैं, विनश्वर हैं, तथा तीन काल विषयक अनन्त पर्यायोंसे संयुक्त उन मूर्त पदार्थोंमें भी उनकी पूर्ण रूपसे प्रवृत्ति नहीं देखी जाती ।

शंका—इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञानके प्रत्यक्षता कैसे सम्भव है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अक्ष शब्दका अर्थ आत्मा है; अतएव अक्ष अर्थात् आत्माकी अपेक्षा कर जो प्रवृत्त होता है वह प्रत्यक्ष है; इस निरुक्तिके अनुसार अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हैं । अतएव उनके प्रत्यक्षता सिद्ध है ।

मति और श्रुतके भेदसे परोक्ष दो प्रकार है ।

शंका—परोक्षका क्या स्वरूप है ?

समाधान—उपात्त और अनुपात्त इतर कारणोंकी प्रधानतासे जो ज्ञान होता है

१ ओहि-मणपञ्जवणाणाणि वियलपञ्चक्खाणि, अत्येगदेसम्मि विसदसरूवेण तेसिं पञ्चिदंसणादो । जयध. १, पृ. २४.

२ प्रतिगु 'प्रवृत्तिरदर्शनात्' इति पाठः ।

३ अक्षं प्रतिनियतमिति परापेक्षानिवृत्तिः—अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीति अक्ष आत्मा प्राप्तक्षयौपशमः प्रक्षीणानरणो वा, तमेव प्रतिनियतं प्रत्यक्षमिति विग्रहात्परापेक्षानिवृत्तिः कृता भवति । त. रा. १, १२, २. कथं पुनरेतेषां प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वमिति चेत्, रूढित इति ब्रूमः । अथवा, अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा, तन्मात्रापेक्षोत्पादिकं प्रत्यक्षमिति किमनुपपन्नम् ? न्यायदीपिका पृ. ३८. तत्र 'अशुद्ध्यासौ' अशुद्धे ज्ञानात्मना सर्वानर्थान् व्याप्नोतीत्यक्षः । अथवा 'अशू भोजने' अश्नाति सर्वान् अर्थान् यथायोगं भुङ्क्ते पालयति वेलक्षो जीव उभयत्राप्यौणादिकः सकृत्प्रत्ययः, तं अक्षं जीवं प्रति साक्षाद्वर्त्तते यत् ज्ञानं तत्प्रत्यक्षम् । X.X.X उक्तं च— " जीवो अक्खो अत्यच्चावण-भोयणगुणभिओ जेणं । तं पइ वट्ठइ नाणं जं पच्चवखं तं तिचिहं ॥ " नं. सू. (वृत्ति) २.

उपात्तानीन्द्रियाणि मनश्च, अनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि, तत्प्राधान्यादवगमः परोक्षम् । यथा गति-
शक्त्युपेतस्यापि^१ स्वयं गन्तुमसमर्थस्य यष्ट्याद्यालंबनप्राधान्यं गमनम्, तथा मति-श्रुतावरण-
क्षयोपशमे सति ज्ञस्वभावस्यात्मनः स्वयमर्थानुपलब्धुमसमर्थस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परा-
यत्तत्वात्परोक्षम्^२ ।

तत्र मत्याख्यं प्रमाणं चतुर्विधम्— अवग्रह ईहा अवायो धारणा चेति^३ । विषय-विषयि-
सन्निपातानंतरमाद्यं ग्रहणमवग्रहः^४ । पुरुष इत्यवग्रहीते भाषा-वयोरूपादिविशेषैराकांक्षणमीहा^५ ।
ईहितस्यार्थस्य विशेषविज्ञानात् याथात्म्यावगमनमवायः । निर्णीतार्थाविस्मृतिर्यतस्सा धारणा^६ ।
अथ स्यादवग्रहो निर्णयरूपो वा स्यादनिर्णयरूपो वा ? आद्ये अवायान्तर्भावः । अस्तु

वह परोक्ष है । यहां उपात्त शब्दसे इन्द्रियां व मन तथा अनुपात्त शब्दसे प्रकाश व उप-
देशादिका ग्रहण किया गया है । इनकी प्रधानतासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष कहलाता है ।
जिस प्रकार गमन शक्तिसे युक्त होते हुए भी स्वयं गमन करनेमें असमर्थ व्यक्तिका लाठी
आदि आलम्बनकी प्रधानतासे गमन होता है, उसी प्रकार मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञाना-
वरणका क्षयोपशम होनेपर ज्ञस्वभाव परन्तु स्वयं पदार्थोंको ग्रहण करनेके लिये असमर्थ
हुए आत्माके पूर्वोक्त प्रत्ययोंकी प्रधानतासे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान पराधीन होनेसे परोक्ष है ।

उनमें मति नामक प्रमाण चार प्रकार है— अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ।
विषय और विषयिके सम्बन्धके अनन्तर जो आद्य ग्रहण होता है वह अवग्रह है । ' पुरुष'
इस प्रकार अवग्रह द्वारा गृहीत अर्थमें भाषा, आयु और रूपादि विशेषोंसे होनेवाली
आकांक्षाका नाम ईहा है । ईहासे गृहीत पदार्थका भाषा आदि विशेषोंके ज्ञानसे जो यथार्थ
स्वरूपसे ज्ञान होता है वह अवाय है । जिससे निर्णीत पदार्थका विस्मरण नहीं होता वह
धारणा है ।

शंका — क्या अवग्रह निर्णय रूप है अथवा अनिर्णय रूप ? प्रथम पक्षमें अर्थात्
निर्णय रूप स्वीकार करनेपर उसका अवायमें अन्तर्भाव होना चाहिये । परन्तु ऐसा हो

१ अ-काप्रत्योः ' गतिशक्त्युपेतस्यापि ' इति पाठः ।

२ त. रा. १, ११, ६.

३ उग्रह ईहाऽवाओ य धारणा एव हुंति चचारि । आभिणिबोहियणाणस्स भेयवत्थु समासेण ॥ अत्थाणं
उग्राहणंमि उग्राहो तह विआलणे ईहा । ववसायंमि अवाओ धरणं पुण धारणं विति ॥ नं. सू. गा. ७५-७६.

४ प. खं. पु. १. पृ. ३५४; पु. ६, पृ. १६. तत्र अवग्रहणमवग्रहः— अनिर्देश्यसामान्यमात्ररूपार्थग्रहण-
मित्यर्थः । यदाह चूर्णिकृत् " सामग्रस्त रूपादिविसेसणरहियस्स अनिर्हेसस्स अवग्राहणमवग्राह " इति ।
नं. सू. (म. वृत्ति) २७.

५ प. खं. पु. १, पृ. ३५४; पु. ६. पृ. १६. अवग्रहगृहीतार्थसमुद्भूतसंशयनिरासाय यतनमीहा । तद्यथा—
पुरुष इति निश्चितेऽर्थे किमयं दाक्षिणात्य उतौदीच्य इति संशये सति दाक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्निरासायेहाख्यं
ज्ञानं जायत इति । न्या. दी. पृ. ३२. ईहनमीहा, समुद्भूतार्थपर्यालोचनरूपा चेष्टा इत्यर्थः । नं. सू. (म. वृत्ति) २७.

६ प्रतिषु ' निर्णीतार्थाविस्मृतिर्यतस्साधारणात् ' इति पाठः ।

चेन्न, ततः पश्चात्संशयोत्पत्तेरभावप्रसंगान्निर्णयस्य विपर्ययानध्यवसायात्मकत्वविरोधाच्च । द्वितीये न प्रमाणमवग्रहः, तस्य संशय-विपर्ययानध्यवसायेष्वन्तर्भावमिति ? न, अवग्रहस्य द्वैविध्यात् । द्विविधोऽवग्रहो' विशदाविशदावग्रहभेदेन । तत्र विशदो निर्णयरूपः अनियमेनेहावाय-धारणाप्रत्ययो-त्पत्तिनिवन्धनः । निर्णयरूपोऽपि नायमवायसंज्ञकः, ईहाप्रत्ययपृष्ठभाविनो निर्णयस्य अवाय-व्यपदेशात् । तत्र अविशदावग्रहो नाम अगृहीतभाषा-वयोरूपादिविशेषः गृहीतव्यवहारनिवन्धन-पुरुषमात्रसत्त्वादिविशेषः अनियमेनेहाद्युत्पत्तिहेतुः । नायमविशदावग्रहो दर्शनेऽन्तर्भवति, तस्य विषय-विषयिसन्निपातकालवृत्तित्वात् । अप्रमाणमविशदावग्रहः, अनध्यवसायरूपत्वादिति चेन्न, अध्यवसितकतिपयविशेषत्वात् । न विपर्ययरूपत्वादप्रमाणम्, तत्र वैपरीत्यानुपलंभात् । न विपर्ययज्ञानोत्पादकत्वादप्रमाणम्, तस्मात्तदुत्पत्तेर्नियमाभावात् । न संशयहेतुत्वादप्रमाणम्,

नहीं सकता, क्योंकि, वैसा होनेपर उसके पीछे संशयकी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग आवेगा, तथा निर्णयके विपर्यय व अनध्यवसाय रूप होनेका विरोध भी है । अनिर्णय स्वरूप माननेपर अवग्रह प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होनेपर उसका संशय, विपर्यय व अनध्यवसायमें अन्तर्भाव होगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अवग्रह दो प्रकार है । विशदावग्रह और अविशदावग्रहके भेदसे अवग्रह दो प्रकार है । उनमें विशद अवग्रह निर्णय रूप होता हुआ अनियमसे ईहा, अवाय और धारणाज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है । यह निर्णय रूप होकर भी अवाय संज्ञावाला नहीं हो सकता, क्योंकि, ईहा प्रत्ययके पश्चात् होनेवाले निर्णयकी अवाय संज्ञा है ।

उनमें भाषा, आयु व रूपादि विशेषोंको ग्रहण न करके व्यवहारके कारणभूत पुरुष मात्रके सत्त्वादि विशेषको ग्रहण करनेवाला तथा अनियमसे जो ईहा आदिकी उत्पत्तिमें कारण है वह अविशदावग्रह है । यह अविशदावग्रह दर्शनमें अन्तर्भूत नहीं है, क्योंकि वह (दर्शन) विषय और विषयीके सम्बन्धकालमें होनेवाला है ।

शंका—अविशदावग्रह अप्रमाण है, क्योंकि, वह अनध्यवसाय स्वरूप है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, वह कुछ विशेषोंके अध्यवसायसे सहित है ।

उक्त ज्ञान विपर्यय स्वरूप होनेसे भी अप्रमाण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, उसमें विपरीतता नहीं पायी जाती । यदि कहा जाय कि वह चूँकि विपर्यय ज्ञानका उत्पादक है अतः अप्रमाण है, सो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उससे विपर्यय ज्ञानके उत्पन्न होनेका कोई नियम नहीं है । संशयका हेतु होनेसे भी वह अप्रमाण नहीं है, क्योंकि,

कारणानुगुणकार्यनियमानुपलंभात्, संशयादप्रमाणात्प्रमाणीभूतनिर्णयप्रत्ययोत्पत्तितोऽनेकान्ताच्च । न च संशयरूपत्वादप्रमाणम्, स्थाणु-पुरुषसंचारिणश्चलस्वभावस्य संशयस्य अचलेनैकार्थ-विषयेण अविशदावग्रहेण एकत्वविरोधात् । ततो गृहीतवस्त्वंशं प्रति अविशदावग्रहस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यम्, व्यवहारयोग्यत्वात् । व्यवहारायोग्योऽपि अविशदावग्रहोऽस्ति, कथं तस्य प्रामाण्यम् ? न, किंचिन्मया' दृष्टमिति व्यवहारस्य तत्राप्युपलंभात् । वास्तवव्यवहारा-योग्यत्वं प्रति पुनरप्रमाणम् ।

पुरुषमवग्रह्य किमयं दाक्षिणात्य उत उदीच्य इत्येवमादिविशेषाप्रतिपत्तौ संशयानस्यो-त्तरकालं विशेषोपलिप्सां प्रति यतनमीहा । ततोऽवग्रहगृहीतग्रहणात् संशयात्मकत्वाच्च न प्रामाण्यमीहाप्रत्यय इति चेदुच्यते — न तावद् गृहीतग्रहणमप्रामाण्यनिवन्धनम्, तस्य संशय-विपर्ययानध्यवसायनिवन्धनत्वात् । न चैकान्तेन ईहा गृहीतग्राहिणी, अवग्रहेण गृहीतवस्त्वंशनिर्णयोत्पत्तिनिमित्तलिंगमवग्रहागृहीतमध्यवस्यंत्या गृहीतग्राहित्वा-

कारणगुणानुसार कार्यके होनेका नियम नहीं पाया जाता, तथा अप्रमाणभूत संशयसे प्रमाणभूत निर्णय प्रत्ययकी उत्पत्ति होनेसे उक्त हेतु व्यभिचारी भी है । संशय रूप होनेसे भी वह अप्रमाण नहीं है, क्योंकि, स्थाणु और पुरुष आदि रूप दो विषयोंमें प्रवर्तमान व चलस्वभाव संशयकी अचल व एक पदार्थको विषय करनेवाले अविशदावग्रहके साथ एकताका विरोध है । इस कारण ग्रहण किये गये वस्त्वंशके प्रति अविशदावग्रहको प्रमाण स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि, वह व्यवहारके योग्य है ।

शंका—व्यवहारके अयोग्य भी तो अविशदावग्रह है, उसके प्रामाण्यता कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'मैंने कुछ देखा है' इस प्रकारका व्यवहार वहां भी पाया जाता है । किन्तु वस्तुतः व्यवहारकी अयोग्यताके प्रति वह अप्रमाण है ।

शंका—अवग्रहसे पुरुषको ग्रहण करके, क्या यह दाक्षिणका रहनेवाला है या उत्तरका, इत्यादि विशेषज्ञानके बिना संशयको प्राप्त हुए व्यक्तिके उत्तरकालमें विशेष जिज्ञासाके प्रति जो प्रयत्न होता है उसका नाम ईहा है । इस कारण अवग्रहसे गृहीत विषयको ग्रहण करने तथा संशयात्मक होनेसे ईहा प्रत्यय प्रमाण नहीं है ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि गृहीतग्रहण अप्रामाण्यका कारण नहीं है, क्योंकि, उसका कारण संशय, विपर्यय व अनध्यवसाय है । दूसरे, ईहा प्रत्यय सर्वथा गृहीतग्राही भी नहीं है, क्योंकि, अवग्रहसे गृहीत वस्तुके उस अंशके निर्णयकी उत्पत्तिमें निमित्तभूत लिंगको, जो कि अवग्रहसे नहीं ग्रहण किया गया है, ग्रहण करनेवाला ईहा-

भावात् । न चैकान्तेन अगृहीतमेव प्रमाणैर्गृह्यते, अगृहीतत्वात् खरविषाणवदसतो ग्रहण-
विरोधात् । न चेहाप्रत्ययः संशयः, विमर्शप्रत्ययस्य निर्णयप्रत्ययोत्पत्तिनिमित्तलिङ्गपरिच्छेदन-
द्वारेण संशयमुदस्यतस्संशयत्वविरोधात् । न च संशयाधारजीवसमवेतत्वादप्रमाणम्, संशय-
विरोधिनः स्वरूपेण संशयतो व्यावृत्तस्य अप्रमाणत्वविरोधात् । नानध्यवसायरूपत्वादप्रमाण-
मीहा, अध्यवसितकतिपयविशेषस्य निराकृतसंशयस्य प्रत्ययस्य अनध्यवसायत्वविरोधात् ।
तस्मात्प्रमाणं परीक्षाप्रत्यय इति सिद्धम् । अत्रोपयोगी श्लोकः—

अवायावयवोत्पत्तिस्संशयावयवच्छिदा ।

सम्यग्निर्णयपर्यन्ता परीक्षेहेति कथ्यते ॥ ४७ ॥

नेहादयो मतिज्ञानमिन्द्रियेभ्योऽनुत्पन्नत्वाच्छ्रुतज्ञानंवदिति चेन्न, इन्द्रियजनितावग्रहज्ञान-
जनितानामीहादीनामुपचारेणेन्द्रियजत्वाभ्युपगमात् । श्रुतज्ञानेऽपि तदस्त्विति चेन्न, ईहादीनामिव

ज्ञान गृहीतग्राही नहीं हो सकता । और एकान्ततः अगृहीतको ही प्रमाण ग्रहण करते हों
सो भी नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेपर अगृहीत होनेके कारण खरविषाणके समान असत्
होनेसे वस्तुके ग्रहणका विरोध होगा । ईहा प्रत्यय संशय भी नहीं हो सकता, क्योंकि
निर्णयकी उत्पत्तिमें निमित्तभूत लिङ्गके ग्रहण द्वारा संशयको दूर करनेवाले विमर्श
प्रत्ययके संशय रूप होनेमें विरोध है । संशयके आधारभूत जीवमें समवेत होनेसे भी वह
ईहा प्रत्यय अप्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि, संशयके विरोधी और स्वरूपतः संशयसे
भिन्न उक्त प्रत्ययके अप्रमाण होनेका विरोध है । अनध्यवसाय रूप होनेसे भी ईहा अप्रमाण
नहीं हो सकता, क्योंकि, कुछ विशेषोंका अध्यवसाय करते हुए संशयको दूर करनेवाले
उक्त प्रत्ययके अनध्यवसाय रूप होनेका विरोध है । अत एव परीक्षा प्रत्यय प्रमाण है, यह
सिद्ध होता है । यहां उपयोगी श्लोक—

संशयके अवयवोंको नष्ट करके अवायके अवयवोंको उत्पन्न करनेवाली जो भले
प्रकार निर्णय पर्यन्त परीक्षा होती है वह ईहा प्रत्यय कहा जाता है ॥ ४७ ॥

शंका—ईहादिक प्रत्यय मतिज्ञान नहीं हो सकते, क्योंकि, वे श्रुत ज्ञानके समान
इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं होते ।

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए अवग्रह ज्ञानसे उत्पन्न
होनेवाले ईहादिकोंको उपचारसे इन्द्रियजन्य स्वीकार किया गया है ।

शंका—वह औपचारिक इन्द्रियजन्यता श्रुतज्ञानमें भी मान लेना चाहिये?

अवग्रहगृहीतार्थविषयप्रवृत्त्यभावतो व्यधिकरणस्य श्रुतस्य प्रत्यासत्तेरभावतः इन्द्रियजत्त्रोपचाराभावात् । तत एव न श्रुतस्य मतिव्यपदेशोऽपीति । नावायज्ञानं मतिः, ईहानिर्णीतलिङ्गावष्टम्भलेनोत्पन्नत्वादनुमानवदिति चेन्न, अवग्रहगृहीतार्थविषयलिङ्गादीहाप्रत्ययविषयीकृतादुत्पन्ननिर्णयात्मकप्रत्ययस्य अवग्रहगृहीतार्थविषयस्य अवायस्य अमतित्वविरोधात् । न चानुमानमवग्रहगृहीतार्थविषयमवग्रहनिर्णीतलिङ्गबलेन तस्यान्यवस्तुनि समुत्पत्तेः । न चावग्रहादीनां चतुर्णां सर्वत्र क्रमेणोत्पत्तिनियमः, अवग्रहानन्तरं नियमेन संशयोत्पत्त्यदर्शनात् । न च संशयमंतरेण विशेषाकांक्षास्ति येनावग्रहान्नियमेन ईहोत्पद्येत । न चेहातो नियमेन निर्णय उत्पद्यते, क्वचिन्निर्णयानुत्पादिकाया ईहाया एव दर्शनात् । न चावायाद्धारणा^१ नियमेनोत्पद्यते, तत्रापि व्यभिचारोपलम्भात् । तस्मादवग्रहादयो धारणापर्यता मतिरिति सिद्धम् ।

समाधान — नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार ईहादिककी अवग्रहसे गृहीत पदार्थके विषयमें प्रवृत्ति होती है उस प्रकार चूंकि श्रुतज्ञानकी नहीं होती, अतः व्यधिकरण होनेसे श्रुतज्ञानके प्रत्यासत्तिका अभाव है, इसी कारण उसमें उपचारसे इन्द्रियजन्यत्व नहीं बनता । और इसीलिये श्रुतके मति संज्ञा भी सम्भव नहीं है ।

शंका — अवायज्ञान मतिज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि, वह ईहासे निर्णीत लिङ्गके आलम्बन बलसे उत्पन्न होता है । जैसे अनुमान ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, अवग्रहसे गृहीत पदार्थको विषय करनेवाले तथा ईहा प्रत्ययसे विषयीकृत लिङ्गसे उत्पन्न हुए निर्णय रूप और अवग्रहसे गृहीत पदार्थको विषय करनेवाले अवाय प्रत्ययके मतिज्ञान न होनेका विरोध है । और अनुमान अवग्रहसे गृहीत पदार्थको विषय करनेवाला नहीं है, क्योंकि, वह अवग्रहसे निर्णीत लिङ्गके बलसे अन्य वस्तुमें उत्पन्न होता है । तथा अवग्रहादिक चारोंकी सर्वत्र क्रमसे उत्पत्तिका नियम भी नहीं है, क्योंकि, अवग्रहके पश्चात् नियमसे संशयकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती । और संशयके बिना विशेषकी आकांक्षा होती नहीं है जिससे कि अवग्रहके पश्चात् नियमसे ईहा उत्पन्न हो । न ईहासे नियमतः निर्णय उत्पन्न होता है, क्योंकि, कहींपर निर्णयको उत्पन्न न करनेवाला ईहा प्रत्यय ही देखा जाता है । अवायसे धारणा भी नियमसे नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि, उसमें भी व्यभिचार पाया जाता है । इस कारण अवग्रहसे लेकर धारणा तक चारों ज्ञान मतिज्ञान हैं, यह सिद्ध होता है ।

ते च बहु-बहुविध क्षिप्रानिःश्रुतानुक्त-ध्रुवतरभेदेन द्वादशधा भवन्ति । तत्र बहुशब्दो हि संख्यावाची वैपुल्यवाची च । संख्यायामेकः द्वौ बहवः, वैपुल्ये बहुरोदनः' बहुः सूप इति एतस्योभयस्यापि ग्रहणम् । न बहवग्रहोऽस्ति, विज्ञानस्य प्रत्यर्थवशवर्तित्वादिति चेन्न, नगर-वन-स्कन्धावारेष्वनेकप्रत्ययोत्पत्तिदर्शनात्, बहवग्रहाभावे तन्निवन्धनबहुवचनप्रयोगानुपपत्तेः । न ह्येकार्थग्राहकेभ्यो' जानेभ्यो भूयसामर्थानां प्रतिपत्तिर्भवति, विरोधात् । किं च, यस्यैकार्थ एव नियमेन विज्ञानं तस्य किं पूर्वज्ञाननिवृत्ता उत्तरविज्ञानोत्पत्तिरनिवृत्तौ वा ? न द्वितीयः पक्षः, एकार्थमेकमनस्त्वादित्यनेन वाक्येन सह विरोधात् । नाद्यः, इदमस्मादन्यदित्यस्य

वे चारों ज्ञान बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःश्रुत, अनुक्त और ध्रुव तथा इनसे विपरीत एक, एकाविध, अक्षिप्र, निःश्रुत, उक्त और अध्रुवके भेदसे बारह प्रकार हैं । उनमें बहु शब्द संख्यावाची और वैपुल्यवाची है । संख्यामें एक, दो, बहुत और विपुलतामें बहुत ओदन व बहुत दाल, इस प्रकार इन दोनोंका भी ग्रहण है ।

शंका — बहुत पदार्थोंका अवग्रह नहीं है, क्योंकि, विज्ञान प्रत्येक अर्थके वशवर्ती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि नगर, वन व स्कन्धावार (छावनी) में अनेक पदार्थ विषयक प्रत्ययकी उत्पत्ति देखी जाती है । इसके अतिरिक्त बहु-अवग्रहके अभावमें उसके निमित्तसे होनेवाला बहु वचनका प्रयोग भी नहीं बन सकेगा । इसका कारण यह कि एक पदार्थके ग्राहक ज्ञानोंसे बहुत पदार्थोंका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है ।

दूसरे, जिसके अभिप्रायसे नियमतः एक पदार्थमें ही विज्ञान होता है उसके यहां क्या पूर्व ज्ञानके हट जानेपर उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, अथवा उसके होते हुए ? इनमें द्वितीय पक्ष तो बनता नहीं है, क्योंकि पूर्व ज्ञानके होते हुए उत्तर ज्ञान होता है, ऐसा माननेपर 'एक मन होंनेसे ज्ञान एक पदार्थको विषय करनेवाला है' इस वाक्यके साथ विरोध होगा । (अर्थात् जिस प्रकार यहां एक मन अनेक प्रत्ययोंका आरम्भक है उसी प्रकार एक प्रत्यय अनेक पदार्थोंको विषय करनेवाला भी होना चाहिये, क्योंकि, एक कालमें अनेक प्रत्ययोंकी

१ प्रतिपु ' बहुओदनः ' इति पाठः ।

२ बहुशब्दस्य संख्या-वैपुल्यवाचिनो ग्रहणमविशेषात् । संख्यावाची यथा — एकः द्वौ बहव इति । वैपुल्य-वाची यथा — बहुरोदनो बहुः सूपः इति । स. सि. १, १६. त. रा. १, १६, १.

३ प्रतिपु ' ह्येकार्थे ग्राहकेभ्यो ' इति पाठः ।

४ बहवग्रहाद्यभावः प्रत्यर्थवशवर्तित्वादिति चेन्न, सर्वदैकप्रत्ययप्रसंगात् । स्यादेत-
त्प्रत्यर्थवशवर्ति विज्ञानं नानेकमर्थं गृहीतुमलम् । अतो बहवग्रहादीनामभाव इति ? तत्र, किं कारणं; सर्वदैकप्रत्यय-
प्रसंगात् । यथाण्याटव्यां कश्चिदैकमेव पुरुषमवलोकयन्ननेक इत्यवति, मिथ्याज्ञानमन्यथा स्यादेकज्ञानेकबुद्धिर्यदि
भवेत्; तथा नगर-वन-स्कन्धावारावगाहिनीऽपि तस्यैकप्रत्ययः स्यात् सार्वकालिकः । अतश्चानेकार्थग्राहिविज्ञानस्यात्यन्ता-
सम्भवाच्चनगर-वन-स्कन्धावाराप्रत्ययनिवृत्तिः, नैताः संज्ञा ह्येकार्थनिवेशिन्यः । तस्मात्लोकसंग्रहवारानिवृत्तिः । त. रा.
१, १६, २. भ. अ. पृ. ११६८.

व्यवहारस्योच्छित्तिप्रसंगात्, मध्यमा-प्रदेशिन्योर्युगपदुपलंभाभावासंजनोत्तद्विषयदीर्घ-ह्रस्वव्यवहारस्य आपेक्षिकस्य विनिवृत्तिप्रसंगात्, एकार्थविषयवर्तिनि विज्ञाने स्थाणौ पुरुषे वा प्रत्यय इति उभयसंस्पर्शित्वाभावतः तन्निबन्धनसंशयस्याभावप्रसंगाच्च । किं च, पूर्णकलशमालिखतश्चित्रकर्मणि निष्णातस्य चैत्रस्य क्रिया-कलशविषयविज्ञानभेदाभावात्तदनिष्पत्तिः स्यात् ।

सम्भावना है ही ।) प्रथम पक्ष भी नहीं बनता है, क्योंकि, पूर्व ज्ञानके नष्ट होनेपर उत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा स्वीकार करनेपर 'यह इससे अन्य है' इस व्यवहारके नष्ट होनेका प्रसंग आवेगा, मध्यमा और प्रदेशिनी (तर्जनी) इन दोनों अंगुलियोंका एक साथ ज्ञान न हो सकनेका प्रसंग आनेसे उनके विषयमें अपेक्षाकृत दीर्घता व ह्रस्वताके व्यवहारके भी लोप होनेका प्रसंग आवेगा, तथा ज्ञानके एकार्थविषयवर्ती होनेपर या तो स्थाणु-विषयक प्रत्यय होगा या पुरुषविषयक; इन दोनोंको विषय न कर सकनेसे उनके निमित्तसे होनेवाले संशयके भी अभावका प्रसंग आवेगा । दूसरे, पूर्ण कलशको चित्रित करनेवाले तथा चित्र क्रियामें दक्ष चैत्रके क्रिया व कलश विषयक विज्ञानका भेद न होनेसे

१ नानात्वप्रत्ययाभावात् । यस्यैकार्थमेव नियमाज्ज्ञानम्, तस्य पूर्वज्ञाननिवृत्तावुत्तरज्ञानोत्पत्तिः स्यादनिवृत्तौ वा ? उभयथा च दोषः— यदि पूर्वमुत्तरज्ञानोत्पत्तिकालेऽस्ति, यदुक्तम् 'एकार्थमेकमनस्त्वात्' इत्यदो विरुध्यते—यथैकं मनोऽनेकप्रत्ययारम्भकं तथैकप्रत्ययोऽनेकार्थो भविष्यति, अनेकस्य प्रत्ययस्यैककालसम्भवात् । न त्वनेकार्थोपलब्धिरुपपत्त्यते, तत्र यदभिमतमेव 'एकस्य ज्ञानमेकं चार्थमुपलभते' इत्युप्य व्याघातः । अथ पुनर्निवृत्तेः [निवृत्ते] पूर्वस्मिन्मुत्तरज्ञानोत्पत्तिः प्रतिज्ञायते, नतु सर्वैकार्थमेकमेव ज्ञानमित्यत इदमस्मादन्यदित्येष व्यवहारो न स्यात् । अस्ति च सः । तस्मान्न किंचिदेतत् । त. रा. १, १६, ३. ध. अ. प. ११६८.

२ प्रतिषु 'भावासंजननात्' इति पाठः । अत्रौ ११६८ पत्रे 'युगपदुपलंभाभावाच्चद्विषय' इति पाठः ।

३ आपेक्षिकसंव्यवहारनिवृत्तेः । यस्यैकज्ञानमनेकार्थविषयं न विद्यते, तस्य मध्यम-प्रदेशिन्योर्युगपदुपलंभाच्चद्विषयदीर्घ-ह्रस्वव्यवहारो विनिवर्तेत । आपेक्षिको ह्यसौ । न वा [चा] पेक्षास्ति । त. रा. १, १६, ४.

४ संशयाभावप्रसंगात् । एकार्थविषयवर्तिनि विज्ञाने स्थाणौ पुरुषे वा प्राक्प्रत्ययजन्म स्यात्, नोभयोः, प्रतिज्ञातविरोधात् । यदि स्थाणौ पुरुषाभावात्स्थाणुबन्ध्यापुत्रवत्संशयाभावः स्यात्, अथ पुरुषे तथा स्थाणुद्रव्यानपेक्षत्वासंशयो न स्यात्; तत्पूर्ववत् । न त्वमाव इष्टः । अतोऽनेकार्थप्राहि विज्ञानकल्पना श्रेयसीति । त. रा. १, १६, ५.

५ ईप्सितनिष्पत्तिरनियमात् । विज्ञानस्यैकार्थावलम्बित्वे चित्रकर्मणि निष्णातस्य चैत्रस्य पूर्ण-कलशमालिखतस्तत्क्रिया-कलश-तत्प्रकारग्रहणविज्ञानभेदादितरेतरविषयसंक्रमाभावादनैकविज्ञानोत्पादनिरोधक्रमे सत्य-नियमेन निष्पत्तिः स्यात् । द्रष्टा तु सा नियमेन । सा चैकार्थप्राहिणि विज्ञाने विरुध्यते । तस्मान्नानार्थोऽपि प्रत्ययोऽभ्युपेयः । त. रा. १, १६, ५.

नासौ यौगपद्येन द्वि-त्रादिविज्ञानाभावे' उत्पद्यते, विरोधात् । प्रतिद्रव्यभिन्नानां प्रत्ययानां कथमेकत्वमिति चेन्नाक्रमेणैकजीवद्रव्यवर्तिनां परिच्छेद्यभेदेन बहुत्वमादधानानामेकत्वविरोधात् ।

एकाभिधान-व्यवहारनिबन्धन. प्रत्यय एकः^१ । विधग्रहणं प्रकारार्थम्^२, बहुविधं बहु-प्रकारमित्यर्थः । जातिगनभूयःसंख्याविषयः प्रत्ययो बहुविधः^३ । गो-मनुष्य-हय-हस्तादिजाति-गताक्रमप्रत्ययश्चक्षुर्जः । श्रोत्रजस्तत-वितत-घन-सुपिरादिजातिविषयोऽक्रमप्रत्ययः । घ्राणजः कर्पूरा-गुरु-तुरुष्क-चन्दनादिगन्धगताक्रमवृत्तिः प्रत्ययः । रसनजस्तित्त-कपायाम्ल-मधुर-लवणरसेष्व-क्रमवृत्तिः प्रत्ययः । स्पर्शजः स्निग्ध-मृदु-कठिनोष्ण-गुरु-लघु-शीतादिस्पर्शेष्वक्रमवृत्तिः प्रत्ययश्च

उसकी उत्पत्ति न हो सकेगी, कारण कि वह युगपत् दो तीन ज्ञानोंके बिना उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है ।

शंका—प्रत्येक द्रव्यमें भेदको प्राप्त हुए प्रत्ययोंके एकता कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, युगपत् एक जीव द्रव्यमें रहनेवाले और ज्ञेय पदार्थोंके भेदसे प्रचुरताको प्राप्त हुए प्रत्ययोंकी एकतामें कोई विरोध नहीं है ।

एक शब्दके व्यवहारका कारणभूत प्रत्यय एक प्रत्यय है । विधका ग्रहण भेद प्रकट करनेके लिये है, अतः बहुविधका अर्थ बहुत प्रकार है । जातिमें रहनेवाली बहु संख्याको अर्थात् अनेक जातियोंको विषय करनेवाला प्रत्यय बहुविध कहलाता है । गाय, मनुष्य, घोड़ा और हाथी आदि जातियोंमें रहनेवाला अक्रम प्रत्यय चक्षुर्जन्य बहुविध प्रत्यय है । तत, वितत, घन और सुपिर आदि शब्दजातियोंको विषय करनेवाला अक्रम प्रत्यय श्रोत्रज बहुविध प्रत्यय है । कपूर, अगुरु, तुरुष्क (सुगन्धि द्रव्य-विशेष) और चन्दन आदि सुगन्ध द्रव्योंमें रहनेवाला यौगपद्य प्रत्यय घ्राणज बहुविध प्रत्यय है । तित्त, कपाय, आम्ल, मधुर और लवण रसोंमें एक साथ रहनेवाला प्रत्यय रसनज बहुविध प्रत्यय है । स्निग्ध, मृदु, कठिन, ऊष्ण, गुरु, लघु और

१ द्वि-त्र्यादिप्रत्ययाभावाच्च । एकार्थविषयवर्तिनि विज्ञाने द्वाविमौ इमे त्रय इत्यादिप्रत्यस्याभावः । यतो नैकं विज्ञानं द्वि-त्र्याद्यर्थानां ग्राहकमस्ति । त. रा. १, १६, ७.

२ अल्पश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशम आत्मा ततश्चब्दादीनामन्यतममल्पं शब्दमवगृह्णाति । त. रा. १, १६, १५. एकार्थविषयः प्रत्यय एकः । ध अ. प. ११६९. यदा तु त्वेकमेव कश्चिच्छब्दमवगृह्णाति तदाऽभवत्प्रहः । नं. सू. (म. वृत्ति) ३६.

३ विधशब्दः प्रकारवाची । स. सि. १, १६. त. रा. १, १६, ७.

४ ध. अ. प. ११६९. पृच्छश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिसानिधाने सति ततादिशब्दविकल्पस्य प्रत्येकमेक-द्वि-त्रि-चतुः-संख्येयासंख्येयानन्तगुणस्यावग्राहकत्वाद् बहुविधमवगृह्णाति । त. रा. १, १६, १५. शंख-पटहादि-नानाशब्दसमूहमध्ये एकैकं शब्दमनेकैः पर्यायैः स्निग्ध-गाम्भीर्यादिभिर्विशिष्टं यथावस्थितं यदाऽवगृह्णाति तदा स बहु-विधावग्रहः । नं. सू. (म. वृत्ति) ३६.

बहुविधः । न चायमसिद्धः, उपलभ्यमानत्वात् । न चोपलंभोऽपह्नातुं पार्यते, अव्यवस्थापत्तेः, जातिविषयबहुप्रत्ययनिबन्धनबहुवचनव्यवहाराभावापत्तेश्च ।

एकजातिविषयत्वादेतत्प्रतिपक्षः प्रत्ययः एकविधः । न चैकप्रत्ययेऽस्यान्तर्भावस्तस्य व्यक्तिगतैकत्ववर्तित्वात्, एतस्य चानेकव्यक्त्यनुविद्वैकजातिवर्तित्वात् । क्षिप्रवृत्तिः प्रत्ययः क्षिप्रः^१ । अभिनवशरावगतोदकवत् शनैः परिच्छिदानः अक्षिप्रप्रत्ययः^२ । वस्त्वेकदेशमवलम्ब्य साकल्येन वस्तुग्रहणं वस्त्वेकदेशं समस्तं वा अवलम्ब्य तत्रासन्निहितवस्त्वंतरविषयोऽप्यनिःसृत-प्रत्ययः^३ । न चायमसिद्धः, घटार्वाग्भागमवलम्ब्य क्वचिद्घटप्रत्ययस्य उत्पत्त्युपलंभात्,

शीत आदि स्पर्शोंमें एक साथ रहनेवाला स्पर्शज बहुविध प्रत्यय है । यह प्रत्यय असिद्ध नहीं है, क्योंकि, वह पाया जाता है । और जिसकी प्राप्ति है उसका अपह्नव नहीं किया जा सकता, क्योंकि, ऐसा करनेमें अव्यवस्थाकी आपत्तिके साथ जातिविषयक बहुप्रत्ययके निमित्तसे होनेवाले बहुवचनके भी व्यवहारके अभावकी आपत्ति आवेगी ।

एक जातिको विषय करनेके कारण इसके प्रतिपक्षभूत प्रत्ययको एकविध कहते हैं । इसका अन्तर्भाव एकप्रत्ययमें नहीं हो सकता, क्योंकि, वह (एकप्रत्यय) व्यक्तिगत एकतामें सम्बद्ध रहनेवाला है और यह अनेक व्यक्तियोंमें सम्बद्ध एक जातिमें रहनेवाला है । क्षिप्रवृत्ति अर्थात् शीघ्रतासे वस्तुको ग्रहण करनेवाला प्रत्यय क्षिप्र कहा जाता है । नवीन सकोरेमें रहनेवाले जलके समान धीरे वस्तुको ग्रहण करनेवाला अक्षिप्र प्रत्यय है । वस्तुके एक देशका अवलम्बन करके पूर्ण रूपसे वस्तुको ग्रहण करनेवाला तथा वस्तुके एक देश अथवा समस्त वस्तुका अवलम्बन करके वहां अविद्यमान अन्य वस्तुको विषय करनेवाला भी अनिःसृत प्रत्यय है । यह प्रत्यय असिद्ध नहीं है, क्योंकि, घटके अर्वाग्भागका अवलम्बन करके कहीं घटप्रत्ययकी उत्पत्ति पायी जाती है, कहींपर ' गायके समान गर्वय होता है '

१ एकजातिविषयः प्रत्ययः एकविधः । न चैकविधैकप्रत्ययोरेकत्वम्, जाति-व्यक्तयोरेकत्वाभावात्-स्तद्विषयप्रत्ययोरेकत्वाभावात् । ध. अ. प. ११६९. - अत्यविशुद्धिश्चोत्रेन्द्रियादिपरिणामकारण आत्मा ततादिशब्दानामेकविधावग्रहणादेकविधमवगृह्णाति । त. रा. १, १६, १५. यदा त्वेकमनेकं वा शब्दमेकप्रत्ययविशिष्टमवगृह्णाति तदा सोऽबहुविधावग्रहः । नं. सू. (म. वृत्ति) ३६.

२ आश्वर्थग्राही क्षिप्रप्रत्ययः । ध. अ. प. ११६९.

३ ध. अ. प. ११६९.

४ वस्त्वेकदेशस्य आलम्बनीभूतस्य ग्रहणकाले एकवस्तुप्रतिपत्तिः वस्त्वेकदेशप्रतिपत्तिकालएव वा दृष्टान्तमुखेन अन्यथा वा अनवलम्बितवस्तुप्रतिपत्तिः अनुसंधानः प्रत्ययः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययश्च अनिःसृतप्रत्ययः । ध. अ. प. ११६९. - विशुद्धिश्चोत्रादिपरिणामात्साकल्येनानुच्चारितस्य ग्रहणादनिःसृतमवगृह्णाति । नि सृतं प्रतीतम् । त. रा. १, १६, १५ तमेव शब्दं स्वरूपेण यदा जानाति, न लिंगपरिग्रहान्, तदाऽनिश्रितावग्रहः । लिंगपरिग्रहेण त्ववगच्छतो निश्रितावग्रहः । अथवा परधर्मेर्विश्रितं. यदग्रहणं तन्मिश्रितावग्रहः । यत्पुनः परधर्मेरमिश्रितस्य ग्रहणं तद-मिश्रितावग्रहः । नं. सू. (म. वृत्ति) ३६.

क्वचिद्वर्गागमैकदेशमवलम्ब्य तदुत्पत्त्युपलंभात्, क्वचिद् गौरिव गवय इत्यन्यथा वा एक-
वस्त्ववलम्ब्य तत्रासन्निहितवस्त्वन्तरविषयप्रत्ययोत्पत्त्युपलंभात्, क्वचिद्वर्गागमग्रहणकाल एव
परभागग्रहणोपलंभात् । न चायमसिद्धः, वस्तुविषयप्रत्ययोत्पत्त्यन्यथानुपपत्तेः । न चार्वागभाग-
मात्रं वस्तु, तत एव अर्थक्रियाकर्तृत्वानुपलंभात् । क्वचिदेकवर्णश्रवणकाल एव अभिधास्य-
मानवर्णविषयप्रत्ययोत्पत्त्युपलंभात्, क्वचित्स्वभ्यस्तप्रदेशे एकस्पर्शोपलंभकाल एव स्पर्शान्तर-
विशिष्टतद्वस्तुप्रदेशान्तरोपलंभात्, क्वचिदेकरसग्रहणकाल एव तत्प्रदेशासन्निहितरसान्तरविशिष्ट-
वस्तुपलंभात् । निःसृतमित्यपरे पठन्ति । तैरुपमाप्रत्यय एक एव संगृहीतः स्यात्, ततोऽसौ नेष्यते^१ ।
एतत्प्रतिपक्षो निःसृतप्रत्ययः, तथा क्वचित्कदाचिदुपलभ्यते च वस्त्वेकदेशे आलम्बनीभूते
प्रत्ययस्य वृत्तिः । इन्द्रियप्रतिनियतगुणविशिष्टवस्तुपलंभकाल एव तदिन्द्रियानियतगुणविशिष्टस्य

अर्वागभागके एकदेशका अवलम्बन करके उक्त प्रत्ययकी उत्पत्ति पायी जाती है, कहींपर 'गायके समान गवय होता है' इस प्रकार अथवा अन्य प्रकारसे एक वस्तुका अवलम्बन करके वहां समीपमें न रहनेवाली अन्य वस्तुको विषय करने-वाले प्रत्ययकी उत्पत्ति पायी जाती है, कहींपर अर्वागभागके ग्रहणकालमें ही परभागका ग्रहण पाया जाता है । और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, अन्यथा वस्तुविषयक प्रत्ययकी उत्पत्ति वन नहीं सकती । तथा अर्वागभाग मात्र वस्तु हो नहीं सकती, क्योंकि, उतने मात्रसे अर्थक्रियाकारित्व नहीं पाया जाता । कहींपर एक वर्णके श्रवणकालमें ही आगे उच्चारण किये जानेवाले वर्णोंको विषय करनेवाले प्रत्ययकी उत्पत्ति पायी जाती है, कहींपर अपने अभ्यस्त प्रदेशमें एक स्पर्शके ग्रहणकालमें ही अन्य स्पर्श विशिष्ट उस वस्तुके प्रदेशान्तरोंका ग्रहण होता है, तथा कहींपर एक रसके ग्रहणकालमें ही उन प्रदेशोंमें नहीं रहनेवाले रसान्तरसे विशिष्ट वस्तुका ग्रहण होता है । दूसरे आचार्य 'निःसृत' ऐसा पढ़ते हैं । उनके द्वारा उपमा प्रत्यय एक ही संग्रहीत होगा, अतः वह इष्ट नहीं है । इसका प्रतिपक्षभूत निःसृतप्रत्यय है, क्योंकि, कहींपर किसी कालमें आलम्बनीभूत वस्तुके एक देशमें उतने ही ज्ञानका अस्तित्व पाया जाता है ।

इन्द्रियके प्रतिनियत गुणसे विशिष्ट वस्तुके ग्रहणकालमें ही उस इन्द्रियके अप्रति-

१ निःसृतमित्यपरे पठन्ति ... घ. अ. प. ११६९. अपरेषां क्षिप्रनिःसृत इति पाठः । त एवं वर्णयन्ति—
श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दमवगृह्यमाणं मयूरस्य कुरुरस्य वेति कश्चिन् प्रतिपद्यते । अपरः स्वरूपमेवानिःसृत इति ।
स. सि. १, १६.

तस्योपलब्धिर्यतः सोऽनुक्तप्रत्ययः^१ । न चायमसिद्धः, चक्षुषा लवण-शर्करा-खंडोपलंभकाल एव कदाचित्तद्रसोपलंभात्, दध्नी^२ गंधग्रहणकाल एव तद्रसावगतेः, प्रदीपस्य रूपग्रहणकाल एव कदाचित्तत्स्पर्शोपलंभादाहितसंस्कारस्य कस्यचिच्छब्दग्रहणकाल^३ एव तद्रसादिप्रत्ययो-त्पत्त्युपलंभाच्च । एतत्प्रतिपक्षः उक्तप्रत्ययः ।

निःसृतोक्तयोः को भेदश्चेन्न, उक्तस्य निःसृतानिःसृतोभयरूपस्य तेनैकत्वविरोधात्^४ । स एवायमहमेव स इति प्रत्ययो ध्रुवः^५ । तत्प्रतिपक्षः प्रत्ययः अध्रुवः^६ । मनसोऽनुक्तस्य को

नियत गुणसे विशिष्ट उस वस्तुका ग्रहण जिससे होता है वह अनुक्तप्रत्यय है । यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, चक्षुसे लवण, शर्करा व खांडके ग्रहणकालमें ही कभी उनके रसका ज्ञान हो जाता है, दहीके गन्धके ग्रहणकालमें ही उसके रसका ज्ञान हो जाता है, दीपके रूपके ग्रहणकालमें ही कभी उसके स्पर्शका ग्रहण हो जाता है, तथा शब्दके ग्रहणकालमें ही संस्कार युक्त किसी पुरुषके उसके रसादिविषयक प्रत्ययकी उत्पत्ति भी पायी जाती है । इसके प्रतिपक्ष रूप उक्तप्रत्यय है ।

शंका—निःसृत और उक्तमें क्या भेद है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उक्त प्रत्यय निःसृत और अनिःसृत दोनों रूप है । अतः उसका निःसृतेके साथ एकत्व होनेका विरोध है ।

‘ यह वही है, वह मैं ही हूं ’ इस प्रकारका प्रत्यय ध्रुव कहलाता है । इसका प्रतिपक्षभूत प्रत्यय अध्रुव है ।

शंका—मनसे अनुक्तका क्या विषय है ?

१ ध. अ. प. ११६९. प्रकृष्टविशुद्धिश्रोत्रेन्द्रियादिपरिणामकारणादिकवर्णनिर्गमोऽपि अमिप्रायेणैवानुच्चारितं शब्दमवग्रह्णाति ‘इमं भवान् शब्दं वक्ष्यति’ इति । अथवा, स्वरसंचरणात् प्राक् तन्त्रीद्रव्यातोद्यायामर्शनेनैव वादित-मनुक्तमेव शब्दममिप्रायेणावगृह्णाऽऽचष्टे भवानिमं शब्दं वादयिष्यतीति । त. रा. १, १६, १५.

२ प्रतिषु ‘ दध्ना ’ इति पाठः ।

३ ध. अ. प. ११६९. तत्र ‘ तेन ’ स्थाने ‘ निःसृतेन ’ इति पाठः ।

४ नित्यत्वविशिष्टस्तम्भादिप्रत्ययः स्थिरः । ध. अ. प. ११६९. संक्लेशपरिणामनिःसृतस्य (?) यथानुरूप-श्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिपरिणामकारणावस्थितत्वाद्यथा प्राथमिकं शब्दग्रहणं तथावस्थितमेव शब्दमवगृह्णाति, नोर्न नाम्यधिकम् । त. रा. १, १६, १५. सर्वदैव ब्रह्मादिरूपेणावगृह्णतो ध्रुवावग्रहः । नं. सू. (म. वृत्ति) ३६.

५ विद्युत्प्रदीपज्वालादौ उत्पाद-विनाशविशिष्टवस्तुप्रत्ययः अध्रुवः, उत्पाद-व्यय औव्यविशिष्टवस्तुप्रत्ययोऽपि अध्रुवः; ध्रुवात्पृथग्भूतत्वात् । ध. अ. प. ११३९. पौनःपुन्येन संक्लेश विशुद्धिपरिणामकारणापेक्षस्यात्मनो यथानु-रूपपरिणामोपात्तश्रोत्रेन्द्रियसामिध्येऽपि तदावरणस्येवदीर्घदाविर्भावात् । पौनःपुनिकं प्रकृष्टावकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणादि-क्षयोपशमपरिणामत्वाच्चाध्रुवमवगृह्णाति । त. रा. १, १६, १५. कदाचिदेव पुनर्वह्नादिरूपेणावगृह्णतोऽध्रुवावग्रहः । नं. सू. (म. वृत्ति) ३६.

विषयश्चेददृष्टमश्रुतं^१ च । न च तस्य तत्र वृत्तिरसिद्धा, उपदेशमंतरेण द्वादशांगश्रुतावगमान्यथानुपपत्तितस्तस्य तत्सिद्धेः ।

इदानीमुच्चार्य प्रदर्शयन्ते । तद्यथा — चक्षुषा बहुमवगृह्णाति, चक्षुषा एकमवगृह्णाति, चक्षुषा बहुविधमवगृह्णाति, चक्षुषा एकविधमवगृह्णाति, चक्षुषा क्षिप्रमवगृह्णाति, चक्षुषा अक्षिप्रमवगृह्णाति, चक्षुषा अनिःसृतमवगृह्णाति, चक्षुषा निःसृतमवगृह्णाति, चक्षुषा अनुक्तमवगृह्णाति, चक्षुषा उक्तमवगृह्णाति, चक्षुषा ध्रुवमवगृह्णाति, चक्षुषा अध्रुवमवगृह्णाति । एवं चक्षुरिन्द्रियावग्रहो द्वादशविधः । ईहावायधारणाश्च^२ प्रत्येकं चक्षुषो द्वादशविधा भवन्ति । तद्यथा— बहुमीहते, एकमीहते, बहुविधमीहते, एकविधमीहते, क्षिप्रमीहते, अक्षिप्रमीहते, निःसृतमीहते, अनिःसृतमीहते, उक्तमीहते, अनुक्तमीहते, ध्रुवमीहते, अध्रुवमीहते । एवमीहाभेदाः । बहुमवैति, एकमवैति, बहुविधमवैति, एकविधमवैति, क्षिप्रमवैति, अक्षिप्रमवैति,

समाधान—अदृष्ट और अश्रुत पदार्थ उसका विषय है । और उसका वहां रहना असिद्ध नहीं है, क्योंकि, उपदेशके बिना अन्यथा द्वादशांग श्रुतका ज्ञान नहीं बन सकता; अतएव उसका अदृष्ट व अश्रुत पदार्थमें रहना सिद्ध है ।

अब ये भेद उच्चारण करके दिखलाये जाते हैं । वह इस प्रकारसे—चक्षुसे बहुतका अवग्रह करता है, चक्षुसे एकका अवग्रह करता है, चक्षुसे बहुत प्रकारका अवग्रह करता है, चक्षुसे एक प्रकारका अवग्रह करता है, चक्षुसे क्षिप्रका अवग्रह करता है, चक्षुसे अक्षिप्रका अवग्रह करता है, चक्षुसे अनिःसृतका अवग्रह करता है, चक्षुसे निःसृतका अवग्रह करता है, चक्षुसे अनुक्तका अवग्रह करता है, चक्षुसे उक्तका अवग्रह करता है, चक्षुसे ध्रुवका अवग्रह करता है, चक्षुसे अध्रुवका अवग्रह करता है । इस प्रकार चक्षुरिन्द्रियावग्रह बारह प्रकार है ।

ईहा, अवाय और धारणा इनमेंसे प्रत्येक चक्षुके निमित्तसे बारह प्रकार है । वह इस प्रकारसे—बहुतका ईहा करता है, एकका ईहा करता है, बहुविधका ईहा करता है, एकविधका ईहा करता है, क्षिप्रका ईहा करता है, अक्षिप्रका ईहा करता है, निःसृतका ईहा करता है, अनिःसृतका ईहा करता है, उक्तका ईहा करता है, अनुक्तका ईहा करता है, ध्रुवका ईहा करता है, अध्रुवका ईहा करता है । इस प्रकार ये ईहाके भेद हैं । बहुतका अवाय करता है, एकका अवाय करता है, बहुविधका अवाय करता है, एकविधका अवाय करता है, क्षिप्रका अवाय करता है, अक्षिप्रका अवाय

१ ध. अ. प. ११६९. तत्र 'अश्रुतम्' इत्येतस्याभि 'अनश्रुतम्' इत्यधिकं पदम् ।

२ प्रतिशु 'ईहावायाधारणाश्च' इति पाठः ।

निःसृतमवैति, अनिःसृतमवैति, उक्तमवैति, अनुक्तमवैति, ध्रुवमवैति, अध्रुवमवैति । इति अवाय-
भेदाः । बहुं धारयति, एकं धारयति, बहुविधं धारयति, एकविधं धारयति, क्षिप्रं
धारयति, अक्षिप्रं धारयति, निःसृतं धारयति, अनिःसृतं धारयति, उक्तं धारयति, अनुक्तं
धारयति, ध्रुवं धारयति, अध्रुवं धारयति । एवं चक्षुरिन्द्रियस्याष्टचत्वारिंशन्मतिज्ञानभेदाः ।
मनसोऽप्येतावन्त एव, अनयोर्व्यंजनावग्रहाभावात् । शेषेन्द्रियाणां प्रत्येकं षष्टिभंगाः, तेषां
व्यंजनावग्रहस्य सत्वात् । त एते सर्वेऽप्येकध्वमुपनीताः त्रीणि शतानि षट्त्रिंशदधिकानि
भवन्ति ।

कोऽर्थावग्रहो व्यंजनावग्रहो वा ? अप्राप्तार्थग्रहणमर्थावग्रहः^१, प्राप्तार्थग्रहणं व्यंजनाव-
ग्रहः^२ । न स्पष्टास्पष्टग्रहणे अर्थ-व्यंजनावग्रहौ, तयोश्चक्षुर्मनसोरपि सत्त्वतस्तत्र व्यंजनावग्रहस्य

करता है, निःसृतका अवाय करता है, अनिःसृतका अवाय करता है, उक्तका अवाय करता
है, अनुक्तका अवाय करता है, ध्रुवका अवाय करता है, अध्रुवका अवाय करता है । इस
प्रकार ये अवायके भेद हैं । बहुतको धारण करता है, एकको धारण करता है, बहुविधको
धारण करता है, एकविधको धारण करता है, क्षिप्रको धारण करता है, अक्षिप्रको धारण
करता है, निःसृतको धारण करता है, अनिःसृतको धारण करता है, उक्तको धारण करता
है, अनुक्तको धारण करता है, ध्रुवको धारण करता है, अध्रुवको धारण करता है । इस
प्रकार चक्षु इन्द्रियके निमित्तसे अड़तालीस मतिज्ञानके भेद होते हैं । मनके निमित्तसे भी
इतने ही भेद होते हैं, क्योंकि, इन दोनोंके व्यंजनावग्रह नहीं होता । शेष चार इन्द्रियोंमें
प्रत्येकके निमित्तसे साठ भंग होते हैं, क्योंकि, उनके व्यंजनावग्रह होता है । वे ये सब
एकत्रित होकर तीनसौ छत्तीस (४८ + ४८ + ६० + ६० + ६० + ६० = ३३६) होते हैं ।

शंका—अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं ?

समाधान—अप्राप्त पदार्थके ग्रहणको अर्थावग्रह और प्राप्त पदार्थके ग्रहणको
व्यंजनावग्रह कहते हैं ।

स्पष्टग्रहणको अर्थावग्रह और अस्पष्टग्रहणको व्यंजनावग्रह नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि, स्पष्टग्रहण और अस्पष्टग्रहण तो चक्षु और मनके भी रहता है, अतः ऐसा माननेपर

१ घ. अ. प. ११६८. तत्र अर्थ्यते इत्यर्थः, अर्थस्य अवग्रहणं अर्थावग्रहः—सकलरूपादिविशेषनि-
पेक्षानिर्देश्यसामान्यमात्ररूपार्थग्रहणमेकसामयिकमित्यर्थः । नं. सू. (म. वृत्ति) २८.

२ घ. अ. प. ११६४. व्यंजनमव्यक्तं शब्दादिजातम्, तस्यावग्रहो भवति । सं. सि. १, १८. व्यज्यते
अनेनार्थः प्रदीपेनेव घट इति व्यञ्जनम्, तच्चोपकरणेन्द्रियस्य श्रोत्रादेः शब्दादिपरिणतद्रव्याणां च परस्परं सम्बन्धः ।
सम्बन्धे हि सति सोऽर्थः शब्दादिरूपः श्रोत्रादीन्द्रियेण व्यञ्जयितुं शक्यते, नान्यथा । ततः सम्बन्धो व्यञ्जनम् ।

सत्त्वप्रसंगात् । अस्तु चेन्न, 'न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्' इति तत्र व्यञ्जनावग्रहस्य प्रतिषेधात् । न शनैर्ग्रहणं व्यञ्जनावग्रहः, चक्षुर्मनसोरपि तदस्तित्वतस्तयोर्व्यञ्जनावग्रहस्य सत्त्वप्रसंगात् । न च तत्र शनैर्ग्रहणमसिद्धमक्षिप्रभंगाभावे अष्टचत्वारिंशच्चक्षुर्मतिज्ञानभेदस्यासत्त्वप्रसंगात् । न श्रोत्रादीन्द्रियचतुष्टये अर्थावग्रहः, तत्र प्राप्तस्यैवार्थस्य ग्रहणोपलम्भादिति चेन्न, वनस्पतिष्वप्राप्तार्थग्रहणस्योपलम्भात् । तदपि कुतोऽवगम्यते ? दूरस्थनिधिमुद्दिश्य प्रारोहमुक्त्यन्यथानुपपत्तेः^१ ।

उन दोनोंके भी व्यञ्जनावग्रहके अस्तित्वका प्रसंग आवेगा । परन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि, 'चक्षु और मनसे व्यञ्जन पदार्थका अवग्रह नहीं होता' इस प्रकार सूत्र द्वारा उन दोनोंके व्यञ्जनावग्रहका प्रतिषेध किया गया है । यदि कहो कि धीरे धीरे जो ग्रहण होता है वह व्यञ्जनावग्रह है, सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि इस प्रकारके ग्रहणका अस्तित्व चक्षु और मनके भी है, अतः उनके भी व्यञ्जनावग्रहके रहनेका प्रसंग आवेगा । और उन दोनोंमें शनैर्ग्रहण असिद्ध नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेसे अक्षिप्र भंगका अभाव होनेपर चक्षुनिमित्तक अट्टालीस मतिज्ञानके भेदोंके अभावका प्रसंग आवेगा ।

शंका—श्रोत्रादिक चार इन्द्रियोंमें अर्थावग्रह नहीं है, क्योंकि, उनमें प्राप्त ही पदार्थका ग्रहण पाया जाता है ?


समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, वनस्पतियोंमें अप्राप्त अर्थका ग्रहण पाया जाता है ।

शंका—वह भी कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, दूरस्थ निधि (खाद्य आदि) को लक्ष्य कर प्रारोह (शाखा) का छोट्टना अन्यथा ग्रन नहीं सकता ।

तथा चाह भाष्यकृन्—'वज्जिज्जं जेणइत्थो घटो व दीवेण वंजणं तं च । उवगरणिंदियसद्वाइपरिणयहव्वसंवंधो' ॥ [वि. मा. १९४] । व्यञ्जनन-सम्बन्धेनावग्रहणम्—सम्बन्धमानस्य शब्दादिरूपस्यार्थस्याव्यक्तरूपः परिच्छेदो व्यञ्जनावग्रहः । अथवा, व्यञ्जन्ते इति व्यञ्जनानि, 'कृद् बहुलम्' इति वचनात् कर्मण्यनट्, व्यञ्जनानां शब्दादिरूपतया परिणतानां द्रव्याणामुपकरणेन्द्रियसम्प्राप्तानामवग्रहः—अव्यक्तरूपः परिच्छेदो व्यञ्जनावग्रहः । व्यञ्ज्यतेऽनेनार्थः प्रदीपेनेव घट इति व्यञ्जनम्—उपकरणेन्द्रियम्, तेन सम्बद्धस्यार्थस्य—शब्दादेरवग्रहणम्—अव्यक्तरूपः परिच्छेदो व्यञ्जनावग्रहः । इयमत्र भावना—उपकरणेन्द्रियशब्दादिपरिणतद्रव्यसम्बन्धे प्रथमसमयादारम्यार्थविग्रहात् प्राक् या सुप्त-मत्त-मूर्च्छितादिपुरुषाणामिव शब्दादिद्रव्यसम्बन्धमात्रविषया काचिदव्यक्ता ज्ञानमात्रा सा व्यञ्जनावग्रहः । न. स. (म. वृत्ति) २८.

१ [मन-] अक्षुर्भ्या व्यतिरिक्तेष्विन्द्रियेष्वप्राप्तार्थग्रहणं नोपलभ्यते इति चेन्न, धवस्याप्राप्तनिधिमाहिण उपलम्भात् अलावृत्त्यादीनामप्राप्तवृत्तिवृक्षादिग्रहणोपलम्भात् । ध. अ. प. ११६४.



चत्तारि धणुसयाइं चउसट्ट सयं च तह य धणुहाणं ।
 पासे रसे यं गंधे दुगुणा दुगुणा असणि ति ॥ ४८ ॥
 उणतीसजोयणसया चउवण्णा तह य होंति णायव्वा ।
 चउरिदियस्स णियमा चक्खुप्फासो सुणियमेण^१ ॥ ४९ ॥
 उणसट्ठिजोयणसया अट्ट य तह जोयणा मुणेयव्वा ।
 पंचिदियसण्णीणं चक्खुप्फासो मुणेयव्वो ॥ ५० ॥
 अट्टेव धणुसहस्सा विसओ सोदस्स तह असणिस्स ।
 इय एदे णायव्वा पोग्गलपरिणामजोएण^२ ॥ ५१ ॥
 पासे रसे यं गंधे विसओ णव जोयणा मुणेयव्वा ।
 वारह जोयण सोदे चक्खुस्सुट्ठं पक्खामि ॥ ५२ ॥
 सत्तेतालसहस्सा वे चेव सया हवंति तेवट्ठा ।
 चक्खिदियस्स विसओ उक्कस्सो होदि अदिरित्तो^३ ॥ ५३ ॥

चार सौ धनुष, चौंसठ धनुष तथा सौ धनुष प्रमाण क्रमसे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय जीवोंका स्पर्श, रस एवं गन्ध विषयक क्षेत्र है। आगे असंक्षी पर्यन्त यह विषयक्षेत्र दूना दूना होता गया है ॥ ४८ ॥

चतुरिन्द्रिय जीवके चक्षु इन्द्रियका विषय नियमसे उनतीस सौ चौवन योजन प्रमाण है ॥ ४९ ॥

पंचेन्द्रिय संक्षी जीवोंके चक्षु इन्द्रियका विषय उनसठ सौ आठ योजन प्रमाण जानना चाहिये ॥ ५० ॥

असंक्षी पंचेन्द्रिय जीवके श्रोत्रका विषय आठ हजार धनुष प्रमाण है। इस प्रकार पुद्गलपरिणाम योगसे ये विषय जानना चाहिये ॥ ५१ ॥

संक्षी पंचेन्द्रिय जीवोंके स्पर्श, रस वं गन्ध विषयक क्षेत्र नौ योजन प्रमाण तथा श्रोत्रका वारह योजन प्रमाण जानना चाहिये। चक्षुके विषयको आगे कहते हैं ॥ ५२ ॥

चक्षु इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय सैंतालीस हजार दो सौ तिरेसठ योजनसे कुछ अधिक [३०] है ॥ ५३ ॥

१ प्रतिपु ' सुणियमेण ' इति पाठः ।

२ धणुवीसड्ढसयकदी जोयणछादालहीणतिसहस्सा । अट्टसहस्स धणूणं विसया दुगुणा असणि ति ॥ गो. जी. १६७.

३ सणिस्स वार सोदे तिप्पे णव जोयणाणि चक्खुस्स । सत्तेताल सहस्सा वेसदत्तेसट्ठिमदिरिया ॥ गो. जी. १६८. भ. भ. प. ११६७.

इति आगमाद्वा तेषामप्राप्तार्थग्रहणमवगम्यते । नवयोजनान्तरस्थितपुद्गलद्रव्यस्कन्धैक-
देशमागम्येन्द्रियसंनद्धं जानन्तीति केचिदाचक्षते । तन्न घटते, अध्वानप्ररूपणायाः वैफल्य-
प्रसंगात् । न चाध्वानं द्रव्याल्पीयस्त्वस्य कारणम्, स्वमहत्वापरित्यागेन भूयो योजनानि संचरज्जी-
मूतत्रातोपलंभतोऽनेकांतात् । किं च यदि प्राप्तार्थग्राहिण्येवेन्द्रियाण्यध्वाननिरूपणमंतरेण द्रव्य-
प्रमाणप्ररूपणमेवाकरिष्यत् । न चैवम्, तथानुपलंभात् । किं च नवयोजनांतरस्थिताग्नि-विषाम्यां-
तीव्रस्पर्श-रसक्षयोपशमानां दाह-मरणे स्याताम्, प्राप्तार्थग्रहणात् । तावन्मात्राध्वानस्थिताशुचि-
मक्षणतद्गन्धजानितदुःखे च तत एव स्याताम् ।

पुट्टं सुणेइ सद्धं अप्पुट्टं चैय पत्सदे रुवं ।

गंधं रसं च फासं वद्धं पुट्टं च जाणादि' ॥ ५४ ॥

इत्यस्मात्पुत्रात्प्राप्तार्थग्राहित्वमिन्द्रियाणामवगम्यत इति चेन्न, अर्थावग्रहस्य लक्षणा-

इस आगमसे भी उक्त चार इन्द्रियोंके अप्राप्त पदार्थका ग्रहण जाना जाता है ।
नौ योजनके अन्तरसे स्थित पुद्गल द्रव्य स्कन्धके एक देशको प्राप्त कर इन्द्रियसम्यक्
अर्थको जानते हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि,
ऐसा माननेपर अध्वानप्ररूपणाके निष्फल होनेका प्रसंग आता है । और अध्वान द्रव्यकी
सूक्ष्मताका कारण नहीं है, क्योंकि, अपने महान् परिमाणको न छोड़कर बहुत योजनों
तक गमन करते हुए मेघसमूहके देखे जानेसे हेतु अनैकान्तिक होता है । दूसरे, यदि
इन्द्रियां प्राप्त पदार्थको ग्रहण करनेवाली ही होतीं तो अध्वानका निरूपण न करके
द्रव्यप्रमाणकी प्ररूपणा ही की जाती । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं
जाता । इसके अतिरिक्त नौ योजनके अन्तरमें स्थित अग्नि और विषसे स्पर्श और रसके
तीव्र क्षयोपशमसे युक्त जीवोंके क्रमशः दाह और मरण होना चाहिये, क्योंकि,
इन्द्रियां प्राप्त पदार्थका ग्रहण करनेवाली हैं । और इसी कारण उतने मात्र अध्वानमें
स्थित अशुचि पदार्थके भक्षण और उसके गन्धसे उत्पन्न दुख भी होना चाहिये ।

शंका—श्रोत्रसे स्पृष्ट शब्दको सुनता है । परन्तु चक्षुसे रूपको अस्पृष्ट ही
देखता है । शेष इन्द्रियोंसे गन्ध, रस और स्पर्शको बद्ध व स्पृष्ट जानता है ॥ ५४ ॥

इस सूत्रसे इन्द्रियोंके प्राप्त पदार्थका ग्रहण करना जाना जाता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेपर अर्थावग्रहके लक्षणका अभाव

१ स. सि. १, १९. त. रा १, १९, ३. तत्र 'वद्धं पुट्टं-च' इत्येतस्य स्थाने 'पुट्टं पुट्टं' इति पाठः ।
पुट्टं सुणेइ सद्धं रुवं पुण पासद्धं अपुट्टं तु । गंधं रसं च फासं च वद्धपुट्टं त्रियागरे ॥ त्रि. मा. ३३६ (ति. ५).

भावतः खरविषाणस्येवाभावप्रसंगात् । कथं पुनरस्या गाथाया अर्थो व्याख्यायते ? उच्यते—
रूपमस्पृष्टमेव चक्षुर्गृह्णाति । चशब्दान्मनश्च । गंधं रसं स्पर्शं च बद्धं स्वक-स्वकेन्द्रियेषु
नियमितं पुट्टं स्पृष्टं चशब्दादस्पृष्टं च शेषेन्द्रियाणि गृह्णन्ति । पुट्टं सुणेइ सद्दं इत्यत्रापि बद्ध-
च-शब्दौ योज्यौ, अन्यथा दुर्व्याख्यानतापत्तेः^१ । एवं मतिज्ञानं संक्षेपेण प्ररूपितम् ।

इदानीं श्रुतस्वरूपमुच्यते — श्रुतशब्दो जहत्स्वार्थवृत्तिः कुशलशब्दवत्^२ । यथा कुशल-
शब्दः कुशलवनकर्म प्रतीत्य व्युत्पादितः सर्वत्र पर्यवदाते वर्तते, तथा श्रुतशब्दोऽपि श्रवणमुपादाय
व्युत्पादितो रूढिवशात्कस्मिंश्चिद्ज्ञानविशेषे वर्तते, न श्रवणोत्पन्नज्ञान एव । तदपि श्रुतज्ञानं

होनेसे गधेके सींगके समान उसके अभावका प्रसंग आवेगा ।

शंका—फिर इस गाथाके अर्थका व्याख्यान कैसे किया जाता है ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं— चक्षु रूपको अस्पृष्ट ही ग्रहण
करती है, च शब्दसे मन भी अस्पृष्ट ही वस्तुको ग्रहण करता है । शेष इन्द्रियां
गन्ध, रस और स्पर्शको बद्ध अर्थात् अपनी अपनी इन्द्रियोंमें नियमित व स्पृष्ट ग्रहण
करती हैं, च शब्दसे अस्पृष्ट भी ग्रहण करती हैं । ‘स्पृष्ट शब्दको सुनता है’ यहां
भी बद्ध और च शब्दोंको जोड़ना चाहिये, क्योंकि, ऐसा न करनेसे दूषित व्याख्यानकी
आपत्ति आती है । इस प्रकार संक्षेपसे मतिज्ञानकी प्ररूपणा की है ।

अब श्रुत ज्ञानके स्वरूपको कहते हैं— श्रुत शब्द कुशल शब्दके समान जहत्स्वार्थवृत्ति
(लक्षणाविशेष) है । जैसे कुशल काटने रूप कियाका आश्रय करके सिद्ध किया गया
कुशल शब्द [उक्त अर्थको छोड़कर] सब जगह ‘पर्यवदात’ अर्थमें आता है, उसी प्रकार श्रुत
शब्द भी श्रवण कियाको लेकर सिद्ध होता हुआ रूढिवशसे किसी ज्ञानविशेषमें रहता है,
न कि केवल श्रवणसे उत्पन्न ज्ञानमें ही । वह भी श्रुतज्ञान मतिपूर्वक अर्थात् मतिज्ञानके

१ पुट्टं— आलिंगियं रेणुं व तण्णमि, शृणोति गृह्णात्युपलभत इति पर्यायाः । कम् ? शब्दोऽनेनेति शब्दः
तं, शब्दप्रायोग्यां द्रव्यसंहतिमित्यर्थः, तस्य बहुसंख्यमात्रकत्वात् । ×××× बद्धं— आत्मीकृतमात्मप्रदेशैस्तोय-
वदाश्लिष्टमित्यर्थः, ‘पुट्टं’ तु पूर्ववत् । प्राकृतशैल्या चेत्यमाह ‘बद्धपुट्टं तु’ अर्थतस्तु ‘पुट्टबद्धं’ इति दृश्यम्,
अनुगुणत्वात् । ×××× भावार्थस्त्वयम्— स्पृष्टानन्तरमात्मप्रदेशैरागृहीतं गन्धादि वादत्त्वात् अभावकत्वादल्पद्रव्य-
रूपत्वात् प्राणादीनां चापट्टत्वात्, गृह्णाति विनिश्चिनोति प्राणेन्द्रियादिगण इत्येवं ‘व्यागृणीयात्’ प्रतिपादयेदिति
निर्गुक्तिगाथासमुद्दयार्थः । वि. मा. (शि. वृत्ति) ३३६.

मतिपूर्व, मतिकारणमिति यावत्, कार्यं पालयति पूरयतीति वा पूर्वशब्दनिष्पत्तेः^१ । मतिपूर्वत्वा-
विशेषात् श्रुताविशेष इति चेन्न, मतिपूर्वत्वाविशेषेऽपि प्रतिपुरुषं हि श्रुतावरणक्षयोपशमाः
बहुधा भिन्नाः, तद्भेदात् बाह्यनिमित्तभेदाच्च श्रुतस्य प्रकर्षाप्रकर्षयोगो भवेदिति^२ । यदा
शब्दपरिणतपुद्गलस्कन्धात् आहितवर्ण-पद-वाक्यादिभेदाच्च आद्यश्रुतविषयभावमापन्नादविना-
भाविनः कृतसंगीतिर्जनो घटाञ्जलधारणादिकार्यसम्बन्धन्तरं प्रतिपद्यते अन्यादेर्वा भस्मादिद्रव्यं
तदा श्रुताच्छ्रुतप्रतिपत्तिरिति कृत्वा मतिपूर्वत्वलक्षणमव्यापीति चेत्तन्न, व्यवहितेऽपि पूर्वशब्द-
प्रवृत्तेः । तद्यथा— पूर्व मथुरायाः पाटलिपुत्रमिति । ततः साक्षान्मतिपूर्वं परम्परामतिपूर्वमपि
मतिपूर्वग्रहणेन गृह्यते^३ ।

निमित्तसे होनेवाला है, क्योंकि, 'कार्यको जो पालन करता है अथवा पूर्ण करता है वह
पूर्व है' इस प्रकार पूर्व शब्द सिद्ध हुआ है ।

शंका — मतिपूर्वत्वकी समानता होनेसे श्रुतज्ञानमें कोई भेद नहीं होगा ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, मतिपूर्वत्वके समान होनेपर भी प्रत्येक पुरुषमें
श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशम बहुधा भिन्न होते हैं, अतः उनके भेदसे और बाह्य निमित्तोंके
भी भेदसे श्रुतके हीनाधिकताका सम्बन्ध होता है ।

शंका — जब वर्ण, पद एवं वाक्य आदि-भेदोंको धारण करनेवाले तथा आद्य
श्रुतविषयताको प्राप्त हुए अविनाभावी शब्दपरिणत पुद्गलस्कन्धसे संकेत युक्त पुरुष
घटसे जलधारणादि कार्य रूप अन्य सम्बन्धीको अथवा अग्नि आदिसे भस्म आदिको
जानता है तब श्रुतसे श्रुतका लाभ होता है, अतः श्रुतका मतिपूर्वत्व लक्षण अव्याप्ति
दोष युक्त (लक्ष्यके एक देशमें रहनेवाला) है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, व्यवधानके होनेपर भी पूर्व शब्दकी प्रवृत्ति
होती है । जैसे मथुरासे पूर्वमें पाटलिपुत्र है । इसलिये मतिपूर्व-ग्रहणसे साक्षात् मतिपूर्वक
और परम्परासे मतिपूर्वक भी ग्रहण किया जाता है ।

१ त. रा. १, २०; २. मदपुत्रं सुयपुत्रं न मई सुयपुत्रिया विसोऽयं । पुत्रं पूरण-पालनमात्राजो जं
मई तरस ॥ पूरिज्जद पालिज्जद दिज्जद वा जं मदपु णामइणा । पालिज्जइ य मईए गहियं इहरा पणसेज्जा ॥
वि. भा. १०५-६. २ त. रा. १, २०, ९.

३ यदा शब्दपरिणत ... पद-वाक्यादिभावाच्चक्षुरादिविषयाच्चाऽद्यश्रुतविषयभावमापन्नादविनाभाविनः
कृतसंगतिर्जनो ... धूमादन्वग्यादिद्रव्यं तदा ... लक्षणमव्यापीति तन्न, किं कारणम्, तस्यापचारतो मतित्वसिद्धेः ।
मतिपूर्वं हि श्रुतं क्वचिन्मतिरित्युपचर्यते । अथवा व्यवहिते पूर्वशब्दो वर्तते तद्यथा ... । त. रा. १, २०, १०.

तदपि द्विविधमंगमंगवाह्यमिति । अंगश्रुतमाचारादिभेदेन द्वादशविधम्, इतरश्च सामायिकादिभेदेन चतुर्दशविधम्, अथवा अनेकभेदम्; चक्षुरादिभ्यः समुत्पन्नस्य परिगणनाभावात् । कथं शब्दस्य तत्स्थापनायाश्च श्रुतव्यपदेशः ? नैष दोषः, कारणे कार्योपचारात् ।

अथवा, अनुगम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते इति अनुगमाः पङ्क्त्यव्याणि त्रिकोटिपरिणामात्मकपापञ्चविषयाविभ्राड्भावरूपाणि प्राप्तजात्यन्तराणि प्रमाणविषयतया अपसारितदुर्नयानि सविश्वरूपानन्तपर्यायसप्रतिपक्षविधिनियतभंगात्मकसत्तास्वरूपाणीति प्रतिपत्तव्यम् । एवमणुगमपरूवणा कदा ।

संपहि णयसरूवपरूवणा कीरदे— को नयो नाम ? ज्ञातुरभिप्रायो नयः^१ ।

वह श्रुतज्ञान दो प्रकार है — अंग और अंगवाह्य । अंगश्रुत आचार आदिके भेदसे बारह प्रकार और दूसरा सामायिक आदिके भेदसे चौदह प्रकार अथवा अनेक भेद रूप है, क्योंकि, चक्षु आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न उसकी गणनाका अभाव है ।

शंका—शब्द और उसकी स्थापनाकी श्रुत संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, कारणमें कार्यका उपचार करनेसे शब्द या उसकी स्थापनाकी श्रुत संज्ञा बन जाती है ।

अथवा ' जो जाने जाते हैं वे अनुगम हैं ' इस निरुक्तिके अनुसार त्रिकोटि स्वरूप (द्रव्य, गुण व पर्याय) पाखण्डियोंके अविषयभूत अविभ्राड्भावसम्बन्ध अर्थात् कथंचित् तादात्यसे सहित, जात्यन्तर स्वरूपको प्राप्त, प्रमाणके विषय होनेसे दुर्नयोंको दूर करनेवाले, अपनी नानारूप अनन्त पर्यायोंकी प्रतिपक्ष भूत असत्तासे सहित और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य स्वरूपसे संयुक्त ऐसे छह द्रव्य अनुगम हैं, ऐसा जानना चाहिये । इस प्रकार अनुगमकी प्ररूपणा की है ।

अब नयोंके स्वरूपकी प्ररूपणा करते हैं—

शंका—नय किसे कहते हैं ?

समाधान—ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं ।

१ प्रतिपु ' -नियम ' इति पाठः ।

२ सत्ता सञ्चयतया सविस्तरूपा अणंतपञ्जाया । मंगुप्पादधुवसा सप्पडिक्खवा हवादि एक्का ॥ पंचा. ८.

३ णाणं होदि पमाणं णओ वि णाडुस्स हिदयमावयो । ति. प. १-८३. ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इत्यते । नयो ज्ञातुरभिप्रायः युक्तितोऽर्थपरिग्रहः । लघी. ६, २,

अभिप्राय इत्यस्य कोऽर्थः ? प्रमाणपरिग्रहीतार्थैकदेशवस्त्वध्यवसायः अभिप्रायः^१ । युक्तिः प्रमाणात् अर्थपरिग्रहः द्रव्य-पर्याययोरन्यतरस्य अर्थ इति परिग्रहो वा नयः । प्रमाणेन परिच्छिन्नस्य वस्तुनाः अन्ये पर्याये वा वस्त्वध्यवसायो नय इति यावत् ।

प्रमाणमेव नयः इति केचिदाचक्षते, तन्न घटते; नयानामभावप्रसंगात् । अस्तु चेन्न, नयाभावे एकान्तव्यवहारस्य दृश्यमानस्याभावप्रसंगात् । किं च न प्रमाणं नयः, तस्यानेकान्त-विषयत्वात् । न नयः प्रमाणम्, तस्यैकान्तविषयत्वात्^२ । न च ज्ञानमेकान्तविषयमस्ति, एकान्तस्य-नीरूपत्वतोऽवस्तुनः कर्मरूपत्वाभावात् । न चानेकान्तविषयो नयोऽस्ति, अवस्तुनि वस्त्वर्पणा-भावात् । किं च, न प्रमाणेन विधिमात्रमेव परिच्छिद्यते, परव्यावृत्तिमनादधानस्य तस्य प्रवृत्तेः सांकर्यप्रसंगादप्रतिपत्तिसमानताप्रसंगो वा । न प्रतिषेधमात्रम्, विधिमपरिच्छिदानस्य इदमस्माद्-

शंका — ' अभिप्राय ' इसका क्या अर्थ है ?

समाधान—प्रमाणसे ग्रहीत वस्तुके एक देशमें वस्तुका निश्चय ही अभिप्राय है ।

युक्ति अर्थात् प्रमाणसे अर्थके ग्रहण करने अथवा द्रव्य और पर्यायमेंसे किसी एकको अर्थ रूपसे ग्रहण करनेका नाम नय है । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके द्रव्य अथवा पर्यायमें वस्तुके निश्चय करनेको नय कहते हैं, यह इसका अभिप्राय है ।

प्रमाण ही नय है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । परन्तु वह घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर नयोंके अभावका प्रसंग आता है । यदि कहा जाय कि नयोंका अभाव हो जाय, सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि, ऐसा होनेपर देखे जानेवाले एकान्त व्यवहारके लोप होनेका प्रसंग आवेगा ।

दूसरे, प्रमाण नय नहीं हो सकता, क्योंकि, उसका विषय अनेक धर्मात्मक वस्तु है । न नय प्रमाण हो सकता है, क्योंकि, उसका एकान्त विषय है । और ज्ञान एकान्तको विषय करनेवाला है नहीं, क्योंकि, एकान्त नीरूप होनेसे अवस्तु स्वरूप है, अतः वह कर्म नहीं हो सकता । तथा नय अनेकान्तको विषय करनेवाला नहीं है, क्योंकि, अवस्तुमें वस्तुका आरोप नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त, प्रमाण केवल विधिको ही नहीं जानता, क्योंकि, दूसरे पदार्थोंसे भेदको न ग्रहण करनेपर उसकी प्रवृत्तिके संकरताका प्रसंग अथवा समान रूपसे अज्ञानका प्रसंग आवेगा । वह प्रमाण प्रतिषेध मात्रको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि, विधिको न जाननेपर वह ' यह इससे भिन्न है ' ऐसा ग्रहण करनेके

१ जयध. १, पृ. १९९.

२ किञ्च, न नयः प्रमाणम्; प्रमाणव्यपीश्रयस्य वस्त्वध्यवसायस्य तद्विरोधात् । ' सकलदेशः प्रमाणाधीनः, विकलदेशो नयाधीनः ' इति भिन्नकार्यदृष्टेर्वो न नयः प्रमाणम् । जयध. १, पृ. २००. किञ्च, न नयः प्रमाणम्, एकान्तरूपत्वात्, प्रमाणे चानेकान्तरूपसन्दर्शनात् । जयध. १, पृ. २०७.

व्यावृत्तमिति गृहीतुमशक्यत्वात् । न च विधि-प्रतिषेधौ मिथो भिन्नौ प्रतिभासेते, उभयदोषा-
नुपगात् । ततो विधि-प्रतिषेधात्मकं वस्तु प्रमाणसमधिगम्यमिति नास्त्येकान्तविषयं विज्ञानम् ।
न चानुमानमेकान्तविषयं येन तस्य नयत्वमुच्यते, तस्याप्युक्तन्यायतोऽनेकान्तविषयत्वात् ।
ततः प्रमाणं न नयः, किंतु प्रमाणपरिच्छिन्नवस्तुनः एकदेशे वस्तुत्वार्पणा नय इति सिद्धम् ।

प्रमाण-नयैर्वस्त्वधिगम इत्यनेन सूत्रेणापि नेदं व्याख्यानं विघटते । कुतः ? यतः प्रमाण-
नयाभ्यामुत्पन्नवाक्येऽप्युपचारतः^१ प्रमाण-नयौ, ताभ्यामुत्पन्नबोधौ विधि-प्रतिषेधात्मकवस्तु-
विषयत्वात् प्रमाणतामादधनावपि कार्ये कारणोपचारतः प्रमाण-नयावित्यस्मिन् सूत्रे परि-
गृहीतौ । नयवाक्यादुत्पन्नबोधः प्रमाणमेव न नय, इत्येतस्य ज्ञापनार्थं ताभ्यां वस्त्वधिगम इति
भण्यते । अथवा प्रधानीकृतबोधः पुरुषः प्रमाणम्, अप्रधानीकृतबोधो नयः । वस्त्वधिगम एव
क्रियते नावस्तुन इति प्रतिपत्तव्यमन्यथा नयस्य प्रमाणांतःप्रवेशतोऽभावप्रसंगात् ।

लिये असमर्थ है । और प्रमाणमें विधि व प्रतिषेध दोनों परस्पर भिन्न भी नहीं प्रतिभासित
होते, क्योंकि, ऐसा होनेपर पूर्वोक्त दोनों दोषोंका प्रसंग आता है । इस कारण विधि-प्रतिषेध
रूप वस्तु प्रमाणका विषय है, अतएव ज्ञान एकान्तको विषय करनेवाला नहीं है ।

अनुमान भी एकान्तको विषय नहीं करता जिससे कि उसे नय कहा जा सके,
क्योंकि, वह भी उपर्युक्त न्यायसे अनेकान्तको विषय करनेवाला है । इसलिये प्रमाण नय
नहीं है, किन्तु प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके एक देशमें वस्तुत्वकी विवक्षाका नाम नय है,
यह सिद्ध हुआ ।

‘ प्रमाण और नयसे वस्तुका ज्ञान होता है ’ इस सूत्र द्वारा भी यह व्याख्यान
विरुद्ध नहीं पड़ता । इसका कारण यह कि प्रमाण और नयसे उत्पन्न वाक्य भी उपचारसे
प्रमाण और नय हैं, उन दोनोंसे उत्पन्न उभय बोध विधि-प्रतिषेधात्मक वस्तुको विषय
करनेके कारण प्रमाणताको धारण करते हुए भी कार्यमें कारणका उपचार करनेसे प्रमाण
व नय हैं, इस प्रकार सूत्रमें ग्रहण किये गये हैं । नयवाक्यसे उत्पन्न बोध प्रमाण ही है,
नय नहीं है; इस बातके ज्ञापनार्थं ‘ उन दोनोंसे वस्तुका ज्ञान होता है ’ ऐसा कहा जाता
है । अथवा, बोधको प्रधान करनेवाला पुरुष प्रमाण और उसे अप्रधान करनेवाला नय है ।
वस्तुका ही अधिगम किया जाता है, अवस्तुका नहीं, ऐसा जानना चाहिये; क्योंकि, इसके
बिना प्रमाणके भीतर प्रवेश होनेसे नयके अभावका प्रसंग आवेगा ।

१ प्रतिपु ‘ -वाक्ये ने यावदप्युपचारतः ’ इति पाठः ।

प्रमाणपरिगृहीतवस्तुनि यो व्यवहार एकान्तरूपः स नयनिबन्धनः । ततः संकलो व्यवहारो नयाधीनः । प्रमाणाधीनव्यवहारानुपलभतस्तदस्तित्वे संशयानस्य प्रमाणनिबन्धनव्यवहार-प्रदर्शनार्थं 'सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः' इति प्रतिपादयता नानेनापीदं व्याख्यानं विघटते । कः सकलादेशः ? स्यादस्तीत्यादि । कुतः ? प्रमाणनिबन्धनत्वात् स्याच्छब्देन सूचितशेषाप्रधानीभूतधर्मत्वात् । को विकलादेशः ? अस्तीत्यादिः । कुतः ? नयोत्पन्नत्वात् । तथा पूज्यपादभट्टारकैरप्यभाणि सामान्यनयलक्षणमिदमेव । तद्यथा— प्रमाण-

प्रमाणसे गृहीत वस्तुमें जो एकान्त रूप व्यवहार होता है वह नयनिमित्तक है । इसीलिये समस्त व्यवहार नयके आधीन है । प्रमाणके आधीन व्यवहारके न पाये जानेसे उसके अस्तित्वमें संशय करनेवालेके लिये प्रमाणनिमित्तक व्यवहारके दिखलानेके लिये 'सकलादेश प्रमाणके आधीन है और विकलादेश नयके आधीन है' ऐसा कहा है । इससे भी यह व्याख्यान विघटित नहीं होता ।

शंका—सकलादेश किसे कहते हैं ?

समाधान — 'स्यादस्ति' अर्थात् 'कथंचित् है' इत्यादि सात भंगोंका नाम सकलादेश है ; क्योंकि, प्रमाणनिमित्तक होनेसे इनके द्वारा 'स्यात्' शब्दसे समस्त अप्रधानभूत धर्मोंकी सूचना की जाती है ।

शंका—विकलादेश किसे कहते हैं ?

समाधान — 'अस्ति' अर्थात् 'है' इत्यादि सात वाक्योंका नाम विकलादेश है, क्योंकि, वे नयोंसे उत्पन्न हैं । तथा पूज्यपाद भट्टारकने भी सामान्य नयका लक्षण यही :

१. प्रतिपु 'प्रतिपादयमानेनापीदं' इति पाठः ।

२. कः सकलादेशः ? स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्यः स्यादस्ति च नास्ति च स्यादस्ति चावक्तव्यश्च स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च घट इति सप्तापि सकलादेशः । कथमेतेषां सप्तानां सुनयानां सकलादेशश्च ? न, एकधर्मप्रधानमार्गेण साकल्येन वस्तुनः प्रतिपादकत्वात् । जयध. १, पृ. २०१. तत्र यदा योगपद्यं तदा सकलादेशः । स एव प्रमाणमित्युच्यते, सकलादेशः प्रमाणाधीन इति वचनात् । XXX कथं सकलादेशः ? एकगुणमुखेनाशेषवस्तुरूपसंग्रहात् सकलादेशः । त. रा. ४, ४२, १६; १८.

३. को विकलादेशः ? अस्त्येव नास्त्येव अवक्तव्य एव अस्ति नास्त्येव अस्त्यवक्तव्य एव नास्त्यवक्तव्य एव अस्ति नास्त्यवक्तव्य एव घट इति विकलादेशः । जयध. १, पृ. २०३. यदा तु क्रमस्तदा विकलादेशः । स एव नय इति व्यपदिश्यते, विकलादेशो नयाधीन इति वचनात् । XXX अथ कथं विकलादेशः ? निरंशस्यापि गुणभेदादंशरूपना विकलादेशः । त. रा. ४, ४२, १७; २९.

प्रकाशितार्थविशेषप्ररूपको नयः इति । प्रकर्षेण मानं प्रमाणम्, सकलादेशीत्यर्थः । तेन प्रकाशितानां प्रमाणपरिगृहीतानामित्यर्थः । तेषामर्थानामस्तित्व-नास्तित्व-नित्यानित्यत्वाद्यनन्तात्मकानां जीवादीनां ये विशेषाः पर्यायाः तेषां प्रकर्षेण रूपकः प्ररूपकः निरुद्धदोषानुपगद्वारेणेत्यर्थः^१ । अबोधरूपस्याभिप्रायस्य कथं निरुद्धदोषानुपगद्वारेण पर्यायप्ररूपकत्वम् ? नैष दोषः, द्रव्य-पर्यायाभिप्रायोत्थापितवचनयोः द्रव्य-पर्यायनिरूपणात्मकयोः अभिप्रायवतः पुरुषस्य वा नयत्वाभ्युपगमतो दोषाभावात्, अन्यथोक्तदोषानुपगात् । तथा प्रभाचन्द्रभट्टारकैरप्यभाणि — प्रमाणव्यपाश्रयपरिणामविकल्पवशीकृतार्थविशेषप्ररूपणप्रवणः प्रणिधिर्यः स नय इति । प्रमाण-व्यपाश्रयस्तत्परिणामविकल्पवशीकृतानां अर्थविशेषाणां प्ररूपणे प्रवणः प्रणिधानं प्रणिधिः प्रयोगो व्यवहारात्मा प्रयोक्ता वा स नयः^२ । 'स एष याथात्म्योपलब्धिनिमित्तत्वाद् भवानां श्रेयोऽपदेशः'

कहा है । वह इस प्रकार है— प्रमाणसे प्रकाशित जीवादिक पदार्थोंकी पर्यायोंका प्ररूपण करनेवाला नय है । इसीको स्पष्ट करते हैं— प्रकर्षसे अर्थात् संशयादिसे रहित वस्तुका ज्ञान प्रमाण है, अभिप्राय यह कि जो समस्त धर्मोंको विषय करनेवाला हो वह प्रमाण है । उससे प्रकाशित अर्थात् प्रमाणसे गृहीत उन अस्तित्व-नास्तित्व व नित्यत्व-अनित्यत्वादि अनन्त धर्मात्मक जीवादिक पदार्थोंके जो विशेष अर्थात् पर्याय हैं उनका प्रकर्षसे अर्थात् दोषोंके सम्बन्धसे रहित होकर निरूपण करनेवाला नय है ।

शंका—अबोधरूप अभिप्राय संशयादि दोषोंसे रहित होकर जीवादिक पदार्थोंकी पर्यायोंका निरूपक कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्रव्य और पर्यायके अभिप्रायसे उत्पन्न द्रव्य-पर्यायके निरूपणात्मक वचनोंको अथवा अभिप्रायवान् पुरुषको नय माननेसे कोई दोष नहीं आता, ऐसा न माननेपर उपर्युक्त दोषका प्रसंग आता है ।

तथा प्रभाचन्द्र भट्टारकने भी कहा है— प्रमाणके आश्रित परिणामभेदोंसे वशीकृत पदार्थविशेषोंके प्ररूपणमें समर्थ जो प्रयोग होता है वह नय है । उसीको स्पष्ट करते हैं— जो प्रमाणके आश्रित है तथा उसके आश्रयसे होनेवाले ज्ञाताके भिन्न भिन्न अभिप्रायोंके आधीन हुए पदार्थविशेषोंके प्ररूपणमें समर्थ है ऐसे प्रणिधान अर्थात् प्रयोग अथवा व्यवहार स्वरूप प्रयोक्ताका नाम नय है । वह यह नय पदार्थोंके यथार्थ परिज्ञानका निमित्त होनेसे मोक्षका कारण है । यहां श्रेयस् शब्दका अर्थ मोक्ष और अपदेश शब्दका अर्थ

१ त. रा, १, ३३, १. तत्र 'सकलादेशीत्यर्थः' इत्येतस्य स्थाने 'सकलादेश इत्यर्थः' इति पाठः;
'तेन प्रकाशितानाम्' अतोऽपि तत्र 'न प्रमाणाभासपरिगृहीतानामित्यर्थः' इत्यधिकः पाठः । जयध. १, पृ. २१०.

२ जयध. १, पृ. २१०.

श्रेयसो मोक्षस्यापदेशः कारणम् । कुतः ? याथात्म्योपलब्धिनिमित्तभावात् । तथा सारसंग्रहेऽप्युक्तं पूज्यपादैः — अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोऽन्यतमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवधप्रयोगो नय इति । भवतु नाम अभिप्रायवतः प्रयोक्तुर्नयव्यपदेशः, न प्रयोगस्य; तत्र नित्यत्वानित्यत्वाद्यभिप्रायाणामभावादिति ? न, नयतस्समुत्पन्नप्रयोगस्यापि प्रयोक्तुरभिप्रायप्ररूपकस्य कार्ये कारणोपचारतो नयत्वसिद्धेः । तथा समन्तमद्रस्वामिनाप्युक्तम्—

स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यञ्जको नयः ॥ ५५ ॥ इति

स्याद्वादः प्रमाणं कारणे कार्योपचारात्, तेन प्रविभक्ताः प्रकाशिताः अर्थाः ते स्याद्वादप्रविभक्तार्थाः, तेषां विशेषा पर्यायाः, जात्यहेत्ववष्टंभवलेन तेषां व्यञ्जकः प्ररूपकः यः स नय इति ।

स एवंविधो नयो द्विविधः द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति । द्रवति द्रोष्यत्यदुद्रवतांस्तान् पर्यायानिति द्रव्यम् । एतेन तद्भाव-सादृश्यलक्षणसामान्ययोर्द्वयोरपि ग्रहणम्, वस्तुनः

कारण है । नयको जो मोक्षका कारण बतलाया है उसका हेतु पदार्थोंकी यथार्थोपलब्धि-निमित्तता है ।

तथा सारसंग्रहमें भी पूज्यपाद स्वामीने कहा है— अनन्त पर्याय स्वरूप वस्तुकी किसी एक पर्यायका ज्ञान करते समय श्रेष्ठ हेतुकी अपेक्षा करनेवाला निर्दोष प्रयोग नय कहा जाता है ।

शंका—अभिप्राय युक्त प्रयोगकर्ताकी नय संज्ञा भले ही हो, किन्तु प्रयोगकी वह संज्ञा नहीं हो सकती; क्योंकि, उसमें नित्यत्व व अनित्यत्व आदि अभिप्रायोंका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रयोगकर्ताके अभिप्रायको प्रगट करनेवाले नयजन्य प्रयोगके भी कार्यमें कारणका उपचार करनेसे नयपना सिद्ध है ।

तथा समन्तभद्र स्वामीने भी कहा है— स्याद्वादसे प्रकाशित पदार्थोंकी पर्यायोंको प्रगट करनेवाला नय है । इस कारिकाके उत्तरार्धमें प्रयुक्त 'स्याद्वाद' शब्दका अर्थ कारणमें कार्यका उपचार करनेसे प्रमाण होता है । उस प्रमाणसे प्रविभक्त अर्थात् प्रकाशित जो पदार्थ हैं उनके विशेष अर्थात् पर्यायोंका जो श्रेष्ठ हेतुके बलसे व्यञ्जक अर्थात् प्ररूपण करता हो वह नय है ।

उपर्युक्त स्वरूपवाला वह नय दो प्रकार है— द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । जो उन उन पर्यायोंको प्राप्त होता है, प्राप्त होगा अथवा प्राप्त हुआ है वह द्रव्य है । इस निरुक्तिसे तद्भाव सामान्य और सादृश्य सामान्य दोनोंका ही ग्रहण किया गया है,

१ जयध. १, पृ. २११. २ जयध. १, पृ. २१०. ३ आ. मी. १०६.

४ तस्य द्वौ मूलभेदौ द्रव्यास्तिकः पर्यायास्तिक इति । त. रा. १, ३३, १.

५ द्रव्यादि गच्छन्ति तादं तादं सम्भावपञ्जयादं जं । द्रवियं तं भण्णंते अण्णभूदं तु सत्तादो ॥ पंचा. ९.

उभयथापि द्रवणोपलंभात् ।

साम्प्रतं द्रव्यविकल्प उच्यते — सदित्येकं वस्तु, सर्वस्य सतोऽविशेषात्^१ । न ततो व्यतिरिक्तं किञ्चित्, असत्त्वप्रसंगात् । अथवा सर्वं द्विविधं वस्तु जीवाजीवभावभ्यां विधि-निषेधाभ्यां मूर्तामूर्तत्वाभ्यां अस्तिकायानस्तिकायभेदाभ्यां वा^२ । कोऽनस्तिकायः ? कालः, तस्य प्रदेश-प्रचयाभावात् । कुतस्तस्यास्तित्वम् ? प्रचयस्य सप्रतिपक्षत्वान्यथानुपपत्तेः । अथवा, सर्वं वस्तु त्रिविधं द्रव्य-गुण-पर्यायैः^३ । चतुर्विधं वा वद्ध-मुक्त-बन्ध-मोक्षकारणैः^४ । तत्र वद्धः संसारि-जीवः । मुक्तः कर्मकलंकाङ्गच्युतः । एकान्तबुद्ध्यवसितः सर्वो बाह्यार्थः मिथ्याविरति-प्रमाद-कषाय-योगाश्च बन्धकारणम् । कथम् ? एतेषामेकत्वं प्रत्यभेदाद् । अनेकान्तबुद्ध्यवसितः सर्वो

क्योंकि, वस्तुके दोनों प्रकारसे भी उन पर्यायोंको प्राप्त करना पाया जाता है ।

अब द्रव्यके भेदको कहते हैं—‘सत्’ इस प्रकारसे वस्तु एक है, क्योंकि, सबके सत्की अपेक्षा कोई भेद नहीं है; कारण कि सत्से भिन्न कुछ नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेपर उसके असत् होनेका प्रसंग आवेगा । अथवा सब वस्तु जीवभाव-अजीव-भाव, विधि-निषेध, मूर्त-अमूर्त या अस्तिकाय-अनस्तिकायके भेदसे दो प्रकार है ।

शंका—अनस्तिकाय कौन है ?

समाधान—काल अनस्तिकाय है, क्योंकि, उसके प्रदेशप्रचय नहीं है ?

शंका—तो फिर कालका अस्तित्व कैसे है ?

समाधान—चूंकि अस्तित्वके बिना प्रचयके सप्रतिपक्षता बन नहीं सकती अतः उसका अस्तित्व सिद्ध है ।

अथवा, सब वस्तु द्रव्य, गुण व पर्यायसे तीन प्रकार है । अथवा वह वस्तु वद्ध, मुक्त, बन्धकारण और मोक्षकारणकी अपेक्षा चार प्रकार है । उनमें वद्ध संसारी जीव है । कर्मरूपी कलंकसे रहित मुक्त जीव है । एकान्त बुद्धिसे निश्चित सब बाह्य पदार्थ और मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, कषाय व योग, ये बन्धकारण हैं; क्योंकि, इनकी एकताके प्रति कोई भेद नहीं है । अनेकान्त बुद्धिसे निश्चित सब बाह्य पदार्थ और सम्यक्त्व, अविरति,

१ ‘सत्ता’ इत्येकं द्रव्यम् । जयध. १, पृ. २११.

२ द्विविधं वा द्रव्यं जीवाजीवद्रव्यभेदेन । जयध. १, पृ. २१३.

३ त्रिविधं वा द्रव्यं भव्यामव्यालुभयभेदेन । जयध. १, पृ. २१४.

४ संसार्यसंसारिभेदेन जीवद्रव्यं द्विविधम्, अजीवद्रव्यं पुद्गलापुद्गलभेदेन द्विविधम्, एवं चतुर्विधं वा द्रव्यम् । जयध. १, पृ. २१४.

वाह्यार्थः सम्यक्त्व-विरत्यप्रमादाकपायायोगाश्च' मोक्षकारणम् । सर्वं वस्तु पंचविधं वा औद-
यिकौपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिकभेदैः । सर्वं वस्तु षड्विधं वा जीव-पुद्गल-
धर्माधर्म-कालाकाशभेदैः । सर्वं वस्तु सप्तविधं वा बद्ध-मुक्तजीव-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाश-
भेदैः । सर्वं वस्तु अष्टविधं वा भव्याभव्य-मुक्तजीव-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाशभेदैः । सर्वं
वस्तु नवविधं वा जीवाजीव-पुण्य-पापास्रव-संवर-निर्जर-बन्ध-मोक्षभेदैः । सर्वं वस्तु दशविधं
वा एक-द्वि-त्रि-चतुः-पंचेन्द्रियजीव-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाशभेदैः । सर्वं वस्तु कादशविधं
वा पृथिव्यप्तेजो-वायु-वनस्पति-त्रसजीव-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाशभेदैः । एवमेकाद्येकोत्तर-
क्रमेण बहिरंगान्तरंगधर्भिणौ विपाद्येते यावदविभागप्रतिच्छेदं प्राप्ताविति । एष सर्वोऽप्यनन्त-

अप्रमाद, अकपाय एवं अयोग मोक्षकारण हैं ।

अथवा सव वस्तु औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके
भेदसे पांच प्रकार है । अथवा सव वस्तु जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाशके
भेदसे छह प्रकार है । अथवा सव वस्तु बद्ध जीव, मुक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल
और आकाशके भेदसे सात प्रकार है । अथवा सव वस्तु भव्य, अभव्य, मुक्त जीव, पुद्गल,
धर्म, अधर्म, काल और आकाशके भेदसे आठ प्रकार है । अथवा सव वस्तु जीव, अजीव,
पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षके भेदसे नौ प्रकार है । अथवा सव
वस्तु एकेन्द्रिय जीव, द्वीन्द्रिय जीव, त्रीन्द्रिय जीव, चतुरिन्द्रिय जीव, पंचेन्द्रिय जीव,
पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाशके भेदसे दस प्रकार है । अथवा सव वस्तु
पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रस जीव, पुद्गल,
धर्म, अधर्म, काल और आकाशके भेदसे ग्यारह प्रकार है । इस प्रकार एकको लेकर एक
अधिक क्रमसे बहिरंग व अंतरंग धर्मियोंका विभाग करना चाहिये जब तक कि अविभाग-
प्रतिच्छेदको प्राप्त नहीं होते हैं । इस प्रकार सभी अनन्त भेद रूप संग्रहप्रस्तार नित्य व

१ प्रतिपु 'प्रमादकपायायोगाश्च' इति पाठः ।

२ जीवद्रव्यं त्रिविधं भव्याभव्यानुभयभेदेन, अजीवद्रव्यं द्विविधं मूर्तामूर्तभेदेन, एवं पंचविधं वा द्रव्यम् ।
जीव-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाशभेदेन षड्विधं वा । जीवाजीवास्रव-संवर-निर्जरा-बन्ध-मोक्षभेदेन सप्तविधं वा ।
जीवाजीव-कर्मास्रव-संवर-निर्जरा-बन्ध-मोक्षभेदेनाष्टविधं वा । जीवाजीव-पुण्य-पापास्रव-संवर-निर्जर-बन्ध-मोक्षभेदेन
नवविधं वा । एक-द्वि-त्रि-चतुः-पंचेन्द्रिय-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाशभेदेन दशविधं वा । पृथिव्यप्तेजो-वायु-वनस्पति-
त्रस-पुद्गल-धर्माधर्मा-कालाकाशभेदेनैकादशविधं वा । पृथिव्यप्तेजोवायु-वनस्पति-समनस्कामनस्क-त्रस-पुद्गल-
धर्माधर्म-कालाकाशभेदेन द्वादशविधं वा । जीवद्रव्यं त्रिविधं भव्याभव्यानुभयभेदेन, पुद्गलद्रव्यं षड्विधं वादरवादर-
वादर-वादरसूक्ष्म-सूक्ष्मवादर-सूक्ष्म-सूक्ष्मसूक्ष्मं चेति । ××× शेषद्रव्याणि चत्वारि धर्माधर्म-कालाकाशभेदेन । एवं
त्रयोदशविधं वा द्रव्यम् । एवमेतेन क्रमेण जीवाजीवद्रव्याणां भेदः कर्तव्यः यावदन्यविकल्प इति । जयध. १,
पृ. २१४-१५.

विकल्पः संग्रहप्रस्तारः नित्यः वाचकभेदेनाभिन्नः द्रव्यमित्युच्यते । द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः । एष एव सदादिरविभागप्रतिच्छेदपर्यन्तः संग्रहप्रस्तारः क्षणिकत्वेन विवक्षितः वाचकभेदेन च भेदमापन्नः विशेषप्रस्तारः पर्यायः । पर्यायः अर्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिकः । तत्र योऽसौ द्रव्यार्थिकनयः स त्रिविधो नैगम-संग्रह-व्यवहारभेदेन । तत्र सत्तादिना यः सर्वस्य पर्याय-कलंकाभावेन अद्वैतत्वमध्यवस्येति शुद्धद्रव्यार्थिकः स संग्रहः । अत्रोपयोगी गाथा—

शब्दभेदसे अभिन्न होता हुआ द्रव्य कहा जाता है । द्रव्य ही है अर्थ अर्थात् प्रयोजन जिसका वह द्रव्यार्थिक नय है । सत्को आदि लेकर अविभागप्रतिच्छेद पर्यन्त यही संग्रह-प्रस्तार क्षणिक रूपसे विवक्षित व शब्दभेदसे भेदको प्राप्त होता हुआ विशेषप्रस्तार या पर्याय है । पर्याय ही है अर्थ अर्थात् प्रयोजन जिसका वह पर्यायार्थिक नय है । उनमें जो वह द्रव्यार्थिक नय है वह नैगम, संग्रह और व्यवहारके भेदसे तीन प्रकार है । इनमें जो सत्ता आदिकी अपेक्षासे पर्याय रूप कलंकका अभाव होनेके कारण सबकी एकताको विषय करता है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रह है । यहां उपयोगी गाथा—

१ प्रतिपु 'द्रव्यार्थिकः पुनः' इति पाठः । प. खं. पु. १, पृ. ८३. द्रव्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्यमन्नमेव नातोऽन्ये भावविकाराः नाप्यसावस्तद्रव्यतिरेकेणानुपलब्धेरिति द्रव्यास्तिकः । $\times \times \times$ अथवा, द्रव्यमेवार्थोऽस्य न गुण-कर्मणी तदवस्थारूपादिति द्रव्यार्थिकः । $\times \times \times$ अथवा, अर्थेते गम्यते निष्पाद्यत इत्यर्थः कार्यम्, द्रव्यंति गच्छतीति द्रव्य-कारणम् । द्रव्यमेवार्थोऽस्य कारणमेव कार्य-नार्थान्तरम्; न च कार्य-कारणयोः कश्चिद् रूपभेदः तद्भयमेकाकारमेव पर्वशुद्धिद्रव्यवदिति द्रव्यार्थिकः । $\times \times \times$ अथवा, अर्थनमर्थः प्रयोजनम्, द्रव्यमेवार्थोऽस्य प्रत्ययामिधानानुप्रवृत्तिर्लिंगदर्शनस्य निहोतुमशक्यत्वादिति द्रव्यार्थिकः । त. रा. १, ३३, १. एतद्द्रव्यमर्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः । तद्भावलक्षणसामान्येनाभिन्नं सादृश्यलक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्नं च वस्त्वभ्युपगच्छन् द्रव्यार्थिक इति यावत् । जयध. १, पृ. २१६. २ प्रतिपु 'अविभागपरिच्छेदन' इति पाठः ।

३ प. खं. पु. १, पृ. ८४. पर्याय एवास्तीति मतिरस्य जन्मादिभावनविकारमात्रमेव भवन्नम्, न ततोऽन्यद्द्रव्यमस्ति, तद्द्रव्यतिरेकेणानुपलब्धेरिति पर्यायास्तिकः । $\times \times \times$ पर्याय एवार्थोऽस्य रूपाद्युत्पेक्षादिलक्षणो न ततोऽन्यद्द्रव्यमिति पर्यायार्थिकः । $\times \times \times$ परि समन्तादायः पर्यायः, पर्याय एवार्थः कार्यमस्य न द्रव्यमतीतानागतयोर्विन्ध्यानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात् स एवैकः कार्य-कारणव्यपदेशभागिति पर्यायार्थिकः । $\times \times \times$ पर्यायोऽर्थः प्रयोजनमस्य वाग्विज्ञानव्यावृत्तिनिवन्धनव्यवहारप्रसिद्धेरिति पर्यायार्थिकः । त. रा. १, ३३, १. परि भेदः कृत्स्नवचनविच्छेदं एति गच्छतीति पर्यायः, स पर्यायः अर्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिकः । सादृश्यलक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्नं च द्रव्यार्थिकाशेषविषयं कृत्स्नवचनविच्छेदेन पाठयन् पर्यायार्थिक इत्यवगन्तव्यः । जयध. १, पृ. २१७.

४ तत्र द्रव्यार्थिकनयस्त्रिविधः संग्रहो व्यवहारो नैगमश्चेति । तत्र शुद्धद्रव्यार्थिकः पर्यायकलंकरहितः शुद्ध-भेदः संग्रहः । जयध. १, पृ. २१९.

सत्ता^१ सव्वपयत्था सविस्सरूत्ता अणंतपज्जाया ।

भंगुप्पाय-धुवत्ता सप्पडिक्खत्ता हवदि एक्का^३ ॥ ५६ ॥

शेषद्वयाद्यनन्तविकल्पसंग्रहप्रस्तारावलम्बनः पर्याय-कलंकांकिततया^१ अशुद्धद्रव्यार्थिकः व्यवहारनयः^२ । यदस्ति न तद् द्वयमतिलंघ्य वर्तते इति संग्रह-व्यवहारयोः परस्परविभिन्नोभय-विषयालम्बनो नैगमनयः, शब्द-शील-कर्म-कार्य-कारणाधाराधेय-भूत-भविष्यद्वर्तमान-भयोन्मेया-दिकमाश्रित्य स्थितोपचारप्रभव इति यावत्^३ ।

पर्यायार्थिको नयश्चतुर्विधः ऋजुसूत्र-शब्द-समभिरूढैवंभूतभेदेन । तत्र अपूर्वास्त्रिकाल-

अस्तित्व रूप सत्ता उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य रूप तीन लक्षणोंसे युक्त समस्त वस्तुविस्तारके सादृश्यकी सूचक होनेसे एक है; उत्पादादि त्रिलक्षण स्वरूप 'सत्' इस प्रकारके शब्दव्यवहार एवं 'सत्' इस प्रकारके प्रत्ययके भी पाये जानेसे समस्त पदार्थोंमें स्थित है; विश्व अर्थात् समस्त वस्तुविस्तारके त्रिलक्षण रूप स्वभावोंसे सहित होनेके कारण सविश्व रूप है, अनन्त पर्यायोंसे सहित है; भंग (व्यय), उत्पाद व ध्रौव्य स्वरूप हैं, तथा अपनी प्रतिपक्षभूत असत्तासे संयुक्त है ॥ ५६ ॥

शेष दो आदि अनन्त विकल्प रूप संग्रहप्रस्तारका अवलम्बन करनेवाला व्यवहार नय पर्याय रूप कलंकसे युक्त होनेसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ।

'जो है वह भेद व अभेद दोनोंका उल्लंघन कर नहीं रहता' इस प्रकार संग्रह और व्यवहार नयोंके परस्पर भिन्न (भेदाभेद) दो विषयोंका अवलम्बन करनेवाला नैगम नय है । अभिप्राय यह कि जो शब्द, शील, कर्म, कार्य, कारण, आधार, अधेय, भूत, भविष्यत्, वर्तमान, भय व उन्मेयादिकका आश्रयकर स्थित उपचारसे उत्पन्न होनेवाला है वह नैगम नय कहा जाता है ।

पर्यायार्थिक नय ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवम्भूतके भेदसे चार प्रकार है । इनमें जो तीन कालविषयक अपूर्व पर्यायोंको छोड़कर वर्तमान कालविषयक पर्यायोंको

१ प्रतिषु 'सत्ता' इति पाठः । २ पंचा ८. ३ प्रतिषु 'पर्यायः कलंका-' इति पाठः ।

४ [अशुद्ध-] द्रव्यार्थिकः पर्यायकलंकांकितद्रव्यविषयः व्यवहारः । जयध. १, पृ. २१९.

५ व. खं. पु. १ पृ. ८४. यदस्ति न तद्द्वयमतिलंघ्य वर्तते इति नैगमो नैगमः शब्द-शील-कर्म-कार्य-कारणाधाराधेय-सहचार-मान-भयोन्मेय-भूत-भविष्यद्वर्तमानादिकमाश्रित्य स्थितोपचारविषयः । जयध. १, पृ. २२१.

विषयानतिशय्य वर्तमानकालविषयमादत्ते यः स ऋजुसूत्रः^१ । कोऽत्र वर्तमानकालः ? आरम्भात्प्रभृत्या उपरमादेश वर्तमानकालः । एष चानेकप्रकारः, अर्थ-व्यञ्जनपर्यायस्थितेरनेकविधत्वात् । तत्र तावच्छुद्धऋजुसूत्रविषयः प्रदर्श्यते—पच्यमानः पक्वः । पक्वस्तु स्यात्पच्यमानः स्यादुपरतपाक इति । पच्यमान इति वर्तमानः पक्व इति अतीतः, तयोरेकस्मिन्नवरोधो विरुद्ध इति चेन्न, पचनप्रारम्भप्रथमसमये पाकांशानिष्पत्तौ^२ द्वितीयादिक्षणेपु प्रथमलक्षण इव पाकांश-

ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय है ।

शंका—यहां वर्तमान कालका क्या स्वरूप है ?

समाधान—विचक्षित पर्यायके प्रारम्भकालसे लेकर उसका अन्त होने तक जो काल है, यह वर्तमान काल है ।

अर्थ और व्यञ्जन पर्यायोंकी स्थितिके अनेक प्रकार होनेसे यह काल अनेक प्रकार है । उसमें पहिले शुद्ध ऋजुसूत्र नयके विषयको दिखलाते हैं— इस नयका विषय पच्यमान-पक्व है । पक्वका अर्थ कथंचित् पकनेवाला और कथंचित् पका हुआ है !

शंका—चूंकि 'पच्यमान' यह पचन क्रियाके चालू रहने अर्थात् वर्तमान कालको और 'पक्व' यह उसके पूर्ण होने अर्थात् भूत कालको सूचित करता है अतः उन दोनोंका एकमें रखना विरुद्ध है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पचन क्रियाके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें पाकांशकी सिद्धि न होनेपर प्रथम क्षणके समान द्वितीयादि समयोंमें पाकांशकी सिद्धिका अभाव

१ ऋजु प्रगुणं सूत्रयति सूचयतीति ऋजुसूत्रः । अस्य विषयः पच्यमानः पक्वः । पक्वस्तु स्यात्पच्यमानः स्यादुपरतपाक इति । पच्यमान इति वर्तमानः, पक्व इत्यतीतः, तयोरेकस्मिन्नवरोधो विरुद्ध इति चेत् —न, पाक-प्रारम्भप्रथमक्षणे निष्पत्त्यापेक्षया पक्वत्वाविरोधात् । न च तत्र पाकस्य सर्वांशैरनिष्पत्तिरेव, चरमावस्थायामपि पाक-निष्पत्तेरभावप्रसंगात् । ततः पच्यमान एव पक्व इति सिद्धम् । तावन्मात्रक्रियाफलनिष्पत्त्युपरमापेक्षया स एव पक्वः स्यादुपरतपाक इति, अन्त्यपाकापेक्षया निष्पत्तेरभावात् एव पच्यमान इति सिद्धम् । एवं क्रियमाणकृत-भुज्यमान-भुक्त-वध्यमानवद्ध-सिध्यत्सिद्धादयो योज्याः । जयध. १, पृ. २२३. सूत्रपातवद् ऋजुसूत्रः । यथा ऋजुः सूत्रपातस्तथा ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तंत्रयति ऋजुसूत्रः । सर्वांशिकालविषयानतिशय्य वर्तमानविषयकालमादत्ते × × × अस्य विषयः पच्यमानः पक्वः । पक्वस्तु स्यात्पच्यमानः स्यादुपरतपाक इति । असदेतद्विरोधात् (?) । पच्यमान इति वर्तमानः, पक्व इत्यतीतः, तयोरेकस्मिन्नवरोधो विरोधीति ? नैव दोषः, पचनस्यादावविभागसमये कश्चिदंशो निर्वृत्तो वा न वा ? यदि न निर्वृत्तस्तद्वितीयादिष्वप्यनिर्वृत्तेः पाकाभावः स्यात् । ततोऽमिनिर्वृत्तेस्तदपेक्षया पच्यमानः पक्वः, इतरथा हि समयस्य त्रैविध्यप्रसंगः । स एवोदनः पच्यमानः पक्वः स्यात्पच्यमान इत्युच्यते पक्वुरभिप्रायस्या-निवृत्तेः । पक्वुर्हि सुविशद-सुस्विन्नौदने पक्वामिप्रायः । स्यादुपरतपाक इति चोच्यते, कस्यचित् पक्वुस्तत्तावतैव कृतार्थत्वात् । एवं क्रियमाणकृत-भुज्यमानभुक्त-वध्यमानवद्ध-सिध्यत्सिद्धादयो योज्याः । त. रा. १, ३३, ७.

२ प्रतिषु 'पाकांशनिष्पत्तौ' इति पाठः ।

निष्पत्त्यभावतः पाकस्य साकल्येनोत्पत्तेरभावप्रसंगात् । एवं द्वितीयादिक्षणेऽपि पाकेनिष्पत्तिर्वक्तव्या । ततः पच्यमानः पक्व इति सिद्धम्, नान्यथा; समयस्य त्रैविध्यप्रसंगात् । स एवौदनः पक्वः स्यात्पच्यमान इति चोच्यते, सुविशद-सुस्विन्नौदने पक्तुः पक्वाभिप्रायात् । तावन्मात्रक्रिया-फलनिष्पत्त्युपरमापेक्षया स एव पक्वः ओदनः स्यादुपरतपाक इति कथ्यते । एवं क्रियमाण-कृत-भुज्यमानभुक्त-वध्यमानवद्ध-सिद्धयत्सिद्धादयो योज्याः । 'तथा यदैव' धान्यानि मिमीते तदैव' प्रस्थः, प्रतिष्ठन्त्यस्मिन्निति प्रस्थव्यपदेशात् । न कुम्भकारोऽस्ति । कथम् ? उच्यते— शिवकादिपर्यायं करोति न तस्य तद्व्यपदेशः, शिवकादीनां कुम्भव्यपदेशाभावात् । नापि कुम्भपर्यायं करोति, स्वावयवेभ्य एव तस्य निष्पत्तेः । नोभयत एकस्योत्पत्तिः, युगपदेकत्र-

होनेसे पूर्णतया पाककी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग आवेगा। इसी प्रकार द्वितीयादि क्षणोंमें भी पाककी उत्पत्ति कहना चाहिये। इसीलिये पच्यमान ओदन कुछ पके हुए अंशकी अपेक्षा पक्व है, यह सिद्ध होता है; क्योंकि, ऐसा न माननेसे समयके तीन प्रकार माननेका प्रसंग आवेगा। वही पका हुआ ओदन कथंचित् 'पच्यमान' ऐसा कहा जाता है, क्योंकि, विशद रूपसे पूर्णतया पके हुए ओदनमें [जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है] पाचकका 'पक्व' से अभिप्राय है। उतने मात्र अर्थात् कुछ ओदनांशमें पचन क्रियाके फलकी उत्पत्तिके विराम होनेकी अपेक्षा वही ओदन उपरतपाक अर्थात् कथंचित् पका हुआ कहा जाता है। इसी प्रकार क्रियमाण-कृत, भुज्यमान-भुक्त, वध्यमान-वद्ध और सिद्धयत्-सिद्ध इत्यादि ऋजुसूत्र नयके विषय जानना चाहिये।

तथा जत्र धान्योंको मापता है तभी इस नयकी दृष्टिमें प्रस्थ (अनाज नापनेका पात्रविशेष) हो सकता है, क्योंकि, जिसमें धान्यादि स्थित रहते हैं उसे निश्चितके अनुसार प्रस्थ कहा जाता है।

इस नयकी दृष्टिमें कुम्भकार संज्ञा भी नहीं बनती। कैसे ? ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि जो शिवक आदि पर्यायको करता है उसकी कुम्भकार संज्ञा नहीं बन सकती, क्योंकि, शिवक-स्थासादिका कुम्भ नाम नहीं है। कुम्भ पर्यायको भी वह नहीं करता, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति अपने अवयवोंसे ही होती है। और दोसे एककी उत्पत्ति सम्भव

स्वभावद्वयविरोधात् अवयवेवेव व्याप्रियमाणपुरुषोपलम्भाच्च । 'स्थितप्रज्ञे च कुतोऽज्ञा-
मच्छसीति, न कुतश्चिदित्ययं मन्यते, तत्कालक्रियापरिणामाभावात् । यमेवाकाशदेशमवगाहं
समर्थः आत्मपरिणामं वा तत्रैवास्य वसतिः । 'न कृष्णः काकोऽस्य नयस्य । कथम् ? यः
कृष्णः साकृष्णात्मक एव, न काकात्मकः, भ्रमरादीनामपि काकताप्रसंगात् । काकश्च काकात्मको,
न कृष्णात्मकः, शुक्लकाकाभावप्रसंगात् तत्पित्तास्थि-रुधिरादीनामपि कार्ण्यप्रसंगात् । अस्तु
चेन्न, तेषां पीत-शुक्ल-रक्तादिवर्णोपलम्भात् । न च तेभ्यो व्यतिरिक्तः काकोऽस्ति, तद्व्यति-
रक्तेण काकातुपलम्भात् । ततोऽत्र न विशेषण-विशेष्यभाव इति सिद्धम् । 'न चास्य नयस्य
सामानाधिकरण्यमस्यस्ति, एकस्य पर्यायेभ्यः अनन्यत्वात् । न च पर्यायव्यतिरिक्तं नित्यमेक-

नहीं है, क्योंकि, एक साथ एकमें दो स्वभावोंका विरोध है, तथा पुरुष अवयवोंमें ही
व्यापार करनेवाला पाया जाता है ।

'आज तुम कहाँसे आ रहे हो ?' ऐसा किसी स्थित व्यक्तिसे पूछनेपर 'कहाँसे
नहीं आ रहा हूँ' ऐसा यह कजुसूत्र नय मानता है, क्योंकि, उस समय आगमन क्रिया
रूप परिणामका अभाव है । जिस आकाशप्रदेशको अथवा आत्मपरिणामको अवगाहनेके
लिये वह समर्थ है वहींपर इसका निवास है ।

'कृष्ण काक' यह इस नयका विषय नहीं है । कारण कि जो कृष्ण है वह
कृष्णात्मक ही है, काक स्वरूप नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेपर भ्रमर आदिकोंके
भी काक होनेका प्रसंग आवेगा । इसी प्रकार काक भी काकात्मक ही है, कृष्णात्मक नहीं
है, क्योंकि, ऐसा माननेपर सफेद काकके अभावका प्रसंग आवेगा, तथा उसके पित्त
(शरीरस्थ धातुविशेष), हड्डी व रुधिर आदिके भी कृष्णताका प्रसंग आवेगा । यदि
कहा जाय कि वे भी कृष्ण होते हैं, सो ऐसा नहीं है, क्योंकि, क्रमशः उनका पीला, सफेद
व लाल रंग पाया जाता है । और इन धातुओंसे भिन्न काक है नहीं, क्योंकि, उनको
छोड़कर काक पाया नहीं जाता । इसीलिये इस नयकी दृष्टिमें विशेषण-विशेष्यभाव नहीं
है, यह सिद्ध हुआ ।

इस नयकी दृष्टिमें सामानाधिकरण्य (एक आधारमें समान रूपसे रहना) भी
नहीं है, क्योंकि, एक द्रव्य पर्यायोंसे भिन्न नहीं है । तथा पर्यायोंको छोड़कर नित्य, एक,

मनवयवम् सकलावयवव्याप्युपलभ्यते । ततो न द्रव्य-पर्यायाः विविक्तशक्तयः सन्ति । ततोपायेक-
अधिकरणं स्वस्मिन्नवस्थितत्वात् । किं च, 'न विनाशोऽन्यतो जायते, तस्य जातिहेतुत्वात्' ।
अत्रोपयोगी श्लोकः—

जातिरेव हि भावानां निरोधे हेतुरिष्यते ।

यो जातश्च न च ध्वस्तो नश्यते पश्चात् स केन चः ॥ ५७ ॥

न च भावः अभावस्य हेतुः, घटादपि खरविषाणोत्पत्तिप्रसंगात् । किं च न चस्तु
प्रसंगो विनश्यति, परस्मिन्निधानाभावे तस्याविनाशप्रसंगात् । अस्तु चेन्न, अक्षणिकेऽर्थक्रिया-
विरोधात् । किं च, 'न पलालो दह्यते, पलालाग्निसम्बन्धसमनन्तरमेव पलालस्य नैरात्म्यानु-
पलम्भात् । न द्वितीयादिक्षणेपु पलालस्य नैरात्म्यकृदग्निसम्बन्धः, तस्य तत्कार्यत्वप्रसंगात् । न
पलालवयवी दह्यते, तस्यासत्त्वात् । नावयवा दह्यन्ते, निरवयवत्वतस्तेषामप्यसत्त्वात् । न

निरवयव और-समस्त अवयवोंमें रहनेवाला द्रव्य पाया नहीं जाता । अतः पक्षः भिन्न भिन्न
शक्तियुक्त द्रव्य न पर्याय नहीं है । इसीलिये उनका एक अधिकरण नहीं है; क्योंकि, वे
अपने आपमें स्थित हैं ।

और भी, इस नयकी अपेक्षा विनाश किसी अन्य पदार्थके निमित्तसे नहीं होता,
क्योंकि, उसका हेतु उत्पत्ति ही है । यहां उपयोगी श्लोक—

पदार्थोके विनाशमं जाति अर्थात् उत्पत्ति ही कारण मानी जाती है, क्योंकि, जो
पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं होता तो फिर वह पश्चात् आपके यहां किसके द्वारा नष्ट
होगा? अर्थात् किसीके द्वारा नष्ट नहीं हो सकेगा ॥ ५७ ॥

दूसरे, भाव अभावका हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि, ऐसा माननेपर घटसे भी
गंधके सींगोंके उत्पन्न होनेका प्रसंग आवेगा । तथा चस्तु परके निमित्तसे नष्ट नहीं
होती, क्योंकि, वैसा होनेपर परकी समीपताके अभावमें उसके अविनाशका प्रसंग
आवेगा । यदि कहा जाय कि नाश न भी हो, सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि,
नित्य होनेपर अर्थक्रियाका विरोध होगा ।

इस नयकी दृष्टिमें पलाल (पुआल) का दाह नहीं होता; क्योंकि, पलाल और
अग्निके सम्बन्धके अनन्तर ही पलालकी निरात्मता अर्थात् शून्यता नहीं पायी जाती ।
द्वितीयादि क्षणोंमें पलालकी निरात्मताको करनेवाला अग्निका सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि,
उसके होनेपर पलालकी निरात्मताको उसके कार्य होनेका प्रसंग आवेगा । [जो
उस समय नहीं है] । पलाल अवयवीका दाह नहीं होता; क्योंकि, अवयवीको [आपके
यहां] सत्ता ही नहीं है । न अवयव जलते हैं, क्योंकि, स्वयं निरवयव होनेसे उनका

पलालोत्पत्तिक्षण एवाग्निसम्बन्धस्तस्यानुत्पत्तिप्रसंगात् । नोत्तरक्षणे, असत्तासम्बन्धविरोधात् । किं च यः पलालो न स दह्यते, तत्राग्निसम्बन्धजनितातिशयान्तराभावात्, भावे वा न स पलाल-प्राप्तोऽन्यस्वरूपत्वात् । न शुक्लः कृष्णीभवति, उभयोर्भिन्नकालावस्थितत्वात् प्रत्युत्पन्न-विषये निवृत्तपर्यायानभिसम्बन्धात् । एवमृजुसूत्रनयस्वरूपनिरूपणं कृतम् ।

शपत्यर्थमाह्वयति प्रत्यायतीति शब्दः^१ । अयन्नयः लिंग-संख्या-काल-कारक-पुरुषो-पग्रहव्यभिचारनिवृत्तिपरः^२ । लिंगव्यभिचारस्तावत् स्त्रीलिंगे पुल्लिंगाभिधानम् — तारका स्वाति-रिति । पुल्लिंगे रुद्राभिधानम् — अवगमो विद्येति । स्त्रीलिंगे नपुंसकाभिधानम् — वीणा आतोद्यमिति । नपुंसके रुद्राभिधानम् — आयुधं शक्तिरिति । पुल्लिंगे नपुंसकाभिधानम् —

भी अस्तत्र है । यदि कहा जाय कि पलालकी उत्पत्तिक्षणमें ही अग्निका सम्बन्ध हो जाता है, अतः वह जल सकता है; सो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर अग्निका सम्बन्ध होनेसे वह उत्पन्न ही न हो सकेगा । इसलिये यदि उत्पत्तिके उत्तरक्षणमें अग्निका सम्बन्ध स्वीकार किया जाय तो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उत्पत्तिके द्वितीय क्षणमें पलालकी सत्ता नष्ट हो जानेसे असत्ताके अग्निसम्बन्धका विरोध है । दूसरे, जो पलाल है वह नहीं जलता है, क्योंकि, उसमें अग्निसम्बन्ध जनित अति-शयान्तरका अभाव है । अथवा, यदि अतिशयान्तर है भी तो वह पलाल प्राप्त नहीं है, क्योंकि, उसका स्वरूप पलालसे भिन्न है ।

इस नयकी अपेक्षा 'शुक्ल कृष्ण होता है' ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, कृष्ण और शुक्ल दोनों पर्यायों भिन्न कालमें रहनेवाली हैं, अतः उत्पन्न हुई कृष्ण पर्यायमें नष्ट हुई शुक्ल पर्यायका सम्बन्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार अजुसूत्र नयके स्वरूपका निरूपण किया ।

जो 'शपति' अर्थात् अर्थको बुलाता है या उसका ज्ञान कराता है वह शब्द नय है । यह नय लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष और उपग्रहके व्यभिचारको दूर करनेवाला है । इनमें पहिले लिंगव्यभिचार कहा जाता है — स्त्रीलिंगमें पुल्लिंगका कथन करना लिंगव्यभिचार है । जैसे — 'तारका स्वातिः' यहां स्त्रीलिंग तारका शब्दके साथ पुल्लिंग स्वाति शब्दका प्रयोग किया गया है, अतः यह लिंगव्यभिचार है । पुल्लिंगमें स्त्रीलिंगका कथन करना । जैसे — 'अवगमो विद्या' यहां पुल्लिंग अवगम शब्दके साथ स्त्रीलिंग विद्या शब्दका प्रयोग । स्त्रीलिंगमें नपुंसक लिंगका कथन करना । जैसे — 'वीणा आतोद्यम्' यहां स्त्रीलिंग वीणाके लिये नपुंसकलिंग आतोद्य शब्दका प्रयोग । नपुंसकलिंगमें स्त्रीलिंगका कथन करना । जैसे — 'आयुधं शक्तिः' यहां नपुंसकलिंग आयुधके लिये स्त्रीलिंग शक्ति शब्दका प्रयोग । पुल्लिंगमें नपुंसकलिंगका कथन करना ।

पटो वल्लमिति । नपुंसके पुल्लिङ्गाभिधानम्— 'द्रव्यं परशुरिति' ।

संख्याव्यभिचारः । एकत्वे द्वित्वम्— नक्षत्रं पुनर्वसू इति । एकत्वे बहुत्वम्— नक्षत्रं शतभिपजः इति । द्वित्वे एकत्वम्— गोदौ ग्राम इति । द्वित्वे बहुत्वम्— पुनर्वसू पंचतारका इति । बहुत्वे एकत्वम्— आम्राः वनमिति । बहुत्वे द्वित्वम्— देव-मनुष्याः उभौ राशी इति ।

कालव्यभिचारः— विश्वदृश्यास्य पुत्रो जनितेति भविष्यदर्थे भूतप्रयोगः । भावि कृत्यमा-

जैसे— 'पटो वल्लम्' यहां पुल्लिङ्ग 'पटः' के साथ 'वल्लम्' ऐसे नपुंसकलिङ्ग वल्ल शब्दका प्रयोग । नपुंसकलिङ्गमें पुल्लिङ्गका कथन करना । जैसे— 'द्रव्यं परशुः' यहां नपुंसकलिङ्ग द्रव्य शब्दके साथ पुल्लिङ्ग परशु शब्दका प्रयोग । [यह सब लिङ्गव्यभिचार है ।]

संख्याव्यभिचार कहा जाता है । एकवचनके स्थानमें द्विवचनका प्रयोग करना संख्याव्यभिचार है । जैसे— 'नक्षत्रं पुनर्वसू' यहां एक वचन 'नक्षत्रम्' के साथ 'पुनर्वसू' ऐसे द्विवचनका प्रयोग किया गया है । एक वचनके स्थानमें बहुवचनका प्रयोग, जैसे— 'नक्षत्रं शतभिपजः' यहां एक वचन 'नक्षत्रम्' के साथ 'शतभिपजः' ऐसे बहुवचनका प्रयोग किया गया है । द्विवचनके स्थानमें एकवचनका प्रयोग, जैसे— 'गोदौ ग्रामः' यहां 'गोदौ' द्विवचनके साथ 'ग्रामः' ऐसे एकवचनका प्रयोग किया गया है । द्विवचनके स्थानमें बहुवचनका प्रयोग, जैसे— 'पुनर्वसू पंचतारकाः' यहां 'पुनर्वसू' इस द्विवचनके साथ 'पंचतारकाः' ऐसे बहुवचनका प्रयोग किया गया है । बहुवचनके स्थानमें एकवचनका प्रयोग, जैसे— 'आम्राः वनम्' यहां 'आम्राः' बहुवचनके साथ 'वनम्' ऐसे एकवचनका प्रयोग किया गया है । बहुवचनके स्थानमें द्विवचनका प्रयोग, जैसे— 'देव-मनुष्याः उभौ राशी' अर्थात् देव एवं मनुष्य ये दो राशियां हैं, यहां 'देव-मनुष्याः' इस प्रकार बहुवचनके साथ 'उभौ राशी' ऐसे द्विवचनका प्रयोग किया गया है । [यह सब वचनका विपर्यय होनेसे संख्याव्यभिचार है ।]

कालव्यभिचार— विवक्षित किसी एक कालके स्थानमें दूसरे कालका प्रयोग करना कालव्यभिचार है । जैसे— 'विश्वदृश्यास्य पुत्रो जनिता' अर्थात् जिसने विश्वको देख लिया है ऐसा इसके पुत्र होगा । यहां भविष्यत्कालीन 'जनिता' क्रियाके साथ भूतकालीन क्रियाके द्योतक 'विश्वदृश्या' कर्तृपदका प्रयोग किया गया है । 'भावि कृत्यमासीत्' अर्थात् कार्य होनेवाला ही था । यहां भूतकालीन 'आसीत्' क्रियाके साथ भविष्यत्कालीन क्रियाके द्योतक 'भावि' पदका 'कृत्य' के विशेषण रूपसे

१ प. खं. पु. १, पृ. ८७.

२ प्रतिपु 'गोदौ' इति पाठः ।

३ प. खं. पु. १, पृ. ८७. जयध. १, पृ. २३६. ४ प्रतिपु 'विश्वदृश्यास्य' इति पाठः ।

सीदिति भूतार्थे भविष्यत्प्रयोगः । साधनव्यभिचारः — ग्राममधिशेते इति । पुरुषव्यभिचारः — एहि, मन्ये रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पितेति । उपग्रहव्यभिचारः — रमते विरमति, तिष्ठति संतिष्ठते, विशति निविशते; इत्येवमादयो व्यभिचारा न युक्ताः, अन्यार्थस्य अन्यार्थेन सम्बन्धाभावात् । तस्माद्यथालिङ्गं यथासंख्यं यथासाधनादि च न्याय्यमभिधानम् । एवं शब्दनयस्वरूपमभिहितम् ।

प्रयोग किया गया है । [इसीलिये उक्त दोनों कालव्यभिचारके उदाहरण हैं ।]

एक कारकके स्थानमें दूसरे कारकका प्रयोग करना साधनव्यभिचार है । जैसे— 'ग्राममधिशेते' अर्थात् गांवमें सोता है । यहां 'ग्रामे' अधिकरण कारकके स्थानमें 'ग्रामम्' ऐसे कर्मकारकका प्रयोग किया गया है, अतः यह साधनव्यभिचार है ।

एक पुरुषके स्थानमें दूसरे पुरुषका प्रयोग करनेका नाम पुरुषव्यभिचार है । जैसे— 'एहि, मन्ये रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पिता' अर्थात् आओ, तुम समझते हो कि मैं रथसे जाऊंगा, पर तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे पिता चले गये । यहां 'मन्यसे' मध्यम पुरुषके स्थानमें 'मन्ये' इस प्रकार उत्तम पुरुषका प्रयोग और 'यास्यामि' इस उत्तम पुरुषके स्थानमें 'यास्यसि' ऐसे मध्यम पुरुषका प्रयोग किया गया है । अत एव यह पुरुषव्यभिचार है ।

उपसर्गके सम्बन्धसे परस्मैपदके स्थानमें आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थानमें परस्मैपदका प्रयोग करना उपग्रहव्यभिचार है । जैसे— 'रमते' ऐसे आत्मनेपदके स्थानमें वि उपसर्गके सम्बन्धसे 'विरमति' इस प्रकार परस्मैपदका प्रयोग; 'तिष्ठति' परस्मैपदके स्थानमें सम् उपसर्गके संयोगसे 'संतिष्ठते' ऐसे आत्मनेपदका प्रयोग; और 'विशति' परस्मैपदके स्थानमें नि उपसर्गके योगसे 'निविशते' इस प्रकार आत्मनेपदका प्रयोग ।

उपर्युक्त लिङ्गादिव्यभिचारके अतिरिक्त और भी जो व्यभिचार हैं वे सब शब्दनयकी दृष्टिमें उचित नहीं हैं, क्योंकि, अन्य अर्थवाले शब्दका अन्य अर्थवाले शब्दके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । इस कारण जैसा लिङ्ग हो, जैसा वचन हो और जैसा साधन आदि हो वैसा व्यभिचारसे रहित प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार शब्दनयका स्वरूप कहा गया है ।

१ हासे मन्योक्तौ युस्मन्मन्येऽस्मत्त्वेकम् । मन्योक्तौ— मन्यवाचि, हासे— ग्रहासे, गन्यमाने गुणद भवति; मन्ये मन्यतेस्त्वस्मदेकं च । एहि, मन्ये रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पिता । शब्दा. चं. १, २, १८२. २ प. खं. पु. १, पृ. ८७, जयध. १, पृ. २३६.

नानार्थसमभिरोहणात्समभिरूढः । इन्दनादिन्द्रः शकनाच्छक्रः पूर्धारणात्पुरन्दर इत्येकस्यार्थस्यैकेन गतत्वादन्वर्थस्य नाम्नस्तत्र सामर्थ्याभावाद्वा पर्यायशब्दप्रयोगोऽनर्थक इति नानार्थरोहणात्समभिरूढः । अथ स्यान्न शब्दो वस्तुधर्मः, तस्य ततो भेदात् । नाभेदः, वाच्य-वाचकभावाद् भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वाद् भिन्नसाधनत्वाद् भिन्नार्थक्रियाकारित्वादुपायोपेयरूपत्वात् त्वगिन्द्रियग्राह्याग्राह्यत्वात् क्षुर-मोदकशब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनै-पूर्णप्रसंगाद् वैयधिकरण्यात् । न च विशेष्याद् भिन्नं विशेषणमव्यवस्थापतेः । ततो न वाचकभेदाद्वाच्यभेद इति ? नैष दोषः, भिन्नानामपि वस्त्राभरणादीनां विशेषणत्वोपलम्भात् । न चैकत्वे व्यवच्छेद्य-व्यवच्छेदकभावो

शब्दभेदसे जो नाना अर्थोंमें रूढ़ हो, अर्थात् जो शब्दके भेदसे अर्थके भेदको स्वीकार करता हो वह समभिरूढ़नय है । जैसे — इन्दन अर्थात् ऐश्वर्योपभोग रूप क्रियाके संयोगसे इन्द्र, सकना क्रियाके संयोगसे शक्र और पुरोंके विभाग करने रूप क्रियाके संयोगसे पुरन्दर, इस प्रकार एक अर्थका एक शब्दसे परिज्ञान होनेसे अथवा अन्वर्थक शब्दका उस अर्थमें सामर्थ्य न होनेसे पर्यायशब्दोंका प्रयोग व्यर्थ है । इसलिये नाना अर्थोंको छोड़ एक अर्थमें ही शब्दका रूढ़ होना इस नयकी दृष्टिमें उचित है ।

शंका—शब्द वस्तुका धर्म नहीं है, क्योंकि, उसका वस्तुसे भेद है । और यदि उसका वस्तुसे अभेद माना जाय तो यह सम्भव नहीं है, क्योंकि, वस्तु वाच्य है और शब्द वाचक है; वस्तु भिन्न इन्द्रियसे ग्राह्य है और शब्द भिन्न इन्द्रियसे ग्राह्य है; वस्तुके कारण भिन्न हैं और शब्दके कारण भिन्न हैं; वस्तुकी अर्थक्रिया भिन्न है और शब्दकी अर्थक्रिया भिन्न है; शब्द उपाय हैं और वस्तु उपेय है, तथा वस्तु त्वगिन्द्रियसे ग्राह्य है और शब्द त्वगिन्द्रियसे ग्राह्य नहीं हैं; इसके अतिरिक्त उन दोनोंमें अभेद माननेपर छुरा और मोदक शब्दोंका उच्चारण करनेपर क्रमसे मुखके कटने और पूर्ण होनेका प्रसंग आता है; अतः दोनोंमें सामानाधिकरण्य न होनेसे अभेद नहीं हो सकता । कदाचित् शब्द और वस्तुमें विशेषण-विशेष्यभाव मानकर यदि शब्दको वस्तुका धर्म स्वीकार करें तो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, विशेष्यसे भिन्न विशेषण नहीं होता; कारण कि ऐसा माननेमें अव्यवस्थाकी आपत्ति आती है । अत एव शब्द वस्तुका धर्म न होनेसे उसके भेदसे अर्थका भेद नहीं हो सकता ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, विशेष्यसे भिन्न भी वस्त्राभरणादिकोंके विशेषणता पायी जाती है । और विशेष्यसे विशेषणको एक माननेपर उनमें व्यवच्छेद्य-व्यवच्छेदकभाव मानना भी योग्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, अभेद माननेपर उसका

१ स. ति. १, ३३. त. शी. १, ३३, १०. प. खं. पु. १, पृ. ८९. जयध. १, पृ. २३९.

२ जयध. १, पृ. २४०. ३ प्रतिपु 'घटन' इति पाठः । ४ जयध. १, पृ. २३९.

युज्यते, विरोधात् । न स्वतो व्यतिरिक्ताशेषार्थव्यवच्छेदकः शब्दः^१, अयोग्यत्वात् । योग्यः शब्दो योग्यार्थस्य व्यवच्छेदक इति नातिप्रसंग आढौकते । कुतो योग्यता शब्दार्थानाम् ? स्व-पराम्याम् । न चैकान्तेनान्यत एव तदुत्पत्तिः, स्वतो विवर्तमानानामर्थानां सहायत्वेन वर्तमानवाह्यार्थो-पलम्भात् । न च शब्दयोर्देविध्ये तत्सामर्थ्येरेकत्वं न्याय्यम्, भिन्नकालोत्पन्नद्रव्योपादान-भिन्नाधारयोरेकत्वविरोधात् । न च सादृश्यमपि, तयोरेकत्वापत्तेः । ततो वाचकभेदादवश्यं वाच्यभेदेनापि भवितव्यमिति नानार्थाभिरूढः समभिरूढः^२ । एवं समभिरूढनयस्वरूपमभिहितम् ।

वाचकगतवर्णभेदेनार्थस्य गवाद्यर्थभेदेन गवादिशब्दस्य च भेदकः एवम्भूतः^३ । क्रिया-भेदे न अर्थभेदकः एवम्भूतः, शब्दनयान्तर्भूतस्य एवम्भूतस्य अर्थनयत्वविरोधात् । केऽर्थनयाः ?

विरोध है । शब्द अपनेसे भिन्न समस्त पदार्थोंका व्यवच्छेदक नहीं हो सकता, क्योंकि, उसमें वैसी योग्यता नहीं है । किन्तु योग्य शब्द योग्य अर्थका व्यवच्छेदक होता है, अत एव अतिप्रसंग नहीं आता ।

शंका—शब्द और अर्थके योग्यता कहाँसे आती है ?

समाधान—स्व और परसे उनके योग्यता आती है ।

सर्वथा अन्यसे ही उसकी उत्पत्ति होती हो ऐसा है नहीं, क्योंकि, स्वयं वर्तने-वाले पदार्थोंकी सहायतासे वर्तते हुए बाह्य पदार्थ पाये जाते हैं । दूसरे, शब्दोंके दो प्रकार होनेपर उनकी शक्तियोंको एक मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि, भिन्न कालमें उत्पन्न व भिन्न उपादान एवं भिन्न आधारवाली शब्दशक्तियोंके अभिन्न होनेका विरोध है । उनमें सादृश्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि, ऐसा होनेपर एकताकी आपत्ति आती है । इस कारण वाचकके भेदसे वाच्यभेद भी अवश्य होना चाहिये । अत एव शब्दभेदसे नाना अर्थोंमें जो रूढ़ है वह समभिरूढ़ नय है, यह सिद्ध है । इस प्रकार समभिरूढ़ नयका स्वरूप कहा गया है ।

जो शब्दगत वर्णोंके भेदसे अर्थका और गौ आदि अर्थके भेदसे गौ आदि शब्दका भेदक है वह एवम्भूत नय है । क्रियाका भेद होनेपर एवम्भूत नय अर्थका भेदक नहीं है, क्योंकि, शब्दनयके अन्तर्गत एवम्भूत नयके अर्थनय होनेका विरोध है ।

शंका—अर्थनय कौन हैं ?

१ प्रतिपु 'व्यवच्छेदकशब्दः' इति पाठः ।

२ शब्दभेदश्चेदस्ति अर्थभेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति नानार्थसमभिरुहणात् समभिरूढः । स. सिं. १, ३३. त. रा. १, ३३, १०.

३ प. खं. पु. १, पृ. ९०. जयध. १, पृ. २४२.

क्रिया-गुणाद्यर्थगतभेदनार्थभेदनात् संग्रह-व्यवहारजुसूत्रा अर्थनयाः, शेषाः शब्दपृष्ठतोऽर्थ-ग्रहणप्रवणत्वात् शब्दनयाः । न एकगमो नैगम इति न्यायात् शुद्धाशुद्धपर्यायार्थिनयद्वय-विषयः पर्यायार्थिकनैगमः; द्रव्यार्थिकनयद्वयविषयः द्रव्यार्थिकनैगमः^१; द्रव्य-पर्यायार्थिकनयद्वय-विषयः नैगमो द्वंद्वजः, एवं त्रयो नैगमाः^२ । नव नयाः क्वचिच्छूयन्त इति चेन्न नयानामियत्ता-संख्यानियमाभावात् । अत्रोपयोगिनी गाथा—

जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा ।

जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया^३ ॥ ५८ ॥

समाधान — क्रिया और गुणादिक रूप अर्थगत भेदसे अर्थका भेद करनेके कारण संग्रह, व्यवहार व ऋजुसूत्र नय अर्थनय हैं । शेष नय शब्दके पीछे अर्थके ग्रहणमें तत्पर होनेसे शब्दनय हैं ।

‘जो एकको विषय न करे अर्थात् भेद व अभेद दोनोंको विषय करे वह नैगमनय है’ इस न्यायसे जो शुद्धपर्यायार्थिक नय व अशुद्धपर्यायार्थिक नय इन दोनोंके विषयको ग्रहण करनेवाला हो वह पर्यायार्थिक नैगमनय है । शुद्धद्रव्यार्थिक और अशुद्धद्रव्यार्थिक दोनों नयोंके विषयको ग्रहण करनेवाला द्रव्यार्थिक नैगमनय है । द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयोंके विषयको ग्रहण करनेवाला द्वंद्वज अर्थात् द्रव्य-पर्यायार्थिक नैगमनय है । इस प्रकार तीन नैगम हैं ।

शंका — कहींपर नौ नय सुने जाते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, ‘नय इतने हैं’ ऐसी संख्याके नियमका अभाव है । यहां उपयोगी गाथा—

जितने वचनमार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं, तथा जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं ॥ ५८ ॥

१ प्रतिपुं ‘द्रव्यपर्यायार्थिकनयद्वयविषयः पर्यायार्थिकनैगमः’ इति पाठः ।

२ द्रव्यार्थिकनैगमः पर्यायार्थिकनैगमः द्रव्य-पर्यायार्थिकनैगमक्षेत्येवं त्रयो नैगमाः । तत्र सर्वमेकं सद्भिर्ज्ञेयान्, सर्वं द्विविधं जीवाजीवमेदादित्यादियुक्त्यवष्टम्भवलेन विषयीकृतसंग्रह-व्यवहारनयविषयः द्रव्यार्थिकनैगमः । ऋजुसूत्रादितयचतुष्टयविषयं युक्त्यवष्टम्भवलेन प्रतिपन्नः पर्यायार्थिकनैगमः । द्रव्यार्थिकनयविषयं पर्यायार्थिकनय-विषयञ्च प्रतिपन्नः द्रव्य-पर्यायार्थिकनैगमः । जयध. १, पृ. २४४.

३ प. खं. पु. १, पृ. ८०. जयध. १, पृ. २४५.

एते सर्वेऽपि नैयाः अनवधृतस्वरूपाः सम्यग्दृष्टयः, प्रतिपक्षानिराकरणात् । एत एव
दुरवधारिताः मिथ्यादृष्टयः, प्रतिपक्षनिराकरणमुखेन प्रवृत्तत्वात् । अत्रोपयोगिनः श्लोकाः—

यथैककं कारकमर्थसिद्धये समीक्ष्य शेषं^१ स्वसहायकारकम् ।

तथैव सामान्य-विशेषमातृका नयास्तवेष्टा गुण-मुख्यकल्पतः^२ ॥ ५९ ॥

य एव नित्य-क्षणिकादयो नयाः मिथोऽनपेक्षाः स्व-परप्रणाशिनः ।

त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्व-परोपकारिणः^३ ॥ ६० ॥

मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्ततास्ति नः ।

निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्^४ ॥ ६१ ॥

एतेषां नयानां विषय उपनयः^५ उपचारात् । तत्समूहो वस्तु, अन्यथार्थक्रियाकर्तृत्वानुप-
पत्तेः । अत्रोपयोगी श्लोकः —

ये सभी नय वस्तुस्वरूपका अवधारण न करनेपर समीचीन नय होते हैं,
क्योंकि, वे प्रतिपक्ष धर्मका निराकरण नहीं करते । किन्तु ये ही जब दुराग्रहपूर्वक वस्तु-
स्वरूपका अवधारण करनेवाले होते हैं तब मिथ्यानय कहे जाते हैं, क्योंकि, वे प्रति-
पक्षका निराकरण करनेकी मुख्यतासे प्रवृत्त होते हैं । यहां उपयोगी श्लोक—

जिस प्रकार एक कारक शेषको अपना सहायक कारक मान करके प्रयोजनकी
सिद्धिके लिये होता है, उसी प्रकार सामान्य व विशेष धर्मोंसे उत्पन्न नय आपको मुख्य
और गौणकी विवक्षासे दृष्ट हैं ॥ ५९ ॥

जो नित्य व क्षणिक आदि नय परस्परमें निरपेक्ष होकर अपना व परका नाश
करनेवाले हैं वे ही आप विमल मुनिके यहां परस्परकी अपेक्षा युक्त हो अपने व परके
उपकारी हैं ॥ ६० ॥

मिथ्यानयोंका विषयसमूह मिथ्या है, ऐसा कहनेपर उत्तर देते हैं कि वह मिथ्या
ही हो, ऐसा हमारे यहां एकान्त नहीं है । किन्तु परस्परकी अपेक्षा न रखनेवाले नय मिथ्या
हैं, तथा परस्परकी अपेक्षा रखनेवाले वे वास्तवमें अभीष्टसिद्धिके कारण हैं ॥ ६१ ॥

इन नयोंका विषय उपचारसे उपनय है । इनका समूह वस्तु है, क्योंकि, इसके
विना अर्थक्रियाकारित्व नहीं बन सकता । यहां उपयोगी श्लोक—

१ न चैकान्तेन नयाः मिथ्यादृष्टय एव, परपक्षानिराकरिणूनां सप (स्वप) क्षसंत्वावधारणे व्यापृतानां
स्यात्सम्यग्दृष्टित्वदर्शनात् । जयध. १, पृ. २५७.

२ एते सर्वेऽपि नयाः एकान्तावधारणगर्भा मिथ्यादृष्टयः, एतैरख्यसितवस्त्वभावात् । जयध. १, पृ. २४५.

३ प्रतिषु 'सिपा' इति पाठः । ४ वृ. स्व. ६२. तत्र 'यथैककं' इत्यस्य स्थानि 'यथैकशः' इति पाठः ।

५ वृ. स्व. ६१.

६ आ. मी. १०८.

७ प्रतिषु 'विप्यौपनयः' इति पाठः । तच्छाखा-प्रशाखाभ्योपनयः । अष्टशती १०७.

नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चयः ।

अविभ्राड्भावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा^१ ॥ ६२ ॥

एयदवियम्मि जे अत्थपज्जया वयणपज्जया चाधि ।

तीदाणागदभूदा तावदियं तं हवइ दव्वं ॥ ६३ ॥

धर्मे धर्मेऽन्य एवार्थो धर्मिणोऽनन्तधर्मणः ।

अंगित्वेऽन्यतमान्तस्य शेषान्तानां तदंगता^२ ॥ ६४ ॥

स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तव्यम्, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति चावक्तव्यं च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च इति एतानि सप्त सुनयवाक्यानि प्रधानीकृतैकधर्मत्वात्^३ । न चैतेषु सप्तस्वपि वाक्येषु स्याच्छब्दप्रयोग-नियमः^४, तथा प्रतिज्ञाशयादप्रयोगोपलम्भात् । सावधारणानि^५ वाक्यानि दुर्णयाः । एवं णयो परुविदो ।

नय एकान्त और उपनय एकान्तका विषयभूत त्रिकालवर्ती पर्यायोंका अभिन्न सत्ता-सम्बन्ध रूप समुदाय द्रव्य कहलाता है । वह द्रव्य कथंचित् एक और कथंचित् अनेक है ॥ ६२ ॥

एक द्रव्यमें जितनी अतीत च अनागत अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय होती हैं उतने मात्र वह द्रव्य होता है ॥ ६३ ॥

अनन्त धर्म युक्त धर्मोंके प्रत्येक धर्ममें अन्य ही प्रयोजन होता है । सब धर्मोंमें किसी एक धर्मके अंगी होनेपर शेष धर्म अंग होते हैं ॥ ६४ ॥

कथंचित् है, कथंचित् नहीं है, कथंचित् अवक्तव्य है, कथंचित् है और नहीं है, कथंचित् है और अवक्तव्य है, कथंचित् नहीं है और अवक्तव्य है, कथंचित् है नहीं है और अवक्तव्य है, इस प्रकार ये सात सुनयवाक्य हैं, क्योंकि, वे एक धर्मको प्रधान करते हैं । इन सातों ही वाक्योंमें 'स्यात्' शब्दके प्रयोगका नियम नहीं है, क्योंकि, वैसी प्रतिज्ञाका आशय होनेसे अप्रयोग पाया जाता है । ये ही वाक्य सावधारण अर्थात् अन्यव्यावृत्ति रूप होनेपर हर्नय हो जाते हैं । इस प्रकार नयकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

१ आ. मी. १०७. २ पद्वं. पु. १, पृ. ३८६; जयध. पृ. २५३. ३ आ. मी. २२.

४ प्रतिपु ' प्रधानानि कृतैक... ' इति पाठः ।

५ अप्रती ' स्याच्छब्दः प्रयोगनियमः ' आ-काप्रलोः स्यात्प्रयोगनियमः ' इति पाठः ।

६ प्रतिपु ' सा च धारणानि इति पाठः ।

कम्मपयडिपाहुडस्स एदे चत्तारि वि अवयारा एदेण देसामासियसुत्तेण परूविदा । तं जहा — ‘ अग्गेणियस्स पुव्वस्स पंचमस्स वत्थुस्स चउत्थे पाहुडे कम्मपयडी णाम । तत्थ इमाणि चउवीसअणियोगहराणि णादव्वाणि भवंति ’ त्ति एदेण सव्वेण वि सुत्तेण उवक्कमो पंचविहो परूविदो । एसो उवक्कमो सेसाणं तिण्णं अवयाराणं उवलक्खणो, तेण ते वि एत्थ दड्ढव्वा, एदस्स तदविणाभावित्तादो । एदमग्गेणियं णाम पुव्वं णाण-सुदंग-दिट्ठिवाद-पुव्वमिदि छप्पयारं, णाणादीहिंतो पुधभूदग्गेणियाभावादो । तेण सिस्समइविप्फारणडं छण्णं पि चउ-विहो अवयारो उच्चदे । तं जहा — णाम-डवणा-दव्व-भावभेएण चउविहं णाणं । आदिल्ला तिण्णि वि णिक्खेवा दव्वड्डियणयसंठिदा, तिण्णमण्णयदंसणादो । भावो पज्जवड्डियणय-

कर्मप्रकृतिप्राभृतके ये चारों ही अवतार (उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय) इस देशामर्शक सूत्रके द्वारा प्ररूपित किये गये हैं । वह इस प्रकारसे— ‘ अग्रायणी पूर्वकी पंचम वस्तुके चतुर्थ प्राभृतका नाम कर्मप्रकृति है । उसमें ये चौबीस अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं ’ इस प्रकार इस समस्त ही सूत्रके द्वारा पांच प्रकारके उपक्रमकी प्ररूपणा की गई है । यह उपक्रम शेष तीन अवतारोंका उपलक्षण है, अत एव उन्हें भी यहां देखना चाहिये; क्योंकि, यह उनका अविनाभावी है । यह अग्रायणी पूर्वज्ञान, श्रुत, अंग, दृष्टिवाद व पूर्वगतके अन्तर्गत होनेसे छह प्रकार है, क्योंकि, ज्ञानादिकोंसे पृथग्भूत अग्रायणी पूर्वका अभाव है । इसलिये शिष्योंकी बुद्धिको विकसित करनेके लिये उक्त छहोंके चार प्रकारका अवतार कहते हैं ।

विशेषार्थ—यहां अग्रायणी पूर्वका उद्गम इस प्रकार बतलाया गया है— मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय व केवलके भेदसे ज्ञान पांच प्रकार है । इनमें श्रुतज्ञान मुख्य है, क्योंकि, अग्रायणी पूर्वसे उसका ही सम्बन्ध है । वह श्रुतज्ञान भी अंगश्रुत और अनंगश्रुतके भेदसे दो प्रकार है । उनमें उक्त कारणसे ही अंगश्रुत मुख्य है । वह भी आचारांगादिके भेदसे बारह प्रकार है । इनमें बारहवां दृष्टिवादअंग मुख्य है जो पांच प्रकार है— परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका । इनमें पूर्वगत विवक्षित है, क्योंकि, उसके उत्पादपूर्व आदि चौदह भेदोंमें द्वितीय अग्रायणी पूर्व ही है । अतएव अग्रायणी पूर्वसे सम्बद्ध होनेके कारण यहां क्रमसे ज्ञान, श्रुतज्ञान, अंगश्रुत, दृष्टिवादअंग, पूर्वगत और अग्रायणी पूर्वके उपक्रमादि चार प्रकार अवतारके कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है ।

वह इस प्रकार है— नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे ज्ञान चार प्रकार है । इनमें आदिके तीन निक्षेप द्रव्यार्थिक नयके आश्रित हैं, क्योंकि, उन तीनके अन्वय देखा जाता है । भावनिक्षेप पर्यायार्थिक नयके निमित्तसे होनेवाला है, क्योंकि, वर्तमान पर्यायसे

णिबंधणो, वट्टमाणपज्जएणुवलक्खियदव्वत्तस्स भावत्तव्भुवगमादो । वुत्तं च—

णामं ठवणा दवियं ति एस' दव्वट्टियस्स णिक्खेवो ।

भावो दु पज्जवट्टियपरूवणा एस परमट्ठो' ॥ ६५ ॥

संपहि णिक्खेवट्ठो वुच्चदे— णामणां णाणसट्ठो अप्पाणम्मि वट्टमाणो । ठवणणां^१ सो एसो ति अभेदेण संकप्पिओ सव्भावासव्भावट्ठो । दुविहं दव्वणाणमागम-णोआगमभेएण । णाणपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदव्वणां, णेगमणयावलंबणादो । णोआगमदव्वणां तिविहं जाणुगसरीर-भविय-तव्वदिरित्तणोआगमदव्वणाणभेएण । जाणुगसरीर-भवियदुगं सुगमं, ग्रहसो परूविदत्तादो । तव्वदिरित्तणोआगमदव्वणां णाणहेदुपोत्थयादिदव्वणि । णाणपाहुड-जाणओ उवजुत्तो भावागमणां । एत्थ भावागमणाणे पयदं, सेसाणमसंभवादो । एदेण णय-णिक्खेवा दो वि परूविदा । अणुगमो वि परूविदो चेव, णय-णिक्खेवाणं तमहिक्किच्च'^४ परूविदत्तादो । एत्थ उवक्कमो आणुपुच्ची-णाम-पमाण-वत्तव्वदत्थाहियारभेएण पंचविहो

उपलक्षित द्रव्यको भाव स्वीकार किया गया है । कहा भी है—

नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीन द्रव्यार्थिक नयके निक्षेप हैं, किन्तु भाव पर्यायार्थिक नयका निक्षेप है; यह परमार्थ सत्य है ॥ ६५ ॥

अत्र निक्षेपका अर्थ कहते हैं— नाम ज्ञान अपने आपमें रहनेवाला ज्ञान शब्द है । 'वह यह है' इस प्रकार अभेदसे संकल्पित सद्भाव व असद्भाव रूप अर्थ स्थापनाज्ञान है । द्रव्यज्ञान आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकार है । ज्ञानप्राभृतका जानकार उपयोगसे रहित जीव आगमद्रव्यज्ञान है, क्योंकि, यहां नैगम नयका अवलम्बन है । ज्ञायकशरीर, भव्य और तद्द्रव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यज्ञानके भेदसे नोआगमद्रव्यज्ञान तीन प्रकार है । ज्ञायकशरीर और भव्य नोआगमद्रव्यज्ञान ये दो सुगम हैं, क्योंकि, इनकी प्ररूपणा बहुत-वार की गई है । ज्ञानकी हेतुभूत पुस्तक आदि द्रव्य तद्द्रव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यज्ञान है । ज्ञानप्राभृतका जानकार उपयोगयुक्त जीव भावागमज्ञान है । यहां भावागमज्ञान प्रकृत है, क्योंकि, शेष ज्ञानोंकी यहां सम्भावना नहीं है । इसके द्वारा नय और निक्षेप दोनोंकी प्ररूपणा की गई है । अनुगमकी भी प्ररूपणा की ही गई है, क्योंकि, उसका ही अधिकार करके नय और निक्षेपकी प्ररूपणा की गई है ।

यहां आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकारके भेदसे पांच प्रकार

१ प्रतिपु 'ते सो' इति पाठः ।

३ प्रतिपु 'ठवणां' इति पाठः ।

२ प. खं. पु. १, पृ. १५; पु. ४, पृ. ३. जयध. १, पृ. २६०.

४ प्रतिपु 'तमहिक्किच्च' इति पाठः ।

बुच्चदे । तत्थ आणुपुव्वीए एत्थ णत्थि संभवो, णाणेगत्तविवक्खादो । णज्जंते एदेण जीवादिपदत्था त्ति णाणमिदि गुणणामं । पमाणमेक्कं चेव, संगहणयावलंघणादो । अधवा पमाणं अणंतं, णाणस्स णेयप्पमाणत्तादो । वत्तव्वमेदस्स ससमय-परसमया । मदि-सुद-ओधि-मणपज्जव-केवलणानभेएण पंच अहियारा, ण वड्ढिमा ण चूणा; ववहारणयावलंघणादो ।

संपदि सुदणानमुहेण चउव्विहो वयारो बुच्चदे— णाम-ड्वणा-दव्व-भानसुदणान-भेएण चउव्विहं सुदणानं । आदिल्ला तिण्णि वि दव्वड्ढियस्स णिक्खेवा । कधं णामं दव्व-ड्ढियस्स ? ण, पज्जवड्ढिए खणक्खएण सदत्थविसेसभावेण संकेदकरणाणुववत्तीए वाचिय-वाचयभेदाभावादो । कधं सदणएसु तिसु वि सदव्वहारो ? अणपिदअत्थगयभेयाणमपिद-सदणिवंधणभेयाणं तेसिं तदविरोहादो । कधं ड्वणा दव्वड्ढियणयविसओ ? ण, अत्थम्हि

उपक्रम कहा जाता है । उनमें आनुपूर्वीकी यहां सम्भावना नहीं है, क्योंकि, यहां ज्ञानके एकत्वकी विवक्षा है । चूंकि इससे जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं अतः 'ज्ञान' यह गुणनाम है । प्रमाण— एक ही है, क्योंकि, यहां संग्रहनयका अवलम्बन है । अथवा प्रमाण अनन्त है, क्योंकि, ज्ञान ज्ञेयके प्रमाण है अर्थात् जितने (अनन्त) ज्ञेय हैं उतने ही ज्ञान भी हैं । वक्तव्य इसके स्वसमय और परसमय हैं । मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञानके भेदसे अधिकार पांच हैं । न वे अधिक हैं और न कम भी, क्योंकि, यहां व्यवहार-नयका अवलम्बन है ।

अब श्रुतज्ञानकी मुख्यतासे चार प्रकारका अवतार कहते हैं— नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव श्रुतके भेदसे श्रुतज्ञान चार प्रकार है । इनमें आदिके तीनों ही निक्षेप द्रव्यार्थिकनयके हैं ।

शंका—नाम द्रव्यार्थिकनयका निक्षेप कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पर्यायार्थिकनयमें क्षणक्षयी होनेसे शब्द और अर्थकी विशेषतासे संकेत करना न बन सकनेके कारण वाच्य-वाचकभेदका अभाव है ।

शंका—तो फिर तीनों ही शब्दनयोंमें शब्दका व्यवहार कैसे होता है ?

समाधान—अर्थगत भेदकी अप्रधानता और शब्दनिमित्तक भेदकी प्रधानता रखनेवाले उक्त नयोंके शब्दव्यवहारमें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—स्थापना द्रव्यार्थिकनयका विषय कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अर्थका उसके द्वारा ग्रहण होनेपर स्थापना

तग्गेहे संते ठवणुववत्तीदो । दच्चसुदणाणं पि दच्चद्वियणयविसओ, आहाराहेयाणमेयत्तकप्पणाए दच्चसुदग्गहणादो । भावणिकखेवो पज्जवद्वियणयविसओ, वट्ठमाणपज्जाएणुवलक्खियदच्चग्गहणादो ।

णिकखेवट्ठो वुच्चदे— णाम-ड्ववणा-आगम-णोआगमदच्चसुदणाणाणि सुगमाणि । णवरि सुदणाणहेदुभूदगुरु-कवलियादीणि तच्चदिरित्तणोआगमदच्चसुदणाणं ति वत्तव्वं । सुदोव-जुत्तो पुरिसो भावसुदणाणं । एवं णिकखेव-णयपरूवणाओ गदाओ ।

सुदणाणं पमाणं, ण प्पमेओ; तेणेत्थ अणहियारादो । अणुगमो गदो ।

पुच्चाणुपुच्चीए विदियं, पच्छाणुपुच्चीए चउत्थं, जहा-तहाणुपुच्चीए पढमं विदियं तदियं वा । सुदणाणं इदि णामं णोगोणं, सोदादिइंदिएहिंतो अणुप्पणस्स णाणस्स सुद-णाणसण्णाए गोणत्ताभावादो । पमाणमेक्कं चेव, सुदत्तमेत्तविक्खादो । अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति-अणियोगद्वारविक्खाए सुदणाणं संखेज्जं । अधवा अणंतं, पमेयाणंतियादो । वत्तव्वं स-परसमया, सुणय-दुण्णयसरूवपरूवणादो । अंगमणंगमिदि वे अत्थाहियारा । सामाइयं

वन सकती है ।

द्रव्यश्रुतज्ञान भी द्रव्यार्थिकनयका विषय है, क्योंकि, आधार और आधेयके एकत्वकी कल्पनासे द्रव्यश्रुतका ग्रहण किया गया है । भावनिक्षेप पर्यायार्थिक नयका विषय है, क्योंकि, वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यका यहां भाव रूपसे ग्रहण किया गया है ।

निक्षेपका अर्थ कहते हैं— नाम, स्थापना तथा आगम व नोआगम द्रव्यश्रुतज्ञान सुगम हैं । विशेष इतना है कि श्रुतज्ञानके निमित्तभूत गुरु और कवलिया (ज्ञानका एक उपकरण) आदि तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यश्रुतज्ञान है, ऐसा कहना चाहिये । श्रुतज्ञानके उपयोगसे युक्त पुरुष भावश्रुतज्ञान है । इस प्रकार निक्षेप और नयकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

श्रुतज्ञान प्रमाण है, प्रमेय नहीं है; क्योंकि, उसका यहां अधिकार नहीं है । अनु-गमकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

वह श्रुतज्ञान पूर्वानुपूर्वीसे द्वितीय, पश्चादानुपूर्वीसे चतुर्थ और यथा-तथानुपूर्वीसे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय है । श्रुतज्ञान यह नाम नोगोण्य है, क्योंकि, श्रोत्रादिक इन्द्रियांसे नहीं उत्पन्न हुए ज्ञानकी श्रुतज्ञान संज्ञाके गोण्यताका अभाव है । प्रमाण एक ही है, क्योंकि, यहां श्रुतसामान्यकी विवक्षा है । अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारकी विवक्षासे श्रुतज्ञान संख्यात है । अथवा, प्रमेय अनन्त होनेसे वह अनन्त है । वक्तव्य स्वसमय और परसमय हैं, क्योंकि, सुनय और दुर्नयके स्वरूपकी यहां प्ररूपणा की गई है ।

अंगश्रुत और अनंगश्रुत इस प्रकार अर्थाधिकार दो हैं । सामायिक, चतुर्विंशति-

चतुर्वीसस्थो वंदन पडिककमणं वेणइयं किदियम्मं दसवेयालियं उत्तरइयणं कप्पववहारो
कप्पाकप्पियं महाकप्पियं पुंडरीयं महापुंडरीयं णिसिहियमिदि चोदसविहमणंगसुदं । तत्थ-सामा-
इयं दव्व-खेत्त-काले अप्पिदूण पुरिसजादं आभोगिय परिमिदापरिमियकालसामाइयं परूवेदि^१ ।
चतुर्वीसस्थो उसहादिजिणिंदाणं तच्चेइय-चेइयहराणं च कट्टिमाकट्टिमाणं दव्व-खेत्त-काल-
भावपमादिवण्णणं कुणदि^२ । वंदणा एदेसिं वंदणविहाणं परूवेदि^३ दव्वड्डियणयमवलंविऊण ।
पडिककमणं दीवसिय-राइय-इरियावहिय-पक्खिय-चाउम्मासिय-संवच्छरिय-उत्तमड्डमिदि सत्त-
पडिककमणाणि भरहादिखेत्ताणि दुस्समादिकाले छसंघडणसमणियंपुरिसे च अप्पिदूण

स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्यव्यवहार, कल्याणकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निपिट्टिका, इस प्रकार अनंगश्रुत चौदह प्रकार है । उनमें सामायिक अनंगश्रुत द्रव्य, क्षेत्र और कालकी अपेक्षा करके एवं पुरुषवर्गका विचार करके परिमित एवं अपरिमित काल रूप सामायिकका प्ररूपण करता है । चतुर्विंशतिस्तव अधिकार वृषभादिक जिनेन्द्रों और उनकी कृत्रिम व अकृत्रिम प्रतिमाओं एवं चैत्यालयोंके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और प्रमाणादिका वर्णन करता है । वन्दना अधिकार द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करके उनकी वन्दनाकी विधिका प्ररूपण करता है । प्रतिक्रमण अधिकार दैवसिक, रात्रिक, पेर्यापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, इस प्रकार सात प्रतिक्रमणोंकी भरतादिक क्षेत्रों, दुःपमादिक कालों और छह संहनन युक्त पुरुषोंकी विवक्षाकर प्ररूपण करता है । वैनयिक

१ प. खं. पु. १, पृ. ९६. जयध. १, पृ. ९७. तत्र समम् एकत्वेन आत्मनि आयः आगमनं परद्रव्येभ्यो निवृत्य उपयोगस्य आत्मनि प्रवृत्तिः समायः, अयमहं ज्ञाता द्रष्टा चेति आत्मविषयोपयोग इत्यर्थः; आत्मनः एकस्यैव ज्ञेय-ज्ञायकत्वसम्भवात् । अथवा सं समे राग-द्वेषाभ्यामनुपहृते मध्यस्थे आत्मनि आयः उपयोगस्य प्रवृत्तिः समायः, स प्रयोजनमस्येति सामायिकं नित्य-नैमित्तिकानुष्ठानम्, तत्प्रतिपादकं शास्त्रं वा सामायिकमित्यर्थः । गो. जी. प्र. ३६७. अंगपण्णत्ती. ३, ११-१३.

२ प. खं. पु. १, पृ. ९६. जयध. १, पृ. १००. तत्कालसम्बन्धिनां चतुर्विंशतितीर्थकराणां नाम-स्थापना-द्रव्य-भावानाश्रित्य पंचमहाकल्याण-चतुर्विंशदतिशयाष्टमहाप्राप्तिहार्य-परमौदारिकदिव्यदेह-समवसरणसमा-धर्मोपदेशनादितीर्थकर्महिमरतुतिः चतुर्विंशतिस्तवः, तस्य प्रतिपादकं शास्त्रं वा चतुर्विंशतिस्तव इत्युच्यते । गो. जी. प्र. ३६७. अं. प. ३, १४-१५.

३ प. खं. पु. १, पृ. ९७. जयध. १, पृ. १११. तस्मात् परं एकतीर्थकरावलम्बना चैत्य-चैत्यालयादि-स्तुतिः वन्दना, तत्प्रतिपादकं शास्त्रं वा वन्दना इत्युच्यते । गो. जी. प्र. ३६७. अं. प. ३-१६.

४ अप्रतौ 'उसंघडणसमाणिय', आ-काप्रत्योः 'उसंघणसमाणिय', मप्रतौ 'उसंघडणसमाणिय' इति पाठः ।

परुवेदि' । वेणइयं भरहेरावद-विदेहसाहणं दव्व-खेत्त-कालभावे पडुच्च पाण-दंसण-चारित्त-तवोवचारियविणयं वण्णेदि' । किदियम्मं अरहंत-सिद्धाइरिय-उवझाय-गणच्चित्तय-गणवसद्दार्हणं कीरमाणपूजाविहाणं वण्णेदि' । एत्थुववुज्जंती गाहा—

दुओणदं जहाजादं वारसावत्तमेव' वा ।

चउसीसं तिसुद्धं च किदियम्मं पउंजए' ॥ ६४ ॥

अधिकार भरत, पेरावत व विदेहमें साधनें योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका आश्रयकर ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्र्यविनय, तपोविनय एवं औपचारिक विनयका वर्णन करता है । कृतिकर्म अधिकार अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, गणचिन्तक (साधुसंघके कार्योकी चिन्ता करनेवाले) और गणवृषभ (गणधर) आदिकोंकी की जानेवाली पूजाके विधानका वर्णन करता है । यहां उपयुक्त गाथा—

यथाजात अर्थात् जातरूपके सदृश क्रोधाद्रि विकारोंसे रहित होकर दो अवनति, बारह आवर्त, चार शिरोनति और तीन शुद्धियोंसे संयुक्त कृतिकर्मका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६४ ॥

विशेषार्थ—अरहन्तादिकोंकी की जानेवाली पूजाके विधानका नाम कृतिकर्म है । इसमें कितनी अवनति, कितनी शिरोनति और कितने आवर्त किये जाते हैं, इसका निर्देश इस गाथामें किया गया है । दोनों हाथ जोड़कर शिरसे भूमिस्पर्श रूप नमस्कार करनेका

१ प. खं. पु. १, पृ. ९७. जयध. १, पृ. ११३. अं. प. ३, १७-१९.

२ प्रतिपु ' वेण्णेदि ' इति पाठः । प. खं. पु. १, पृ. ९७. विणओ पंचविहो— पाणविणओ दंसण-विणओ चरित्तविणओ तवविणओ उवयारियविणओ चेदि । गुणाधिकेयु नीचैर्वृत्तिर्विनयः । एदेसिं पंचणहं विणयाणं लक्खणं विहाणं फलं च वड्ढणियं परुवेदि । जयध. १, पृ. ११७. अं. प. ३, २०.

३ अ-आप्रत्योः ' चउझाय ' इति पाठः ।

४ प. खं. पु. १, पृ. ९७. कल्लते छिद्यते अष्टविधं कर्म येनाक्षरकदम्बकेन परिणामेन क्रियया वा तत् कृतिकर्म पापविनाशोपायः । मूला. टीका ७-७९. जिण-सिद्धाइरिय-वहुसुदेसु वंदिज्जमाणेसु जं कीरइ कम्मं तं किदियम्मं णाम । तस्स आदार्हण-तिक्खुत्त-पदाहिण-तिओणद-चउसिरं-वारसावत्तादिलक्खणं विहाणं फलं च किदियम्मं वण्णेदि । जयध. १, पृ. ११८. अं. प. ३, २२-२३.

५ प्रतिपु ' -मेय वा ' इति पाठः ।

६ क्षेणदं तु जहाजादं वारसावत्तमेव य । चउसिरं तिसुद्धं च किदियम्मं पउंजदे ॥ मूला. ७, १०४. चतु शिरस्त्रि-द्विनतं द्वादशावर्तमेव च । कृतिकर्माख्यमाचष्टे कृतिकर्मविधिं परम् ॥ हं. पु. १०, १३३. दुओणयं जहाजायं कृतिकम्मं वारसावयं । चउसिरं तिसुत्तं च इपवेसं एगणिवक्खमणं ॥ समन्नायांग सूत्र १२.

दसवेयालियं दच्च-खेत-काल-भावे अस्सिदूण आयार-गोयरविहिं^१ वण्णेदिं^२ ।
उत्तरज्झयणं उग्गमुप्पायणेसणदोसगयपायच्छित्तविहाणं कालादिविसेसिदं^३ परूवेदिं^४ । कप्प-
ववहारो साहूणं जं जम्हि काले कप्पदि पिच्छ-कमंडलु-कवली-पोत्थयादि परूवेदि, अकप्प-
सेवणाए कप्पस्स असेवयणाए च पायच्छित्तं परूवेदिं^५ । कप्पाकप्पियं साहूणं जं कप्पदि

नाम अवनति है । यह अवनति एक पंचनमस्कारके आदिमें और एक चतुर्विंशतिस्तवके आदिमें, इस प्रकार प्रकार दो बार की जाती है । मन, वचन व कायके संयमन रूप शुभ योगोंके वर्तनेका नाम आवर्त (दोनों हाथ जोड़कर उनको अग्रिम भागकी ओरसे चक्राकार घुमाना) है । पंचनमस्कारमंत्रोच्चारणके आदि व अन्तमें तीन-तीन तथा चतुर्विंशतिस्तवके आदि व अन्तमें तीन-तीन, इस प्रकार बारह आवर्त किये जाते हैं । अथवा, चारों दिशाओंमें घूमते समय प्रत्येक दिशामें एक-एक प्रणाम किया जाता है । इस प्रकार तीन बार घूमनेपर वे बारह होते हैं । दोनों हाथ जोड़कर शिरके नमानेका नाम शिरोनाति है । यह क्रिया पंचनमस्कार और चतुर्विंशतिस्तवके आदि व अन्तमें एक एक बार करनेसे चार बार की जाती है । यह कृतिकर्म जन्मजात बालकके समान निर्विकार होकर मन-वचन-कायकी शुद्धिपूर्वक किया जाना चाहिये ।

दशवैकालिक अनंगश्रुत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका आश्रयकर आचार-विषयक विधि व भिक्षाटनविधिकी प्ररूपणा करता है । उत्तराध्ययन अनंगश्रुत उद्गमदोष, उत्पादनदोष और एषणदोष सम्बन्धी प्रायश्चित्तकी विधिकी कालादिसे विशेषित प्ररूपणा करता है । कल्प्यव्यवहार श्रुत साधुओंको पीछी, कमण्डलु, कवली (ज्ञानोपकरणविशेष) और पुस्तकादि जो जिस कालमें योग्य हो उसकी प्ररूपणा करता है, तथा अयोग्य सेवन और योग्य सेवन न करनेके प्रायश्चित्तकी प्ररूपणा भी करता है । कल्प्याकल्प्य श्रुत साधुओंको जो योग्य है [और जो योग्य नहीं है] उन

१ प्रतिपु ' गोयारविहिं ' इति पाठः ।

२ प. खं. पु. १, पृ. ९७. साहूणमायार-गोयरविहिं दसवेयालीयं वण्णेदि । जयध. १, पृ. १२०. जदि-
गोचारस्स विहिं पिंडविसुद्धिं च जं परूवेदि । दसवेयालियसुचं दइ काला जत्थ संजुवा ॥ अं. प. ३, २४.

३ मप्रती ' विसेसिदच्च ' इति पाठः ।

४ प. खं. पु. १, पृ. ९७. चउज्झिहोवसगाणं वात्रीसपरिस्सहाणं च सहणविहाणं सहणफलमेदम्हादो
एदमुत्तरमिदि च उत्तरज्जेणं वण्णेदि । जयध. १, पृ. १२०. अं. प. ३, २५-२६.

५ प. खं. पु. १, पृ. ९७. रिसीणं जो कप्पइ ववहारो तम्हि खलिदे जं पायच्छित्तं तं च भणइ
कप्पववहारो । जयध. १, पृ. १२०. कप्पववहारो जहिं ववहिज्जइ जोग कप्पमाजोगा । सत्थं अवि इसिजोगं
आयरणं कहदि सच्चत्थं । अं. प. ३, २७.

[जं च ण कप्पदि] तं दुविहं पि दब्ब-खेत्त-कालमस्सिदूण परूवेदि' । महाकप्पियं भरह-
इरावदे-विदेहाणं तत्थतणतिरिक्ख-मणुस्साणं देवाणमण्णेसिं दब्बाणं च सरूवं छक्काले अस्सि-
दूण परूवेदि' । पुंडरीयं देवेसु असुरेसु णेरइएसु च तिरिक्ख-मणुस्साणमुववादं छक्काल-
विसेसिदं परूवेदि' । एदम्हि काले तिरिक्खा मणुस्सा च एदेसु कप्पेसु एदासु पुढवीसु
उप्पज्जंति ति परूवेदि ति वुत्तं होदि । महापुंडरीयं देविंदेसु चक्कवट्ठि-बलदेव-वासुदेवेसु
च कालमस्सिदूण उववादं वण्णेदि' । णिसिहियं पायच्छित्तविहाणमण्णं पि आचरणविहाणं
कालमस्सिदूण परूवेदि' ।

दोनोकी ही द्रव्य, क्षेत्र और कालका आश्रयकर प्ररूपणा करता है । महाकल्प्य श्रुत भरत,
ऐरावत और विदेह तथा वहां रहनेवाले तिर्यंच व मनुष्योंके, देवोंके एवं अन्य द्रव्योंके भी
स्वरूपका छह कालोंका आश्रयकर निरूपण करता है । पुण्डरीक श्रुत छह कालोंसे विशेषित
देव, असुर एवं नारकियोंमें तिर्यंच व मनुष्योंकी उत्पत्तिकी प्ररूपणा करता है । इस कालमें
तिर्यंच और मनुष्य इन कल्पों व इन प्रथिवियोंमें उत्पन्न होते हैं, इसकी वह प्ररूपणा करता
है; यह अभिप्राय है । महापुण्डरीक श्रुत कालका आश्रयकर देवेन्द्र, चक्रवर्ती, बलदेव व
वासुदेवोंमें उत्पत्तिका वर्णन करता है । निपिद्धिका कालका आश्रयकर प्रायश्चित्तविधि और
अन्य आचरणविधिकी भी प्ररूपणा करता है ।

१ प. खं. पु. १, पृ. ९८. साह्णमसाह्णं जं जं कप्पइ जं च ण कप्पइ तं सव्वं दब्ब-खेत्त-काल-भावे
अस्सिदूण मणइ कप्पाकप्पियं । जयध. १, पृ. १२१. गो. जी. जी. प्र. ३६८. कप्पाकप्पं तं चिय साह्णं नत्थ
कप्पमाकप्पं । वण्णज्जइ असिच्चा दब्बं खेत्तं भवं कालं ॥ अं. प. ३, २८.

२ प्रतिपु ' भवहइतावद ' इति पाठः ।

३ प. खं. पु. २, पृ. ९८. साह्णं गहण-सिक्खा-गणपोसणप्पसंस्करण-सल्लेहणुत्तमट्ठाणगयाणं जं कप्पइ
तरंस चेव दब्ब-खेत्त-काल-भावे अस्सिदूण परूवणं कुणइ महाकप्पियं । जयध. १, पृ. १२१. महतां कल्पम-
स्मिन्निति महाकल्पं शास्त्रम् । तच्च जिनकल्पसाधूनाष्टकष्टसंहननादिविशिष्टद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाववर्तिनां योग्यं
त्रिकालयोग्याद्यनुष्ठानं स्थविरकल्पानां दीक्षा-शिक्षा-गणपोषणात्मसंस्कार-सल्लेखनोत्तमार्थस्थानगतोत्कृष्टाराधनाविशेषं
च वर्णयति । गो. जी. जी. प्र. ३६८. अं. प. ३, २९-३१.

४ प. खं. पु. १, पृ. ९८. भवणवासिय-वाणवेंतर जोहसिय-कप्पवासिय-वेमाणियदेविंद-समाणियादिसु
उप्पत्तिकारणदान-पूजा-सील-तवोववास-सम्मत्त-अकाम-णिज्जराओ तेसियुववादभवणसरूवाणि च वण्णेदि पुंडरीयं ।
जयध. १, पृ. १२१. गो. जी. जी. प्र. ३६८. अं. प. ३, ३१-३३.

५ प. खं. पु. १, पृ. ९८. तेसिं चेव पुव्वुत्तदेवाणं देवीसु उप्पत्तिकारणतवोववासादियं महापुंडरीयं
परूवेदि । जयध. १, पृ. १२१, महच्च तत्पुण्डरीकं महापुण्डरीकं शास्त्रम् । तच्च महर्द्धिकेषु इन्द्र-प्रतीन्द्रादिषु
उत्पत्तिकारणतपोविशेषाद्याचरणं वर्णयति । गो. जी. जी. प्र. ३६८.

६ प. खं. पु. १, पृ. ९८. णाणामेदमिणं पायच्छित्तविहाणं णिसीहियं वण्णेदि । जयध. १, पृ. १२१.
णीसोहियं हि सत्थं पमाददोस्स दूरपरिहरणं । पायच्छित्तविहाणं कहेदि कालादिभावणं ॥ अं. प. ३, ३४.

संपहि णाम-ड्वणा-दव्व-भावंगसुदभेएण चउविहमंगसुदणाणं । आदित्ता तिणिणं वि णिक्खेवा दव्वड्डियणयपहवा, भावणिक्खेवो पज्जवड्डियणयसमुम्भूदो । तत्थ णिक्खेवड्डो वुच्चदे— अंगसदो अप्पाणम्मि वट्टमाणो णामंगं । तमेदं ति वुद्धीए अण्णत्थ समारोविदं ड्वणंगं । अंगसुदपारओ अणुवज्जुत्तो भट्टाभट्टसंसकारो आगमदव्वंगं । जाणुगसरीरं भविय-वट्टमाण-समुज्झादं णोआगमदव्वंगं । कधमेदिसिं अंगसण्णा ? आधारे आधेयेवयारादो । अदि एवं तो णोआगमत्तं ण घडदे, अंगागमाणमभेदादो ? ण, जीवदव्वस्स सदो अभिण्ण-आगमभावस्स भट्टाभट्टसंसकारस्स आगमसण्णिदस्स पडिसेहफलत्तादो । होदु णाम सरीरस्स णोआगमत्तमंगसुदत्तं च, ण भविस्सकाले अंगसुदपारयस्स णोआगमत्तं, उवयारेण आगम-

अब नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव अंगश्रुतके भेदसे अंगश्रुतज्ञान चार प्रकार है । आदिके तीनों निक्षेप द्रव्यार्थिक नयके निमित्तसे होनेवाले हैं, तथा भावनिक्षेप पर्यायार्थिक नयसे उत्पन्न है । उनमें निक्षेपके अर्थको कहते हैं— अपने आपमें रहनेवाला अंग शब्द नाम अंग है । ' वह यह है ' इस प्रकार बुद्धिमें आरोपित अन्य अर्थका नाम स्थापना अंग है । जो जीव अंगश्रुतके पारंगत, उपयोग रहित व भ्रष्ट अथवा अभ्रष्ट संस्कारसे सहित है वह आगम द्रव्य अंग है । भव्य, वर्तमान और त्यक्त ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्यअंग है ।

शंका—इनकी अंग संज्ञा कैसे सम्भव है ?

समाधान—आधारमें आधेयका उपचार करनेसे इनकी अंग संज्ञा उचित है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उनके नोआगमपना घटित नहीं होता, क्योंकि, अंगके आगमसे कोई भेद नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उसका प्रयोजन स्वतः आगमभावसे अभिज्ञ, भ्रष्ट व अभ्रष्ट संस्कारवाले तथा आगम संज्ञासे युक्त जीव द्रव्यका प्रतिषेध करना है ।

शंका—शरीरके नोआगमत्व और अंगश्रुतत्व भले ही हो, किन्तु भविष्य कालमें अंगश्रुतके पारगामी होनेवाले जीवके नोआगमपना सम्भव नहीं है, क्योंकि, वहां उपचारसे

१ प्रतिष्ठु ' भट्टाभट्ट ' इति पाठः ।

२ अ-काप्रत्योः ' समेज्झादं ' इति पाठः ।

३ आप्रतौ ' सदो ' इति पाठः ।

सण्णिदजीवदव्वस्स तत्थुवलंभादो ? ण एस दोसो, एदस्स जीवस्स अंगसुदसण्णा चेव, अणागयैअंगसुदपज्जाएण भविस्समाणत्तादो । उवयारेण आगमसण्णा णत्थि, वट्टमाणादीदाणा-
गयआगमाधारधम्माणमभावादो । तव्वदिरित्तिणोआगमअंगसुदमंगसुदसंदरयणा तस्स हेदुभूद-
दव्वाणि वा । अंगसुदपारंओ उवजुत्तो आगमभावंगसुदं । केवलणाणी आगमंगसुदणिमित्तभूदो
णोआगमंगसुदं । कथं पज्जायणए उवयारो जुज्जदे ? ण, णेगमणयावलंबणेण दोसाभावादो । एवं
णिकंखेव-णयपरूवणा कदा ।

दोसु अणुगमेसु कस्सेत्थ गहणं ? [पमाणस्स], ण प्पमेयस्स; तेणेत्थ अहियारा-
भावादो । पुव्वाणुपुव्वीए पढमं । पच्छाणुपुव्वीए विदियं, णोअंगसुदं पेक्खिदूण अंगम्मि दुब्भा-
उवलंभादो । जत्थ-तत्थाणुपुव्वी एत्थ ण संभवदि, दुब्भावादो । अंगसुदमिदि गुणणामं,

आगम संज्ञा युक्त जीव द्रव्य पाया जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इस जीवकी अंगश्रुत संज्ञा ही है, कारण कि वह भविष्यमें होनेवाली अंगश्रुत पर्यायसे भविष्यमान है । किन्तु उसकी उप-
चारसे आगम संज्ञा नहीं है, क्योंकि वर्तमान, अतीत और अनागत कालमें आगमके
आधारभूत धर्मोंका वहां अभाव है ।

अंगश्रुतकी शब्दरचना अथवा उसके हेतुभूत द्रव्य तद्रव्यतिरिक्त नोआगम-
अंगश्रुत कहलाते हैं । अंगश्रुतका पारगामी उपयोग युक्त जीव आगमभावअंगश्रुत है ।
आगमअंगश्रुतके निमित्तभूत केवलज्ञानी नोआगमअंगश्रुत कहे जाते हैं ।

शंका—पर्यायनयमें उपचार कैसे योग्य है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नैगमनयका अवलम्बन करनेसे कोई दोष नहीं आता ।

इस प्रकार निक्षेप और नयकी प्ररूपणा की गई है ।

दो अनुगमोंमें किसका यहां ग्रहण है ? [प्रमाणका ग्रहण है]; प्रमेयका ग्रहण नहीं
है; क्योंकि, उसका यहां अधिकार नहीं है । पूर्वानुपूर्वीसे प्रथम और पश्चादानुपूर्वीसे द्वितीय
है, क्योंकि, नोअंगश्रुतकी अपेक्षा करके अंगमें द्वित्व पाया जाता है । यत्र-तत्रानुपूर्वी यहां
सम्भव नहीं है, क्योंकि, दो ही भेद हैं । अंगश्रुत यह गुणनाम है, क्योंकि, जो तीनों कालकी

अंगति गच्छति व्याप्नोति त्रिकालगोचराशेषद्रव्य-पर्यायानित्यंगशब्दनिष्पत्तेः । द्रव्यद्वियणए
अवलंबिदे प्रमाणमेकं चेव, अंगत्तं पडुच्च भेदाभावादो । व्यवहारणयं^१ पडुच्च भण्णमाणे
चउसट्ठी अंगसुदप्रमाणं होदि । कुदो ? चउसट्ठिअक्खरेहि णिप्पणत्तादो । काणि चउसट्ठि-
अक्खराइं ? वुच्चदे — कादि-हकारांता तेत्तीसवण्णा, विसज्जणिज्ज-जिह्मामूलीयाणुस्सारुवधुमा-
णिया चत्तारि, सरा सत्तावीस, हरस-दीह-पुधमेएण एक्केक्कम्हि सेर तिण्णं सराणमुवलंभादो ।
एदे सव्वे वि वण्णा चउसट्ठी हवति^२ । अक्खरसंजोगं^३ पडुच्च एकलक्ख-चउरासीदिसहस्स-
चउसद-सत्तसट्ठि-कोडाकोडीयो चोदालीसलक्ख-तेहत्तरिसद-सत्तरिकोडीओ पंचाणउदिलक्ख-
एक्कवंचाससहस्स-पण्णारसुत्तरल्लसदाणि च अंगसुदप्रमाणं होदि । १८४४६७४४०७३-
७८९५५१६१५ । चउसट्ठि-अक्खराणमेग-दुसंजोगआदिभंगेहिंतो एत्तियमेत्तसंजोगक्खराण-
उत्पत्तिदंसणादो^४ । पदं पडुच्च वारहुत्तरसदकोडि-तेसीदिलक्ख-पंचुत्तरअडुवंचाससहस्समेत्तमंग-

समस्त द्रव्य च पर्यायोंको ' अंगति ' अर्थात् प्राप्त होता है या व्याप्त करता है वह अंग है, इस प्रकार अंग शब्द सिद्ध हुआ है । द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करनेपर प्रमाण एक ही है, क्योंकि, अंगसामान्यकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है । व्यवहारनयकी अपेक्षा कथन करनेपर अंगश्रुतका प्रमाण चौंसठ है, क्योंकि, वह चौंसठ अक्षरोंसे उत्पन्न हुआ है ।

शंका—चौंसठ अक्षर कौनसे हैं ?

समाधान—क को आदि लेकर हकार तक तेत्तीस वर्ण, विसर्जनीय, जिह्मामूलीय, अनुस्वार और उपध्मानीय ये चार; सत्ताईस स्वर, क्योंकि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतके भेदसे एक एक स्वरमें तीन स्वर पाये जाते हैं । ये सब ही वर्ण चौंसठ होते हैं ।

अक्षरसंयोगकी अपेक्षा करके अंगश्रुतका प्रमाण एक लाख चौरासी हजार चार सौ सड़सठ कोड़ाकोड़ी चचालीस लाख तिहत्तर सौ सत्तर करोड़, पंचानव लाख इक्यावन हजार छह सौ पन्द्रह १८४४६७४४०७३ ५०९५५१६१५ होता है, क्योंकि, चौंसठ अक्षरोंके एक दो संयोगादि रूप भंगोंसे इतने मात्र संयोगाक्षरोंकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

पदकी अपेक्षा करके अंगश्रुतका प्रमाण एक सौ वारह करोड़ तेरासी लाख अट्ठा-

१ प्रतिपु ' व्यवहारणयं ' इति पाठः ।

२ जयध. १, पृ. ८९. तेत्तीस वेंजणाइं सत्तावीसा सरा तथा मणिया । चत्तारि यं जोगवहा चउसट्ठी मूलवण्णाओ ॥ गो. जी. ३५१.

३ प्रतिपु ' संजोग ' इति पाठः ।

४ जयध. १, पृ. ८९. चउसट्ठिपदं विरलिय दुगं च दाऊण संशुणं किच्चा । रूऊणं च कुए पुण सुद-
णाणस्सक्खरा हांति ॥ एकट्ठ च च य ल्लसत्तयं च च सुण्ण-सत्त-सिय-सत्ता । सुण्णं णव पण पंच य एक्कं
ल्लक्खेक्कगो य पणं च ॥ गो. जी. ३५२-३५३. पणदस सोलस पण पण णव णभ सग तिणिणं चेव सगं । सुण्णं
चउ-चउ-सग-ल्ल-चउ-चउ-अट्ठेक्क सव्वसुदवण्णा ॥ अं. प. १, १४.

सुदं । ११२८३५८००५ । कधमेदेसिं पदाणुमुप्पत्ती ? सोलससदचोत्तीसकोडित्तेसीदि-
लक्ख-अट्टहत्तरिसदअट्टासीदिसंजोगक्खरेहि मज्झिमपदमेगं होदि । १६३४८३०७८८८ ।
एदेहि एगमज्झिमपदसंजोगक्खरेहि पुव्विल्लसव्वसंजोगक्खरेसु विहत्तेसु पुव्विल्लअंगपदाणं
[उप्पत्ती] होदि । एदेसिमंगाणं णमोक्कारो—

कोटीशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्यधिकानि चैव ।

पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्या एतच्छ्रुतं पंच पदं नमामि ॥ ६७ ॥

एकपद-वर्णनमस्कारोऽयम्—

पोडशशतं चतुस्त्रिंशत्कोटीनां त्र्यशीतिमेव लक्षाणि ।

शतसंख्याष्टासप्ततिमष्टाशीतिं च पदवर्णान् ॥ ६८ ॥

वन हजार पांच पद मात्र है ११२८३५८००५ ।

शंका—इन पदोंकी उत्पत्ति कैसे होती है ?

समाधान—सोलह सौ चौंतीस करोड़ तेरासी लाख अठत्तर सौ अठासी संयोगा-
क्षरोंसे एक मध्यम पद होता है । १६३४८३०७८८८ । इन एक मध्यम पदके संयोगाक्षरोंका
पूर्वोक्त सब संयोगाक्षरोंमें भाग देनेपर पूर्वोक्त अंगपदोंकी उत्पत्ति होती है । इन अंग-
पदोंको नमस्कार—

एक सौ बारह करोड़ तेरासी लाख अट्ठावन हजार पांच पद प्रमाण इस श्रुतको
मैं नमस्कार करता हूं ॥ ६७ ॥

यह एकपद-वर्णनमस्कार है—

सोलह सौ चौंतीस करोड़ तेरासी लाख अठत्तर सौ अठासी मात्र एक पदके
वर्णोंको [नमस्कार करता हूं] ॥ ६८ ॥

१ वारुत्तरसयकोडी तेसीदी तह य होंति लक्खणं । अट्ठावणसहस्सा पंचेव पदाणि अंगणं ॥
गो. जी. ३४९. सयकोडी वारुत्तर तेसीदीलक्खमंगगंथाणं । अट्ठावणसहस्सा पयाणि पंचेव जिणदिट्ठं ॥ अं. प. १, १२.

२ कोट्यश्चैव चतुस्त्रिंशत् तच्छतान्यपि पोडश । त्र्यशीतिश्च पुनर्लक्षाः शतान्यष्टौ च सप्ततिः ॥ अष्टा-
शीतिश्च वर्णाः स्युर्मध्यमे तु पदे स्थिताः । पूर्वगपदसंख्या स्यान्मध्यमेन पदेन सा ॥ ह. पु. १०, २४-२५.
सोलससयंचउत्तीसा कोडी तियसीदिलक्खयं चैव । सत्तसहस्साट्ठसया अट्टासीदी य पदवण्णा ॥ गो. जी. ३३५.
सोलससयंचउत्तीसा कोडी तियसीदिलक्खयं जत्थ । सत्तसहस्साट्ठसयाऽडसीदऽपुणरुत्तपदवण्णा ॥ अं. प. १, ५.

३ मज्झिमपदक्खरवहिदवण्णा ते अंग-पुव्वगपदाणि । गो. जी. ३५४.

अवसेसक्खरपमाणमेत्तियं होदि^१ । ८०१०८१७५ । पुणो एदेहि वत्तीसक्खरेहि भागे हिदे चौदसपड्ढणयाणं पमाणपदपमाणमेत्तियं होदि । २५०३३८० । एदं खंडपदम् । ३/३ । अत्थपदेहि गणिज्जमाणे संखेज्जमंगसुदं होदि । किमत्थपदम् ? जेत्तिएहि अक्खरेहि अत्थोवलद्धी होदि तमत्थपदं^२ । एत्थुवउज्जंती गाइ—

तिविहं तु पदं भणिदं अत्थपद-पमाण-मज्झिमपदं ति ।

मज्झिमपदेण भणिदा पुव्वंगाणं पदविभागा^३ ॥ ६९ ॥

संघाद-पडिवत्ति-अणिओगद्वारेहि वि संखेज्जमंगसुदं । अधवा अणंतं, पमेयमेत्तंगसुद-

शेष अक्षरोंका प्रमाण इतना होता है ८०१०८१७५ । फिर इनमें वत्तीस अक्षरोंका भाग देनेपर चौदह प्रकीर्णकोंके प्रमाणपदोंका प्रमाण इतना होता है २५०३३८०, यह खण्डपद है ३/३ । अर्थात् उक्त पदोंका प्रमाण २५०३३८० ३/३ है ।

अर्थपदोंसे गणना करनेपर अंगश्रुतका प्रमाण संख्यात होता है ।

शंका—अर्थपद किसे कहते हैं ?

समाधान—जितने अक्षरोंसे अर्थकी उपलब्धि होती है उनका नाम अर्थपद है ।

यहां उपयोगी गाथा—

अर्थपद, प्रमाणपद और मध्यमपद, इस प्रकार पद तीन प्रकार कहा गया है । इनमें मध्यम पदसे पूर्व और अंगोंके पदविभाग कहे गये हैं ॥ ६९ ॥

संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारासे भी अंगश्रुत संख्यात है । अथवा प्रमेय मात्र

१ अडकोडि-एयलक्खा अट्टसहस्सा य एयसदिगं च । पणत्तरि वण्णाओ पड्ढणयाणं पमाणं तु ॥ गो. जी ३५०. पणत्तरि वण्णाणं सयं सहस्साणि होदि अट्टेव । इगिलक्खमट्टकोडी पड्ढणयाणं पमाणं तु ॥ अं. प. १, १३. जयध. १, पृ. ९३.

२ जयध. १, पृ. ९३.

३ जेत्तिएहि अक्खरेहि अत्थोवलद्धी होदि तेसिमक्खराणं कलानो अत्थपदं. णाम । जयध. १ पृ. ९१. एतं द्वि-त्रि-चतुःपंच-षट्-सप्ताक्षरमर्थवत् । पदमाधं... ॥ ह. पु. १०, २३. जाणदि अत्थं सत्थं अक्खरवूहेण जेत्तिएणेव । अत्थपयं तं जाणइ घडमाणय सिग्घमिच्चादि ॥ अं. प. १, ३.

४ तिविहं पयं जिणेहिमत्थपदं खलु पमाणपदमुत्तं । तदियं मज्झपयं तु तत्थत्थपयं परूवेमो ॥ अं. प. १, २; जयध. १, पृ. ९२. पदमर्थपदं ज्ञेयं प्रमाणपदमित्यपि । मध्यमं पदमित्येवं त्रिविधं तु पदं स्थितम् ॥ ह. पु. १०-३१.

वियप्पुवलंभादो । वत्तव्वं स-परसमया^१ अत्थाहियारो चारसविहो । तद्यथा — आचारः सूत्रकृतं स्थानं समवायो व्याख्याप्रज्ञप्तिः ज्ञातृधर्मकथा उपासकाध्ययनं अन्तकृदशा अनुत्तरोपपादिक-दशा प्रश्नव्याकरणं विपाकसूत्रं दृष्टिवाद इति । तत्र आचारे अष्टादशपदसहस्रे । १८००० । चर्याविधानं शुद्धयष्टकं पंचसमिति-त्रिगुप्तिविकल्पं कथ्यते —

कधं चरे कधं चिट्ठे कधमासे कधं सए ।

कधं भुंजेज्ज भासेज्ज कधं पावं ण वज्झदि ॥ ७० ॥

जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सए ।

जदं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण वज्झदि^२ ॥ ७१ ॥

सूत्रकृते पट्त्रिंशत्पदसहस्रे । ३६००० । ज्ञानविनय-प्रज्ञापना-कल्याकल्प-छेदोप-

अंगश्रुतके विकल्पोंके पाये जानेसे वह अनन्त है । वक्तव्य स्वसमय और परसमय है । अर्थाधिकार बारह प्रकार है । वह इस प्रकारसे — आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्तिअंग, ज्ञातृधर्मकथांग, उपासकाध्ययनांग, अन्तकृदशांग, अनुत्तरोपपादिकदशांग, प्रश्नव्याकरणांग, विपाकसूत्रांग और दृष्टिवादांग । उनमेंसे आचारांगमें अठारह हजार पद हैं १८००० । इसमें चर्याविधि, आठ शुद्धियाँ, पांच समितियों और तीन गुप्तियोंके भेदोंकी प्ररूपणा की जाती है ।

किस प्रकार चलना चाहिये या आचरण करना चाहिये, किस प्रकार ठहरना चाहिये, कैसे बैठना चाहिये, किस प्रकार सोना चाहिये, कैसे भोजन करना चाहिये और किस प्रकार भापण करना चाहिये, जिससे कि पापका बन्ध न हो ? ॥ ७० ॥

यत्नपूर्वक चलना चाहिये, यत्नपूर्वक ठहरना चाहिये, यत्नपूर्वक बैठना चाहिये, यत्नपूर्वक सोना चाहिये, यत्नपूर्वक भोजन करना चाहिये और यत्नपूर्वक भापण करना चाहिये, इस प्रकार पापका बन्ध नहीं होता ॥ ७१ ॥

छत्तीस हजार ३६००० पद प्रमाण सूत्रकृतांगमें ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कल्या-

१ प्रतिपु 'स-परसमय' इति पाठः ।

२ प. खं. पु. १, पृ. ९९. आचारे चर्याविधानं शुद्धयष्टकं-पंचसमिति-गुप्तिविकल्पं कथ्यते । त. रा. १, २०, १२, तत्थ आचारांगं 'जदं चरे जदं चिट्ठे...' इच्छाहयं साद्वणमायारं वण्णेदि । जयध. १, पृ. १२२. आचरन्ति समन्ततोऽनुतिष्ठन्ति मोक्षमार्गमाराधयन्ति अस्मिन्ननेनेति वा. आचारः । तस्मिन् आचारांगे 'जदं चरे जदं चिट्ठे...' इत्याद्युत्तरवाक्यप्रतिपादिदशुनिजनसमस्ताचरणं वर्ण्यते । गो. जी. जी. प्र. ३५६. आयारं पदमंगं तत्थ-द्वारससहस्रसपयमेत्तं । यत्थायरंति भव्वा मोक्खपहं तेण तं णाम । अं. प. १, १५.

३ कधं चरे कधं चिट्ठे कधमासे कधं सये । कधं भासे कधं भुंजे कधं पावं ण वंघइ ॥ जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सये । जदं भासे जदं भुंजे एवं पावं ण वंघइ ॥ अं. प. १, १६.

स्थापना-व्यवहारधर्मक्रियाः दिगन्तरशुद्ध्या प्ररूप्यन्ते^१ । स्थाने द्वाचत्वारिंशत्पदसहस्रे ४२००० । एकाद्येकोत्तरक्रमेण जीवादिपदार्थानां दश स्थानानि प्ररूप्यन्ते^२ । तस्योदाहरणगाथा—

एकको चेव महप्पा सो दुवियप्पो तिलक्खणो भणिदो ।

चदुसंकमणाजुत्तो पंचगगुणप्पहाणो य ॥ ७२ ॥

छक्कपक्कमजुत्तो उवजुत्तो सत्तमंगिसव्भावो ।

अट्ठासवो णवट्ठो जीवो दसठाणिओ भणिदो^३ ॥ ७३ ॥

कल्प्य, छेदोपस्थापना और व्यवहारधर्मक्रियाओंकी दिगन्तरशुद्धिसे प्ररूपणा की जाती है । व्यालीस हजार ४२००० पद प्रमाण स्थानांगमें एकको आदि लेकर एक अधिक क्रमसे जीवादि पदार्थोंके दस स्थानोंकी प्ररूपणा की जाती है । उसके उदाहरणकी गाथायें—

वह जीव महात्मा अविनश्वर चैतन्य गुणसे अथवा सर्व जीव साधारण उपयोग रूप लक्षणसे युक्त होनेके कारण एक है । वह ज्ञान और दर्शन, संसारी और मुक्त, अथवा भव्य और अभव्य रूप दो भेदोंसे दो प्रकार है । ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाकी अपेक्षा; उत्पाद, व्यय व भ्रौव्यकी अपेक्षा; ज्ञान, दर्शन व चारित्र्यकी अपेक्षा; अथवा द्रव्य, गुण व पर्यायकी अपेक्षा तीन प्रकार कहा गया है । नारकादि चार गतियोंमें परिभ्रमण करनेके कारण चार संक्रमणोंसे युक्त है । औपशमिकादि पांच भावोंसे युक्त होनेके कारण पांच भेद रूप है । मरण समयमें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व

१ प. खं. पु. १, पृ. ९९. सूदयडं विदिथंगं छत्तीससहस्रपयपमाणं खु । सूचयदि सुत्तत्थं संखेवा तस्स करणं तं ॥ णाणविणयादिविधातीदाद्ययणादिसव्वसक्किरिया । पण्णायणा (य) सुक्कथा कप्पं ववहारविसक्किरिया ॥ छेदोवट्ठावणं जइण समयं यं परवदि । परस्स समयं जत्थ किरियाभेया अण्येयसे ॥ अं. प. १, २०-१२. सूत्रकृते ज्ञानविनयप्रज्ञापना-कल्प्याकल्प्यच्छेदोपस्थापना-व्यवहारधर्मक्रियाः प्ररूप्यन्ते । त. रा. १, २०, १२. सूदयदं णाम अंगं ससमयं परसमयं धीपरिणामं कलैव्यास्फुटत्वं-मदनावेश-विभ्रमाऽऽस्फालनसुख-पुंस्कामितादिस्त्रीलक्षणं च प्ररूपयति । जयध. १, पृ. १२२, सूत्रयति संक्षेपेण अर्थं सूचयति इति सूत्रं परमागमः । तदर्थं कृतं करणं ज्ञानविनयादिनिर्विघ्नाध्ययनादिक्रिया, अथवा प्रज्ञापना, कल्प्याकल्प्यम्; छेदोपस्थापना व्यवहारधर्मक्रिया स्वसमय-परसमयस्वरूपं च; सूत्रैः कृतं करणं क्रियाविशेषो यस्मिन् वर्ण्यते तत् सूत्रकृतं नाम द्वितीयमंगम् । गो. जी. प्र. ३५६..

२ प. खं. पु. १, पृ. १००. स्थाने अनेकाश्रयाणामर्थानां निर्णयः क्रियते । त. रा. १, २०, १२. द्वाणं णाम जीव-पुग्गलादीणमेगादिपुत्तरक्रमेण ठाणाणि वण्णेदि 'एकको चेव महप्पा' एवमाइसरूव्वेण । जयध. १, पृ. १२३. तिष्ठन्ति अस्मिन् एकाद्येकोत्तराणि स्थानानीति स्थानम् । ... एकाद्येकोत्तरस्थानानि वर्ण्यन्ते इति स्थानं नाम तृतीयमंगं । गो. जी. प्र. ३५६. वादालसहस्रपदं ठाणंगं ठाणभेयसंजुत्तं । चिट्ठति ठाणभेया एयादी जत्थ जिणदिट्ठा ॥ अं. प. १, २३. ३ पंचा, ७१-७२.

समवायं सलक्षचतुःषष्टिपदसहस्रे । १६४००० । सर्वपदार्थानां समवायश्चित्यते^१ । स चतुर्विधः द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावविकल्पैः । तत्र धर्माधर्मास्तिकाय-लोकाकाशैकजीवानां तुल्या-संख्येयप्रदेशत्वादेकेन प्रमाणेन द्रव्याणां समवायनात् द्रव्यसमवायः । जम्बूद्वीप--सर्वार्थसिद्धय-प्रतिष्ठाननरक-नन्दीश्वरैकवापीनां तुल्ययोजनशतसहस्रविष्कम्भप्रमाणेन क्षेत्रसमवायनात्क्षेत्रसम-वायः । सिद्धि-मनुष्यक्षेत्रतुविमान-सीमन्तनरकाणां तुल्ययोजनपंचचत्वारिंशच्छतसहस्रविष्कम्भ-प्रमाणेन क्षेत्रसमवायः । उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योस्तुल्यदशसागरोपमकोटाकोटिप्रामाण्यात् कालसम-वायनात्कालसमवायः । क्षायिकसम्यक्त्व-केवलज्ञान-दर्शन-यथाख्यातचारित्राणं यो भावस्तदनु-

व अधः, इन छह दिशाओंमें गमन करने रूप छह अपक्रमोंसे सहित होनेके कारण छह प्रकार है । चूंकि सात भंगोंसे उसका सद्भाव सिद्ध है, अतः वह सात प्रकार है । ज्ञाना-वरणादिक आठ कर्मोंके आस्रवसे युक्त होने, अथवा आठ कर्मों या सम्यक्त्वादि आठ गुणोंका आश्रय होनेसे आठ प्रकार है । नौ पदार्थों रूप परिणमण करनेकी अपेक्षा नौ प्रकार है । पृथिवी, जल, तेज, वायु, प्रत्येक व साधारण वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय रूप दस स्थानोंमें प्राप्त होनेसे दस प्रकार कहा गया है ॥ ७२-७३ ॥

एक लाख चौंसठ हजार १६४००० पद प्रमाण समवायांगमें सब पदार्थोंके समवायका अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र व कालादि अपेक्षा समानताका विचार किया जाता है । वह समवाय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे चार प्रकार है । उनमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, इन द्रव्योंके समान रूपसे असंख्यात प्रदेश होनेसे एक प्रमाणसे द्रव्योंका समवाय होनेके कारण द्रव्यसमवाय कहा जाता है । जम्बूद्वीप, सर्वार्थसिद्धि, अप्रतिष्ठान नरक और नन्दीश्वरद्वीपस्थ एक वापी, इनके समान रूपसे एक लाख योजन विस्तारप्रमाणकी अपेक्षा क्षेत्रसमवाय होनेसे क्षेत्रसमवाय है । सिद्धिक्षेत्र, मनुष्यक्षेत्र, क्रतुविमान और सीमन्त नरक, इनके समान रूपसे पैंतालीस लाख योजन विस्तारप्रमाणसे क्षेत्रसमवाय है । उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालोंके समान दश सागरोपम कोड़ाकोड़ि प्रमाणकी अपेक्षा कालसमवाय होनेसे काल-समवाय है । क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और यथाख्यातचारित्र, इनका

१ प. खं. पु. १, पृ. १०१. समवाये सर्वपदार्थानां समवायश्चित्यते । त. रा. १, २०, १२. समवायो गाम अंगं द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावाणं समवायं वर्णयति । जयध. १, पृ. १२४. सं संग्रहेण सादृश्यसामान्येन अव्ययन्ते ज्ञायन्ते जीवादिपदार्थां द्रव्य-क्षेत्र-कालभावानां चित्तव्य अस्मिन्निति समवायांगम् । गो. जी. जी. प्र. ३५६. समवायंगं अडकदिसहस्रसमिगलक्खमाणपयमेतं । संगहणयेण द्रवं खेतं कालं पडुच्च भवं ॥ दीवादी अवियंति अत्था णज्जीतं सरित्थसामण्णा । अं. प. १, २९-३०.

भवस्य तुल्यानन्तप्रमाणत्वाद्भावसमवायनाद्भावसमवायः । व्याख्याप्रज्ञप्तौ स-द्वि-लक्षाष्टविंशति-
पदसहस्रायां । २२८००० । पष्ठिव्याकरणसहस्राणि किमस्ति जीवो नास्ति जीवः क्वोत्पद्यते कुत
आगच्छतीत्यादयो निरूप्यन्ते । ज्ञातृधर्मकथायां संपंचलक्ष-षट्पंचाशत्सहस्रपदायां । ५५६००० ।
सूत्रपौरुषीषु भगवत्स्तीर्थकरस्य ताल्वोष्ठपुटविचलनमन्तरेण सकलभाषास्वरूपदिव्यध्वनिधर्म-
कथनविधानं जातसंशयस्य गणधरदेवस्य संशयच्छेदनविधानमाख्यानोपाख्यानानां च बहु-
प्रकाराणां स्वरूपं कथ्यते । उपासकाध्ययने सैकादशलक्ष-सप्ततिपदसहस्रे । ११७०००० । एका-

जो भाव है उसके अनुभवके तुल्य अनन्त प्रमाण होनेके कारण भावसमवाय होनेसे भाव-
समवाय है ।

दो लाख अठ्ठाईस हजार पद प्रमाण व्याख्याप्रज्ञप्तिमें क्या जीव है, क्या जीव
नहीं है, जीव कहां उत्पन्न होता है और कहांसे आता है, इत्यादिक साठ हजार प्रश्नोंके
उत्तरोंका निरूपण किया जाता है । पांच लाख छप्पन हजार पद युक्त ज्ञातृधर्म-
कथांगमें सूत्रपौरुषी अर्थात् सिद्धान्तोक्त विधिसे स्वाध्यायके प्रस्थापनमें भगवान् तीर्थ-
करकी तालु व ओष्ठपुटके हलन-चलनके विना प्रवर्तमान समस्त भाषाओं स्वरूप दिव्य-
ध्वनि द्वारा दी गई धर्मदेशनाकी विधिका, संशय युक्त गणधर देवके संशयको नष्ट
करनेकी विधिका, तथा बहुत प्रकार कथा व उपकथाओंके स्वरूपका कथन किया जाता है ।
ग्यारह लाख सत्तर हजार पद प्रमाण उपासकाध्ययनांगमें ग्यारह प्रकार श्रावकधर्मका

१ त. रा. १, २०, १२. (शब्दशः सदशोऽयं प्रबन्धः प्रायशोऽनेन । केवलमत्र सिद्धिक्षेत्रादीनामुदा-
हरणं नोपलभ्यते ।) प. खं. पु. १, पृ. १०१. जयध. १, पृ. १२४. ह. पु. १०, ३१-३३. गो. जी. जी. प्र.
३५६. अं. पं. १, ३०-३५.

२ प. खं. पु. १, पृ. १०१. व्याख्याप्रज्ञप्तौ पष्ठिव्याकरणसहस्राणि ' किमस्ति जीवः, नास्ति ? '
इत्येवमादीनि निरूप्यन्ते । त. रा. १, २०, १२. वियाहपण्णत्ता नाम अंगं सट्ठिवायरणसहस्राणि छण्णउदिसहस-
छिण्णयगजणि (जजणी) यसुहमसुहं च वण्णेदि । जयध. १, पृ. १२५. विशेषैः— बहुप्रकारैः, आख्यातं
' किमस्ति जीवः, किं नास्ति जीवः, किमेको जीवः, किमनेको जीवः, किं नित्यो जीवः, किमनित्यो जीवः, किं
वक्तव्यो जीवः, किमवक्तव्यो जीवः ? ' इत्यादीनि पष्ठिसहस्रसंख्यानि भगवद्दर्थतीर्थकरसन्निधौ गणधरदेवप्रश्र-
वाक्यानि प्रज्ञाप्यन्ते कथ्यन्ते यस्यां सा व्याख्याप्रज्ञप्तिर्नाम पंचममंगम् । गो. जी. जी. प्र. ३५६. अं. प.
१, ३६-३८.

३ प. खं. पु. १, पृ. १०१. ज्ञातृधर्मकथायामाख्यानोपाख्यानानां बहुप्रकाराणां कथनम् । त. रा.
१, २०, १२, णाहं धम्मकंहां णाम अंगं तित्थयराणं धम्मकहाणं सरुवं वण्णेदि । केण कहिति ते ? दिव्वज्जुणिणा ।
केरिसा सां ? संव्वंभासासरुवा अक्खंराणक्खरपिया अणत्तत्थगच्चवीजपदधडियसरीरा तिसंज्झविसय-च्छडियसु
णिरंतरं पयट्ठमाणिया इयं कालेसु संसय-विवज्जासाणज्झवसायभावगयगणहरदेवं पडि वट्ठमाणसहावा संकर-वीद-
गराभावादो विसदसह्वा एज्जवीसधम्मकहाकहणसहावा । जयध. १, पृ. १२५. अं. प. १, ३९-४४.

दशविधश्रावकधर्मो निरूप्यते । अत्रोपयोगी गाथा—

दंसण-वद-सामाइय-पोसह-सच्चित्त-रादिभस्से य ।

वम्हारंभ-परिग्गह-अणुमणमुद्धिद्ध-देसविरदी य ॥ ७४ ॥

संसारस्य अन्तो कृतो यैस्तेऽन्तकृतः नमि-मतंग-सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन-यमलीक-वलीक-किष्कंवल-पालंवाष्टपुत्रा इत्येते दश वर्द्धमानतीर्थकरतीर्थे, एवं वृषभादीनां त्रयो-विंशतितीर्थेषु अन्येऽन्ये, एवं दश-दशानगाराः दारुणानुपसर्गान्निर्जित्य कृत्स्नकर्मक्षयादन्तकृतः दश अस्यां वर्ण्यन्ते इति अन्तकृद्दश । अस्यां सत्रयोविंशतिलक्षाष्टविंशतिपदसहस्राणि

निरूपण क्रिया जाता है । यहां उपयोगी गाथा—

दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोपध, सच्चित्तविरति, रात्रिभक्तविरति, ब्रह्मचर्य, आरम्भ-विरति, परिग्रहविरति, अनुमतिविरति और उद्दिष्टविरति, यह ग्यारह प्रकारका देश-चारित्र है ॥ ७४ ॥

जिन्होंने संसारका अन्त कर दिया है वे अन्तकृत् कहे जाते हैं । नमि, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, वलीक, किष्कंवल, पालम्ब और अष्टपुत्र, ये दस वर्द्धमान तीर्थकरके तीर्थमें अन्तकृत् हुए हैं । इसी प्रकार वृषभादिक तेईस तीर्थकरोंके तीर्थमें भिन्न भिन्न दश अन्तकृत् हुए हैं । इस प्रकार दस दस अन्तगार घोर उपसर्गोंको जीतकर समस्त कर्मोंके क्षयसे अन्तकृत् होते हैं । चूंकि इस अंगमें उन दस दसका वर्णन किया जाता है अतएव यह अन्तकृद्दशांग कहलाता है । इस अंगमें तेईस लाख अट्ठाईस

१ प. खं. पु. १, पृ. १०२. उपासकाभ्ययने श्रावकधर्मलक्षणम् । त. रा. १, २०, १२. उवासयज्ज्ञयणं णाम अंगं दंसण-वय-सामाइय-पोमहोववास-सच्चित्त-रायिभक्त-वंभारंभ-परिग्गहाणुमणुद्धिद्धणामाणंभक्कारसण्हसुवासयाणं धम्ममेक्कारसविहं वण्णेदि । जयध. १, पृ. १२०. गो. जी. जी. प्र. ३५७. अं. प. १, ४५-४७.

२ चारित्रप्राभृत २२. गो. जी. ४७६. अं. प. १, ४६.

३ प्रतिपु 'पालम्बष्टपुत्रा' इति पाठः ।

४ प्रतिपु 'तयोर्विंशति' इति पाठः ।

५ त. रा. १, २०, १२. तत्र 'यमलीक-वलीक-किष्कंवल-पालम्बाष्टपुत्राः' इत्येतस्य स्थाने 'यम-वलीक-वलीक-किष्कंवल-पालम्बाष्टपुत्राः'; 'एवं' इत्येतस्य स्थाने 'च' इति पाठभेदः । प. खं. पु. १, पृ. १०२. अंतयडदसा णाम अंगं चउव्विहोवसग्गे दामणे सहियूण पाडिहेरं लद्धूण णिव्वाणं गदे सुदंसणादिदस-दससाह तित्थं पडि वण्णेदि । जयध. १, पृ. १२०. प्रतितीर्थं दश दश मुनीश्वरा तीव्रं चतुर्विधोपसर्गं सोद्वा इन्द्रादिभिर्विरचितं पूजादिप्रातिहार्यसम्भावनां लब्ध्वा कर्मक्षयान्तरं संसारस्यान्तं अवसानं कृतवन्तोऽन्तकृतः । श्रीवर्द्धमानतीर्थे नमि-मतंग-सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन-यमलीक-वलीक-किष्कंवल-पालम्बष्ट-पुत्रा इति दश । एवं वृषभादितीर्थेष्वपि दश-दशान्त-कृतो वर्ण्यन्ते यस्मिंस्तदन्तकृद्दशनामाष्टमंगम् । गो. जी. जी. प्र. ३५७. ... मायंगं रामपुत्तो सोमिल जमलीक णाम किक्कंवी । सुदंसणो वलीको य णमी अलंबद्ध पुत्तलया ॥ अं. प. १, ४८-५१.

२३२८००० । उपपादो जन्म प्रयोजनमेपां त इमे औपपादिकाः, विजय-वैजयन्त-जयन्ता-पराजित-सर्वार्थसिद्ध्याख्यानि पंचानुत्तराणि, अनुत्तरेषु^१ औपपादिकाः अनुत्तरौपपादिकाः । ऋषिदास-धन्य-सुनक्षत्र-कार्तिक-नन्द-नन्दन-शालिभद्राभय-वारिषेण-चिलातपुत्रा इति एते दश वर्द्धमानतीर्थकरतीर्थे । एवमृषभादीनां त्रयोविंशतितीर्थेषु अन्येऽन्ये । एवं दश-दशानगाराः दारुणानुपसर्गान्निर्जित्य विजयाद्यनुत्तरेषूत्पन्ना इति । एवमनुत्तरौपपादिकाः दश अस्यां वर्ण्यन्त इति अनुत्तरौपपादिकदशा^२ । अस्यां सद्धानवतिलक्ष-चतुश्चत्वारिंशत्पदसहस्राणि ९२४४००० । प्रश्नानां व्याकरणं प्रश्नव्याकरणम्, तस्मिन् सत्रिनवतिलक्ष-षोडशपदसहस्रे ९३१६००० प्रश्नान्नष्ट-मुष्टि-चिन्ता-लाभालाभ-सुख-दुख-जीवित-मरण-जय-पराजय-नाम-द्रव्यायुस्संख्यानानि लौकिक-वैदिकानामर्थानां निर्णयश्च प्ररूप्यते, आक्षेपणी-विक्षेपणी-संवेदनी-निर्वेदन्यश्चेति

हजार पद हैं २३२८००० ।

उपपाद अर्थात् जन्म ही जिनका प्रयोजन है वे औपपादिक कहलाते हैं । विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि, ये पांच अनुत्तर हैं । अनुत्तरोंमें उत्पन्न होनेवाले अनुत्तरौपपादिक कहे जाते हैं । ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिक, नन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, वारिषेण और चिलातपुत्र, ये दस वर्द्धमान तीर्थकरके तीर्थमें अनुत्तरौपपादिक हुए हैं । इसी प्रकार ऋषभादिक तेईस तीर्थकरोंके तीर्थमें भिन्न भिन्न दस अनुत्तरौपपादिक हुए हैं । इस प्रकार दस दस अनगार भयानक उपसर्गोंको जीतकर विजयादिक अनुत्तरोंमें उत्पन्न हुए हैं । चूंकि इस प्रकार इसमें दस दस अनुत्तरौपपादिक अनगारोंका वर्णन किया जाता है अतः वह अनुत्तरौपपादिकदशांग कहलाता है । इसमें बानवै लाख चवालीस हजार पद हैं ९२४४००० ।

प्रश्नोंका व्याकरण अर्थात् उत्तर जिसमें हो वह प्रश्नव्याकरण है । तेरानवै लाख सोलह हजार ९३१६००० पद युक्त उसमें प्रश्नके आश्रयसे नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुख, जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द्रव्य, आयु व संख्याकी तथा लौकिक एवं वैदिक अर्थोंके निर्णयकी प्ररूपणा की जाती है । इसके अतिरिक्त आक्षेपणी, विक्षेपणी,

१ प्रतिषु 'अनुत्तरे' इति पाठः ।

२ त. रा. १, २०, १२. (शब्दशः सदृशोऽयं प्रबन्धः प्रायशस्तत्र) । प. खं. पु. १, पृ. १०३. अनुत्तरोववादियदसा णाम अंगं चउव्विहोवसग्गे दारुणे सहियूण चउवीसण्हं तित्थयराणं तित्थेसु अणुत्तरविमाणं गदे दस दस मुणिवसहे वण्णेदि । जयध. १, पृ. १३०. गो. जी. जी. प्र. ३५७. अं. प. १, ५२-५५.

चतस्रः कथाः एताश्च निरूप्यन्ते' । विपाकसूत्रे चतुरशीतिशतपदलक्षे १८४००००० सुकृत-
दुःकृतविपाकश्चिन्त्येत' । एकादशांगानामियत्पदसमासः ४१५०२००० । द्वादशमंगं दृष्टिप्रवाद
इति । कौत्कल-काणविद्धि-कौशिक-हरिश्मश्रु-मांथपिक-रोमश-हारित-मुण्डाश्वलायनादीनां क्रिया-
वाददृष्टीनामशीतिशतम्, मरीचिकुमार-कपिलेलूक-गार्ग्य-व्याघ्रभूति-वाद्दलि-माठर-मौद्गल्याय-
नादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुरशीतिः, शाकल्य-चल्कलि-कुथुमि-सात्यमुग्रि-नारायण-कण्व-
माध्यंदिन-मोद-पिप्पलाद-वादरायण-स्विष्टिकृत्-ऐतिकायन-वसु-जैमिन्यादीनामज्ञानिकदृष्टीनां सप्त-
पष्टिः, वशिष्ठ-पाराशर-जतुकर्ण-वाल्मीकि-रोमहर्षणि-सत्यदत्त-व्यासैलापुत्रौपमन्यवैन्द्रदत्ताय-
स्थूणादीनां वैनयिकदृष्टीनां द्वात्रिंशत्, एषां दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिशष्ट्युत्तराणां प्ररूपणं

संवेदनी और निर्वेदनी, इन चार कथाओंकी भी प्ररूपणा की जाती है ।

एक सौ चौरासी लाख १८४००००० पद प्रमाण विपाकसूत्रमें पुण्य और पापके
विपाकका विचार किया जाता है । ग्यारह अंगोंके पदोंका जोड़ इतना है ४१५०२००० ।

चारहवां अंग दृष्टिप्रवाद है । कौत्कल, काणविद्धि, कौशिक, हरिश्मश्रु, मांथपिक,
रोमश, हारित, मुण्ड और अश्वलायनादिक क्रियावाददृष्टियोंके एक सौ अस्सी; मरीचि-
कुमार, कपिल, उलूक, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वाद्दलि, माठर और मौद्गल्यायन आदि
अक्रियावाददृष्टियोंके चौरासी; शाकल्य, चल्कलि, कुथुमि, सात्यमुग्रि, नारायण, कण्व,
माध्यंदिन, मोद, पिप्पलाद, वादरायण, स्विष्टिकृत्, ऐतिकायन, वसु और जैमिनी आदि
अज्ञानिकदृष्टियोंके सड़सठ; वशिष्ठ, पाराशर, जतुकर्ण, वाल्मीकि, रोमहर्षणि, सत्यदत्त,
व्यास, एलापुत्र, औपमन्यव, ऐन्द्रदत्त और अयस्थूण आदि वैनयिकदृष्टियोंके बत्तीस;
इन तीन सौ तिरेसठ मतोंकी प्ररूपणा और उनका निग्रह दृष्टिवाद अंगमें किया जाता है ।

१ प. खं. पु. १, पृ. १०४. आक्षेप-विक्षेपहेतु-नयाश्रितानां प्रश्नानां व्याकरणं प्रश्नव्याकरणम्, तस्मि-
ल्लौकिक-वैदिकानामर्थानां निर्णयाः । त. रा. १, २०, १२. पण्हायरणं णाम अंगं अवखेवणी-विकखेवणी-संवेयणी-
णिच्चेयणीणामाओ चउच्चिहं कहाओ पण्हादो णट्ट-मुट्ठि-चिंता लाहालाह-सुख-दुख-जीविय-मरणणि च वण्णेदि ।
जयध. १, पृ. १३१. गो. जी. जी. प्र. ३५७. अं. प. १, ५६-६७.

२ प. खं. पु. १, पृ. १०७. विपाकसूत्रे सुकृत-दुःकृतानां विपाकश्चिन्त्यते । त. रा. १, २०, १२.
विवायसुत्तं णाम अंगं दब्ब-क्खेत्त-काल-भावे अस्सिदूण सुहासुहकम्माणं विवायं वण्णेदि । जयध. १, पृ. १३२.
चुलसीदिलक्खकोडा पयाणि णिच्चं विवागसुत्ते य । कम्माणं बहुसत्ती सुहासुहाणं हु मज्झिमया ॥ तिब्ब-मंदाणुभावा
दब्बे खेत्तेसु काल भावे य । उदयो विवायरूवो भणिज्जइ जत्थ वित्थारा ॥ अं. प. १, ६८-६९.

३ अप्रती ' एकादशांगानामियात्पद- ', आ-काप्रत्योः ' एकादशांगानामियात्पद- ' इति पाठः ।

४ प्रतियु ' कण्ठ-माध्यंदिन ' इति पाठः ।

निग्रहश्च दृष्टिवादे क्रियते' । एवमंगश्रुतस्य द्वादश अधिकाराः । अत्र दृष्टिवादे प्रयोजनम्, स्वकुक्षिस्थितमहाकर्मप्रकृतिप्राभृतत्वात् ।

संपहि दिड्ढिवादस्स अवयारो वुच्चदे — णाम-ड्ववणा-दव्व-भावभेएण चउच्चिहो डिड्ढिवादो । तत्थ आदिल्ला तिण्णि वि णिक्खेवा दव्वड्ढियणयसंभवा, अंतिमो पज्जवड्ढियणयसंभवो । एदेसु णामणिक्खेवो दिड्ढिवादसहो चज्झत्यणिरवेक्खो अप्पाणम्हि वट्टमाणो । सो एसो ति एयत्तणेण संकप्पिओ अत्थो ड्ववणादिड्ढिवादो । दव्वदिड्ढिवादो आगम-णोआगम-दिड्ढिवादभेएण दुविहो । तत्थ दिड्ढिवादजाणओ अणुवजुत्तो भट्ठाभट्ठसंसकारो पुरिसो आगम-दव्वदिड्ढिवादो । णोआगमदव्वदिड्ढिवादो जाणुपसरीर-भविय-तव्वदिरित्तभेएण तिविहो । आदिमं सुगमं, बहुसो उत्तथादो । णोआगमदिड्ढिवादस्सूवेण परिणमंतओ जीवो णोआगमभविय-दिड्ढिवादो । दिड्ढिवादसुदहेदुभूददव्वणि आहारादीणि तव्वदिरित्तणोआगमदव्वदिड्ढिवादो ।

इस प्रकार अंगश्रुतके चारह अधिकार हैं । यहां दृष्टिवादसे प्रयोजन है, क्योंकि, उसकी कुक्षिमें महाकर्मप्रकृतिप्राभृत स्थित है ।

अब दृष्टिवादका अवतार कहते हैं— नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे दृष्टिवाद चार प्रकार है । इनमें आदिके तीनों निश्चेष्ट द्रव्यार्थिक नयके निमित्तसे होनेवाले हैं, और अन्तिम पर्यायार्थिक नयके निमित्तसे होनेवाला है । इनमें बाह्यार्थसे निरपेक्ष अपने आपमें प्रवर्तमान दृष्टिवाद शब्द नामदृष्टिवाद है । 'वह यह है' इस प्रकार एक रूपसे संकल्पित पदार्थ स्थापनादृष्टिवाद है । आगमदृष्टिवाद और नोआगमदृष्टिवादके भेदसे द्रव्यदृष्टिवाद दो प्रकार है । उनमें दृष्टिवादका जानकार उपयोग रहित भ्रष्ट व अभ्रष्ट संस्कारवाला पुरुष आगमद्रव्यदृष्टिवाद है । नोआगमद्रव्यदृष्टिवाद ज्ञायकशरीर, भावि और तद्रव्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है । ज्ञायकशरीर सुगम है, क्योंकि, बहुत बार उसका अर्थ कहा जा चुका है । नोआगमदृष्टिवाद स्वरूपसे परिणमन करनेवाला जीव नोआगमभावदृष्टिवाद है । दृष्टिवाद श्रुतके हेतुभूत द्रव्य आहारादिक तद्रव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यदृष्टिवाद है ।

१ प. खं. पु. १, पृ. १०७. द्वादशमंगं दृष्टिवाद इति । कौत्कल-कांडेविद्धि-कौशिक-हरिदमश्रु-मांडयिक-रोमस-हारीत-धुडाश्वलायनादीनां क्रियावाद्दृष्टीनामशीतिशतम्, मरीचकुमार-कपिलोद्भू-गार्ग्य-व्याघ्रमूर्ति-वाङ्मलि-माठर-मौद्गल्यायनादीनामक्रियावाद्दृष्टीनां चतुरशीतिः, शकल्य-वात्कल-कुशुमि-सात्यमुदिग-नारायण-कण्ठ-माच्यंदिन-मौद-पैप्पलाद-त्रादरायणां वृष्टीर्दुरिकायन-वसु-जैमिन्यादीनामज्ञानकुदृष्टीनां सप्तपष्टिः, वशिष्ठ-पाराशर-जतुकीर्ण-बाल्मीकि-रोमार्पि-सत्यदत्त-व्यासैलायुत्रौपमन्यवैन्द्रदत्तायत्थूणादीनां वैनयिकदृष्टीनां द्वाविंशत् ; एषां दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिपष्ट्युत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च दृष्टिवादे क्रियते । त. रा. १, २०, १२.

२ प्रतिपु 'प्राश्रतवान्' इति पाठः ।

भावदिङ्मिवादो आगम-णोआगमभेदेण दुविहो । दिङ्मिवादजाणओ उवजुत्तो आगमभावदिङ्मि-
वादो । आगमेण विणा केवलोहि-मणपज्जवणाणेहि दिङ्मिवादवुत्तत्थपरिच्छेदओ णोआगमभाव-
दिङ्मिवादो । एत्थ आगमभावदिङ्मिवादेण अहियारो । दव्वदिङ्मिवादं पडुच्चं तव्वदिरित्त-
णोआगमदव्वदिङ्मिवादेण अहियारो, दिङ्मिवादहंदुसदाणं अक्खरड्डवणाकलावस्स वि उवयारेण
दिङ्मिवादवुत्तलंभादो । एवं णिक्खेव-णएहि दिङ्मिवादस्स अवयारो कदो । दिङ्मिवादणाणे तदड्डे
च अणुगमसदो वड्डे । तेहि दोहि वि एत्थ अहियारो, णाण-णेयाणं दोण्णमण्णाण्णाविणा-
भावादो । पुच्चाणुपुच्चीए दिङ्मिवादो चारसमो, पच्चाणुपुच्चीए पढमो; जत्थ तत्थाणुपुच्चीए
अवत्तव्वो, एक्कारसमो दसमो णवमो अड्डमो सत्तमो छट्ठो पंचमो चउत्थो तदिओ विदिओ
पढमो वा त्ति णियमाभावादो । दिङ्मिवादो त्ति गुणणामं, दिङ्गीओ वददि त्ति सद्दिणप्पत्तीदो ।
दव्वड्डियणयं पडुच्च दिङ्मिवादमेक्कं चेव । पदं पडुच्च दिङ्मिवादमेत्तियं होदि १०८६८५-
६००५ । अत्थदो अणंतं वा होदि । वत्तव्वं स-परसमया । अर्थाधिकारः पंचविधः परिकर्म
सूत्रं प्रथमानुयोगः पूर्वकृतं चूलिका चेति । तत्र परिकर्मणि चन्द्रप्रज्ञप्तिः सूर्यप्रज्ञप्तिः द्वीप-

भावदृष्टिवाद आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकार है । दृष्टिवादका जानकार
उपयोग युक्त जीव आगमभावदृष्टिवाद है । आगमके बिना केवलज्ञान, अधिज्ञान और
मनःपर्ययज्ञानसे दृष्टिवादमें कहे हुए पदार्थोंका जाननेवाला नोआगमभावदृष्टिवाद है ।
यहां आगमभावदृष्टिवादका अधिकार है । द्रव्यदृष्टिवादकी अपेक्षा तद्रव्यतिरिक्तनोआगम-
द्रव्यदृष्टिवादका अधिकार है, क्योंकि, दृष्टिवादके हेतुभूत शब्दों और अक्षरस्थापना-
कलापके भी उपचारसे दृष्टिवादपना पाया जाता है । इस प्रकार निक्षेप व नयोंसे दृष्टि-
वादका अवतार किया है ।

दृष्टिवादका ज्ञान और उसके अर्थमें अनुगम शब्द रहता है । उन दोनोंका ही यहां
अधिकार है, क्योंकि, ज्ञान और ज्ञेय दोनोंके परस्परमें अविनाभाव है ।

दृष्टिवाद पूर्वानुपूर्वीसे चारहवां, पश्चादानुपूर्वीसे प्रथम और यत्र-तत्रानुपूर्वीसे
अवक्तव्य है; क्योंकि, ग्यारहवां, दशवां, नौवां, आठवां, सातवां, छठा, पांचवां, चौथा,
तीसरा, दूसरा अथवा पहिला है, इस प्रकारके नियमका यहां अभाव है ।

दृष्टिवाद यह गुणनाम है, क्योंकि, दृष्टियोंको जो कहता है वह दृष्टिवाद है, इस
प्रकार दृष्टिवाद शब्दकी सिद्धि है । द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा दृष्टिवाद एक ही है । पदकी
अपेक्षा करके दृष्टिवाद इतना है १०८६८५६००५ । अथवा अर्थकी अपेक्षा वह अनन्त है ।
वक्तव्य स्वसमय और परसमय हैं ।

अर्थाधिकार पांच प्रकार है— परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वकृत और चूलिका ।
उनमेंसे परिकर्ममें चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, द्वीप-सागरप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति और

सागरप्रज्ञप्तिः जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः व्याख्याप्रज्ञप्तिरिति पंचाधिकाराः । तत्र चन्द्रप्रज्ञप्तौ पंच-
सहस्राधिकषट्त्रिंशच्छतसहस्रपदायां चन्द्रविम्ब-तन्मार्गायुःपरिवारप्रमाणं चन्द्रलोकः तद्गति-
विशेषः तस्मादुत्पद्यमानचन्द्रदिनप्रमाणं राहु-चन्द्रविम्बयोः प्रच्छाद्य-प्रच्छादकविधानं तत्रोत्पत्तेः
कारणं च निरूप्यते । पदस्थापनात् ३६०५००० । सूर्यप्रज्ञप्तौ त्रिसहस्राधिकपंचशतसहस्र-
पदायां सूर्यविम्ब-मार्ग-परिवारायुःप्रमाणं तत्प्रभाववृद्धि-ह्रासकारणं सूर्यदिन-मास-वर्ष-युगायन-
विधानं राहु-सूर्यविम्ब-प्रच्छाद्य-प्रच्छादकविधानं च निरूप्यते । पदांकन्यासः ५०३००० ।
द्वीप-सागरप्रज्ञप्तौ षट्त्रिंशत्सहस्राधिकद्वापंचाशच्छतसहस्रपदायां ५२३६००० द्वीप-सागराणामि-
यत्ता तत्संस्थानं तद्विस्तृतिः तत्रस्थजिनालया व्यन्तरावासाः समुद्राणां उदकविशेषाश्च निरू-
प्यन्ते । जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तौ पंचविंशतिसहस्राधिकत्रिशतसहस्रपदायां ३२५००० वर्षधर-वर्षा

व्याख्याप्रज्ञप्ति, इस प्रकार पांच अधिकार हैं । उनमें छत्तीस लाख पांच हजार पद प्रमाण
चन्द्रप्रज्ञप्तिमें चन्द्रविम्ब, उसके मार्ग, आयु व परिवारका प्रमाण; चन्द्रलोक, उसका
गमनविशेष, उससे उत्पन्न होनेवाले चन्द्रदिनका प्रमाण, राहु और चन्द्रविम्बमें प्रच्छाद्य-
प्रच्छादकविधान अर्थात् राहु द्वारा होनेवाले चन्द्रके आवरणकी विधि और वहां उत्पन्न
होनेका कारण, इस सबकी प्ररूपणा की जाती है । पदोंकी स्थापना ३६०५००० । पांच
लाख तीन हजार पद प्रमाण सूर्यप्रज्ञप्तिमें सूर्यविम्ब, उसके मार्ग, परिवार और आयुका
प्रमाण, उसकी प्रभाकी वृद्धि एवं ह्रासका कारण, सूर्यसम्यन्धी दिन, मास, वर्ष और
युगके निकालनेकी विधि, तथा राहु व सूर्यविम्बकी प्रच्छाद्य प्रच्छादकविधि, इस सबका
निरूपण किया जाता है । पदके अंकोंकी स्थापना ५०३००० । बावन लाख छत्तीस हजार
५२३६००० पद प्रमाण द्वीप-सागरप्रज्ञप्तिमें द्वीप-समुद्रोंकी संख्या, उनका आकार,
विस्तार, उनमें स्थित जिनालय, व्यन्तरोंके आवास, तथा समुद्रोंके जलविशेषोंका निरूपण
किया जाता है । तीन लाख पच्चीस हजार ३२५००० पद प्रमाण जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिमें

१ प. खं. पु. १, पृ. १०९. तत्थ चंदपण्णत्ती चंदविमाणउ-परिवारिद्धि-गमण-हाणि-वृद्धि-सयलद्ध-
चउत्थभागगहणादीणि वण्णेदि । जयध. १, पृ. १३२. चंदस्सायु-विमाणे परिया रिद्धी च अयण गमणं च ।
सयलद्ध-पायगहणं वण्णेदि वि चंदपण्णत्ती ॥ छत्तीसलख-पंचसहस्रपययाण चंदपण्णत्ती । अं. प. २, २-३.

२ प. खं. पु. १, पृ. ११०. सूरउ-मंडल-परिवारिद्धि-पमाण-गमणायुष्पत्ति-कारणादीणि सूरसंबंधाणि
सूरपण्णत्ती वण्णेदि । जयध. १, पृ. १३२. सहस्सतियं पणलक्खा पयाणि पण्णत्तियाक्कस्स ॥ सूरस्सायु-विमाणे
परिया रिद्धी य अयणपरिमाणं । तत्तावमेत्तगहणं वण्णेदि वि सूरपण्णत्ती ॥ अं. प. २, ३-४.

३ प्रतिपु ' द्वापंचाशच्छहस ' इति पाठः ।

४ प. खं. पु. १, पृ. ११०. जा दीव-सागरपण्णत्ती सा दीव-सागराणं तत्थद्वियज्जोयिस-वण-भवणा-
नासाणं आवासं पडि संतिदअकद्धिमज्जिणभवणाणं च वण्णणं कुणइ । जयध. १, पृ. १३३. अं. प. २, ८-११.

हृद-चैत्य-चैत्यालय-भरतैरावतगतसरित्संख्याश्च निरूप्यन्ते^१ । व्याख्याप्रज्ञप्तौ षट्त्रिंशत्सहस्राधिकचतुरशीतिशतसहस्रपदायां ८४३६००० रूपिअजीवद्रव्यं अरूपिअजीवद्रव्यं भव्याभव्य-जीवस्वरूपं च निरूप्यते^२ ।

सूत्रे अष्टाशीतिशतसहस्रपदैः ८८००००० पूर्वोक्तसर्वदृष्टयो निरूप्यन्ते, अबन्धकः अलेपकः अमोक्ता अकर्ता निर्गुणः सर्वगतः अद्वैतः नास्ति जीवः समुदयजनितः सर्वं नास्ति बाह्यार्थो नास्ति सर्वं निरात्मकं सर्वं क्षणिकं अक्षणिकमद्वैतमित्यादयो दर्शनभेदाश्च निरूप्यन्ते^३ । अत्रत्यैष्टाशीत्यधिकारेषु चतुर्णामधिकाराणां प्रमेयप्रतिपादिकेयं गाथा—

कुलाचल, क्षेत्र, तालाव, चैत्य, चैत्यालय तथा भरत व ऐरावतमें स्थित नदियोंकी संख्याका निरूपण किया जाता है । चौरासी लाख छत्तीस हजार पद प्रमाण ८४३६००० व्याख्याप्रज्ञप्तिमें रूपी अजीव द्रव्य, अरूपी अजीव द्रव्य तथा भव्य एवं अभव्य जीवोंके स्वरूपका निरूपण किया जाता है ।

सूत्र अधिकारमें अठासी लाख ८८००००० पदों द्वारा पूर्वोक्त सब मतोंका निरूपण किया जाता है । इसके अतिरिक्त जीव अबन्धक है, अलेपक है, अमोक्ता है, अकर्ता है, निर्गुण है, व्यापक है, अद्वैत है, जीव नहीं है, जीव [पृथिवी आदि चार भूतोंके] समुदायसे उत्पन्न होता है, सब नहीं है अर्थात् शून्य है, बाह्य पदार्थ नहीं हैं, सब निरात्मक है, सब क्षणिक है, सब अक्षणिक अर्थात् नित्य है, अथवा अद्वैत है, इत्यादि दर्शनभेदोंका भी इसमें निरूपण किया जाता है । इसके अठासी अधिकारोंमें चार अधिकारोंके प्रमेयकी प्रतिपादक यह गाथा है—

१ प. खं. पु. १, पृ. ११०. जंवूदीवपण्णत्ती जंवूदीवगयकुलसेल-मेस-दह-वस्स-वेइया-वणसंड-वेंतरावास-महाणइयाईणं वण्णणं कुणइ । जयध. १, पृ. १३२. अं. प. २, ५-८.

२ प. खं. पु. १, पृ. ११०. जा पुण वियाहपण्णत्ती सा रुत्ति-अरुत्तिजीवाजीवदव्वाणं भवसिद्धिय-अभवसिद्धियाणं पमाणस्स तल्लक्खणस्स अणंतर-परंपरसिद्धाणं च अण्णेसिं च वत्थुणं वण्णणं कुणइ । जयध. १, पृ. १३३. अं. प. २, १२-१३.

३ प. खं. पु. १, पृ. ११०. जं सुत्तं णाम तं जीवो अबंधओ अलेवओ अकत्ता णिग्गुणो अमोक्ता सव्वगओ अणुमेत्तो णिच्चेयणो सपयासओ परप्पयासओ णत्थि जीवो त्ति य णत्थिपवादं किरियावादं अकिरियावादं अण्णाणवादं णाणवादं वेणइयवादं अण्यपयारं गणिदं च वण्णेदि । “असीदिसदं किरियाणं अक्किरियाणं च आहु चुलसीदि । सत्तट्ठण्णाणीणं वेणइयाणं च वत्तीसं ॥” एदीए गाहाए मणिदत्तिणिणसयतिसट्ठिसमयाणं वण्णणं कुणदि त्ति मणिदं होदि । जयध. १, पृ. १३३.

४ प्रतिषु ‘अत्रैत्य-’ इति पाठः ।

पढमो अवंधयाणं विदियो तेरासियाण बोद्धवो ।
तदियो य णियदिपक्खे हवदि चउत्थो ससमयम्मि ॥ ७५ ॥

त्रयीगतमिथ्यात्वसंख्याप्रतिपादिकेयं गाथा—

एक्केक्कं तिण्णि जणा दो दो यण इच्छदे तिवग्गम्मि ।
एक्को तिण्णि ण इच्छइ सत्त वि पावेति मिच्छत्तं ॥ ७६ ॥

प्रथमानुयोगे^१ पंचपदसहस्रे ५००० चतुर्विंशतेस्तीर्थकराणां द्वादशचक्रवर्तिनां बलदेव-
वासुदेव-तच्छत्रूणां चरितं निरूप्यते^२ । अत्रोपयोगी गाथा—

इनमें प्रथम अधिकार अवन्धकोंका और द्वितीय त्रैराशिक अर्थात् आजीविकोंका
जानना चाहिये । तृतीय अधिकार नियतिपक्षमें और चतुर्थ अधिकार स्वसमयमें है ॥७५॥
(विशेषके लिये देखिये पु. २ की प्रस्तावना पृ. ४६ आदि) ।

त्रिवर्गगत मिथ्यात्वकी संख्याको बतलानेवाली यह गाथा है—

तीन जन त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और काममें एक एककी इच्छा करते हैं,
अर्थात् कोई धर्मको, कोई अर्थको और कोई कामको ही स्वीकार करते हैं । दूसरे
तीन जन उनमें दो-दोकी इच्छा करते हैं; अर्थात् कोई धर्म और अर्थको, कोई धर्म और
कामको तथा कोई अर्थ और कामको ही स्वीकार करते हैं । कोई एक तीनोंकी इच्छा नहीं
करता अर्थात् तीनमेंसे एकको भी नहीं चाहता है । इस प्रकार ये सातों जन मिथ्यात्वको
प्राप्त होते हैं ॥ ७६ ॥

पांच हजार ५००० पद प्रमाण प्रथमानुयोगमें चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती,
बलदेव, वासुदेव और उनके शत्रु प्रतिवासुदेवोंके चरित्रका निरूपण किया जाता है । यहां
उपयोगी गाथायें—

१ धर्म यशः शर्म च सेवमानाः केऽप्येकशो जन्म विदुः कृतार्थम् । अन्ये द्विशो विदुम वयं त्वमोघान्य-
हानि यान्ति त्रयसेवयैव ॥ सागारधर्माभृत १, १४.

२ अ-आप्रत्योः 'प्रथमानुयोगे', 'काप्रतौ 'प्रथमानुयोगे' इति पाठः ।

३ प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् । बोधि-समाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥
एकपुरुषाश्रिता कथा चरितम्, त्रिपटिशलाकापुरुषाश्रिता कथा पुराणम्, तदुभयमपि प्रथमानुयोगशब्दाभिधेयम् ।
र. क. आ. २, २. जो पुण पढमाणोओओ सो चउवीसतित्थयर-बारहचक्कवट्ठि-णववल-णवणारायण-णवपडिसत्तूणं
पुराणं जिणविज्जाहर-चक्कवट्ठि-चारण-रायादीणं वैसे च वण्णेदि । जयध. १; पृ. १३८. अं. प. २, ३५-३७.

वारसविहं पुराणं जं दिट्ठं जिणवरेहि सव्वेहि ।
तं सव्वं वण्णेदि हु जिणवंसे रायवंसे य ॥ ७७ ॥

पढमो अरहन्ताणं विदिओ पुण चक्कवट्ठिंसो दु ।
तदिओ वसुदेवाणं चउत्थो विज्जाहराणं तु ॥ ७८ ॥

चारणवंसो तह पंचमो दु छट्ठो य पण्णसमणाणं ।
सत्तमगो कुरुवंसो अट्ठमओ चापि हरिवंसो ॥ ७९ ॥

णवमो अइक्खुवाणं वंसो दसमो ह कासियाणं तु ।
वाई एक्कारसमो वारसमो णाहवंसो दु ॥ ८० ॥

पूर्वकृते पंचनवतिकोटिपंचाशच्छतसहस्रपंचपदे ९५५०००००५ उत्पाद-व्यय-
ध्रौव्यादयो निरूप्यन्ते । चूलिका पंचप्रकारा जल-स्थल-माया-रूपाकाशभेदेन । तत्र जलगतायां
द्विकोटि-नवशतसहस्रैकान्नवतिसहस्रद्विशतपदायां २०९८९२०० जलगमनहेतवो मंत्रौषध-तपो-
विशेषा निरूप्यन्ते । स्थलगतायां द्विकोटिनवशतसहस्रैकान्नवतिसहस्रद्विशतपदायां २०९८९२००

वारह प्रकारका पुराण, जिनवंशों और राजवंशोंके विषयमें जो सब जिनेन्द्रोंने
देखा है या उपदेश किया है, उस सबका वर्णन करता है । इनमें प्रथम पुराण
अरहन्तोंका, द्वितीय चक्रवर्तियोंके वंशका, तृतीय वासुदेवोंका, चतुर्थ विद्याधरोंका,
पांचवां चारणवंशका, छठा प्रज्ञाश्रमणोंका, सातवां कुरुवंशका, आठवां हरिवंशका, नौवां
इक्ष्वाकुवंशजोंका, दशवां काश्यपोंका या काशिकोंका, ग्यारहवां वादियोंका और बारहवां
नाथवंशका है ॥ ७७-८० ॥

पंचानवै करोड़ पचास लाख पांच पद प्रमाण ९५५०००००५ पूर्वकृतमें उत्पाद,
व्यय और ध्रौव्य आदिका निरूपण किया जाता है ।

जल, स्थल, माया, रूप और आकाशके भेदसे चूलिका पांच प्रकार है । उनमें
दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दो सौ पदोंसे युक्त २०९८९२०० जलगता चूलिकामें
जलगमनके कारण मंत्र, औषधि एवं तपविशेषका निरूपण किया जाता है । दो करोड़
नौ लाख नवासी हजार दो सौ पदोंसे संयुक्त स्थलगता चूलिकामें हजारों योजन जानेकी

१ प्रतिपु 'जगदिट्ठ' इति पाठः ।

२ प. खं. पु. १, पृ. ११२.

३ प. खं. पु. १, पृ. ११३. तत्थ जलगया जलत्थंभण-जलगमणहेदुभूदमंत-तंत-तवच्छरणं अग्नि-
त्थंभण-भक्खणासण-पवणादिकारणपओए च वण्णेदि । जयध. १, पृ. १३९.

योजनसहस्रादिगतिहेतवो विद्या-मंत्र-तंत्रविशेषां निरूप्यन्ते । मायागतायां द्विकोटि-नवशतसहस्रै-
कात्रवतिसहस्रद्विशतपदायां २०९८९२०० मायाकरणहेतुविद्या-मंत्र-तंत्र-तपांसि निरूप्यन्ते ।
रूपगतायां द्विकोटिनवशतसहस्रैकात्रवतिसहस्रद्विशतपदायां २०९८९२०० चेतनाचेतनद्रव्याणां
रूपपरावर्तनहेतुविद्या-मंत्र-तंत्र-तपांसि नरेन्द्रवाद-चित्र-चित्राभासादयश्च निरूप्यन्ते । आकाश-
गतायां द्विकोटिनवशतसहस्रैकात्रवतिसहस्रद्विशतपदायां २०९८९२०० आकाशगमनहेतुभूत-
विद्या-मंत्र-तंत्र-तपोविशेषां निरूप्यन्ते । अत्र पूर्वकृताधिकारे प्रयोजनम्, स्वान्तर्भूतमहाकर्म-
प्रकृतिप्राभृतत्वात् ।

पुव्वगयस्स अवयारो वुच्चदे— णाम-ड्वणा-द्व-भावभेएण चउव्विहं पुव्वगयं ।
आदिल्ला तिण्णि वि णिक्खेवा दव्वड्डियणयप्पहवा, भावणिक्खेवो पज्जवड्डियणयप्पहवो ।
णिक्खेवड्डो वुच्चदे । तं जहा— णामपुव्वगयं पुव्वगयसद्दो वज्झत्थणिरवेक्खो अप्पाणम्हि

कारणभूत विद्या, मंत्र व तंत्र विशेषोंको निरूपण किया जाता है । दो करोड़ नौ लाख नवासी
हजार दो सौ पदोंसे संयुक्त मायागता चूलिकामें माया करनेकी हेतुभूत विद्या, मंत्र, तंत्र एवं
तपका निरूपण किया जाता है । दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दो सौ पदोंसे संयुक्त
रूपगता चूलिकामें चेतन और अचेतन द्रव्योंके रूप बदलनेकी कारणभूत विद्या, मंत्र, तंत्र
एवं तपका तथा नरेन्द्रवाद, चित्र और चित्राभासादिकां निरूपण किया जाता है । दो
करोड़ नौ लाख नवासी हजार दो सौ पदोंसे संयुक्त आकाशगता चूलिकामें आकाश-
गमनकी कारणभूत विद्या, मंत्र, तंत्र व तपविशेषका निरूपण किया जाता है । यहां
पूर्वकृत अधिकारसे प्रयोजन है, क्योंकि, वह महाकर्मप्रकृतिप्राभृतको अपने अन्तर्गत
करता है ।

पूर्वगतका अवतार कहते हैं— नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे पूर्वगत
चार प्रकार हैं । आदिके तीन निक्षेप द्रव्यार्थिक नयके निमित्तसे होनेवाले हैं, किन्तु
भावनिक्षेप पर्यायार्थिक नयके निमित्तसे होनेवाला है । निक्षेपका अर्थ कहते हैं । वह इस
प्रकार है— बाह्य अर्थसे निरपेक्ष अपने आपमें प्रवर्तमान पूर्वगत शब्द नामपूर्वगत है ।

१ प. खं. पु. १, पृ. ११३. थलगया कुलसेल-मेरु-महीहर-गिरि-वसुंधरादिषु चटुलगमणकारणमंत-
तंत-तवच्छरणानां वण्णणं कुणइ । जयध. १, पृ. १३९.

२ प. खं. पु. १, पृ. ११३. मायागया पुण माहिंदजालं वण्णेदि । जयध. १, पृ. १३९.

३ प. खं. पु. १, पृ. ११३. रुवगया हरि-करि-तुरय-रुह-गर-तरु-हरिण-वसह-सस-पसयादिसरुवेण
परावत्तणविहाणं णरिंदवार्यं च वण्णेदि । जयध. १, पृ. १३९.

४ प. खं. पु. १, पृ. ११३. जा आयासगया सा आयासगमणकारणमंत-तंत-तवच्छरणानि वण्णेदि ।
जयध. १, पृ. १३९.

वद्वमाणो । सो एसो ति एयत्तेण संकप्पियद्वं उवणापुव्वगयं । द्वपुव्वगयं दुविहं आगम-
णोआगमभेएण । पुव्वमणवपारओ अणुवजुत्तो आगमद्वपुव्वगयं । णोआगमद्वपुव्वगयं जाणुग-
सरीर-भविय-तव्वदिरित्तभेएण तिविहं । आदिल्लदुगं सुगमं, बहुसो परुविदत्तादो । पुव्व-
गयसदसंघाओ णोआगमतव्वदिरित्तद्वपुव्वगयं, पुव्वगयकारणत्तादो । भावपुव्वगयमागम-
णोआगमभेएण दुविहं । चोद्वसविज्जाठाणपारओ उवजुत्तो आगमभावपुव्वगयं । आगमेण विणा
केवलोहि-मणपज्जवणाणेहि पुव्वगयत्थपरिच्छेदओ णोआगमभावपुव्वगयं ।

एत्थ केण णिकखेवेण पयदं ? पज्जवद्वियणयं पडुच्च आगमभावणिकखेवेण पयदं ।
द्वद्वियणयं पडुच्च णोआगमतव्वदिरित्तद्वपुव्वगयेण अक्खरद्ववणापुव्वगएण च पयदं ।
णइगमणयं पडुच्च पुव्वगयणाणजणियसंस्कारविसिद्धजीवद्वस्स गहणं । एवं णिकखेव-णएहि
पुव्वगयस्स अवयारो कदो ।

पमाण-पमेयाणं दोणं पि एत्थाणुगमो, करण-कम्मकारएसु अनुगमसद्वणिप्पत्तीदो ।

‘वह यह है’ इस प्रकार अमेद रूपसे संकल्पित द्रव्य स्थापनापूर्वगत है । द्रव्यपूर्वगत
आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकार है । पूर्वरूप समुद्रके पारको प्राप्त हुआ उपयोग
रहित जीव आगमद्रव्यपूर्वगत है । नोआगमद्रव्यपूर्वगत शायकशरीर, भावी और
तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है । इनमें आदिके दो सुगम हैं, क्योंकि, उनका बहुत
थार निरूपण किया जा चुका है । पूर्वगतका शब्दसमूह नोआगमतद्व्यतिरिक्तद्रव्य-
पूर्वगत है, क्योंकि, वह पूर्वगतका कारण है । भावपूर्वगत आगम और नोआगमके भेदसे
दो प्रकार है । चौदह विद्याओंका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावपूर्वगत
है । आगमके बिना केवलज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानसे पूर्वगतके अर्थका
जाननेवाला नोआगमभावपूर्वगत है ।

शंका—यहां कौनसा निक्षेप प्रकृत है ?

समाधान—पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा आगमभावनिक्षेप प्रकृत है । द्रव्यार्थिक
नयकी अपेक्षा नोआगमतद्व्यतिरिक्तद्रव्यपूर्वगत और अक्षरस्थापनापूर्वगत प्रकृत
है । नैगम नयकी अपेक्षा पूर्वगतके ज्ञानसे उत्पन्न हुए संस्कारसे विशिष्ट जीव द्रव्यका
ग्रहण है ।

इस प्रकार निक्षेप और नयसे पूर्वगतका अवतार किया है ।

प्रमाण और प्रमेय दोनोंका ही यहां अनुगम है, क्योंकि, करण और कर्म कारकमें
अनुगम शब्द सिद्ध हुआ है । [अर्थात् करणकारकमें सिद्ध हुए अनुगम शब्दसे ज्ञान और
कर्मकारकमें सिद्ध हुए उक्त शब्दसे ज्ञेयका ग्रहण होता है ।]

पुष्पाणुपुष्पीणं पुष्पगयं चउत्थं, पंचछाणुपुष्पीणं विदियं । जत्थ-तत्थाणुपुष्पीणं अवत्तच्चं, पढमं विदियं तदियं चउत्थं पंचमं वा त्ति णियमाभावादो । पुष्पेहि कयं पुष्पगयमिदि णिप्पत्तीदो गुणणामं । अक्खर-पद-संघाय-पडिवत्ति-अणियोगदारेहि संखेज्जं । अत्थदो अणंतं, पमेयाणंतियादो । वत्तच्चं ससमयो, ण परसमयो; तस्सेत्थपरूवणाभावादो । अत्थाहियारो चोदसविहो ।] तं जहा — उत्पादपूर्वं अग्रायणं वीर्यप्रवादं अस्ति-नास्तिप्रवादं ज्ञानप्रवादं सत्यप्रवादं आत्मप्रवादं कर्मप्रवादं प्रत्याख्याननामधेयं विद्यानुप्रवादं कल्याणनामधेयं प्राणावायं क्रियाविशालं लोकविन्दुसारमिति । पुद्गल-काल-जीवादीनां यदा यत्र यथा च पर्यायेणोत्पादा वर्ण्यन्ते तदुत्पादपूर्वं एककोटिपदम् १००००००० । अग्राणि चांगानां स्वसमयविषयश्च यत्राख्यापितस्तदग्रायणं षण्णवतिशतसहस्रपदम् ९६०००००० । छद्मस्थनां केवलिनां वीर्यं सुरेन्द्र-दैत्याधिपानां वीर्यर्द्धयो नरेन्द्र-चक्रधर-चलदेवानां वीर्यलाभो द्रव्याणां आत्म-परोभय-

पूर्वानुपूर्वीसे पूर्वगत चतुर्थ और पश्चादानुपूर्वीसे वह द्वितीय है । यत्र-तत्रानुपूर्वीसे वह अवक्तव्य है, क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम है, ऐसे नियमका अभाव है । पूर्वीसे जो कृत है वह पूर्वकृत है, इस प्रकार सिद्ध होनेसे पूर्वकृत शब्द गुणनाम है । अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षा वह संख्यात है । अर्थकी अपेक्षा वह अनन्त है, क्योंकि, उसके प्रमेय अनन्त हैं । वक्तव्य स्वसमय है । परसमय वक्तव्य नहीं है, क्योंकि, यहां उसकी प्ररूपणाका अभाव है ।

अर्थाधिकार चौदह प्रकार है । वह इस प्रकारसे — उत्पादपूर्वं, अग्रायण, वीर्य-प्रवाद, अस्ति-नास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान नामक, विद्यानुप्रवाद, कल्याण नामक, प्राणावाद, क्रियाविशाल और लोकविन्दुसार । जिसमें पुद्गल, काल और जीव आदिकोंके जत्र, जहांपर और जिस प्रकारसे पर्याय रूपसे उत्पादोंका वर्णन किया जाता है वह उत्पादपूर्वं कहलाता है । इसमें एक करोड़ पद हैं १००००००० । जिसमें अंगोंके अग्र अर्थात् मुख्य पदार्थोंका तथा स्वसमयके विषयका वर्णन किया गया हो वह अग्रायणपूर्वं है । वह छयानवै लाख पदोंसे संयुक्त है ९६०००००० । जिसमें छद्मस्थ व केवलियोंके वीर्यका; सुरेन्द्र व दैत्येन्द्रोंके वीर्य एवं ऋद्धिका; राजा, चक्रवर्ती और चलदेवोंके वीर्यलाभका; द्रव्योंका आत्मवीर्य, परवीर्य, उभयवीर्य,

१ प. खं. पु. १, पृ. ११४. काल-पुद्गल जीवादीनां यदा यत्र यथा च पर्यायेणोत्पादो वर्ण्यन्ते तदुत्पादपूर्वम् । त. रा. १, २०, १२. जमुप्पायपुष्वं तमुप्पाय-वय-धुवभावाणं कमाकमसरूवाणं णाणाणयविसयाणं वण्णं कुणइ । जयघ. १, पृ. १३९. अं. प. २-३८.

२ प. खं. पु. १, पृ. ११५. क्रियावादादीनां प्रक्रिया अग्रायणी चांगादीनां स्वसमवायविषयश्च यत्र ख्यापितस्तदग्रायणम् । त. रा. १, २०, १९. अग्गेणियं णाम पुष्वं सत्तसयसुणय-दुण्णयाणं छद्मव-णवपयत्थं-पंचत्थियाणं च वण्णं कुणइ । जयघ. १, पृ. १४०- अं. प. २, ३९-४१.

क्षेत्र-भवर्षितपोवीर्यं सम्यक्तत्त्वलक्षणं च यत्रामिहितं तद्वीर्यप्रवादं संप्रतिशतसहस्रपदम् ७०००००० । षण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना स्व-परपर्यायाभ्यामुभयनयवशी-
कृताभ्यामर्पितानर्पितसिद्धाभ्यां यत्र निरूपणं षष्ठिपदशतसहस्रैः ६०००००० क्रियते तदस्ति-
नास्तिप्रवादम् । तथा— स्वरूपादिचतुष्टयेनास्ति घटः, तथाविधरूपेण प्रतिभासनात् । पर-
रूपादिचतुष्टयेन नास्ति घटः, तद्रूपतया घटस्याप्रतिभासनात् । ताभ्यामन्योन्यात्मकत्वेन
प्राप्तजात्यन्तराभ्यामर्थपर्यायरूपाभ्यां वा आदिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा मृद्घटो मृद्घटरूपेनास्ति,
न कल्याणादिरूपेण; तथानुपलम्भात् । ताभ्यां विधि-निषेधधर्माभ्यामन्योन्यात्मकत्वेन प्राप्त-

क्षेत्रवीर्यं, भववीर्यं, ऋषियोंके तपोवीर्य एवं सम्यक्त्वके लक्षणका कथन किया गया हो वह
वीर्यप्रवाद है । यह सत्तर लाख पदोंसे संयुक्त है ७०००००० । जिसमें छहों द्रव्योंका
भाव व अभाव रूप पर्यायके विधानसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयोंके अधीन
एवं प्रधान व अप्रधान भावसे सिद्ध स्वपर्याय और परपर्याय द्वारा साठ लाख ६००००००
पदोंसे निरूपण किया जाता है वह अस्ति-नास्तिप्रवाद पूर्व है । [अर्थात् जिसमें स्वद्रव्य,
क्षेत्र, काल व भावके द्वारा छह द्रव्योंके अस्तित्व और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावके
द्वारा उनके नास्तित्वका निरूपण किया जाता है वह अस्ति-नास्तिप्रवादपूर्व है ।] इसीको
स्पष्ट करते हैं—स्वरूपादि चतुष्टय अर्थात् स्व-द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्व-भावके द्वारा 'घट
है', क्योंकि, वैसे स्वरूपसे प्रतिभासमान है । पररूपादि चतुष्टयसे 'घट नहीं है', क्योंकि,
उन चारोंसे घटका प्रतिभास नहीं होता । परस्पर एक दूसरे रूप होनेसे जात्यन्तर
भावको प्राप्त अथवा द्रव्य-पर्याय रूप स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी अपेक्षा एक साथ
कहनेपर 'घट अवक्तव्य है' । अथवा मिट्टीका घट मृद्घट रूपसे है, सुवर्णादि रूपसे
नहीं है, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता । अन्योन्यस्वरूप होनेसे जात्यन्तर भावको प्राप्त

१ प. खं. पु. १, पृ. ११५. छद्मस्थ-केवलानां वीर्यं सुरेन्द्र-दैत्याधिपानां श्रद्धयो नरेन्द्र-चक्रधर-
बलदेवानां च वीर्यलाभो द्रव्याणां सम्यक्त्वलक्षणं च यत्रामिहितं च तद्वीर्यप्रवादम् । त. रा. १, २०, १२.
विरियाणुपवादपुर्वं अप्पविरिय-परविरिय-तदुभयविरिय-खेतविरिय-कालविरिय-भवविरिय-तवविरियादीणं षण्णणं
कुणइ । जयध. १, पृ. १४०. अं. प. २, ४९-५१.

२ प. खं. पु. १, पृ. ११५. पंचानामस्तिकायानामर्थो नयानां चानेकपर्यायैरिदमस्तीदं नास्तीति च
कात्स्न्येन यत्रावभासितं तदस्ति-नास्तिप्रवादम् । अथवा, षण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना स्व-पर-
पर्यायाभ्यामुभयनयवशीकृताभ्यामर्पितानर्पितसिद्धाभ्यां यत्र निरूपणं तदस्ति-नास्तिप्रवादम् । त. रा. १, २०, १२.
अस्थि-णात्यपवादो सव्वदव्वाणं सख्वादिचउक्केण अस्थितं परख्वादिचउक्केण गत्थितं च परव्वेदि । विधि-पडि-
सेहधम्मो णयगहणलीणे णाणादुण्णयणिराकरणदुवारेण परव्वेदि ति भणिदं होदि । जयध. १, पृ. १४०.
अं. प. २, ५२-५४,

जात्यन्तराभ्यामादिष्टो वक्तव्यः । रूपघटो रूपघटरूपेणास्ति, न रसादिघटरूपेण । ताभ्यामक्रमेणादिष्टः अवक्तव्यः । एवं रसादिघटानामपि योज्यम् । रक्तघटो रक्तघटरूपेणास्ति, न कृष्णादिघटरूपेण, तथाप्रतिभासाभावात् । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा नवघटो नवघटरूपेणास्ति, न पुराणादिघटरूपेण, अवस्थासांकर्यप्रसंगात् । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । एवं पुराणादिघटानामपि योज्यम् । अथवा अप्रितसंस्थानघटः अस्ति स्वरूपेण, नानप्रितसंस्थानघटरूपेण, विरोधात् । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवाप्रितक्षेत्रवृत्तिर्घटोऽस्ति स्वरूपेण, नानप्रितक्षेत्रवृत्तैर्घटैः, अनुपलम्भात् । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा पर्यायघटः पर्यायघटरूपेणास्ति, न द्रव्यघटरूपेण घटप्रत्ययाभिधान-व्यवहारोहेतुपर्यायघटरूपेण च । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा तत्परिणतरूपेणास्ति घटः, न नामादिघटरूपेण । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा घटपर्यायेणास्ति घटः, न पिण्ड-कपालादिप्राक्-प्रध्वंसामावैः

उन विधि व नियेध रूप धर्मोंसे कहा गया घट अवक्तव्य है । रूपघट रूपघट स्वरूपसे है, रसादि घट रूपसे नहीं है । उन दोनों धर्मोंसे एक साथ कहा गया घट अवक्तव्य है । इसी प्रकार रसादि घटोंके भी कहना चाहिये । रक्तघट रक्तघटरूपसे है, कृष्णादिघट रूपसे नहीं है, क्योंकि, वैसा प्रतिभास नहीं होता । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा नवीन घट नवीन घट स्वरूपसे है, पुराने आदि घट स्वरूपसे नहीं है, क्योंकि, अन्यथा दोनों (नवीन व पुरानी) अवस्थाओंके सांकर्यका प्रसंग आता है । उन दोनोंकी अपेक्षा युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । इसी प्रकार पुराने आदि घटोंके भी कहना चाहिये । अथवा विवक्षित आकार युक्त घट स्वरूपसे है, अविवक्षित आकार युक्त घट रूपसे नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है । उन दोनोंकी अपेक्षा युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है ।

अथवा विवक्षित क्षेत्रमें रहनेवाला घट अपने स्वरूपसे है, अविवक्षित क्षेत्रमें रहनेवाले घटोंकी अपेक्षा वह नहीं है, क्योंकि, उस रूपसे वह पाया नहीं जाता । उन दोनोंसे एक साथ कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा पर्यायघट पर्यायघट रूपसे है, द्रव्यघट रूपसे और 'घट' इस प्रकारके प्रत्यय एवं 'घट' इस शब्दके व्यवहारके अहेतुभूत पर्यायघट रूपसे भी वह नहीं है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा घट रूप पर्यायसे परिणत स्वरूपसे घट है, नामादि घट रूपसे वह नहीं है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा घटपर्यायसे घट है, प्रागभाव रूप पिण्ड और प्रध्वंसाभाव रूप कपाल पर्यायसे वह नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है । उन दोनोंसे युग-

विरोधात् । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । वर्तमानघटो वर्तमानघटरूपेणास्ति, नातीतानागतघटैः
 विरोधात् । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यो घटः । अथवा चक्षुरिन्द्रियग्राह्यघटः स्वरूपेणास्ति, न
 तद्ग्राह्यघटरूपेण, विरोधात् । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा व्यञ्जनपर्यायेणास्ति
 घटः, नार्थपर्यायेण । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा ऋजुसूत्रनयविषयीकृतपर्यायैरस्ति
 घटः, न शब्दादिनयविषयीकृतपर्यायैः । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा शब्दनयविषयी-
 कृतपर्यायैरस्ति घटः, न शेषनयविषयीकृतपर्यायैः । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा समभि-
 रूढनयविषयीकृतपर्यायैरस्ति घटः, न शेषनयविषयैः । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा
 एवम्भूतनयविषयीकृतपर्यायैरस्ति घटः, न शेषनयविषयैः । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः ।
 अथवा उपयोगरूपेणास्ति घटः, नार्थाभिधानाभ्याम् । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा उपयोग-
 घटोऽपि वर्तमानरूपतयास्ति, नातीतानागतोपयोगघटैः । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । अथवा
 घटोपयोगघटः स्वरूपेणास्ति, न पटोपयोगादिरूपेण । ताभ्यामक्रमेणादिष्टोऽवक्तव्यः । इत्यादि-
 प्रकारेण सकलार्थानामस्तित्व-नास्तित्वावक्तव्यभंगा योज्याः । अस्तित्व-नास्तित्वाभ्यां क्रमेण

पत् कहा गया घट अवक्तव्य है ।

वर्तमानघट वर्तमानघट रूपसे है, अतीत व अनागत घटोंकी अपेक्षा वह नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा चक्षु इन्द्रियसे ग्राह्य घट स्वरूपसे है, चक्षु इन्द्रियसे अग्राह्य घट रूपसे वह नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा व्यञ्जन पर्यायसे घट है, अर्थपर्यायसे नहीं है । उन दोनों धर्मोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा ऋजुसूत्र नयसे विषय की गई पर्यायोंसे घट है, शब्दादि नयोंसे विषय की गई पर्यायोंसे वह नहीं है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा शब्दनयसे विषय की गई पर्यायोंसे घट है, शेष नयोंसे विषय की गई पर्यायोंसे वह नहीं है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा समभिरूढनयसे विषय की गई पर्यायोंसे घट है, शेष नयोंसे विषय की गई पर्यायोंसे वह नहीं है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा एवम्भूत नयसे विषय की गई पर्यायोंसे घट है, शेष नयोंसे विषय की गई पर्यायोंसे वह नहीं है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा उपयोग रूपसे घट है, अर्थ और अभिधानकी अपेक्षा वह नहीं है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया अवक्तव्य है । अथवा उपयोगघट भी वर्तमान स्वरूपसे है, अतीत व अनागत उपयोगघटोंकी अपेक्षा वह नहीं है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । अथवा घटोपयोगस्वरूपसे घट है, पटोपयोगादि रूपसे नहीं है । उन दोनोंसे युगपत् कहा गया घट अवक्तव्य है । इत्यादि प्रकारसे सब पदार्थोंके अस्तित्व, नास्तित्व व अवक्तव्य भंगोंको कहना चाहिये ।

विशेषितः अस्ति च नास्ति च घटः । अस्तित्वावक्तव्याभ्यां क्रमेणादिष्टः अस्ति चावक्तव्यश्च घटः । नास्तित्वावक्तव्याभ्यां क्रमेणादिष्टः नास्ति चावक्तव्यश्च घटः । अस्ति-नास्त्यवक्तव्यैः क्रमेणादिष्टः अस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च घटः । एवं शेषधर्माणामपि सप्तभंगी योज्या ।

पंचानामपि ज्ञानानां प्रादुर्भाव-विषयायतनानां ज्ञानिनामज्ञानिनामिन्द्रियाणां च प्राधान्येन यत्र भागोऽनाद्यनिधनानादिसनिधन-साद्यनिधन-सादिसनिधनादिविशेषैर्विभावितस्तद्ज्ञान-प्रवादम् । तच्चैकोनकोटिपदम् ९९९९९९९ । वाग्गुप्तिः संस्कारकारणं प्रयोगो द्वादशधा भाषा वक्तारश्चानेकप्रकारं मृषामिधानं दशप्रकारश्च सत्यसद्भावो यत्र प्ररूपितस्तत्सत्यप्रवादम् । एतस्य पदप्रमाणं षडधिकैककोटी १००००००६ । व्यलीकनिवृत्तिर्वाच्यमत्वं वा वाग्गुप्तिः ।

अस्तित्व और नास्तित्व धर्मोंसे क्रमशः विशेषित घट 'है भी और नहीं भी है' । अस्तित्व और अवक्तव्य धर्मों द्वारा क्रमसे कहा गया घट 'है भी और अवक्तव्य भी है' । नास्तित्व और अवक्तव्य धर्मों द्वारा क्रमसे कहा गया घट 'नहीं भी है और अवक्तव्य भी है' । अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य धर्मों द्वारा क्रमसे कहा गया घट 'है भी, नहीं भी है और अवक्तव्य भी है' । इसी प्रकार शेष धर्मोंकी भी सप्तभंगी जोड़ना चाहिये ।

जिसमें अनाद्यनिधन, अनादि-सनिधन, सादि-अनिधन और सादि-सनिधन आदि विशेषोंसे पाँचों ज्ञानोंका प्रादुर्भाव, विषय व स्थान इनका तथा ज्ञानियोंका, अज्ञानियोंका और इन्द्रियोंका प्रधानतासे विभाग बतलाया गया हो वह ज्ञानप्रवाद कहलाता है । इसमें एक कम एक करोड़ पद हैं ९९९९९९९ ।

जिसमें वाग्गुप्ति, वचनसंस्कारके कारण, प्रयोग, चारह भाषा, वक्ता, अनेक प्रकारका असत्यवचन और दश प्रकारका सत्यसद्भाव, इनकी प्ररूपणा की गई हो वह सत्यप्रवादपूर्व है । इसके पदोंका प्रमाण एक करोड़ छह है १००००००६ । असत्य वचनके त्याग अथवा वचनके संयमको वाग्गुप्ति कहते हैं । शिर व कण्ठादिक आठ स्थान

१ प्रतिपुः प्रागभावविषयायतनानां इति पाठः ।

२ प. खं. पु. १, पृ. ११६. पंचानामपि ज्ञानानां प्रादुर्भावविषयायतनानां ज्ञानिनां अज्ञानिनामिन्द्रियाणां प्राधान्येन यत्र विभागो विभावितस्तद्ज्ञानप्रवादम् । त. रा. १, २०, १२. णाणप्पवादो मदि-सुद-ओहि-मणप्पज्जव-केवलणाणाणि वण्णेदि । जयध. १, पृ. १४१. अं. प. २-५९.

३ सत्यप्रवादप्ररूपणान्तर्गतोऽयं सकलः प्रबन्धः छक्खंडागमस्य प्रथमपुस्तके (११६ पृष्ठतः) तत्त्वार्थ-राजवार्तिके (१, २०, १२) च प्रायेण शब्दशः समानः समुपलभ्यते ।

४ सच्चपवादो व्यवहारसच्चादिदसविहसच्चाणं सप्तभंगीए सयलवत्थुनिखवणविहाणं च भणइ । जयध. १, पृ. १४१. अं. प. ३, ७८-८४.

वाक्संस्कारकारणाणि शिरःकंठादीन्यष्टौ स्थानानि । वाक्प्रयोगः शुभेतरलक्षणः सुगमः । अभ्याख्यान-कलह-पैशून्यावद्धप्रलाप-रत्यरत्युपधि-निकृत्यप्रणति-मोप-सम्यग्मिथ्यादर्शनात्मिका भाषा द्वादशधा । अयमस्य कर्त्तैति अनिष्टकथनमभ्याख्यानम् । कलहः प्रतीतः । पृष्ठतो दोषा-विष्करणं पैशून्यम् । धर्मार्थ-काम-मोक्षासम्बद्धा वागवद्धप्रलापः । शब्दादिविषयेषु रत्युत्पादिका रतिवाक् । शब्दादिविषयेष्वरत्युत्पादिका अरतिवाक् । यां वाचं श्रुत्वा परिग्रहार्जन-रक्षणा-दिष्वासज्यते सोपधिवाक् । वणिग्व्यवहारे यामवधार्य निकृतिप्रवण आत्मा भवति सा निकृति-वाक् । यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाभ्याधिकेष्वापि न प्रणमति सा अप्रणतिवाक् । यां श्रुत्वा स्तेये प्रवर्तते सा मोपवाक् । सम्यग्द्वामार्गस्योपदेष्ट्री सम्यग्दर्शनवाक् । तद्विपरीता मिथ्यादर्शनवाक् । वक्तारश्चाविष्कृतवक्तृत्वपर्याया द्वीन्द्रियादयः । द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावाश्रयमनेकप्रकारमनृतम् ।

वचनसंस्कारके कारण हैं । शुभ या अशुभ रूप वचनका प्रयोग सुगम है ।

अभ्याख्यान, कलह, पैशून्य, अवद्धप्रलाप, रति, अरति, उपधि, निकृति, अप्रणति, मोप, सम्यग्दर्शन व मिथ्यादर्शन स्वरूप भाषा वारह प्रकार है । यह इसका कर्ता है इस प्रकार अनिष्ट कथनका नाम अभ्याख्यान है । कलह प्रसिद्ध है । पीछे दोषोंका प्रगट करना पैशून्य कहा जाता है । धर्म, अर्थ, काम व मोक्षसे असम्बद्ध वचनका नाम अवद्धप्रलाप है । शब्दादिक विषयोंमें रतिको उत्पन्न करनेवाला वचन रतिवाक् है । शब्दादिक विषयोंमें अरतिको उत्पन्न करनेवाला वचन अरतिवाक् है । जिस वचनको सुनकर परिग्रहके उपा-र्जन करने और उसके रक्षणादिकमें आसक्त होता है वह उपधिवाक् कहलाता है । जिस वचनको सुनकर आत्मा वणिग्व्यवहार अर्थात् व्यापारमें कपटपरायण होता है वह निकृतिवाक् है । जिस वचनको सुनकर प्राणी तप और विज्ञानसे अधिक जीवोंको भी प्रणाम नहीं करता है वह अप्रणतिवाक् है । जिस वचनको सुनकर चौर्य कार्यमें प्रवृत्त होता है वह मोपवचन है । समीचीन मार्गका उपदेश करनेवाला वचन सम्यग्दर्शनवाक् है । इससे विपरीत अर्थात् मिथ्यामार्गका उपदेश करनेवाला वचन मिथ्यादर्शनवाक् है ।

वक्ता प्रगट हुई वक्तृत्व पर्यायसे संयुक्त द्वीन्द्रियादिक जीव हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका आश्रयकर असत्य वचन अनेक प्रकार है ।

१ प्रतिष्ठा ' तपोविज्ञानाभ्यां केवपि ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठा ' अप्रणमतिवाक् ' इति पाठः ।

३ प्रतिष्ठा ' सम्यग्द्वामार्गस्योपदेष्ट ' इति पाठः ।

४ हिंसादेः कर्मणः कर्तुः विरतस्य विरताविरतस्य वाऽयमस्य कर्त्तव्यमिधानमभ्याख्यानम् ।

त. रा. १, २०, १२. हिंसाधकर्तुः कर्तुर्वा कर्त्तव्यमिति भाषणम् । अभ्याख्यानं प्रसिद्धो हि ' वागादि-कलहः पुनः ॥ दोषाविष्करणं दुष्टैः पश्चात्पैशून्यभाषणम् । भाषावद्धप्रलापाख्या चतुर्वर्गविवर्जिता ॥ रत्यरत्यभिधे बोधे [चोभे] रत्यरत्युपपादिके । आसज्यते जयार्थेषु श्रेता सोपधिवाक् पुनः ॥ वचनाप्रवणं

दशविधः सत्यसद्भावः नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-संयोजना-जनपद-देश-भाव-समय-सत्यभेदेन । तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्य असत्यप्यर्थे संव्यवहारार्थं संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्, इन्द्र इत्यादि । यदर्थेऽसन्निधानेऽपि रूपमात्रेणोच्यते तद्रूपसत्यम्, यथा चित्रपुरुषादिष्वसत्यपि चैतन्योपयोगादावर्थे पुरुष इत्यादि । असत्यप्यर्थे यत्कार्यार्थं स्थापितं दृताक्षनिक्षेपादिषु तत्स्थापनासत्यम् । साधनादीन् भावान् प्रतीत्य यद्वचस्तत्प्रतीत्यसत्यम् । यल्लोकसंवृतौ श्रुतं वचस्तत्संवृतिसत्यम्, यथा पृथिव्याद्यनेककारणत्वेऽपि सति पंके जातं पंकजमित्यादि ।

नाम, रूप, स्थापना, प्रतीत्य, संवृति, संयोजना, जनपद, देश, भाव और समय सत्यके भेदसे सत्यसद्भाव दश प्रकार है । उनमें पदार्थके न होनेपर भी व्यवहारके लिये सचेतन और अचेतन द्रव्यकी संज्ञा करनेको नामसत्य कहते हैं, जैसे इन्द्र इत्यादि । पदार्थका सन्निधान न होनेपर भी रूपमात्रकी अपेक्षा जो कहा जाता है वह रूपसत्य है, जैसे चित्रपुरुषादिकोंमें चैतन्य उपयोगादि रूप पदार्थके न होनेपर भी 'पुरुष' इत्यादि कहना । पदार्थके न होनेपर भी कार्यके लिये जो जुएके पाँसे आदि निक्षेपोंमें स्थापना की जाती है वह स्थापनासत्य है । सादि व अनादि आदि भावोंकी अपेक्षा करके जो वचन कहा जाता है वह प्रतीत्यसत्य है । जो वचन लोकरूढ़िमें सुना जाता है वह संवृतिसत्य है, जैसे पृथिवी आदि अनेक कारणोंके होनेपर भी पंक अर्थात् कीचड़में उत्पन्न होनेसे 'पंकज'

जीवं कर्ता निःकृतिवाक्यतः । न नमत्यधिकेन्द्रात्मा सा च [चा] प्रणतिवागभूत् ॥ या प्रवर्तयति स्तेये मोष [मोष] वाक् सा समीरिता । सम्यग्मार्गे नियोक्त्री या सम्यग्दर्शनवागसौ ॥ मिथ्यादर्शनवाक् सा या मिथ्यामार्गोप-
देशिनी । वाचो द्वादशभेदायां वक्तारो द्वीन्द्रियादयः ॥ ह. पु. १०, ९२-९७.

१ जणवद-संमदि-ठवणा णामे रुवे पडुच्च-ववहारे । संभावणववहारे भावेणोपम्मसच्चेण ॥ भ. आ. ११९३. गो. जी. २२२.

२ ह. पु. १०-९८. तथा च यथा 'भातु' इत्यादि नाम देशापेक्षया सत्यं तथा अन्यनिरपेक्षतयैव संव्यवहारार्थं कस्यचित्प्रयुक्तं संज्ञाकर्म नामसत्यम् । यथा कश्चित् पुरुषो जिनदत्त इति । गो. जी. जी. प्र. २२३.

३ ह. पु. १०-९९. चक्षुर्व्यवहारप्रचुरत्वेन रूपादिपुद्गलयुग्मेषु रूपप्राधान्येन तदाश्रितं वचनं रूपसत्यम् । यथा कश्चित् पुरुषः श्वेत इति । गो. जी. जी. प्र. २२३.

४ ह. पु. १०-१००. अन्यत्रान्यवस्तुनः समारोपः स्थापना, तदाश्रितं मुख्यवस्तुनो नाम स्थापनासत्यम् । यथा चन्द्रपद्मप्रतिमा चन्द्रपद्म इति । गो. जी. जी. प्र. २२३.

५ ह. पु. १०-१०१. आदिमदनादिमदौपशमिकादीन् भावान् प्रतीत्य यद्वचनं तत्प्रतीत्यसत्यम् । त. रा. १, २०, १२. प्रतीत्य विवक्षितादितरदुद्दिश्य विवक्षितस्यैव स्वरूपकथनं प्रतीत्यसत्यम्— आपेक्षिकसत्यमित्यर्थः । यथा कश्चिदीर्घ इति, अन्यस्य ह्रस्वत्वमपेक्ष्य प्रकृतस्य दीर्घत्वकथनात् । एवं स्थूल-सूक्ष्मादिवचनान्यपि प्रतीत्यसत्यानि ज्ञातव्यानि । गो. जी. जी. प्र. २२३.

६ ह. पु. १०-१०२. यल्लोके संवृत्यानीतं वचस्तत्संवृतिसत्यम् । यथा... । त. रा. १, २०, १२. तथा संवृत्या कल्पनया सम्मत्या वा बहुजान्युपगमेन सर्वदेशसाधारणं यन्नाम रूढं तत्संवृतिसत्यं सम्मतिसत्यं वा । यथा अग्रमहिषीत्वामात्रेऽपि कस्याश्चिद्देवीति नाम । गो. जी. जी. प्र. २२३.

धूपचूर्णवासानुलेपनप्रघर्षादिषु पद्म-मकर-हंस-सर्वतोभद्र-कौंचव्यूहादिषु इतरेतरद्रव्याणां यथा-विभागविधिसन्निवेशाविर्भावकं यद्वचस्तत्संयोजनासत्यम् । द्वात्रिंशज्जनपदेषु आर्यानार्यभेदेषु धर्मार्थ-काम-मोक्षाणां प्रापकं यद्वचस्तज्जनपदसत्यम् । ग्राम-नगर-राज-गण-पाखण्ड-जाति-कुलादिधर्माणां व्यपदेश यद्वचस्तदेशसत्यम् । छद्मस्थज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेऽपि संयतस्य [संयतासंयतस्य] वा स्वगुणपरिपालनार्थं प्राशुकमिदमप्राशुकमित्यादि यद्वचस्तद् भाव-सत्यम् । प्रतिनियतपद्व्यप्यायाणामागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यद्वचस्तत्समय-सत्यम् ।

यत्रात्मनोऽस्तित्व-नास्तित्वादयो धर्माः पङ्जीवनिकायभेदाश्च युक्तितो निर्दिष्टास्तदात्म-

इत्यादि वचनप्रयोग । सुगन्धित धूपचूर्णके लेपन और घिसनेमें [अथवा] पद्म, मकर, हंस, सर्वतोभद्र और कौंच रूप व्यूह (सैन्यरचना) आदिकोंमें भिन्न भिन्न द्रव्योंकी विभागविधिके अनुसार की जानेवाली रचनाको प्रगट करनेवाला जो वचन है वह संयोजनासत्यवचन कहलाता है । आर्थ व अनार्थ भेद युक्त वत्तीस जनपदोंमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका प्रापक जो वचन है वह जनपदसत्य है । जो वचन, ग्राम, नगर, राजा, गण, पाखण्ड, जाति एवं कुल आदि धर्मोंका व्यपदेश करनेवाला है वह देशसत्य है । छद्मस्थज्ञानके द्रव्यके यथार्थ स्वरूपका दर्शन न होनेपर भी संयत अथवा [संयता-संयत] के अपने गुणोंका पालन करनेके लिये ' यह प्राशुक है और यह अप्राशुक है ' इत्यादि जो वचन कहा जाता है वह भावसत्य है । जो वचन आगमगम्य प्रतिनियत छह द्रव्य व उनकी पर्यायोंकी यथार्थताको प्रगट करनेवाला है वह समयसत्य है ।

जिसमें आत्माके अस्तित्व व नास्तित्व आदि गुणोंका तथा छह कायके जीवोंके

१ त. रा. वार्तिके मूलाराधनायां (११९३) च ' -व्यूहादिषु इतरेतरद्रव्याणां यथाविभागविधि- ' अस्य स्थाने ' -व्यूहादिषु वा सचेतनेतरद्रव्याणां यथामागविधि- ' इति पाठः । चेतनाचेतनद्रव्यसंनिवेशाविभागकृत् । वचः संयोजनासत्यं कौंचव्यूहादिगोचरम् । ह. पु. १०-१०३.

२ ह. पु. १०-१०४. जनपदेषु तत्रतन-तत्रतनव्यवहर्तृजनानां रूढं यद्वचनं तज्जनपदसत्यम् । यथा महाराष्ट्रदेशे भातु भेट्ट, अंध्रदेशे वंटक मूकुट्ट, कर्णाटदेशे कूळ, द्रविडदेशे चोर । गो. जी. जी. प्र. २२३.

३ यद् ग्राम-नगराचार-राजधर्मोपदेशकृत् । गणाश्रमपदोद्भासि देशसत्यं तु तन्मतम् ॥ ह. पु. १०-१०५.

४ मूलाराधना ११९३. ह. पु. १०-१०७. अतीन्द्रियार्थेषु प्रवचनोक्तविधि-निषेधसंकल्पपरिणामो भावः, तदाश्रितं वचनं भावसत्यम् । यथा शुष्क-पक्व-ध्वस्ताम्ल-लवणसंमिश्रदग्धादिद्रव्यं प्राशुकम्, ततस्तत्सेवने पापबन्धो नास्तीति पापवर्जनवचनम् । अत्र सूक्ष्मप्राणिनामिन्द्रियागोचरत्वेऽपि प्रवचनग्रामाण्येन प्राशुकाप्राशुकसंकल्परूप-भावाश्रितवचनस्य सत्यत्वात्, समस्तातीन्द्रियार्थज्ञानिग्रणीतप्रवचनस्य सत्यत्वादेव कारणात् । गो. जी. जी. प्र. २२४.

प्रवादम् । एतस्य पदप्रमाणं पड्विंशतिः कोट्यः २६००००००० । अत्रोपयोगी गाथा —

जीवो कत्ता य वक्ता य पाणी भोक्ता य पोगलो ।

वेदो विण्हू सयंभू य सरीरी तह माणओ ॥ ८१ ॥

सत्ता जंतू य माई य माणी जोगी य संकटो ।

असंकटो य खेतण्हू अंतरप्पा तहेव य ॥ ८२ ॥

एतयोरर्थमुच्यते— जीवति जीविष्यति अजीवीदिति जीवः । शुभमशुभं करोतीति कर्ता । सत्यमसत्यं ब्रवीतीति वक्ता । प्राणा अस्य सन्तीति प्राणी । चतुर्गतिसंसारे कुशल-

भेदोंका युक्तिसे निर्देश किया गया हो वह आत्मप्रवादपूर्व कहा जाता है । इसके पदोंका प्रमाण छब्बीस करोड़ है २६००००००० । यहां उपयोगी गाथायें—

जीव कर्ता, वक्ता, प्राणी, भोक्ता, पुद्गल, वेद, विण्णु, स्वयंभू, शरीरी, मानघ, सक्त, जन्तु, मायी, मानी, योगी, संकट, असंकट, क्षेत्रज्ञ और अन्तरात्मा है ॥ ८१-८२ ॥

इन दोनों गाथाओंका अर्थ कहते हैं— जो जीता है, जीता रहेगा और जीता था वह जीव है । चूंकि जीव शुभ और अशुभ कार्योंको करता है अतः वह कर्ता है । सत्य और असत्य वचन बोलनेके कारण वक्ता है । व्यवहारनयसे आयु व इन्द्रियादि दश प्राणोंसे तथा निश्चय नयकी अपेक्षा ज्ञान-दर्शनादि रूप प्राणोंसे संयुक्त होनेके कारण प्राणी है । चूंकि वह चतुर्गति रूप संसारमें शुभ और अशुभ कर्मके फल स्वरूप सुख-दुखको भोगता है

१ व. खं. पु. १, पृ. ११८. त. रा. १, २०, १२. आदपवादो णाणाविहदुण्णए जीवविसए णिराकरिय जीवसिद्धिं कुणइ । अत्थि जीवो तिलक्खणो सरीरमेत्तो स-परप्पयासओ सुहुमो अणुवो भोत्ता कत्ता अणाइबंधणवद्धो णाण-दंसणलक्खणो उड्डगमणसहावो एवमाइसरूवेण जीवं साहेदि ति वुत्तं होदि । जयध. १, पृ. १४१. अं. प. २, ८५.

२ अं. प. २, ८६-८७.

३ व्यवहारेण जीवदि दसपाणेहि, णिच्छयणएण य केवलणाण-दंसण-सम्मत्तरूपपाणेहि जीवदिदि जीविद-पुद्धो जीवदि ति जीवो । अं. प. २, ८६-८७.

४ व्यवहारेण सुहासुहं कम्मं णिच्छयणएण चिप्पज्जयं च करोदि ति कत्ता, नो किमवि करोदि इदि अकत्ता । अं. प. २, ८६-८७.

५ सच्चमसच्चं च वत्ति ति वत्ता, णिच्छयदो अवत्ता । अं. प. २, ८६. ८७.

६ णयंदुग्घपोणां अस्सं अत्थि इदि पाणी । अं. प. २, ८६-८७.

मकुशलं भुंक्ते इति भोक्ता^१ । पूरण-गलनात्पुद्गलः^२ । सुखमसुखं वेदयतीति वेदः^३ । स्वशरीराशेषा-
वयवान्वेवेष्टीति विष्णुः^४ । स्वयमेव भूतवानिति स्वयम्भूः^५ । शरीरमस्यास्तीति शरीरी^६ । मनौ
भवः मानवः^७ । स्वजन-सम्बन्धि-मित्रवर्गादिषु सजतीति सक्ता^८ । चतुर्गतिसंसारे आत्मानं जन-
यति जायत इति वा जन्तुः^९ । माया अस्यास्तीति मायी^{१०} । मानोऽस्यास्तीति मानी^{११} । योगोऽ-
स्यास्तीति योगी^{१२} । संहरधर्मत्वात्संकटः^{१३} । विसर्पणधर्मत्वादसंकटः^{१४} । षड्रव्याणि क्षियन्ति
निवसन्ति यस्मिन् तत्क्षेत्रम्, षड्रव्यस्वरूपमित्यर्थः; तज्जानातीति क्षेत्रज्ञः^{१५} । अथवा,

अतः भोक्ता है । चूंकि वह कर्म रूप पुद्गलको पूरा करता और गलाता है अतः पुद्गल
है । सुख और दुःखका चूंकि वेदन करता है अतः वेद है । चूंकि अपने शरीरके समस्त
अवयवोंको पुनः पुनः वेष्टित करता है अतः वह विष्णु है । स्वयं ही उत्पन्न होनेके कारण
स्वयम्भू है । शरीर होनेके कारण शरीरी है । मनु अर्थात् ज्ञानमें उत्पन्न होनेसे मानव
है । चूंकि अपने कुटुम्बी जन, सम्बन्धी एवं मित्रवर्गादिकोंमें आसक्त रहता है अतः सक्ता
कहा जाता है । चतुर्गति रूप संसारमें चूंकि अपनेको उत्पन्न कराता है या उत्पन्न होता है
अतः जन्तु है । माया युक्त होनेसे मायी है । मान युक्त होनेसे मानी है । योग युक्त होनेसे
योगी है । संकोच रूप स्वभावके कारण संकट है । फैलने रूप धर्मसे संयुक्त होनेके कारण
असंकट कहलाता है । छह द्रव्य जिसमें रहते हैं अर्थात् चास करते हैं वह क्षेत्र कहलाता
है, अर्थात् जो छह द्रव्य स्वरूप है उसका नाम क्षेत्र है; और उसको जो जानता है वह

१ कम्मफलं सस्सरुवं च भुंजदि इति भोक्ता । अं. पं. २, ८६, ८७.

२ कम्म-पोगलं पूरेदि गालेदि य पोगगलो, णिच्छयदो अपोगगलो । अं. पं. ८६, ८७.

३ सव्वं वेद इति वेदो । अं. पं. २, ८६-८७.

४ प्रतिषु 'सशरीर' इति पाठः । वावणसीलो विण्हू । अं. पं. २, ८६-८७.

५ सयंभुवणसीलो सयंभू । अं. पं. २, ८६-८७.

६ शरीरमस्सत्थि ति शरीरी, णिच्छयदो असरीरी । अं. पं. २, ८६-८७.

७ माणवादिपज्जयज्जुत्तो माणवो, णिच्छएण अमाणवो । अं. पं. २, ८६-८७.

८ परिगहेसु सजदि ति सक्ता, णिच्छयदो असक्ता । अं. पं. २, ८६-८७.

९ णाणाजोणिषु जायइ ति जंतू, णिच्छएण अजंतू । अं. २, ८६-८७.

१० मायास्सत्थि ति मायी, णिच्छयदो अमायी । अं. पं. २, ८६-८७.

११ माणो अहंकारो अस्सत्थि ति माणी, णिच्छयदो अमाणी । अं. पं. २, ८६-८७.

१२ जोगो मण-वयण-कायलवखणो अस्सत्थि ति जोगी, णिच्छयदो अजोगी । अं. पं. २, ८६-८७.

१३ जहण्णेण संकुइदपदेसो संकुडो । अं. पं. २, ८६-८७.

१४ समुग्धादे लोयं वाप्पइ ति असंकुडो । अं. पं. २, ८६-८७.

१५ क्षेत्रं लोयालोयं सस्सरुवं च जाणदि ति क्षेत्रण्हू । अं. पं. २, ८६-८७.

प्रदेशज्ञः^१ जीव इत्ययमस्यार्थः, क्षेत्रज्ञशब्दस्य कुशलशब्दवत् जहत्स्वार्थवृत्तित्वात् । अन्तश्चासौ आत्मा च अन्तरात्मा^२ इति ।

बन्धोदयोपशमनिर्जरापर्यायाः अनुभवप्रदेशाधिकरणानि स्थितिश्च जघन्य-मध्यमोत्कृष्टा यत्र निर्दिश्यन्ते तत्कर्मप्रवादम्^३; अथवा ईर्यापथकर्मोदिसप्तकर्माणि यत्र निर्दिश्यन्ते तत्कर्म-प्रवादम्^४ । तत्र पदप्रमाणमशीतिशतसहस्राधिका एका कोटी १८०००००० । व्रत-नियम-प्रतिक्रमण-प्रतिलेखन-तपःकल्पोपसर्गाचार-प्रतिमाविराधनाराधनविशुद्ध्युपक्रमाः श्रामण्यकारणं च परिमितापरिमितद्रव्य-भावप्रत्याख्यानं च यत्राख्यातं तत्प्रत्याख्याननामधेयम्^५ । तत्र चतुरशीति-शतसहस्रपदानि ८४०००००० । समस्तविद्या अष्टौ महानिमित्तानि तद्विषयो^६ रज्जुराशिविधिः

क्षेत्रज्ञ कहा जाता है । अथवा जीव प्रदेशज्ञ है, यह इसका अर्थ है, क्योंकि, क्षेत्रज्ञ शब्द कुशल शब्दके समान जहत्स्वार्थवृत्ति लक्षणा रूप है । अभ्यन्तर होनेसे वह अन्तरात्मा कहा जाता है ।

जिसमें बन्ध, उदय, उपशम और निर्जरा रूप पर्यायोंका, अनुभाग, प्रदेश व अधिकरण तथा जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट स्थितिका निर्देश किया जाता है वह कर्म-प्रवाद है; अथवा जिसमें ईर्यापथकर्म आदि सात कर्मोंका निर्देश किया जाता है वह कर्म-प्रवादपूर्व कहलाता है । उसमें पदोंका प्रमाण एक करोड़ अस्सी लाख है १८०००००० ।

जिसमें व्रत, नियम, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, तप, कल्प, उपसर्ग, आचार, प्रतिमा-विराधन, आराधन और विशुद्धिका उपक्रम, श्रमणताका कारण तथा द्रव्य और भावकी अपेक्षा परिमित व अपरिमित काल रूप प्रत्याख्यानका कथन हो वह प्रत्याख्यान नामक पूर्व है । उसमें चौरासी लाख पद हैं ८४०००००० । जिसमें समस्त विद्याओं, आठ महानिमित्तों, उनके विषय, राजुराशिविधि,

१ प्रतिशु ' प्रदेशः ' इति पाठः ।

२ अट्टकम्माभन्तरवत्तीसभावादो चेदण्णभन्तरवत्तीसभावादो च अंतरप्पा । अं. प. २, ८६-८७.

३ प. खं. पु. १. पृ. १२१. त. रा. १, २०, १२. कम्मपवादो समोदाणिरियावहकिरिया-तवाहा-कम्माणं वण्णणं कुणइ । जयध. १, पृ. १४२. अं. प. २-८८.

४ प्रतिशु ' प्रतिलेखनलपन्कल्पोप- ', मप्रतौ ' पतिलेखनलयन्मल्पोप- ' इति पाठः ।

५ प. खं. पु. १, पृ. १२१. त. रा. १, २०, १२. पन्चक्खाणपवादो णाम-द्ववणा-दव्व-खेत्त-काल-भावमेदमिण्णं परिमियमपरमियं च पन्चक्खाणं वण्णेदि जयध. १, पृ. १४३. अं. प. २, ९५-१००.

६ प्रतिशु ' तद्विषयो ' इति पाठः ।

क्षेत्रं श्रेणि लोकप्रतिष्ठा संस्थानं समुद्धातश्च यत्र कथ्यते तद्विद्यानुप्रवादम्' । तत्राङ्गुष्ठप्रसेनादीनां अल्पविद्यानां सप्तशतानि, महाविद्यानां रोहिण्यादीनां पंचशतानि । अन्तरिक्ष-भौमाङ्ग-स्वर-स्वप्न-लक्षण-व्यञ्जन-चिह्नान्यष्टौ महानिमित्तानि । तेषां विषयो लोकः । क्षेत्रमाकाशम् । पट-सूत्रवच्चर्मवयवद्वानुपूर्व्विणोर्ध्वाधस्तिर्यगव्यवस्थिताः आकाशप्रदेशपंक्तयः श्रेणयः । अन्य-त्सुगमम् । अत्र पदानि दशशतसहस्राधिका एका कोटी ११०००००० । रवि-शशि-ग्रह-नक्षत्र-तारागणानां चारोपपाद-गतिविपर्ययफलानि शकुनव्याहृतिमर्हद्-बलदेव-वासुदेव-चक्रधरा-दीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि च यत्रोक्तानि तत्कल्याणनामधेयम् । तत्र पदप्रमाणं षड्-विंशतिकोट्यः २६००००००० । कायचिकित्साद्यष्टांगः आयुर्वेदः भूतिकर्म जाङ्गुलिप्रक्रमः

क्षेत्र, श्रेणि, लोकप्रतिष्ठा, संस्थान और समुद्धातका वर्णन किया जाता है वह विद्यानु-प्रवाद पूर्व कहलाता है । उनमें अंगुष्ठप्रसेनादिक अल्पविद्यायें सात सौ और रोहिणी आदि महाविद्यायें पांच सौ हैं । अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यञ्जन और चिह्न, ये आठ महानिमित्त हैं । उनका विषय लोक है । क्षेत्रका अर्थ आकाश है । वस्त्रतन्तुके समान अथवा चर्मके अवयवके समान अनुक्रमसे ऊपर, नीचे और तिरछे रूपसे व्यवस्थित आकाशप्रदेशोंकी पंक्तियां श्रेणियां कहलाती हैं । शेष सुगम है । इसमें एक करोड़ दश लाख पद हैं ११०००००० । सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारागणोंका संचार, उत्पत्ति व विपरीत गतिका फल, शकुनव्याहृति अर्थात् शुभाशुभ शकुनोंका फल, अरहन्त, बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदिकोंके गर्भमें आने आदिके महाकल्याणकोंकी जिसमें प्ररूपणा की गई हो वह कल्याणवाद नामक पूर्व है । उसमें पदोंका प्रमाण छब्बीस करोड़ है २६००००००० ।

जिसमें शरीरचिकित्सा आदि अष्टांग आयुर्वेद, भूतिकर्म अर्थात् भस्मलेपनादि,

१ प. खं. पु. १, पृ. १२१. त. रा. १, २०, १२. विज्जाणुपवादो अंगुष्ठप्रसेनादिसप्तसयमने रोहिणि-आदिपंचसयमहाविज्जाओ च तस्मिं साहणविहाणं सिद्धाणं फलं च वण्णेदि । जयध. १, पृ. १४४.

२ त. रा. १, २०, १२. तत्र 'चिह्नान्यष्टौ' इत्येतस्य स्थाने 'छिन्नानि अष्टौ'; 'वद्वानुपूर्व्विणो-' स्थाने 'वद्वानुपूर्व्विणो-' इति पाठमेव; । 'व्यवस्थिताः' अतोऽप्रे तत्र 'असंख्याताः' पदमधिकं चोपलभ्यते ।

३ प्रतिपु 'धर्मावयव-' इति पाठः ।

४ प. खं. पु. १. पृ. १२१. त. रा. १, २०, १२. कल्लाणपवादो गह-णक्खत्त-चंद-सूरचारविसेसं अट्ठ-गमहाणिमित्तं तिस्थयर-चक्कवाट्टि-वल-णारायणादीणं कल्लाणाणि च वण्णेदि । जयध. १, पृ. १४५. अं. प. २, १०४-१०६.

५ 'शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कौमारभृत्यमगदतंत्रं रसायनतंत्रं वाजीकरणतंत्रमिति' शुश्रुत पृ. १.

प्राणापानविभागो यत्र विस्तरेण वर्णितस्तत्प्राणावायम् । अत्रोपयोगी गाथा—

उत्सासाउअपाणा इन्द्रियपाणा परक्रमो पाणो ।

एदेसि पाणाणं बड्ढी-हाणीओ वण्णेदि ॥ ८३ ॥

अत्र पदानां त्रयोदशकोट्यः १३०००००००० । लेखादिकाः कलाः द्वासप्ततिः गुणाश्चतुःषष्टिः स्त्रैणाः शिल्पानि काव्यगुण-दोषक्रिया-छन्दोविचितिक्रिया-फलोपभोक्तारश्च यत्र स्यातास्तत्क्रियाविशालम् । अत्र पदानां नव कोट्यो भवन्ति ९०००००००० । यत्राष्टौ व्यवहाराश्चत्वारि बीजानि क्रियाविभागश्चोपदिष्टः तल्लोकविन्दुसारम् । तत्र पञ्चाशच्छतसहस्राधिक-द्वादशकोट्यः पदानां १२५००००००० ।

आगुलिप्रक्रम अर्थात् विपचिकित्सा और प्राण व अपान वायुओंका विभाग, इनका विस्तारसे वर्णन किया गया हो वह प्राणावाय पूर्व है । यहां उपयोगी गाथा—

प्राणावाय पूर्व उच्छ्वास, आयुप्राण, इन्द्रिय प्राण और पराक्रम अर्थात् बलप्राण, इन प्राणोंकी वृद्धि एवं हानिका वर्णन करता है ॥ ८३ ॥

इसमें तेरह करोड़ पद हैं १३०००००००० । जिसमें लेखन आदि बहत्तर कलाओंका, स्त्रीसम्बन्धी चौंसठ गुणोंका, शिल्पोंका, काव्य सम्बन्धी गुण-दोषक्रियाका, छन्दरचनेकी क्रिया और उसके फलके उपभोक्ताओंका वर्णन किया गया हो वह क्रियाविशालपूर्व कहलाता है । इसमें नौ करोड़ पद हैं ९०००००००० । जिसमें आठ प्रकारके व्यवहारों, चार बीजों और क्रियाविभागका उपदेश किया गया हो वह लोकविन्दुसार है । उसमें बारह करोड़ पचास-लाख पद हैं १२५००००००० ।

१ प. खं. पु. १, पृ. १२२. त. रा. १, २०, १२. प्राणावायपवादो दसविहपाणाणं हाणि-बड्ढीओ वण्णेदि । X X X काणि आउव्वेयस्स अट्ठंगाणि ? वुच्चदे— शालाक्यं कायचिकित्सा भूततंत्रं रसायनतंत्रं बाल-रक्षा बीजवर्द्धनोपेति आयुर्वेदस्य अष्टाङ्गानि । जयध. १, पृ. १४६. अं. प. २, १०७-११०.

२ प. खं. पु. १, पृ. १२२. त. रा. १, २०, १२. तत्र 'विचितिक्रियाफलोपः' इत्येतस्य स्थाने 'विचितिक्रिया क्रियाफलोपः' इति पाठभेदः । क्रियाविशालो णट्ठगेय-लक्खण-छंदालंकार-संद-त्थो-पुरुस-लक्खणादीणं वण्णं कुणह । जयध. १, पृ. १४८. अं. प. २, ११०-११३.

३ प्रतिषु 'अत्राष्टौ' इति पाठः ।

४ प. खं. पु. १, पृ. १२२. यत्राष्टौ व्यवहाराश्चत्वारि बीजानि परिकर्मराशिक्रियाविभागश्च सर्वश्रुतसंपदोपदिष्टा तल्लु लोकविन्दुसारम् । त. रा. १, २०, १२. लोकविन्दुसारो परियम्म-ववहार-रञ्जुरासि-कलासवण्ण-जाव-ताव-वग्ग-वण-बीजगणिय-मोक्खाणं सरुवं वण्णेदि । जयध. १, पृ. १४८. अं. प. २, ११४-११६.

अत्र अग्रायणेन अधिकारः, तत्र महाकर्मप्रकृतिप्राभृतस्यावस्थानात् । एत्थ अग्गेणि-
यस्स पुव्वस्स चट्ठहि पयारेहि अवयारो हेदि । तं जहा— णाम-ड्वणा-दव्व-भावभेएण
चउव्विहमग्गेणियं । तत्थ आदिल्ला तिणिण वि णिकखेवा दव्वड्डियणयणिबंघणा, धउविएण
विणा तेसिं सरूवोवलंभाभावादो । भावणिकखेवो पज्जवड्डियणयणिबंघणो, वट्टमाणपज्जाएण
पडिगददव्वस्स भावत्तव्भुवगमादो । णिकखेवड्डो वुच्चदे— अग्गेणियसदो वज्झत्थं मोत्तूण
अप्पाणम्हि वट्टमाणो णामग्गेणियं । सो एसो त्ति बुद्धीए^१ अग्गेणिएण पत्तेयत्तड्डो ड्वणा-
अग्गेणियं । दव्वग्गेणियमागम-णोआगमभेएण दुविहं । तत्थ अग्गेणियपुव्वहरो अणुवज्जुत्तो
आगमदव्वग्गेणियं । णोआगमदव्वग्गेणियं जाणुगसरीर-भविय-तव्वदिरित्तग्गेणियभेएण^२ तिविहं ।
तत्थ जाणुगसरीर-भवियणोआगमदव्वग्गेणियदुगं सुगमं, बहुसो उत्तत्थादो । तव्वदिरित्त-
णोआगमदव्वग्गेणियमग्गेणियसद्दागमो तवकारणदव्वाणि वा । भावग्गेणियं दुविहं आगम-
णोआगमभेएण^३ । तत्थ अग्गेणियपुव्वहरो उवज्जुत्तो आगमभावग्गेणियं । अग्गेणियपुव्वत्थ-
विसओ केवलोहि-मणपज्जवणाणोवयोगो णोआगमभावग्गेणियं । एत्थ दव्वड्डियणयं पडुच्च

यहां अग्रायणपूर्वका अधिकार है, क्योंकि, उसमें महाकर्मप्रकृतिप्राभृतका अवस्थान
है । यहां अग्रायणीयपूर्वका चार प्रकारसे अवतार होता है । वह इस प्रकार है— नाम,
स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे अग्रायणीयपूर्व चार प्रकार है । इनमें आदिके तीन निक्षेप
द्रव्यार्थिकनयके निमित्तसे हैं, क्योंकि, ध्रौव्यके बिना उनका स्वरूप नहीं पाया जाता । भाव-
निक्षेप पर्यायार्थिकनयके निमित्तसे होनेवाला है, क्योंकि, वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको
भाव माना गया है । निक्षेपका अर्थ कहते हैं— बाह्यार्थको छोड़कर अपने आपमें रहनेवाला
अग्रायणीय शब्द नामअग्रायणीय है । ' वह यह है ' इस बुद्धिसे अग्रायणीयके साथ
एकताको प्राप्त पदार्थ स्थापनाअग्रायणीय है । द्रव्यअग्रायणीय आगम और नोआगमके
भेदसे दो प्रकार है । उनमें अग्रायणीयपूर्वधारक उपयोगसे रहित जीव आगमद्रव्यअग्रायणीय
है । नोआगमद्रव्यअग्रायणीय ज्ञायकशरीर, भावी और तद्द्रव्यतिरिक्त अग्रायणीयके भेदसे तीन
प्रकार है । उनमें ज्ञायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यअग्रायणीय ये दो सुगम हैं, क्योंकि,
बहुत-बार उनका अर्थ कहा जा चुका है । अग्रायणीय रूप शब्दागम अथवा उसके कारण-
भूत द्रव्य तद्द्रव्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यअग्रायणीय है । भावअग्रायणीय आगम और
नोआगम भावअग्रायणीयके भेदसे दो प्रकार है । उनमें अग्रायणीयपूर्वका धारक उपयोग
युक्त जीव आगमभावअग्रायणीय कहलाता है । अग्रायणीय पूर्वके अर्थको विषय करने-
वाला केवलज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान रूप उपयोग नोआगमभावअग्रायणीय है ।
यहां द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा करके तद्द्रव्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यअग्रायणीय और अक्षर-

१ प्रतिपु ' बुद्धी ' इति पाठः ।

२ अकाप्रत्योः ' भावेण ' इति पाठः ।

तव्वदिस्सिणोआगमद्वग्गेणिए अक्खरद्वग्गेणिए च पयदं । पज्जवद्वियणयं पडुच्च
आगमभावग्गेणिए पयदं । णइगमणयं पडुच्च अग्गेणियपुव्वहर-तिकोडिपरिणयजीवद्वेण
पयदं । एवं णिक्खेव-णएहि अवयारो परूविदो ।

प्रमाण-प्रमेयाणं दोण्हं पि एत्थं गहणं कायव्वं, अण्णोण्णाविणाभावादो ।

पुव्वानुपुव्वीए विदियमग्गेणियं । पच्छानुपुव्वीए तेरसमं । जत्थ-तत्थाणुपुव्वीए अव-
त्तव्वं, पढमं विदियं तदियं चउत्थं पंचमं छट्ठं सत्तममड्डमं णवमं दसममेक्कारसमं बारसमं वा
त्ति णियमाभावादो । अंगानामग्रमेति गच्छति प्रतिपादयतीति गोण्णणाममग्गेणियं । अक्खर-
पद-संघाद-पडिवत्ति-अणिओगहरोहि संखेज्जमणंतं वा अत्थाणंतियादो^१ । वत्तव्वं ससमओ,
परसमयपरूवणाभावादो । अत्थाहियारो चोदसविहो । तं जहा— पुव्वंते अवर्ते धुवे अद्भुवे
चयणलद्धी अद्भुवसंपणिधाने कप्पे अडे भोम्मावयादीए^२ सव्वडे कप्पणिज्जाणे तीदाणगय-

स्थापना रूप अग्रायणीय प्रकृत है । पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा करके आगमभावअग्रायणीय
प्रकृत है । नैगमनयकी अपेक्षा करके अग्रायणीयपूर्वका धारक त्रिकोटिपरिणत (उत्पाद,
व्यय व भ्रौव्य; अथवा द्रव्य, गुण व पर्याय; अथवा सत्, असत् व उभय स्वरूप) जीव
द्रव्य प्रकृत है । इस प्रकार निक्षेप और नयसे अवतारकी प्ररूपणा की है ।

प्रमाण और प्रमेय दोनोंका ही यहां ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, वे परस्परमें
अविनाभावी हैं ।

पूर्वानुपूर्वीसे अग्रायणीयपूर्व द्वितीय है । पश्चादानुपूर्वीसे वह तेरहवां है । यत्र-
तत्रानुपूर्वीसे वह अवक्तव्य है, क्योंकि, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम,
आठवां, नौवां, दशवां, ग्यारहवां, अथवा बारहवां है, इस प्रकार उक्त आनुपूर्वीकी अपेक्षा
कोई नियम नहीं है ।

अंगोंके अग्र अर्थात् प्रधान पदार्थको वह प्राप्त होता है अर्थात् प्रतिपादन करता है
अतः अग्रायणीय यह गौण्य नाम है । अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारोंकी
अपेक्षा संख्यात है, अथवा अर्थोंकी अनन्तताकी अपेक्षा वह अनन्त है । वक्तव्य स्वसमय
है, क्योंकि, परसमयकी प्ररूपणाका यहां अभाव है । अर्थाधिकार चौदह प्रकार है । वह
इस प्रकारसे है— पूर्वान्त, अपरान्त, ध्रुव, अध्रुव, चयनलब्धि, अध्रुवसंप्रणिधान, कल्प,
अर्थ, भौमावयाद्य, सर्वार्थ, कल्पनिर्याण, (सर्वार्थकल्प, निर्वाण,) अतीतकाल और अनागत

१ प्रतिषु ' अत्थाणंतियालो ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' भोम्मावयाधीए ' इति पाठः ।

काले सिज्झए बुज्झए' ति । चोदसण्हं पुव्वाणमहियारपमाणंपरूवणागाहाओ । तं जहा

दस चोदस अट्टहारस वारस य दोसु पुव्वेसु ।

सोलस वीसं तीसं दसमम्मि य पण्णरस वत्थू ॥ ८४ ॥

एदेसिं पुव्वाणं एवदिओ वत्थुसंगहो भणिदो ।

सेसाणं पुव्वाणं दस दस वत्थू पणिवयामि' ॥ ८५ ॥

एदेसिमंकविण्णासो जहाकभेण—

१०	१४	८	१८	१२	१२	१६	२०	३०	१५	१०	१०	१०	१०
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

एत्थ चयणलद्धीए अहियारो, संगहिदमहाकम्मपयडिपाहुडत्तादो । संपधि चयणलद्धीए

काल, सिद्ध और बुद्ध । चौदह पूर्वोंके अधिकारोंके प्रमाणको बतलानेवाली गाथायें इस प्रकार हैं—

दश, चौदह, आठ, अठारह, दो पूर्वोंमें बारह, सोलह, बीस, तीस और दशवैमें पन्द्रह, इस प्रकार क्रमसे आदिके इन दश पूर्वोंकी इतनी मात्र वस्तुओंका संग्रह कहा गया है । शेष चार पूर्वोंके दश दश वस्तु हैं । इनको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ८४-८५ ॥

यथाक्रमसे इनके अंकोंकी रचना—

१०	१४	८	१८	१२	१२	१६	२०	३०	१५	१०	१०	१०	१०
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

यहां चयनलब्धिका अधिकार है, क्योंकि, उसमें महाकर्मप्रकृतिप्राभृत संगृहीत है ।

१ प. खं. पु. १, पृ. १२३. अग्रायणीयपूर्वस्य यान्युक्तानि चतुर्दश । विज्ञातव्यानि वस्तूनि तानीमानि यथाक्रमम् ॥ पूर्वान्तमपरान्तं च ध्रुवमध्रुवमेव च । तथा च्यवनलब्धिश्च पंचमं वस्तु वर्णितम् ॥ अध्रुवं संप्रणध्यन्तं कल्पाश्रयश्च नामतः । मीमात्रयाचमित्यन्यत् तथा सर्वार्थकल्पकम् ॥ निर्वाणं च तथा ज्ञेयास्तीतानागतकल्पता । सिद्धधार्म्यं चाप्युपाध्याय्यं ख्यापितं वस्तु चान्तिमम् ॥ ह. पु. १०, ७७-८०. पुर्वंतं अवरंतं ध्रुवाध्रुवच्यवनलब्धिणामाणि । अदध्रुवसंपणही च अर्थं मीमात्रयज्जं च ॥ सव्यत्यकप्पणीयं णाणमदीदं अणागदं कालं । सिद्धिमुवज्जं वदे चउदह्वत्थूणि विदियस्स ॥ अं. प. २, ४२-४३.

२ प्रतिपूर्वं च वस्तूनि ज्ञातव्यानि यथाक्रमम् ॥ दश चतुर्दशाष्टौ चाष्टादश द्वादश द्वयोः । दशपङ्क्तिर्विशतिर्द्विशत् तत्तत् पंचदशैव तु ॥ दशैवोत्तरपूर्वाणां चतुर्णां वर्णितानि वै । ह. पु. १०, ७२-७४. दस चोदसट्ठ अट्टारसयं वारं च वारं सोलं च । वीसं तीसं पण्णारसं च दस वट्ठसु वत्थूणं ॥ गो. जी. ३४४.

चउव्विहो अवयारो हेदि । तं जहं— चयणलद्धी चउव्विहो णाम-द्ववणा-दव्व-भावचयण-लद्धिभेएण । तत्थ चयणलद्धिसदो चउव्विहो मोत्तूण अप्पाणंमिह वट्टमाणो णामचयणलद्धी हेदि । सा एसा त्ति चयणलद्धीए एयत्तेण संकप्पियत्थो द्ववणाचयणलद्धी । दव्वचयणलद्धी दुविहो आगम-णोआगमचयणलद्धिभेएण । तत्थ चयणलद्धिवत्थुपारओ अणुवजुत्तो आगमदव्व-चयणलद्धी । [णोआगमदव्वचयणलद्धी] तिविहा जाणुगसरीर-भविय-तव्वदिरित्तदव्वचयण-लद्धिभेएण । जाणुगसरीर-भवियणोआगमदव्वचयणलद्धिदुगं सुगमं, बहुसो उत्तत्थत्तादो । तव्वदिरित्तणोआगमदव्वचयणलद्धी चयणलद्धीए सदरयणा । भावचयणलद्धी आगम-णोआगम-भावचयणलद्धिभेएण दुविहा । तत्थ चयणलद्धिवत्थुपारओ उवजुत्तो आगमभावचयणलद्धी । आगमेण विणा अत्थोवजुत्तो णोआगमभावचयणलद्धी । एदेसु णिक्खेवेसु दव्वड्डियणयं पडुच्च णोआगमतव्वदिरित्तदव्वचयणलद्धीए अधियारो । पज्जवड्डियणयं पडुच्च आगमभावचयणलद्धीए अधियारो । णइगमणयं पडुच्च चयणलद्धिवत्थुपारएण तिकोडिपरिणामेण जीवदव्वेण अहि-यारो । एवं णिक्खेव-णएहि चयणलद्धीए अवयारो परूविदो ।

प्रमाण-प्रमेयाणि अणुगमो चयणलद्धीए, कम्म-करणेसु अणुगमसद्विनिष्पत्तीदो ।

चयनलब्धिका चार प्रकार अवतार है । वह इस प्रकार है— चयन-लब्धि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव चयनलब्धिके भेदसे चार है । उनमें बाह्य अर्थको छोड़कर अपने आपमें रहनेवाला चयनलब्धि शब्द नामचयनलब्धि है । 'वह यह है' इस प्रकार चयनलब्धिके साथ अभेद रूपसे संकल्पित अर्थ स्थापनाचयनलब्धि है । द्रव्यचयनलब्धि आगमचयनलब्धि और नोआगमचयनलब्धिके भेदसे दो प्रकार है । उनमें चयनलब्धि वस्तुका पारगामी उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यचयनलब्धि कहलाता है । [नोआगमद्रव्यचयनलब्धि] ज्ञायकशरीर, भावी और तदव्यतिरिक्त द्रव्यचयनलब्धिके भेदसे तीन प्रकार है । ज्ञायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यचयनलब्धि ये दो सुगम हैं, क्योंकि, उनका अर्थ बहुत बार कहा जा चुका है । तदव्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यचयनलब्धि चयन-लब्धिकी शब्दरचना है । भावचयनलब्धि आगम और नोआगम भावचयनलब्धिके भेदसे दो प्रकार है । उनमें चयनलब्धि वस्तुका पारगामी उपयोग युक्त जीव आगमभावचयन-लब्धि है । आगमके बिना अर्थमें उपयोग रखनेवाला जीव नोआगमभावचयनलब्धि है ।

इन निक्षेपोंमें द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा करके नोआगमतदव्यतिरिक्तद्रव्यचयन-लब्धिका अधिकार है । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा करके आगमभावचयनलब्धिका अधि-कार है । नैगमनयकी अपेक्षाकर चयनलब्धि वस्तुके पारगामी त्रिकोडिपरिणाम रूप जीव द्रव्यका अधिकार है । इस प्रकार निक्षेप और नयसे चयनलब्धिके अवतारकी प्ररूपणा की है ।

चयनलब्धिका अनुगमं प्रमाण और प्रमेय है, क्योंकि, कर्म और करण कारकमें

पुच्चाणुपुच्चीए चयणलद्धी पंचमी । पच्छाणुपुच्चीए दसमं । जत्थ-तत्थाणुपुच्चीए अवत्तच्चा,
पट्मा बिदिया तदिया चउत्थी पंचमी छट्ठी वा ति णियमाभावादो । चयणलद्धि ति गुणणामं,
चयणलद्धिपरूवणादो । अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति-अणियोगद्वारेहि संखेज्ज- [मत्थदो
अणंतं, पमेयाण-] माणंतियादो । चत्तच्चं ससमओ, परसमयपरूवणाभावादो । अत्थाधियारो
वीसदिविधो, सच्चवत्थुसु पाहुडसण्णदवीस-वीसाहियारसंभवादो । एत्थुवउज्जंती गाहा—

एक्केक्कग्घि य वत्थू वीसं वीसं च पाहुडा भणिदा^१ ।

विसम-समा हि य वत्थू सच्चे पुण पाहुडेहि समा ॥ ८६ ॥

पुच्चाणं पुध पुध पाहुडसमासो एसो— २००, २८०, १६०, ३६०, २४०,
२४०, ३२०, ४००, ६००, ३००, २००, २००, २००, २०० । सच्चवत्थुसमासो
पंचाणउदिसदमेत्तो । १९५ । सच्चपाहुडसमासो तिसहस्स-णवसदमेत्तो^२ । ३९०० ।

एत्थ वीसपाहुडेसु चउत्थेण^३ कम्मपयडिपाहुडेण अहियारो । तस्स वि उवक्कमो

अनुगम शब्द सिद्ध हुआ है । पूर्वानुपूर्वीसे चयनलब्धि पांचवीं है । पश्चादानुपूर्वीसे वह
दसमी है । यत्र-तत्रानुपूर्वीसे वह अवक्तव्य है, क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवीं
अथवा छठी है, ऐसे नियमका यहां अभाव है । चयनलब्धि यह गुणनाम है, क्योंकि,
इसमें चयनलब्धिकी प्ररूपणा है । अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारोंकी
अपेक्षा संख्यात और अर्थकी अपेक्षा वह अनन्त है, क्योंकि, उसके प्रमेय अनन्त हैं ।
वक्तव्य स्वसमय है, क्योंकि, परसमयप्ररूपणाका यहां अभाव है । अर्थाधिकार बीस
प्रकार है, क्योंकि, सब वस्तुओंमें प्राभूत संज्ञावाले बीस बीस अधिकार सम्भव हैं । यहां
उपयुक्त गाथा—

एक एक वस्तुमें बीस बीस प्राभूत कहे गये हैं । पूर्वोंमें वस्तुएं सम व विसम
हैं, किन्तु वे सब वस्तुएं प्राभूतोंकी अपेक्षा सम हैं ॥ ८६ ॥

पूर्वोंके पृथक् पृथक् प्राभूतोंका योग यह है— २००, २८०, १६०, ३६०, २४०, २४०,
३२०, ४००, ६००, ३००, २००, २००, २००, २०० । सब वस्तुओंका योग एक सौ पंचानवे
मात्र होता है १९५ । सब प्राभूतोंका योग तीन हजार नौ सौ मात्र होता है ३९०० ।

यहां चयनलब्धिके बीस प्राभूतोंमेंसे चतुर्थ कर्मप्रकृतिप्राभूतका अधिकार है ।

१ प्रत्येक विंशतिस्तेषां वस्तूनां प्राभूतानि तु ॥ ह. पु. १०, ७४. वीसं वीसं पाहुडअहियारे एक्कवारो
अहियारो । गो. जी. ३४२.

२ पणणउदिसंया वत्थू पाहुडया तियसहस्सणवसया । एदेसु वीहसेसु वि पुच्चेसु इमेति मिळिदाणि ॥
गो. जी. ६४६. ३ प्रतिपु 'अवत्थेसु' इति पाठः ।

णिक्खेवो अणुगमो णओ ति चउव्विहो अवयारो । तत्थ ताव णिक्खेवो बुच्चदे — णाम-
 इवणा-द्व-भावकम्मपयडिपाहुडमिदि चउव्विहं कम्मपयडिपाहुडं । तत्थ आदिल्ला तिण्णि
 वि णिक्खेवा दव्वड्ढियणयसंभवा, भावणिक्खेवो पज्जवड्ढियणयप्पहवो । कम्मपयडिपाहुडसदो
 वज्झत्थणिरवेक्खो अप्पाणम्हि वट्टमाणो णामकम्मपयडिपाहुडं । तमेसो ति बुद्धीए कम्मपयडि-
 पाहुडेण एगत्तमुवगयत्थो इवणाकम्मपयडिपाहुडं । दव्वकम्मपयडिपाहुडमागम-णोआगमकम्म-
 पयडिपाहुडं इदि दुविहं । कम्मपयडिपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदव्वकम्मपयडिपाहुडं ।
 णोआगमदव्वकम्मपयडिपाहुडं जाणुगसरीर-भविय-तव्वदिरित्तणोआगमदव्वकम्मपयडिपाहुडं ति
 तिविहं । आदिल्लं दुगं सुगमं, बहुसो उत्तथादो । कम्मपयडिपाहुडसदरयणा तड्वणरयणा वा
 णोआगमतव्वदिरित्तदव्वकम्मपयडिपाहुडं । [भावकम्मपयडिपाहुडं] दुविहं आगम-णोआगम-
 भेएण । कम्मपयडिपाहुडजाणओ उव्वजुत्तो आगमभावकम्मपयडिपाहुडं । आगमेण विणा
 तदड्वजुत्तो णोआगमभावकम्मपयडिपाहुडमुवयारादो । एत्थ दव्वड्ढियणयं पडुच्च तव्वदिरित्त-
 णोआगमदव्वकम्मपयडिपाहुडेण अहियारो । पज्जवड्ढियणयं पडुच्च आगमभावकम्मपयडि-
 पाहुडेण अहियारो । णइगमणयं पडुच्च कम्मपयडिपाहुडजाणओ तिकोडिपरिणामजुत्तो जीवो

उसका भी उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय, इस प्रकारसे चार प्रकारका अवतार है । उनमें निक्षेपको कहते हैं — कर्मप्रकृतिप्राभृतके नामकर्मप्रकृतिप्राभृत, स्थापनाकर्मप्रकृति-
 प्राभृत, द्रव्यकर्मप्रकृतिप्राभृत और भावकर्मप्रकृतिप्राभृत इस प्रकार चार भेद हैं । इनमें
 आदिके तीनों ही निक्षेप द्रव्यार्थिकनयके निमित्तसे होनेवाले हैं, किन्तु भावनिक्षेप पर्याया-
 र्थिकनयके निमित्तसे होनेवाला है । बाह्य अर्थकी अपेक्षा न रखकर अपने आपमें रहनेवाला
 कर्मप्रकृतिप्राभृत यह शब्द नामकर्मप्रकृतिप्राभृत है । 'वह यह है' इस प्रकारकी बुद्धिसे
 कर्मप्रकृतिप्राभृतके साथ एकताको प्राप्त पदार्थ स्थापनाकर्मप्रकृतिप्राभृत कहा जाता है ।
 द्रव्यकर्मप्रकृतिप्राभृत आगमकर्मप्रकृतिप्राभृत और नोआगमकर्मप्रकृतिप्राभृतके भेदसे दो
 प्रकार है । कर्मप्रकृतिप्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यकर्मप्रकृतिप्राभृत
 कहलाता है । नोआगमद्रव्यकर्मप्रकृतिप्राभृत ज्ञायकशरीर, भावी और तदव्यतिरिक्त
 नोआगमद्रव्यकर्मप्रकृतिप्राभृतके भेदसे तीन प्रकार है । इनमेंसे आदिके दो सुगम हैं,
 क्योंकि, उनका अर्थ बहुत बार कहा जा चुका है । कर्मप्रकृतिप्राभृतकी शब्दरचना अथवा
 उसकी स्थापना रूप रचना नोआगमतद्रव्यतिरिक्तद्रव्यकर्मप्रकृतिप्राभृत है । [भावकर्म-
 प्रकृतिप्राभृत] आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकार है । कर्मप्रकृतिप्राभृतका जानकार
 उपयोग युक्त जीव आगमभावकर्मप्रकृतिप्राभृत कहलाता है । आगमके बिना उसके अर्थमें
 उपयोग युक्त जीव उपचारसे नोआगमभावकर्मप्रकृति कहलाता है ।

यहां द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा करके तद्रव्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यकर्मप्रकृति-
 प्राभृतका अधिकार है । पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा करके आगमभावकर्मप्रकृतिप्राभृतका
 अधिकार है । नैगमनयकी अपेक्षा कर्मप्रकृतिप्राभृतका जानकार त्रिकोडिपरिणाम युक्त

अहियद्विदो होदि । एवं कम्मपयडिपाहुडस्स णिक्खेव-णएहि अवयारो कदो ।

पमाण-पमेयाणं दोणं पि एत्थाणुगमो, एक्काणुगमस्स इदराणुगमाविणाभावादो । पुब्बाणुपुब्बीए कम्मपयडिपाहुडं चउत्थं । पच्छाणुपुब्बीए सत्तारसमं । जत्थ-तत्थाणुपुब्बीए अवत्तत्वं । कम्मपयडिपरूवणादो कम्मपयडिपाहुडमिदि गुणणामं । अक्खर-पद-संघाद-पडि-वत्ति-अणिओगद्वारोहि संखेज्जमणंतं वा, अत्थाणंतियादो । वसत्तं ससमओ, परसमयपरूवणा-भावादो । अत्थाधियारो चटुवीसदिविधो 'कदि वेदणाए पस्से कम्मे पयडीसु बंधणे णिबंधणे पक्कमे उवक्कमे उदए मोक्खे पुण संकमे लेस्सा लेस्साकम्मे लेस्सापरिणामे तत्थेव सादम-सादे दीहे-हस्से भवधारणीए तत्थ पोगगलअत्ता णिधत्तमणिधत्तं णिकाचिदमणिकाचिदं कम्म-द्विदि-पच्छिमक्खंधे अप्पावहुगं च सव्वत्थ ' इदि सुत्तणिबद्धो ।

जीव अधिकृत है । इस प्रकार निक्षेप और नयसे कर्मप्रकृतिप्राभृतके अवतारकी प्ररूपणा की है ।

प्रमाण और प्रमेय दोनोंका ही यहां अनुगम है, क्योंकि, एक अनुगमका दूसरे अनुगमके साथ अविनाभाव है । पूर्वानुपूर्वीसे कर्मप्रकृतिप्राभृत चतुर्थ है । पश्चादानुपूर्वीसे वह सत्तरहवां है । यत्र-तत्रानुपूर्वीसे अवक्तव्य हैं । कर्मप्रकृतियोंकी प्ररूपणा करनेसे कर्म-प्रकृतिप्राभृत यह गुणनाम है । अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षा वह संख्यात अथवा अर्थकी अनन्तताकी अपेक्षा अनन्त है । वक्तव्य स्वसमय है, क्योंकि, इसमें परसमयकी प्ररूपणाका अभाव है ।

कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बन्धन, निबन्धन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेइया, लेइयाकर्म, लेइयापरिणाम, वहां ही सात-असात, दीर्घ-ह्रस्व, भवधारणीय, पुद्गलात्म, निधत्त-अनिधत्त, निकाचित-अनिकाचित, कर्मस्थिति, पश्चिमस्कन्ध और सर्वत्र अल्पबहुत्व, इस प्रकार सूत्रनिबद्ध अर्थाधिकार चौबीस प्रकार है ।

१ वस्तुनः पंचमस्यात्र चतुर्थे प्राभृते पुनः । कर्मप्रकृतिस्ते तु योगद्वाराण्यमूनि तु ॥ कृतिश्च वेदना स्पर्शः कर्माख्यं च पुनः परम् । प्रकृतिश्च तथैवान्यद बन्धनं च निबन्धनम् ॥ प्रक्रमोपक्रमौ प्रोक्तावुदयो मोक्ष एव च । संक्रमश्च तथा लेइया लेइयाकर्म च वर्णितम् ॥ लेइयायाः परिणामश्च सातासातं तथैव च । दीर्घ-ह्रस्वमपि तथा भवधारणमेव च ॥ पुद्गलात्माभिधानं च तन्निधत्तानिधत्तकम् । सनिकाचितमित्यन्यदनिकाचितसंयुतम् ॥ कर्मस्थितिक-मित्युक्तं पश्चिम-स्कन्ध एव च । समस्तविषयाधीना बोध्याख्यबहुता तथा ॥ ह. पु. १.७, ८१-८६. पंचमवस्तु-चउत्थपाहुडयस्साणुयोगणामाणि । कियवैयणे तहेव फंसण-कम्मपयडिकं तह । बंधण-णिबंधण-पाक्कमाणुक्कम-महणुदय-मोक्खा । संक्रम लेस्सा च तहा लेस्साए कम्म-परिणामा ॥ सादमसादं दिग्घं हस्से भवं धारणीयसणं च । पुरपोगलपणामं णिहत्त-अणिहत्तणामाणि ॥ सणिकाचिदमणिकाचिदमह कम्मद्विदि-पच्छिमक्खंधा । अप्पावहुत्वं च तहा तद्वारणं च चटुवीसं ॥ अं. प. २, ४४-४७.

एदेसि चटुवीसणमणिओगद्वाराणं वत्तव्वपरूवणा कीरदे । तं जहा— कदीए ओरा-
 लियवेउव्विय-तेजाहार-कम्मइयसरीराणं संघादण-परिसादणकदीओ भवपढमापढम-चरिमम्मि-
 द्विदजीवाणं कदि-णोकदि-अवसत्त्वसंखाओ च परूविज्जंति । वेदणाए कम्म-पोगगलाणं
 वेदणासण्णिदाणं वेदणणिकखेवादिसोलसेहि अणियोगद्वारेहि परूवणा कीरदे । पासणि-
 ओगद्वारम्मि कम्म-पोगगलाणं णाणावरणादिभेएण अट्ठभेदमुवगयाणं फासगुणसंबंधेण
 पत्तफासणामाण पासणिकखेवादिसोलसेहि अणियोगद्वारेहि परूवणा कीरदे । कम्मे सि
 अणियोगद्वारे पोगगलाणं णाणावरणादिकम्मकरणक्खमत्तणेण पत्तकम्मसण्णाणं कम्मणिकखेवादि-
 सोलसेहि अणियोगद्वारेहि परूवणा कीरदे । पयडि ति अणियोगद्वारम्मि^१ पोगगलाणं कदिम्मि
 परूविदसंघादाणं वेदणाए पणविदावत्थाविसेस-पच्चयादीणं पासम्मि परूविदजीवसंबंधाणं
 जीवसंबंधगुणेण कम्मम्मि णिरूविदवावाराणं पयडिणिकखेवादिसोलसअणियोगद्वारेहि सहाव-

इन चौबीस अनुयोगद्वारोंकी विषयप्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—
 कृतिअनुयोगद्वारमें औदारिक, वैक्रियिक, तैजस, आहारक और कर्मण शरीरोंकी संघातन
 और परिशातन रूप कृतिकी तथा भवके प्रथम, अप्रथम और चरम समयमें स्थित
 जीवोंकी कृति, नोकृति एवं अवक्तव्य रूप संख्याओंकी प्ररूपणा की जाती है । वेदना
 अनुयोगद्वारोंमें वेदना संज्ञावाले कर्मपुद्गलोंकी वेदनानिक्षेप आदि सोलह अनुयोगद्वारोंके
 द्वारा प्ररूपणा की जाती है । स्पर्श अनुयोगद्वारमें स्पर्श गुणके सम्बन्धसे स्पर्श नामको व
 ज्ञानावरणादिके भेदसे आठ भेदको भी प्राप्त हुए कर्मपुद्गलोंकी स्पर्शनिक्षेप आदि सोलह
 अनुयोगद्वारोंसे प्ररूपणा की जाती है । कर्म अनुयोगद्वारमें कर्मनिक्षेप आदि सोलह
 अनुयोगद्वारोंके द्वारा ज्ञानके आवरण आदि कार्योंके करनेमें समर्थ होनेसे कर्म संज्ञाको प्राप्त
 पुद्गलोंकी प्ररूपणा की जाती है । प्रकृति अनुयोगद्वारमें—कृति अधिकारमें जिनके संघातन
 स्वरूपकी प्ररूपणा की गई है, वेदना अधिकारमें जिनके अवस्थाविशेष व प्रत्ययादिकोंकी
 प्ररूपणा की गई है, स्पर्श अधिकारमें जिनके जीवके साथ सम्बन्धकी प्ररूपणा की गई है,
 तथा जीवसम्बन्ध गुणसे कर्म अधिकारमें जिनके व्यापारकी प्ररूपणा की गई है— उन
 पुद्गलोंके स्वभावकी प्रकृतिनिक्षेप आदि सोलह अनुयोगद्वारोंसे प्ररूपणा की जाती है ।

परूवणा कीरदे । जं तं वंधणं तं चउव्विहो वंधो वंधगा वंधणिज्जं वंधविधानमिदि । तत्थ वंधो जीव-कम्मपदेसाणं सादियमणादियं च वंधं वण्णेदि । वंधगाहियारो अडुविहकम्म-वंधगे परूवेदि । सो च खुद्दावंधे परूविदो । वंधणिज्जं वंधपाओग-तदपाओगपोगलद्वं परूवेदि । वंधविहाणं पयडिवंधं द्विदिवंधं अणुभागवंधं पदेसवंधं च परूवेदि ।

णिवंधणं मूलुत्तरपयडीणं णिवंधणं वण्णेदि । जहा चक्खिदियं रूवम्मि णिवद्धं, सोदिदियं सद्धम्मि णिवद्धं, वाणिदियं गंधम्मि णिवद्धं, जिण्मिदियं रसम्मि णिवद्धं, पासिदियं कक्खदादिपासेसु णिवद्धं, तथा इमाओ पयडीओ एदेसु अत्थेसु णिवद्धाओ ति णिवंधणं परूवेदि, एसो भावत्थो ।

पक्कमे ति अणियोगहारं अकम्मसरूवेण द्विदाणं कम्मइयवग्गणाखंधाणं मूलुत्तरपयडि-सरूवेण परिणममाणाणं पयडि-द्विदि-अणुभागविसेसेण विसिद्धाणं पदेसपरूवणं कुणदि ।

उवक्कमे ति अणियोगहारस्स चत्तारि अहियारा वंधणोवक्कमो उदीरणोवक्कमो उवसामणोवक्कमो विपरिणामोवक्कमो चेदि । तत्थ वंधोवक्कमो वंधविदियसमयप्पहुदि

जो बन्धन अनुयोगद्वार है वह बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान इस तरह चार प्रकार है । उनमें बन्ध अधिकार जीव और कर्मके प्रदेशोंके सादि व अनादि बन्धका वर्णन करता है । बन्धक अधिकार आठ प्रकारके कर्मोंको बांधनेवाले जीवोंकी प्ररूपणा करता है । उसकी श्रुद्रकबन्धमें प्ररूपणा की जा चुकी है । बन्धनीय अधिकार बन्धके योग्य और उसके अयोग्य पुद्गल द्रव्यकी प्ररूपणा करता है । बन्धविधान प्रकृतिबन्ध, स्थिति-बन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धकी प्ररूपणा करता है ।

निबन्धन अनुयोगद्वार मूल और उत्तर प्रकृतियोंके निबन्धनका वर्णन करता है । जैसे चक्षु इन्द्रिय रूपमें निबद्ध है, श्रोत्र इन्द्रिय शब्दमें निबद्ध है, घ्राण इन्द्रिय गन्धमें निबद्ध है, जिह्वा इन्द्रिय रसमें निबद्ध है और स्पर्श इन्द्रिय कर्कषादि स्पर्शोंमें निबद्ध है; उसी प्रकार ये प्रकृतियां इन अर्थोंमें निबद्ध हैं, इस प्रकार निबन्धनकी प्ररूपणा करता है; यह भावार्थ है ।

प्रक्रम अनुयोगद्वार अकर्म स्वरूपसे स्थित, मूल व उत्तर प्रकृतियोंके स्वरूपसे परिणमन करनेवाले, तथा प्रकृति, स्थिति व अनुभागके भेदसे विशेषताको प्राप्त हुए कर्मणवर्गणास्कन्धोंके प्रदेशोंकी प्ररूपणा करता है ।

उपक्रम अनुयोगद्वारके बन्धनोपक्रम, उदीरणोपक्रम, उपशामनोपक्रम और विपरिणामोपक्रम, ये चार अधिकार हैं । उनमें बन्धोपक्रम अधिकार बन्धके द्वितीय समयसे लेकर

अट्टणं कम्माणं पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसाणं वंधवण्णं कुणदि । उदीरणोवक्कमो पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसाणमुदीरणं परूवेदि । उवसामणोवक्कमो पसत्थोवसामणमप्पसत्थोवसामणं च पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसभेदभिण्णं परूवेदि । विपरिणाममुवक्कमो पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसाणं देसणिज्जरं सयलणिज्जरं च परूवेदि ।

उदयाणिओगहारं पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसुदयं परूवेदि । मोक्खे त्ति अणिओगहारं पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसाणं मोक्खं वण्णेदि । मोक्ख-विपरिणामोवक्कमाणं को भेदो ? बुच्चदे— विपरिणामोवक्कमो देस-सयलणिज्जराओ परूवेदि । मोक्खो पुण देस-सयलणिज्जराहि परपयडिसंक्रमोक्कणुकडुण-अट्टट्टिदिगलणेहि पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसभिण्णं मोक्खं वण्णेदि त्ति अत्थि भेदो । संक्रमे त्ति अणियोगहारं पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेससंक्रमे परूवेदि । लेस्से त्ति अणियोगहारं छद्वलेस्साओ परूवेदि । लेस्सयम्मे त्ति अणियोगहारमंतरंगछलेस्सापरिणयजीवाणं वज्झकज्जपरूवणं कुणइ । लेस्सापरिणामे त्ति अणियोगहारं जीव-पोग्गलाणं

आठ कमोंके प्रकृतियन्ध, स्थितियन्ध, अनुभागायन्ध और प्रदेशयन्धका वर्णन करता है । उदीरणोपक्रम अधिकार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी उदीरणाकी प्ररूपणा करता है । उपशामनोपक्रम अधिकार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे भेदको प्राप्त प्रशस्तोपशामना एयं अप्रशस्तोपशामनाकी प्ररूपणा करता है । विपरिणामोपक्रम अधिकार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी देशनिर्जरा और सकलनिर्जराकी प्ररूपणा करता है ।

उदयानुयोगद्वार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके उदयकी प्ररूपणा करता है । मोक्षानुयोगद्वार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके मोक्षका वर्णन करता है ।

शंका— मोक्ष और विपरिणामोपक्रमके क्या भेद है ?

समाधान— इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि विपरिणामोपक्रम अधिकार देश-निर्जरा और सकलनिर्जराकी प्ररूपणा करता है, परन्तु मोक्षानुयोगद्वार देशनिर्जरा व सकलनिर्जराके साथ परप्रकृतिसंक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण और कालस्थितिगलनसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश यन्धके भेदसे भेदको प्राप्त मोक्षका वर्णन करता है, यह दोनोंमें भेद है ।

संक्रम अनुयोगद्वार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके संक्रमणकी प्ररूपणा करता है । लेदयानुयोगद्वार छह द्रव्यलेदयाओंकी प्ररूपणा करता है । लेदयाकर्मानुयोगद्वार अन्तरंग छह लेदयाओंसे परिणत जीवोंके बाह्य कार्यकी प्ररूपणा करता है । लेदयापरि-

दच्च-भावलेस्साहि परिणमणविहाणं वण्णेदि । सादमंसादे त्ति अणियोगद्वारमेयंतसाद-अणेयंत-सादमेयंतासादमणेयंतासादानं' गदियादिमग्गणाओ अस्सिदूण परूवणं कुणइ । दीहेरहस्से त्ति अणियोगद्वारं पयडि-डिदि-अणुभाग-पदेसे अस्सिदूण दीह-रहस्सत्तं परूवेदि । भवधारणीए त्ति अणियोगद्वारं केण कम्मेण णेरइय-तिरिक्ख-मणुस-देवभवा धरिज्जंति त्ति परूवेदि । पोग्गल-अत्ते त्ति अणियोगद्वारं गहणादो अत्ता पोग्गला परिणामदो अत्ता पोग्गला उंवभोगदो अत्ता पोग्गला आहारदो अत्ता पोग्गला ममत्तादो' अत्ता पोग्गला परिग्गहादो अत्ता पोग्गला त्ति अप्पणिज्जाणप्पणिज्जपोग्गलाणं पोग्गलाणं संवधेण पोग्गलत्तं पत्तजीवाणं च परूवणं कुणदि । णिधत्तमणिधत्तमिदि अणियोगद्वारं पयडि-डिदि-अणुभागाणं णिधत्तमणिधत्तं च परूवेदि । णिधत्तमिदि किं ? जं पदेसग्गं ण सक्कमुदए दाढुं अण्णपयडिं वा संकामेदुं तं णिधत्तं णाम । तव्विवरीयमणिधत्तं । णिकाचिदमणिकाचिदमिदि अणियोगद्वारं पयडि-डिदि-अणुभागाणं

णामानुयोगद्वार जीव और पुद्गलोंके द्रव्य और भाव लक्ष्या रूपसे परिणमन करनेके विधानका वर्णन करता है ।

सातासातानुयोगद्वार एकान्त सात, अनेकान्त सात, एकान्त असात और अनेकान्त असातकी गति आदि मार्गणाओंका आश्रय करके प्ररूपणा करता है । दीर्घ-ह्रस्वानुयोगद्वार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंका आश्रय करके दीर्घता और ह्रस्वताकी प्ररूपणा करता है । भवधारणीय अनुयोगद्वार किस कर्मसे नारकी पर्याय, किस कर्मसे तिर्यंच पर्याय, किस कर्मसे मनुष्य पर्याय और किस कर्मसे देव पर्याय धारण की जाती है, इसकी प्ररूपणा करता है । पुद्गलत्त अनुयोगद्वार ग्रहणसे आत्त पुद्गल, परिणामसे आत्त पुद्गल, उपभोगसे आत्त पुद्गल, आहारसे आत्त पुद्गल, ममत्वसे आत्त पुद्गल और परिग्रहसे आत्त पुद्गल, इस प्रकार विवक्षित और अविवक्षित पुद्गलोंका तथा पुद्गलोंके सम्बन्धसे पुद्गलत्वको प्राप्त जीवोंकी भी प्ररूपणा करता है । निधत्तानिधत्त अनुयोगद्वार प्रकृति, स्थिति और अनुभागके निधत्त एवं अनिधत्तकी प्ररूपणा करता है ।

शंका — निधत्त किसे कहते हैं ?

समाधान — जो प्रदेशाग्र उदयमें देनेके लिये अथवा अन्य प्रकृति रूप परिणमानेके लिये शक्य नहीं है वह निधत्त कहलाता है । इससे विपरीत अनिधत्त है ।

निकाचितानिकाचित अनुयोगद्वार प्रकृति, स्थिति और अनुभागके निकाचन और

णिकाचणाणिकाचणं परूवेदि । णिकाचणमिदि किं ? जं पदेसगं ण सक्कमोक्कट्टिदुमुक्कट्टिदु-
मण्णपयडिसं कामेदुमुदए दादुं वा तण्णिकाचिदं णाम । तव्विवरीदमणिकाचिदं । एत्थुव-
उज्जंती गाहा—

उदए संकम-उदए चदुसु वि दादुं कमेण णो सक्कं ।

उवसंतं च णिधत्तं णिकाचिदं चावि जं कम्मं ॥ ८७ ॥

कम्मट्ठिदि त्ति अणियोगद्दारं सच्चकम्माणं सत्तिकम्मट्ठिदिमुक्कट्टुणोकट्टुणजणिदट्ठिदिं
च परूवेदि । पच्छिमक्खंधे त्ति अणिओगद्दारं दंड-कपाट-पदर-लोगपूरणाणि तत्थ ट्ठिदि-अणु-
भागखंडयघादनविहाणं जोगकिट्ठीओ काऊण जोगणिरोहसरूवं कम्मक्खवणविहाणं च परू-
वेदि । अप्पावहुगाणिओगद्दारं अदीदसच्चाणियोगद्दारेसु अप्पावहुगं परूवेदि ।

जहा उद्देसो तहा णिद्देसो त्ति कट्टु कदिअणिओगद्दारपरूवणट्ठमुत्तरसुत्तं मणदि—

अनिकाचनकी प्ररूपणा करता है ।

शंका—निकाचन किसे कहते हैं ?

समाधान—जो प्रदेशाग्र अपकर्षणके लिये, उत्कर्षणके लिये, अन्य प्रकृति रूप
परिणमानेके लिये और उदयमें देनेके लिये शक्य नहीं है वह निकाचित कहलाता है ।
इससे विपरीत अनिकाचित है । यहां उपयुक्त गाथा—

जो कर्म उदयमें नहीं दिया जा सके वह उपशान्त कहलाता है । जो कर्म संक्रमण
य उदयमें नहीं दिया जा सके उसे निधत्त कहते हैं । जो कर्म उदय, संक्रमण, उत्कर्षण
व अपकर्षण, इन चारोंमें ही नहीं दिया जा सकता है वह निकाचित कहा जाता है ॥ ८७ ॥

कर्मस्थिति अनुयोगद्धार सब कर्मोंकी शक्ति रूप कर्मस्थिति और उत्कर्षण-अप-
कर्षणसे उत्पन्न स्थितिकी भी प्ररूपणा करता है । पश्चिमस्कन्ध अनुयोगद्धार दण्ड, कपाट,
प्रतर और लोकपूरण समुद्घातोंकी, उनमें स्थितिकाण्डक व अनुभागकाण्डकोंके घातनेके
विधानकी, योगकृष्टियोंको करके होनेवाले योगनिरोधके स्वरूपकी, तथा कर्मोंके क्षय
करनेकी विधिकी प्ररूपणा करता है । अल्प-बहुत्व अनुयोगद्धार पिछले सब अनुयोगद्धारोंमें
अल्प-बहुत्वकी प्ररूपणा करता है ।

‘जैसा उद्देश होता है वैसा ही निर्देश होता है’ ऐसा समझ कर कृति अनुयोग-
द्धारकी प्ररूपणाके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

कदि त्ति सत्तविहा कदी— णामकदी ठवणकदी दब्बकदी गणण-
कदी गंधकदी करणकदी भावकदी चेति ॥ ४६ ॥

कदि त्ति एत्थ जो इदिसदो तस्स अट्ठ अत्था—

हेतावेवंप्रकारादौ^१ व्यवच्छेदे विपर्यये ।

प्रादुर्भावे समाप्तौ च इति-शब्दः प्रकीर्तितः^२ ॥ ८८ ॥ इति वचनात् ।

एतेष्वर्थेषु क्वायमिति शब्दः प्रवर्तते ? स्वरूपावधारणे । ततः किं सिद्धम् ? कृति-
रित्यस्य शब्दस्य योऽर्थः सोऽपि कृतिः, अर्थाभिधान-प्रत्ययास्तुल्यनामधेया^३ इति न्यायात्तस्य
ग्रहणं सिद्धम् । स च कृत्यर्थः सप्तविधः नामकृत्यादिभेदेन । कधमेगो कदिसदो अणेगेसु

कृति सात प्रकार है— नामकृति, स्थापनाकृति, द्रव्यकृति, गणनकृति, ग्रन्थकृति,
करणकृति और भावकृति ॥ ४६ ॥

‘ कदि त्ति ’ यहां जो इति शब्द है उसके आठ अर्थ हैं, क्योंकि,

हेतु, एवं, प्रकार, आदि, व्यवच्छेद, विपर्यय, प्रादुर्भाव और समाप्ति, इन अर्थोंमें
इति शब्द कहा गया है ॥ ८६ ॥ ऐसा वचन है ।

शंका—इन अर्थोंमेंसे कौनसे अर्थमें यहां इति शब्दकी प्रवृत्ति है ?

समाधान—यहां स्वरूपके अवधारणमें इति शब्दकी प्रवृत्ति हुई है ।

शंका—इससे क्या सिद्ध होता है ?

समाधान—कृति इस शब्दका जो अर्थ है वह भी कृति है, क्योंकि अर्थ, अभिधान
और प्रत्यय-ये तुल्य नाम हैं^४ इस न्यायसे उसका ग्रहण सिद्ध है ।

वह कृत्यर्थ नामकृति आदिके भेदसे सात प्रकार है ।

शंका—एक कृति शब्द अनेक अर्थोंमें कैसे रहता है ?

१ प्रतिषु ‘ प्रकारादि ’ इति पाठः ।

२ अने. ना. ३९. इति हेतौ प्रकारे च प्रकाशयतुर्कर्मयोः । इति प्रकरणेऽपि स्यात्समाप्तौ च निदर्शने ॥

मिश्रलोचन (अन्यमवर्ग) : २१.

३ स. त. ७ (उदधत्तमिदं तत्र दीक्षायाम्).

अत्येसु वट्टदे ? ण, अणेयसहकारिकारणसण्णिहाणवसेण एयादो वि वहुणं कज्जाणमुप्पत्ति-
दंसणादो । दृढः ते च क्रमाक्रमाभ्यामनेकधर्मैः परिणमन्तोऽर्थाः । न च दृष्टस्यापलापः शक्यते
कर्तुमतिप्रसंगात् । एष कृतिशब्दः कर्तृवर्जितेषु त्रिकालगोचराशेषकारकेषु वर्तत इति सप्तस्वपि
कृतिषु यथासम्भवकारकयोजना विधेया । सत्तण्णं कदीणमंते डिदइदिसदो आदीए आद्यत्वे
वट्टदि ति घेतव्वो, सत्त चेव कदीए णिक्खेवा होंति ति नियमाभावादो ।

कदिणयविभासणदाए को णओ काओ कदीओ इच्छदि ?

॥ ४७ ॥

सत्तण्णं णिक्खेवाणं णामणिद्वेसं काऊणं तेसिमड्डपखुवणमकाऊणं किमड्डं णय-
विभासणदा कीरदे ? जहा सव्वे लोगववहारा दव्व-पज्जवड्डियणयं असिसदूणं डिदा तहा एसो
वि णामादिववहारो दव्व-पज्जवड्डियणयं असिसदूणं डिदो ति जाणावणड्डं कीरदे । एदेसिं

समाधान—नहीं, क्योंकि, अनेक सहकारी कारणोंकी समीपता होनेसे एकसे भी
बहुत कार्योंकी उत्पत्ति देखी जाती है । तथा क्रम और अक्रमसे अनेक धर्म रूपसे परिणमन
करनेवाले पदार्थ देखे भी जाते हैं । और देखे गये पदार्थका अपह्नव नहीं किया जा सकता,
क्योंकि, ऐसा होनेपर अतिप्रसंग दोष आता है ।

यह कृति शब्द कर्ता कारकको छोड़कर तीनों काल विषयक समस्त कारकोंमें है,
अतएव सातों कृतियोंमें यथासम्भव कारकोंकी योजना करना चाहिये । सात कृतियोंके
अन्तमें स्थित इति शब्द आदि अर्थात् आद्यत्व अर्थमें है ऐसा ग्रहण करना चाहिये,
क्योंकि, सात ही कृतियोंके निक्षेप हैं, ऐसा नियम नहीं है ।

कृतियोंके नयोंके व्याख्यानमें कौन नय किन कृतियोंकी इच्छा करता है ? ॥४७॥

शंका—सात निक्षेपोंका नामनिर्देश करके उनके अर्थकी प्ररूपणा न कर नयोंका
व्याख्यान किस लिये किया जाता है ?

समाधान—जिस प्रकार सब लोकव्यवहार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका
आश्रय करके स्थित हैं उसी प्रकार यह नामादिक व्यवहार भी द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक
नयका आश्रय करके स्थित है, यह जतलानेके लिये नयोंका व्याख्यान किया जाता है ।

णामादिववहारणं दुविहणयावलंघणत्तजाणावणं किंफलं । एदेसिं ववहारणं सच्चत्तपण्णवण-
फलं । ण च दुविहणयणिवंधणो संववहारो चप्पलओ, अणुवलंभादो । ण च दुण्णयाणं
सच्चत्तमत्थि, णिसिद्धपडिवक्खविसयाणं सगविसयाभावादो सच्चत्ताभावादो । तदो ण दुण्णया
संववहारकारणं । सुणया कधं सविसया ? एयंतेण पडिवक्खणिसिहाकारणादो गुण-पहाणभावेण
ओसारिदपमाणवाहादो । एयंतो अवत्थू कधं ववहारकारणं ? एयंतो अवत्थू ण संववहारकारणं
किंतु तक्कारणमणेयंतो पमाणविसईकओ, वत्थुत्तादो । कधं पुण णओ सव्वसंववहारणं कारण-
मिदि ? वुच्चदे— को एवं भणदि णओ सव्वसंववहारणं कारणमिदि । पमाणं पमाणविसई-

शंका—ये नामादिक व्यवहार दो प्रकारके नयोंके आश्रित हैं, यह बतलानेका
फया प्रयोजन है ?

समाधान—इसका प्रयोजन नामादिक व्यवहारोंकी सत्यता प्रगट करना है ।

यदि कहा जाय कि दोनों प्रकारके नयोंके निमित्तसे होनेवाला संव्यवहार मिथ्या
है, सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता । और दुर्नयोंके सत्यता हो नहीं
सकती, क्योंकि, वे प्रतिपक्षभूत विषयोंका सर्वथा निषेध करते हैं । इसीलिये स्वविषयोंका
भी अभाव होनेसे उनके सत्यता रह नहीं सकती । इसी कारण दुर्नय संव्यवहारके कारण
नहीं है ।

शंका - सुनयोंके अपने विषयोंकी व्यवस्था कैसे सम्भव है ?

समाधान—चूंकि सुनय सर्वथा प्रतिपक्षभूत विषयोंका निषेध नहीं करते, अतः
उनके गौणता और प्रधानताकी अपेक्षा प्रमाणवाधाके दूर कर देनेसे उक्त विषयव्यवस्था
भले प्रकार सम्भव है ।

शंका—जब कि एकान्त अवस्तु स्वरूप है तब वह व्यवहारका कारण कैसे हो
सकता है ?

समाधान—अवस्तु स्वरूप एकान्त संव्यवहारका कारण नहीं है, किन्तु उसका
कारण प्रमाणसे विषय किया गया अनेकान्त है; क्योंकि वह वस्तु स्वरूप है ।

शंका—यदि ऐसा है तो फिर सब संव्यवहारोंका कारण नय कैसे हो सकता है ?

समाधान—इसका उत्तर कहते हैं, कौन ऐसा कहता है कि नय सब संव्यवहारोंका

कयंद्वा च सयलसंववहारकारणं ? किंतु सच्चो संववहारो पमाणणिबंधणो णयसरूवो त्ति परू-
वेमो, सच्चसंववहारेसु गुण-पहाणभावावलंभादो । अधवा पमाणादो णयाणमुप्पत्ती, अणवगट्टे^१
गुण-प्पहाणभावाहिप्पायाणुप्पत्तीदो । णएहिंतो संववहारुप्पत्ती, अप्पणो अहिप्पायवसेण एगा-
णेगववहारुवलंभादो । तदो णओ वि संववहारकारणमिदि वुत्ते ण कोच्छि दोसो । किमर्थं
संव्यवहारो नयात्मक एव ? न, स्वाभाव्यात्, अन्यथा व्यवहर्तुमुपायाभावात् । णिक्खेवड्ड-
परूवणाए कदाए पच्छा णयविभासणा किण्ण कीरदे ? ण, णयपरूवणाए विणा दुविहणय-
द्वियजीवाणं परूविज्जमाणणिक्खेवपरूवणाए संकर-वदिकरभावेण अत्थसमप्पणं कुण्णतीए वड्ड-
फल्लप्पसंगादो । णेदं पुच्छासुत्तं, किंतु आइरियासंकासुत्तं; पुव्विल्लसुत्तचालणवसेण एदस्स
सुत्तस्स अवयारादो ।

णइगम-ववहार-संगहा सव्वाओ ॥ ४८ ॥

कारण है, प्रमाण और प्रमाणसे विषय किये गये पदार्थ भी समस्त संव्यवहारोंके कारण हैं। किन्तु प्रमाणनिमित्तक सब संव्यवहार नय स्वरूप हैं, ऐसा हम कहते हैं; क्योंकि, सब संव्यव-
हारोंमें गौणता और प्रधानता पायी जाती है। अथवा, प्रमाणसे नयोंकी उत्पत्ति होती है,
क्योंकि, वस्तुके अज्ञात होनेपर उसमें गौणता और प्रधानताका अभिप्राय बनता नहीं है। और
नयोंसे संव्यवहारकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि, अपने अभिप्रायके वशसे एक व अनेक रूप
व्यवहार पाया जाता है। इस कारण नय भी संव्यवहारका कारण है, ऐसा कहनेमें कोई
दोष नहीं है।

शंका—संव्यवहार नय स्वरूप ही है, ऐसा क्यों है ?

समाधान—नहीं; क्योंकि, ऐसा स्वभाव है, तथा अन्य प्रकारसे व्यवहार करनेके
लिये और कोई उपाय भी नहीं है।

शंका—निक्षेपोंके अर्थकी प्ररूपणा कर चुकनेपर पीछे नयोंका व्याख्यान क्यों नहीं
किया जाता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नयप्ररूपणाके विना दो प्रकारके नयोंके आश्रित
जीवोंके लिये कही जानेवाली निक्षेपप्ररूपणा संकर व व्यतिकर रूपसे अर्थका समर्पण
करनेवाली होगी, अतः उसके निष्फल होनेका प्रसंग आता है।

यह पृच्छासूत्र नहीं है, किन्तु आचार्यका आशंकासूत्र है, क्योंकि, पूर्वोक्त सूत्रकी
चालनाके वशसे इस सूत्रका अवतार हुआ है।

नैगम, व्यवहार और संग्रह नय सब कृतियोंको स्वीकार करते हैं ॥ ४८ ॥

एत्थ इच्छंति त्ति पुच्चसुत्तादो अणुवट्ठे । ण तमेगवयणं, अत्थवसादो विहत्ति-
परिणामो होदिं त्ति बहुवयणं संपज्जेदे । णामकदी एदेसिं तिण्णं णयाणं विसया^१ होदु णाम,
आजम्मा आमरणादो अवट्ठिदत्थे सच्चकालमवट्ठिदत्तणेण अज्झवसिदसदत्थेसु सण्णासण्णि-
संवधुवलंभादो । ठवणकदी वि दच्चट्ठियणयविसया चेव होदि, पुधभूदच्चवाणमेगत्तज्झवसाएण
विणा डुवणाणुववत्तीदो । दच्चकदी वि दच्चट्ठियणयविसया, आगम-णोआगमदच्चेसु पच्च-
हिण्णापच्चयगेज्झत्तणेण अवगयावट्ठाणेषु दच्चकइत्तदंसणादो । कधं गणणकई दच्चट्ठियणय-
विसया ? ण, गणंत-गणिज्जमाणं धुवावट्ठाणेण^४ विणा गणणकदीए असंभवादो । ण च
एक्कमिदि गणिय तत्थेव विणट्ठो दुवादिगणणकारओ होदि, असंतस्स कत्तारत्तविरोहादो । ण
च विदियक्खणसमुपण्णो दुसंखमवहारयदि, अगहिदेक्कसंखस्स दुसंखावहारणाणुववत्तीदो ।
ण च गणिज्जमाणे अणिच्चे संते गणणकदी जुज्जेदे, एक्कमिदि गणिददच्चे विणट्ठे दुवादि-

यहां ' इच्छन्ति ' अर्थात् स्वीकार करते हैं इस पदकी पूर्व सूत्रसे अनुवृत्ति आती है । वह एकवचन नहीं है, किन्तु ' अर्थके वशसे विभक्तिका परिवर्तन होता है ' इस न्यायसे बहुवचन सिद्ध होता है । अर्थात् यद्यपि पूर्व सूत्रमें ' इच्छति ' ऐसा एकवचन है, परन्तु, उक्त न्यायसे अर्थके वश यहां ' इच्छंति ' ऐसे बहुवचन पदकी अनुवृत्ति है ।

शंका—नामकृति इन तीन नयोंकी विषय भले ही हो, क्योंकि, जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त स्थिर अर्थमें सर्व काल अवस्थित स्वरूपसे निश्चित शब्द और अर्थमें संज्ञा-संज्ञी रूप सम्बन्ध पाया जाता है । स्थापनाकृति भी द्रव्यार्थिक नयकी विषय ही है, क्योंकि, पृथग्भूत द्रव्योंके एकत्वके निश्चय विना स्थापना बन नहीं सकती । द्रव्यकृति भी द्रव्यार्थिक नयकी विषय है, क्योंकि, प्रत्यभिज्ञान प्रत्ययके विषय रूपसे जिनका अवस्थान अर्थात् स्थिरता अवगत है ऐसे आगम व नोआगम रूप द्रव्योंमें द्रव्यकृतिपना देखा जाता है । किन्तु गणनकृति द्रव्यार्थिक नयकी विषय कैसे हो सकती है ?

समाधान —ऐसा नहीं है, क्योंकि, गिननेवाले व्यक्ति और गिनी जानेवाली वस्तुओंकी स्थिरताके विना गणनकृति सम्भव ही नहीं है । कारण कि ' एक ' इस प्रकार गिनकर यदि गणना करनेवाला वहां ही नष्ट हो जावे तो फिर वह ' दो ' आदि गिनतीका करनेवाला नहीं हो सकता, क्योंकि, असत्के कर्ता होनेका विरोध है । और द्वितीय क्षणमें उत्पन्न व्यक्ति ' दो ' संख्याका निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि, ' एक ' संख्याको जिसने नहीं जाना है उसके ' दो ' संख्याका निश्चय बन नहीं सकता । इसी प्रकार गिनी जानेवाली वस्तुके भी अनित्य होनेपर गणनकृति उचित नहीं है, क्योंकि, ' एक ' इस प्रकार

१ प्रतिपु ' विहित्ति ' इति पाठः ।

२ अर्थवशाद् विभक्तिपरिणामः । स. सि. २-२.

३ प्रतिपु ' विसए ' इति पाठः ।

४ प्रतिपु ' धुवट्ठाणेण ' इति पाठः ।

गणणकरणाणुववत्तीदो । तदो गणणकदी दव्वड्डियणयविसया ।

गंथकदीए दव्वड्डियणयविसयत्तमेवं चेव वत्तव्वं, सदत्थकत्ताराणं णिच्चत्तेण^१ विणा गंथकदीए असंभवादो । करणकदी वि दव्वड्डियणयविसया, छिंदंत-छिंदमाणदव्वानं असि-वासिआदिकरणाणं च अणिच्चत्ते तदणुववत्तीदो । भावकदी दव्वड्डियणयविसया ण होदि ।

णामद्ववणादवियं एसो दव्वड्डियस्स णिक्खेवो ।

भावो दु पज्जवड्डियपरूवणा एस परमत्थो^२ ॥ ८९ ॥

इदि वयणादो । किं च वट्टमाणपज्जाएणुवलक्खियं दव्वं भावो त्ति भण्णदि । ण च एसो भावो दव्वड्डियणयविसओ होदि, पज्जवड्डियणयस्स णिव्विसयत्तप्पसंगादो त्ति ? एत्थ परिहारो वुच्चदे — पज्जाओ दुविहो अत्थ-वज्जनपज्जायभेएण । तत्थ अत्थपज्जाओ^३ एगादिसमयावट्ठाणो सण्णा-सण्णिसंबंधवज्जिओ अप्पकालावट्ठाणादो अइविसेसादो वा । तत्थ

गिने जानेवाले द्रव्यके नष्ट हो जानेपर 'दो' आदि गिनती करना बन नहीं सकता । इस कारण गणनकृति द्रव्यार्थिक नयकी विषय है ।

ग्रन्थकृतिके भी द्रव्यार्थिक नयकी विषयताका इसी प्रकार कथन करना चाहिये, क्योंकि शब्द, अर्थ और कर्ताके नित्य होनेके बिना ग्रन्थकृति सम्भव नहीं है । करणकृति भी द्रव्यार्थिक नयकी विषय है, क्योंकि, छेदनेवाले व्यक्ति, छेदे जानेवाले काष्ठादि द्रव्य और तलवार एवं वसूला आदि करणोंके अनित्य होनेपर वह बन नहीं सकती ।

शंका — भावकृति द्रव्यार्थिक नयकी विषय नहीं है, क्योंकि,

नाम, स्थापना और द्रव्य, यह द्रव्यार्थिक नयका निक्षेप है । किन्तु भावनिक्षेप पर्यायार्थिक नयका निक्षेप है, यह परमार्थ सत्य है ॥ ८९ ॥

ऐसा वचन है । दूसरी बात यह कि वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्य भाव कहा जाता है । सो यह भाव द्रव्यार्थिक नयका विषय नहीं हो सकता, क्योंकि, ऐसा होनेपर पर्यायार्थिक नयके निर्विषय होनेका प्रसंग आता है ?

समाधान — यहां इस शंकाका परिहार कहते हैं, अर्थ और व्यञ्जन पर्यायके भेदसे पर्याय दो प्रकार हैं । उनमें अर्थपर्याय थोड़े समय तक रहनेसे अथवा अति विशेष होनेसे एक आदि समय तक रहनेवाली और संज्ञा-संज्ञी सम्बन्धसे रहित है । और उनमें जो

१ प्रतिपु 'णिच्चत्तेण' इति पाठः ।

२ सं. त. १-६.

३ तत्रार्थपर्यायाः सूक्ष्माः क्षणक्षयिणस्तथावागोचरा विषया भवन्ति । पंचा. तां. टीका. १६.

जो सो वंजणपज्जाओ' [सो] जहण्णुकस्सेहि अंतोमुहुत्तासंखेज्जलोगमेत्तकालवट्ठाणो अणाइ-अणंतो वा । तत्थ वंजणपज्जाएण पडिगहिंयं दव्वं भावो होदि । एदस्स वट्ठमाणकालो जहण्णुकस्सेहि अंतोमुहुत्तो संखेज्जलोगमेत्तो अणाइणिहणो वा, अपिदपज्जायपढमसमय-प्पहुडि आचरिमसमयादो एसो वट्ठमाणकालो ति णायादो । तेण भावकदीए दव्वडियणय-विसयत्तं ण विरुज्जेदे । ण च सम्मइसुत्तेण सह विरोहो, सुद्धुज्जुसुत्तंणयविसयीकयपज्जाएणुव-लक्खियदव्वस्स सुत्ते भावत्तवुवगमादो' । एवं वुत्तासेसत्थं मणम्मि काऊण णेगम-ववहार-संगहो' सव्वाओ कदीओ इच्छंति ति भूदवल्लिभडारएण उत्तं ।

उजुसुदो द्रवणकदिं णेच्छदि ॥ ४९ ॥

अवसेसाओ कदीओ इच्छदि । कधमेदं सुत्तम्मि अवुत्तं णव्वदे ? अत्थावत्तीदो । उजु-सुदणओ णाम पज्जवडियो, कधं तस्स णाम-दव्व-गणण-गंथकदी होति ति, विरोहादो ।

व्यञ्जनपर्याय है वह जघन्य और उत्कर्षसे क्रमशः अन्तर्मुहूर्त और असंख्यात लोक मात्र काल तक रहनेवाली अथवा अनादि-अनन्त है । उनमें व्यञ्जनपर्यायसे स्वीकृत द्रव्य भाव होता है । इसका वर्तमान काल जघन्य और उत्कर्षसे क्रमशः अन्तर्मुहूर्त और संख्यात लोक मात्र अथवा अनादिनिधन है, क्योंकि, विवक्षित पर्यायके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक यह वर्तमान काल है, ऐसा न्याय है । इस कारण भावकृतिकी द्रव्या-र्थिक नयविषयता विरुद्ध नहीं है । यदि कहा जाय कि ऐसा माननेपर सन्मत्तिसूत्रके साथ विरोध होगा सो भी नहीं है, क्योंकि, शुद्ध ऋजुसूत्र नयसे विषय की गई पर्यायसे उप-लक्षित द्रव्यको सूत्रमें भाव स्वीकार किया गया है । इस प्रकार कहे हुए सब अर्थको मनमें करके 'नैगम, व्यवहार और संग्रह नय सब कृतियोंको स्वीकार करते हैं' ऐसा भूतवल्लि भट्टारकने कहा है ।

ऋजुसूत्र नय स्थापनाकृतिको स्वीकार नहीं करता है ॥ ४९ ॥

ऋजुसूत्र स्थापनाकृतिको छोड़ शेष कृतियोंको स्वीकार करता है

शंका — यह सूत्रमें न कहा हुआ अर्थ कैसे जाना जाता है ?

समाधान — यह अर्थापत्तिसे जाना जाता है ।

शंका — ऋजुसूत्र नय पर्यायार्थिक है, अतः वह नामकृति, द्रव्यकृति, गणनकृति और ग्रन्थकृतिको कैसे विषय कर सकती है, क्योंकि, इसमें विरोध है । अथवा इसमें यदि कोई

१ व्यञ्जनपर्यायाः पुनः स्थूलाश्चिरकालस्थायिनो वागोचरगच्छद्मस्थदृष्टिविषयाश्च भवन्ति । पंचा. ता. टीका. १६.

२ प्रतिषु 'सुद्ध' इति पाठः । ३ जयध. १, पृ. २६१. ४ प्रतिषु 'संगह' इति पाठः ।

अविरोहे वा इवणकदी वि इच्छिज्जउ, विसैसाभावादो ति ? एत्थ परिहारो वुच्चदे—
उज्जुसुदो दुविहो सुद्धो असुद्धो चेदि । तत्थ सुद्धो विसईकयअत्थपज्जाओ पडिक्खणं
विवट्टमाणासेसत्थो अप्पणो विसयादो ओसारिदसारिच्छ-तव्भावलक्खणसामण्णे । एदस्स भावं
मोत्तूण अण्णकदीओ ण संभवन्ति, विरोहादो । तत्थ जो सो असुद्धो उज्जुसुदणओ सो चक्खु-
पासियवैजणपज्जयविसओ । तेसिं कालो जहण्णेण अंतोमुहुत्तमुक्कस्सेण छम्मासा संखेज्जा
वासाणि वा । कुदो ? चक्खिदियगेज्जवैजणपज्जायाणमप्पहाणीभूददव्वाणमेत्तियं कालमवट्ठाणुव-
लंभादो । जदि एरिसो वि पज्जवट्ठियणओ अत्थि तो—

उप्पज्जन्ति विर्यन्ति य भावा णियमेण पज्जवणयस्स ।

दव्वट्ठियस्स सव्वं सदा अणुप्पणमविणट्ठं ॥ ९० ॥

इच्छेएण सम्मइसुत्तेण सह विरोहो होदि ति उत्ते ण होदि, एदेण असुद्धउज्जुसुदेण

विरोध नहीं है तो फिर स्थापनाकृतिको भी ऋजुसूत्र नयका विषय स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि; उसमें कोई विशेषता नहीं है ?

समाधान—यहां इस शंकाका परिहार कहते हैं— ऋजुसूत्र नय शुद्ध और अशुद्ध ऋजुसूत्र नयके भेदसे दो प्रकार है। उनमें अर्थपर्यायको विषय करनेवाला शुद्ध ऋजुसूत्र नय प्रत्येक क्षणमें परिणमन करनेवाले समस्त पदार्थोंको विषय करता हुआ अपने विषयसे सादृश्य सामान्य और तद्भाव रूप सामान्यको दूर करनेवाला है। अतः भावकृतिको छोड़कर अन्य कृतियां इसकी विषय सम्भव नहीं है, क्योंकि, इसमें विरोध है। उनमें जो अशुद्ध ऋजुसूत्र नय है वह चक्षु इन्द्रियकी विषयभूत व्यञ्जनपर्यायोंको विषय करनेवाला है। उन पर्यायोंका काल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे छह मास अथवा संख्यात वर्ष है, क्योंकि, चक्षु इन्द्रियसे ग्राह्य व्यञ्जन पर्यायों द्रव्यकी प्रधानतासे रहित होती हुई इतने काल तक अवस्थित पायी जाती हैं।

शंका— यदि ऐसा भी पर्यायार्थिक नय है तो—

पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं। किन्तु द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सब पदार्थ सदा उत्पाद और विनाशसे रहित हैं ॥ ८८ ॥

इस सन्मतिसूत्रके साथ विरोध होगा ?

समाधान— नहीं होगा, क्योंकि, अशुद्ध ऋजुसूत्रके द्वारा व्यञ्जनपर्याय हीं

विसईकयवेंजणपज्जाए अप्पहाणीकयसेसपज्जाए पुब्बावरकोटीणमभावेण उत्पत्ति-विणासे-मोत्तूण अवट्ठाणाणुवलंभादो । तम्हा उजुसुदे डवणं मोत्तूण सव्वणिकखेवा संभवन्ति ति वुत्तं । कधं ठवणणिकखेवो णत्थि ? संकप्पवसेण अण्णस्स दव्वस्स अण्णसरूवेण परिणामाणुवलंभादो सरिसत्तणेण दव्वाणभेगत्ताणुवलंभादो । सारिच्छेण एगत्ताणव्भुवगमे कधं णाम-गणण-गंथ-कदीणं संभवो ? ण, तव्भाव-सारिच्छसामण्णेहि विणा वि वट्ठमाणकालविसेसप्पणाए वि तासि-मत्थित्तं पडि विरोहाभावादो । उजुसुदस्स ण गणणकदी तस्साणेयमवत्थु इदि वयणादो ति वुत्तं ण, पज्जवट्ठिय-णइगमे अवलंबिज्जमाणे अणेयसंखाए वि वत्थुत्तुवलंभादो ।

सदादओ णामकदिं भावकदिं च इच्छंति ॥ ५० ॥

होदु भावकदी सद्दणयाणं विसओ, तेसिं विसए दव्वादीणमभावादो । किंतु ण तेसिं

विषय की जाती हैं और शेष पर्यायें अप्रधान हैं; [किन्तु प्रस्तुत सन्मतिसूत्रसे शुद्ध ऋजु-सूत्र नयकी अपेक्षा होनेसे] पूर्वापर कोटियोंका अभाव होनेके कारण उत्पत्ति व विनाशको छोड़कर अवस्थान पाया ही नहीं जाता ।

इस कारण ऋजुसूत्रमें स्थापनाको छोड़कर सब निक्षेप संभव हैं, ऐसा कहा गया है ।

शंका — स्थापनानिक्षेप ऋजुसूत्रनयका विषय कैसे नहीं है ?

समाधान — क्योंकि, इस नयकी अपेक्षा संकल्पके वशसे एक द्रव्यका अन्य स्वरूपसे परिणमन नहीं पाया जाता, कारण कि सादृश्य रूपसे द्रव्योंके एकता नहीं पायी जाती । अतः स्थापनानिक्षेप यहां सम्भव नहीं है ।

शंका — सादृश्य सामान्यसे एकताके स्वीकार न करनेपर नामकृति, गणनकृति और ग्रन्थकृतिकी सम्भावना कैसे हो सकती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, तद्भावसामान्य और सादृश्य सामान्यके विना भी वर्तमान काल विशेषकी विवक्षासे भी उनके अस्तित्वके प्रति कोई विरोध नहीं है ।

शंका — ऋजुसूत्र नयके गणनकृति सम्भव नहीं है, क्योंकि, इस नयकी दृष्टिमें 'अनेक संख्या अवस्तु है' ऐसा वचन है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पर्यायार्थिक नैगमनयका अवलम्बन करनेपर अनेक संख्याके भी वस्तुपना पाया जाता है ।

शब्दादिक नय नामकृति और भावकृतिको स्वीकार करते हैं ॥ ५० ॥

शंका — भावकृति शब्दनयोंकी विषय भले ही हो, क्योंकि, उनके विषयमें द्रव्यादिक कृतियोंका अभाव है । परन्तु नामकृति उनकी विषय नहीं हो सकती, क्योंकि,

णामकदी जुज्जेदे, दच्चद्वियणयं मोत्तूण अण्णत्थ सण्णासणिसंवंधाणुववत्तीदो ? खणक्खइभावमिच्छंताणं सण्णासणिसंवंधा मा वडंतु णाम । किंतु जेण सद्दणया सद्दजणिद-भेदपहाणा तेण 'सण्णासणिसंवंधाणमघडणाए अणत्थिणो । सगम्भुवगमम्हि सण्णासणि-संवंधो अत्थि चेवे त्ति अज्झवसायं काऊण ववहरणसहावा सद्दणया, तेसिमण्णहा सद्दणयत्ताणुव-वत्तीदो । तेण तिसु सद्दणएसु णामकदी वि जुज्जेदे । संपधि णिक्खेवत्थपरूवणत्थमुवरिमसुत्तं भणदि—

जा सा णामकदी णाम सा जीवस्स वा, अजीवस्स वा, जीवाणं वा, अजीवाणं वा, जीवस्स च अजीवस्स च, जीवस्स च अजीवाणं च, जीवाणं च अजीवस्स [च], जीवाणं च अजीवाणं च ॥ ५१ ॥

जस्स णामं कीरदि कदि त्ति सा सच्चा णामकदी णाम । सत्तसु कदीसु जा सा

द्रव्यार्थिक नयको छोड़कर अन्य नयोंमें संज्ञा-संज्ञी सम्यन्ध बन नहीं सकता ।

समाधान—पदार्थको क्षणक्षयी स्वीकार करनेवालोंके यहां संज्ञा-संज्ञी सम्यन्ध भले ही घटित न हो, किन्तु चूंकि शब्दनय शब्द जनित भेदकी प्रधानता स्वीकार करते हैं अतः वे संज्ञा-संज्ञी सम्यन्धोंके अघटनको स्वीकार नहीं कर सकते । इसीलिये स्वमतमें संज्ञा-संज्ञी सम्यन्ध है ही, ऐसा निश्चय करके शब्दनय भेद करने रूप स्वभाववाले हैं, क्योंकि, इसके बिना उनके शब्दनयत्व ही नहीं बन सकता । अत एव तीन शब्दनयोंमें नामकृति भी उचित है । अब निक्षेपार्थकी प्ररूपणाके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

जो वह नामकृति है वह एक जीवके, एक अजीवके, बहुत जीवोंके, बहुत अजीवोंके, एक जीव और एक अजीवके, एक जीव और बहुत अजीवोंके, बहुत जीव और एक अजीवके अथवा बहुत जीवों और बहुत अजीवोंके होती है ॥ ५१ ॥

जिसका 'कृति' ऐसा नाम किया जाता है वह सय नामकृति कहलाती है । सात

१ क्षतः प्रारम्भं सगम्भुवगमम्हि-पर्यन्तः पाठः प्रतिष्ठु नास्ति, ममतां तुपलभ्यते ।

२ ध. छं. पु. १, धृ. १९. से किं तं नामावत्सयं ? जस्स णं जीवस्स वा अजीवस्स वा जीवाणं वा अजीवाणं वा तदुभयस्स वा तदुभयाणं वा आवत्सए त्ति नामं कज्जइ से तं नामावत्सयं । जनु. सु. ९.

पढममुद्दिडा णामकदी तिससे अत्थपरूवणे भण्णमाणे ताव विसयपरूवणा कीरदे — सा णाम-
कदी अट्ठविसया, एयाणेयजीवाजीवेसु सण्णिवादभंगाणं' अट्ठसंखादो अहियाणमणुवलंभा ।
एदेसु अट्ठभंगेसु जस्स णामं कीरदि कदि त्ति सा कदिसण्णा अप्पाणम्हि वट्ठमाणा आहार-
भेदेण अट्ठपयारा अवंतरेभेदेण बहुकोडिभेदमावण्णा सा सच्चा णामकदी णाम । एषा पि न
क्षणिकैकान्तवादे घटते, तत्र संज्ञासंज्ञिसम्बन्धग्रहणानुपपत्तेः । न नित्यैकान्तवादिमते, तत्र
अनाधेयातिशये प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभेदाभावात् । नोभयपक्षोऽपि, विरोधादुभयदोषानुपपत्तात् ।
नानुभयपक्षोऽपि, निःस्वभावतापत्तेः । न शब्दार्थयोरैक्यपक्षोऽपि, कारण-करणदेशादिभेदा-
भावासंजनात् । तत्तत्त्रिकोटिपरिणामात्मकाशेषार्थवादिनां जैनवादिनामेवैतद् घटते, नान्येषाम् ।
न स्फोटोऽर्थप्रतिपादकः, तस्यानुपलभ्यततोऽसत्त्वात् । ततो वहिरंगवर्णजनितमन्तरंगवर्णात्मकं पदं

कृतियोंमें जो वह पहिले निर्दिष्ट की गई नामकृति है उसके अर्थकी प्ररूपणा करनेपर प्रथमतः विषयकी प्ररूपणा की जाती है। उस नामकृतिके विषय आठ हैं— क्योंकि, एक व अनेक जीव एवं अजीवमें संयोगसे होनेवाले भंगोंकी आठ ही संख्या है; इससे अधिक अधिक संख्या पायी नहीं जाती। इन आठ भंगोंमें जिसका 'कृति' ऐसा नाम किया जाता है वह अपने आपमें रहनेवाली कृति संज्ञा आधारके भेदसे आठ प्रकार और अवान्तर भेदसे अनेक करोड़ भेदोंको प्राप्त है, वह सब नामकृति कहलाती है।

यह नामकृति भी क्षणिक-एकान्तवादमें घटित नहीं होती, क्योंकि, उसमें संज्ञा-संज्ञी सम्बन्धका ग्रहण नहीं बनता। और न वह सर्वथा नित्यताको माननेवालोंके मतमें बनती है, क्योंकि, उनके यहां पदार्थके अनाधेयातिशय अर्थात् निरतिशय होनेसे यह प्रतिपाद्य है और यह प्रतिपादक है, ऐसा भेद सम्भव नहीं है। उभय पक्ष अर्थात् परस्पर निरपेक्ष नित्यानित्य पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि, वैसा माननेमें विरोध है, तथा दोनों पक्षोंमें कहे हुए दोषोंका प्रसंग भी आता है। अनुभय पक्ष (न नित्य और न अनित्य) भी घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर वस्तुके निःस्वभावताकी आपत्ति आती है। शब्द और अर्थका अभेद पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि, ऐसा होनेपर कारण, करण और देश आदिके भेदके अभावका प्रसंग आता है। अत एव त्रिकोटिपरिणाम स्वरूप समस्त पदार्थोंको माननेवाले जैन वादियोंके यहां ही वह घटित होता है, दूसरोंके नहीं होता।

स्फोट भी अर्थका प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि, अनुपलब्ध होनेसे उसका सत्त्व ही सम्भव नहीं है। इस कारण वहिरंग वर्णोंसे उत्पन्न अन्तरंग वर्णों स्वरूप पद अथवा

१ अ-काप्रत्योः 'संपादसण्णिवादभंगाणं', अप्रती 'संपादसण्णिवादभंगाणं' इति पाठः।

२ प्रतिपु 'भेदामावासंजननात्' इति पाठः।

३ न च वर्ण-पद-वाक्यव्यतिरिक्तः नित्योऽक्रमः अमूर्तो निरवयवः सर्वगतः अर्थप्रतिपत्तिनिमित्तं स्फोट इति, अनुपलम्भात्। जयध. १, पृ. २६६.

वाक्यं वा अर्थप्रतिपादकमिति निश्चेतव्यम् ।

जा सा ठवणकदी णाम सा कट्टकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु वा लेण्णकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गिह-
कम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा दंतकम्मेसु वा भेंडकम्मेसु वा अक्खो वा
वराडओ वा जे चामण्णे एवमादिया ठवणाए ठविज्जंति कदि त्ति सा
सव्वा ठवणकदी णाम' ॥ ५२ ॥

एतस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे— जा सा ठवणकदी णामे त्ति वयणेण इमा परूवणा
ठवणकदिविसया त्ति जाणावण्डं पुब्बुद्धिठवणकदी पुणो वि उद्दिडा । जहा उद्देसो तहा
णिद्देसो त्ति णायादो ठवणकदिपरूवणा चेव णामकदिपरूवणाणंतरं होदि त्ति णव्वदे । तदो
णेदं वत्तव्वमिदि चे होदि एसो णाओ पुव्वाणुपुव्विविक्खाए, ण सेसदोसु परूवणासु;

वाक्य अर्थ प्रतिपादक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये ।

जो वह स्थापनाकृति है वह काष्ठकर्मोंमें, अथवा चित्रकर्मोंमें, अथवा पोतकर्मोंमें, अथवा
लेप्यकर्मोंमें, अथवा लयनकर्मोंमें, अथवा शैलकर्मोंमें, अथवा गृहकर्मोंमें, अथवा भित्तिकर्मोंमें,
अथवा दन्तकर्मोंमें, अथवा भेंडकर्मोंमें, अथवा अक्ष या वराटक; तथा इनको आदि लेकर
अन्य भी जो 'कृति' इस प्रकार स्थापनामें स्थापित किये जाते हैं वह सब स्थापनाकृति
कही जाती है ॥ ५३ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— 'जो वह स्थापनाकृति है' इस वचनसे यह
प्ररूपणा स्थापनाकृतिविषयक है, इसके जतलानेके लिये पूर्वमें निर्दिष्ट की गई स्थापना-
कृतिका फिरसे भी निर्देश किया गया है ।

शंका— 'जैसा उद्देश होता है वैसा ही निर्देश होता है' इस न्यायसे नामकृतिकी
प्ररूपणाके पश्चात् स्थापनाकृतिकी ही प्ररूपणा है, यह स्वयं जाना जाता है । इस कारण उक्त
वाक्यांश नहीं कहना चाहिये ?

समाधान— यह न्याय पूर्वानुपूर्वीकी विवक्षामें भले ही लागू हो, किन्तु शेष दो

१ प. खं. पु. ३, पृ. ११. से किं तं ठवणावस्सयं ? जणं कट्टकम्मे वा पोत्तकम्मे वा चित्तकम्मे वा
लेप्पकम्मे वा गंथिमे वा वेदिमे वा पूरिमे वा संघाइमे वा अक्खे वा वराडए वा एणो वा अणेणो वा सव्मावठवणा
वा असव्मावठवणा वा आवस्सए त्ति ठवणा ठविज्जइ से तं ठवणावस्सयं । अनु. सू. १०.

तदो सेसदोपरुवणापडिसेहकरणादो ण णिप्फला ड्वणकदिसंभालणा । तत्थ ताव सञ्भाव-
ड्वणहारदेसामासो कीरदे— सा सञ्भावड्वणकदी कट्टकम्मेसु वा त्ति वुत्ते काष्ठे क्रियन्त
इति निप्पत्तेः देव-णेरइय-तिरिक्ख-मणुस्साणं णच्चण-हसण-गायण-तूर-वीणादिवायणकिरिया-
वावदाणं कट्टघडिदपडिमाओ कट्टकम्मे त्ति भणंति' । पड-कुड्ड-फलहियादीसु णच्चणादिकिरिया-
वावददेव-णेरइय-तिरिक्ख-मणुस्साणं पडिमाओ चित्तकम्मं, चित्रेण क्रियन्त इति व्युत्पत्तेः ।
पोतं वस्त्रम्, तेण कदाओ पडिमाओ पोत्तकम्मं' । कड-सक्खर-मट्टियादीणं लेवो लेप्पं, तेण घडिद-
पडिमाओ लेप्पकम्मं । लेणं पच्चओ, तम्हि घडिदपडिमाओ लेणकम्मं । सेलो पत्थरो, तम्हि
घडिदपडिमाओ सेलकम्मं' । गिहाणि जिणघरादीणि, तेसु कदपडिमाओ गिहकम्मं, हय-हत्थि-

(द्रव्य व भाव) प्ररूपणाओंमें वह नहीं है; अत एव शेष दो प्ररूपणाओंका प्रतिषेध करनेसे
स्थापनाकृतिका स्मरण कराना निष्फल नहीं है ।

उसमें पहिले सद्भावस्थापनाके आधारभूत देशामर्शको करते हैं अर्थात् कुछ
दृष्टान्त देते हैं— 'वह स्थापनाकृति काष्ठकर्मोंमें है' ऐसा कहनेपर 'काष्ठमें जो किये
जाते हैं वे काष्ठकर्म हैं' इस निरुक्तिके अनुसार नाचना, हँसना, गाना तथा तुरई एवं
वीणा आदि वाद्योंके बजाने रूप क्रियाओंमें प्रवृत्त हुए देव, नारकी, तिर्यच और मनुष्योंकी
काष्ठसे निर्मित प्रतिमाओंको काष्ठकर्म कहते हैं ।

पट, कुड्य (भित्ति), एवं फलहिका (काष्ठ आदिका तख्ता) आदिमें नाचने
आदि क्रियामें प्रवृत्त देव, नारकी, तिर्यच और मनुष्योंकी प्रतिमाओंको चित्रकर्म कहते हैं,
क्योंकि, 'चित्रसे जो किये जाते हैं वे चित्रकर्म हैं' ऐसी व्युत्पत्ति है ।

पोत्तका अर्थ वस्त्र है, उससे की गई प्रतिमाओंका नाम पोत्तकर्म है । कट (तृण),
शर्करा (बालु) व मृत्तिका आदिके लेपका नाम लेप्प्य है । उससे निर्मित प्रतिमायें लेप्प्यकर्म
कही जाती हैं । लयनका अर्थ पर्वत है, उसमें निर्मित प्रतिमाओंका नाम लयनकर्म है ।
शैलका अर्थ पत्थर है, उसमें निर्मित प्रतिमाओंका नाम शैलकर्म है । गृहोंसे
अभिप्राय जिनगृहादिकोंका है, उनमें की गई प्रतिमाओंका नाम गृहकर्म है; घोड़ा,

१ तत्र क्रियत इति कर्म, काष्ठे कर्म काष्ठकर्म । काष्ठनिकुष्टितं रूपकमित्यर्थः । अनु. टीका सू. १०.

२ चित्रकर्म चित्रलिखितं रूपकम् । अनु. टीका सू. १०.

३ 'पोत्तकम्मं व' चि अत्र पोत्तं पोतं वस्त्रमित्यर्थः । तत्र कर्म तत्पल्लवनिष्पन्नं धीउल्लिकारूपक-
मित्यर्थः । अथवा पोत्तं पुस्तकम्, तच्चेह संपुटकरुपं ग्रन्थते । तत्र कर्म तन्मध्ये वर्तिकालिखितं रूपकमित्यर्थः । अथवा
पोत्तं ताडपत्रादि । तत्र कर्म तच्चेदनिष्पन्नं रूपकम् । अनु. टीका सू. १०.

४ लेप्प्यकर्म लेप्परूपकम् । अनु. टीका सू. १०.

णर-वराहादिसखेण घडिदघराणि गिहकम्ममिदि वुत्तं होदि । वरकुड्डेसु तदो अभेदेण चिद-
पडिमाओ^१ भित्तिकम्मं । हत्थिदंतेसु किण्णपडिमाओ दंतकम्मं । भेंडो सुप्पसिद्धो, तेण घडिद-
पडिमाओ भेंडकम्मं । एदे सन्भावडुवणा । एदे देसामासया दस परुविदा ।

संपहि असन्भावडुवणाविसयस्सुवलक्खण्डं भणदि— अक्खे त्ति वुत्ते जूवक्खो^२
सयडक्खो वा धेत्तव्वो^३ । वराडओ त्ति वुत्ते कवड्डिया धेत्तव्वा^४ । जे च अण्णे एवमादिया त्ति
वयणं दोण्णं अवहारणपडिसेहफलं । तेण धंभ-तुला-हल-मुसलकम्मादीणं ग्रहणं । स्थाप्यतेऽ-
स्मिन्निति स्थापना । अमा अभेदेण, ठवणाए सद्भावसद्भावस्थापनायाम्, ठविज्जंति कृतिरिति
स्थाप्यन्ते, सा सव्वा ठवणकदी णाम ।

जा सा दव्वकदी णाम सा दुविहा आगमदो दव्वकदी चेव
णोआगमदो दव्वकदी चेव ॥ ५३ ॥

हाथी, मनुष्य एवं वराह (शूकर) आदिके स्वरूपसे निर्मित घर गृहकर्म कहलाते
हैं, यह अभिप्राय है। घरकी दीवाल्लोंमें उनसे अभिन्न रची गई प्रतिमाओंका नाम
भित्तिकर्म है। हाथी दांतोंपर खोदी हुई प्रतिमाओंका नाम दन्तकर्म है। भेंड सुप्रसिद्ध है।
उससे निर्मित प्रतिमाओंका नाम भेंडकर्म है। ये सद्भावस्थापनाके उदाहरण हैं। ये दस
देशामर्शक कहे गये हैं।

अब असद्भावस्थापनासम्बन्धी विषयके उपलक्षणार्थ कहते हैं—अक्ष ऐसा कहने-
पर द्यूताक्ष अथवा शकटाक्षका ग्रहण करना चाहिये। वराटक ऐसा कहनेपर कपर्दिकाका
ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार इनको आदि लेकर और भी जो अन्य हैं^१ इस वचनका प्रयो-
जन दोनों (अक्ष व वराटक) के अवधारणका प्रतिषेध करना है। इसलिये स्तम्भकर्म, तुला-
कर्म, हलकर्म व मूसलकर्म आदिकोंका ग्रहण होता है। जिसमें स्थापित किया जाता है वह
स्थापना है। अमा अर्थात् अभेद रूपसे, स्थापना अर्थात् सद्भाव व असद्भाव रूप
स्थापनामें 'कृति है' इस प्रकार जो स्थापित किये जाते हैं वह सब स्थापनाकृति कही
जाती है।

जो वह द्रव्यकृति है वह दो प्रकार है— आगमसे द्रव्यकृति और नोआगमसे
द्रव्यकृति ॥ ५३ ॥

१ आ-कायलोः • चित्तपडिमाओ ' इति पाठः ।

२ अक्षः चन्दनकः । अशु. टीका सू. १०.

३ प्रतिपु ' जोवक्खो ' इति पाठः ।

४ वराटकः कपर्दकः । अशु. टीका सू. १०.

आगमो सिद्धंतो सुदणामिदि एयडो । अत्रोपयोगी श्लोकः—

पूर्वापरविरुद्धादेर्व्यपेतो दोषसंहतेः ।

द्योतकः सर्वभावानामाप्तन्याहृतिरागमः ॥ ९१ ॥

एदस्हादो आगमादो जं तं दव्वं तमागमदव्वं, तस्स कदी आगमदव्वकदी णाम । आगमादण्णो णोआगमो । तदो जं दव्वं तण्णोआगमदव्वं, तस्स कदी णोआगम [दव्वकदी णाम । एवं] दव्वकदीए दुविहत्तं परूविय आगमवियप्पपरूवणइमुत्तरसुत्तं भणदि—

जा सा आगमदो दव्वकदी णाम तिस्से इमे अट्टाहियारा भवंति—ट्ठिदं जिदं परिजिदं वायणोपगदं सुत्तसमं अत्थसमं गंथसमं णामसमं घोससमं । एवं णव अहियारा आगमस्स होंति' ॥ ५४ ॥

तत्थ ट्ठिदस्स आगमस्स सरूवपरूवणा कीरदे— अवधृतमात्रं स्थितम्, जो पुरिसो

आगम, सिद्धान्त व श्रुतज्ञान, इन शब्दोंका एक ही अर्थ है । यहां उपयोगी श्लोक—

जो आप्तवचन पूर्वापरविरुद्ध आदि दोषोंके समूहसे रहित और सब पदार्थोंका प्रकाशक है वह आगम कहलाता है ॥ ९१ ॥

इस आगमसे जो द्रव्य है वह आगमद्रव्य है, उसकी कृति आगमद्रव्यकृति कहलाती है । आगमसे भिन्न नोआगम कहा जाता है, उससे जो द्रव्य है वह नोआगमद्रव्य और उसकी कृति नोआगमद्रव्यकृति कहलाती है । इस तरह दो प्रकार कृतिकी प्ररूपणा करके आगमभेदोंके प्ररूपणार्थ उत्तरसूत्र कहते हैं—

जो वह आगमसे द्रव्यकृति है उसके ये अर्थाधिकार हैं— स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत, सूत्रसम, अर्थसम, ग्रन्थसम, नामसम और घोषसम । इस प्रकार आगमके नौ अधिकार हैं ॥ ५४ ॥

उनमें स्थित आगमके स्वरूपकी प्ररूपणा करते हैं— अवधारण किये हुए मात्रका

१ से किं तं आगमओ दव्वावस्सयं ? जस्स ण आवस्सए त्ति पदं सिखितं ठितं जितं मितं परिजितं नामसमं घोससमं अहीणक्खरं अणच्चक्खरं अच्चाइद्वक्खरं अक्खलिअं अभिलिअं अवच्चामेलियं पडिपुण्णं पडिपुण्णघोसं केटोद्विप्पमुक्कं शुक्कायणोवगयं X X X । अनु. टीका द्. १३.

भावागममि बुद्धो^१ गिलाणो च^२ सणि सणि संचरदि सो तारिससंस्कारजुत्तो पुरिसो तन्भावा-
गमो च स्थित्वा वृत्तेः द्विदं^३ णाम । नैसर्ग्यवृत्तिर्जितम्, जेण संस्कारेण पुरिसो भावागममि
अक्खलिओ संचरइ तेण संजुत्तो पुरिसो तन्भावागमो च जिदमिदि^४ भण्णेदे । यत्र यत्र प्रश्नः
क्रियते तत्र तत्र आशुतमवृत्तिः परिचितम्, क्रमेणोत्क्रमेणानुभयेन च भावागमाम्भोधौ मत्स्य-
वच्चटुलतमवृत्तिर्जीवो भावागमश्च परिचितम् । शिष्याध्यापनं वाचना । सा चतुर्विधा नन्दा भद्रा जया
सौम्या चेति । पूर्वपक्षीकृतपरदर्शनानि निराकृत्य स्वपक्षस्थापिका व्याख्या नन्दा । युक्तिभिः
प्रत्यवस्थाय पूर्वापरविरोधपरिहारेण तंत्रस्थाशेषार्थव्याख्या भद्रा । पूर्वापरविरोधपरिहारेण विना
तंत्रार्थकथनं जया । क्वचित् क्वचित् स्वलितवृत्तेर्व्याख्या सौम्या । एतासां वाचनानामुपगतं

नाम स्थित आगम है । अर्थात् जो पुरुष भाव आगममें वृद्ध व व्याधिपीडित मनुष्यके
समान धीरे धीरे संचार करता है वह उस प्रकारके संस्कारसे युक्त पुरुष और वह
भावागम भी स्थित होकर प्रवृत्ति करनेसे अर्थात् रुक रुक कर चलनेसे स्थित कहलाता
है । स्वाभाविक प्रवृत्तिका नाम जित है । अर्थात् जिस संस्कारसे पुरुष भावागममें अस्वलित
रूपसे संचार करता है उससे युक्त पुरुष और वह भावागम भी ' जित ' इस प्रकार कहा
जाता है । जिस जिस विषयमें प्रश्न किया जाता है उस उसमें शीघ्रतापूर्ण प्रवृत्तिका नाम
परिचित है । अर्थात् क्रमसे, अक्रमसे और अनुभय रूपसे भावागम रूपी समुद्रमें मछलीके
समान अत्यन्त चंचलतापूर्ण प्रवृत्ति करनेवाला जीव और भावागम भी परिचित कहा
जाता है । शिष्योंको पढ़ानेका नाम वाचना है । वह चार प्रकार है— नन्दा, भद्रा, जया और
सौम्या । अन्य दर्शनोंको पूर्वपक्ष करके उनका निराकरण करते हुए अपने पक्षको स्थापित
करनेवाली व्याख्या नन्दा कहलाती है । युक्तियों द्वारा समाधान करके पूर्वापर
विरोधका परिहार करते हुए सिद्धान्तमें स्थित समस्त पदार्थोंकी व्याख्याका नाम भद्रा
है । पूर्वापर विरोधके परिहारके विना सिद्धान्तके अर्थोंका कथन करना जया वाचना
कहलाती है । कहीं कहीं स्वलनपूर्ण वृत्तिसे जो व्याख्या की जाती है वह सौम्या वाचना
कही जाती है । इन चार प्रकारकी वाचनाओंको प्राप्त वाचनोपगत कहलाता है । अभिप्राय

१ प्रतिषु ' बुद्धो ' इति पाठः ।

२ काप्रतौ ' च ' इति पाठः ।

३ तत्रादित आरभ्य पठनक्रियया यावदन्तं नीतं तच्छिक्षितमुच्यते । तदेवाविस्मरणतश्चेतसि स्थितं
स्थितत्वात् स्थितमप्रच्युतमित्यर्थः । अनु. टीका सू. १३.

४ परावर्त्तनं कुर्वतः परेण वा क्वचित् पृष्ठस्य यच्छीघ्रमागच्छति तज्जितम् । अनु. टीका सू. १३.

५ परि समन्तात् सर्वप्रकारैर्जितं परिजतम्; परावर्त्तनं कुर्वतो यत् क्रमेणोत्क्रमेण वा समागच्छतीत्यर्थः ।
अनु. टीका सू. १३.

वाचनोपगतं परप्रत्यायनसमर्थ इति यावत् । एत्थं वक्खाणंतेहि सुणंतेहि विं दच्च-खेत्त-काल-
भावसुद्धीहि वक्खाण-पढणवानारो कायञ्चो । तत्र ज्वर-कुक्षि-शिरोरोग-दुःस्वप्न-रुधिर-विट्-
मूत्र-लेपातीसार-पूयस्तावादीनां शरीरे अभावो द्रव्यशुद्धिः^१ । व्याख्यातृव्यावस्थितप्रदेशात्
चतसृष्वपि दिक्ष्वष्टाविंशतिसहस्रायतासु विण्मूत्रास्थि-केश-नख-त्वगाद्यभावः षष्ठातीतवाचनातः
आरात्पंचेन्द्रियशरीराद्रास्थि-त्वग्मांसासृक्संघाभावश्च क्षेत्रशुद्धिः^२ । विद्युदिन्द्रधनुर्ग्रहोपरागा-
कालवृष्ट्यभ्रगर्जन-जीमूतवातप्रच्छाद-दिरदाह-धूमिकापात-सन्यास-महोपवास-नन्दीश्वर-जिनमहि-
माद्यभावः कालशुद्धिः^३ ।

अत्र कालशुद्धिकरणविधानमभिधास्ये । तं जहा— पञ्चिमरतिसज्झायं खमाविय

यह है कि जो दूसरोंको ज्ञान करानेके लिये समर्थ है वह वाचनोपगत है ।

यहां व्याख्यान करनेवालों और सुननेवालोंको भी द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, काल-
शुद्धि और भावशुद्धिसे व्याख्यान करने या पढ़नेमें प्रवृत्ति करना चाहिये । उनमें
ज्वर, कुक्षिरोग, शिरोरोग, कुत्सित स्वप्न, रुधिर, विष्टा, मूत्र, लेप, अतीसार और
पीवका बहना, इत्यादिकोंका शरीरमें न रहना द्रव्यशुद्धि कही जाती है । व्याख्यातासें
अधिष्ठित प्रदेशसे चारों ही दिशाओंमें अट्ठाईस हजार [धनुष] प्रमाण क्षेत्रमें विष्टा, मूत्र,
हड्डी, केश, नख और चमड़े आदिके अभावको; तथा छह अतीत वाचनाओंसे (?) समीपमें
[या दूरी तक] पंचेन्द्रिय जीवके शरीर सम्बन्धी गीली हड्डी, चमड़ा, मांस और रुधिरके
सम्बन्धके अभावको क्षेत्रशुद्धि कहते हैं । विजली, इन्द्र-धनुष, सूर्य-चन्द्रका ग्रहण,
अकालवृष्टि, मेघगर्जन, मेघोंके समूहसे आच्छादित दिशायें, दिशादाह, धूमिकापात
(कुहरा), सन्यास, महोपवास, नन्दीश्वरमहिमा और जिनमहिमा, इत्यादिके अभावको
कालशुद्धि कहते हैं ।

यहां कालशुद्धि करनेके विधानको कहते हैं । वह इस प्रकार है— पश्चिम रात्रिके

१ शुद्धप्रदत्तया वाचनया उपगतं प्राप्तं शुद्धवाचनोपगतम्, न तु कर्णाघाटकेन शिक्षितं न च पुस्तकात् ;
स्वयमेवाधीतमिति भावः : अनु. टीका सू. १३.

२ अ-काप्रत्योः ' शहिर्द्रास्थि- ', आप्रत्यौ ' शहिर्हीद्रास्थि- ' इति पाठः ।

३ तिरिपंचिदिय दत्ते खेत्ते सट्ठित्थ पोगलाह्वं । तिकुरत्थ महत्तेगा नगरे बार्हि तु गामस्स ॥ × × ×
क्षेत्रे क्षेत्रतः पट्टिहस्ताभ्यन्तरे परिहरणीयम्, न परतः । × × × (टीका) प्रवचनसारोद्धार गाथा १४६४.

४ प्रतिपु ' -महोप- ' इति पाठः ।

५ दिसदाह-उक्कपडणं विज्जु चहुवकासणिदधणुगं च । दुग्गंध-सज्झं-दुद्धिणं-चंदं-गहं-सूर-राहुज्झं च ॥
फलहादिधूमकेदू धरणीकर्पं च अग्गभज्जं च । इच्चेवसाइनहुया सज्झाए वज्जिदा दोसा ॥ मूला. ५; ७७-७८.

बहिं णिक्कलिय पासुवे भूमिपदेसे काओसग्गेण पुच्चाहिमुहो डाइदूण णवगाहापरियट्टणकालेण^१ पुच्चदिसं सोहिय पुणो पदाहिणेण पल्लट्टिय एदेणेव कालेण जम-वरुण-सोमदिसासु सोहिदासु छत्तीसगाहुच्चारणकालेण [३६] अट्टसदुस्सासकालेण वा कालसुद्धी सम्पपदि [१०८] । अवरणहे वि एवं चेव कालसुद्धी कायव्वा । णवरि एक्केक्काए दिसाए सत्त-सत्तगाहापरियट्टणेण परिच्छिण्णकाला ति णायव्वा । एत्थ सच्चगाहापमाणमट्ठावीस [२८] चउरासीदिउस्सासा [८४] । पुणो अणत्थमिदे दिवायेरे खेत्तसुद्धिं कादूण अत्थमिदे कालसुद्धिं पुच्चं व कुज्जा । णवरि एत्थ कालो वीसगाहुच्चारणमेत्तो [२०] सट्ठिउस्सासमेत्तो वा [६०] । अवररत्ते णत्थि वायणा, खेत्तसुद्धिकरणोवायाभावादो । ओहि-मणपज्जवणाणीणं सयलंगसुदधराणमागासट्ठिय-चारणाणं मेरु-कुलसेलगम्भट्टियचारणाणं च अवररत्तियवाचणा वि अत्थि अवगयखेत्तसुद्धीदो । अवगयराग-दोसाहंकारट्ठ-रुद्धज्झाणस्स पंचमहव्वयकलिदस्स तिगुत्तिगुत्तस्स णाण-दंसण-चर-णादिचारणवट्ठिदस्स भिक्खुस्स भावसुद्धी होदि । अत्रोपयोगिश्लोकाः । तद्यथा—

सन्धिकालमें क्षमा कराकर बाहिर लिकल प्राशुक भूमिप्रदेशमें कायोत्सर्गसे पूर्वाभिमुख स्थित होकर नौ गाथाओंके उच्चारणकालसे पूर्व दिशाको शुद्ध करके फिर प्रदक्षिण रूपसे पलटकर इतने ही कालसे दक्षिण, पश्चिम व उत्तर दिशाओंको शुद्ध कर लेनेपर छत्तीस ३६ गाथाओंके उच्चारणकालसे अथवा एक सौ आठ १०८ उच्छ्वासकालसे कालशुद्धि समाप्त होती है । अपराह्नकालमें भी इसी प्रकार ही कालशुद्धि करना चाहिये । विशेष इतना है कि इस समयकी कालशुद्धि एक एक दिशामें सात सात गाथाओंके उच्चारण-कालसे सीमित है, ऐसा जानना चाहिये । यहां सब गाथाओंका प्रमाण अट्ठाईस २८ अथवा उच्छ्वासोंका प्रमाण चौरासी ८४ है । पश्चात् सूर्यके अस्त होनेसे पहिले क्षेत्रशुद्धि करके सूर्यके अस्त हो जानेपर पूर्वके समान कालशुद्धि करना चाहिये । विशेष इतना है कि यहां काल बीस २० गाथाओंके उच्चारण प्रमाण अथवा साठ ६० उच्छ्वास प्रमाण है । अपर-रात्र अर्थात् रात्रिके पिछले भागमें वाचना नहीं है, क्योंकि, उस समय क्षेत्रशुद्धि करनेका कोई उपाय नहीं है । अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, समस्त अंगश्रुतके धारक, आकाश-स्थित चारण तथा मेरु व कुलाचलोंके मध्यमें स्थित चारण ऋषियोंके अपररात्रिक वाचना भी है, क्योंकि, वे क्षेत्रशुद्धिसे रहित हैं, अर्थात् भूमिपर न रहनेसे उन्हें क्षेत्र-शुद्धि करनेकी आवश्यकता नहीं होती । राग, द्वेष, अहंकार, आर्त व रौद्र ध्यानसे रहित; पांच महाव्रतोंसे युक्त, तीन गुण्तियोंसे रक्षित; तथा ज्ञान, दर्शन व चारित्र आदि आचारसे वृद्धिको प्राप्त भिक्षुके भावशुद्धि होती है । यहां उपयोगी श्लोक इस प्रकार हैं—

१ णव-सत्त-पंचगाहापरिमाणं दिसिविभागसोधीए । पुच्चण्हे अवरणहे पदोसकाले य सज्जाए ॥
मूला. ५-७६.

यमपटहरवश्रवणे^१ रुधिरस्रावेऽगतोऽतिचारे च ।
 दातृष्वशुद्धकायेषु भुक्तवति चापि नाध्येयम् ॥ ९२ ॥
 तिलपल्ल-पृथुक-लाजा-पूपादिस्निग्धसुरभिगंधेषु ।
 भुक्तेषु भोजनेषु च दावाग्निधूमे च नाध्येयम् ॥ ९३ ॥
 योजनमण्डलमात्रे सन्यासविधौ महोपवासे च ।
 आवश्यकक्रियायां केशेषु च लुप्यमानेषु ॥ ९४ ॥
 सप्तदिनान्ध्ययनं प्रतिपिद्धं स्वर्गगते श्रमणसूरौ^२ ।
 योजनमात्रे दिवसत्रितयं त्वतिदूरतो दिवसम् ॥ ९५ ॥
 प्राणिनि च तीव्रदुःखान्त्रियमाणे स्फुरति चातिवेदनया ।
 एकनिवर्तनमात्रे तिर्यक्षु चरत्सु च न पाठ्यम्^३ ॥ ९६ ॥
 तावन्मात्रे स्थावरकायक्षयकर्मणि प्रवृत्ते च ।
 क्षेत्राशुद्धौ दूराद् दुर्गन्धे वातिकुणपे वा ॥ ९७ ॥

यमपटहका शब्द सुननेपर, अंगसे रक्तस्रावके होनेपर, अतिचारके होनेपर, तथा दाताओंके अशुद्धकाय होते हुए भोजन कर लेनेपर स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ॥ ९२ ॥

तिलमोदक, चिउड़ा, लाई और पुआ आदि चिक्कण एवं सुगन्धित भोजनोंके खानेपर तथा दावानलका धुआं होनेपर अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥ ९३ ॥

एक योजनके घेरेमें सन्यासविधि, महोपवासविधि, आवश्यकक्रिया एवं केशोंका लोंच होनेपर तथा आचार्यका स्वर्गवास होनेपर सात दिन तक अध्ययनका प्रतिषेध है । उक्त घटनाओंके योजन मात्रमें होनेपर तीन दिन तक तथा अत्यन्त दूर होनेपर एक दिन तक अध्ययन निषिद्ध है ॥ ९४-९५ ॥

प्राणीके तीव्र दुःखसे मरणासन्न होनेपर या अत्यन्त वेदनासे तड़फड़ानेपर तथा एक निवर्तन (एक बीघा या गुंठा) मात्रमें तिर्यचोंका संचार होनेपर अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥ ९६ ॥

उतने मात्रमें स्थावरकाय जीवोंके घात रूप कार्यमें प्रवृत्त होनेपर, क्षेत्रकी अशुद्धि होनेपर, दूरसे दुर्गन्ध आनेपर अथवा अत्यन्त सड़ी गन्धके आनेपर, ठीक अर्थ समझमें न

१ प्रतिषु 'श्रवणे' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'श्रवणसूरौ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु 'यागं' इति पाठः ।

विगतार्थागमने^१ वा स्वशरीरे शुद्धिवृत्तिविरहे वा ।
 नाध्येयः सिद्धान्तः शिवसुखफलमिच्छता प्रतिना ॥ ९८ ॥
 प्रमितिरतिशतं स्यादुच्चारविमोक्षणक्षितेरात् ।
 तनुसलिलमोक्षणेऽपि च पञ्चाशदरतिरेवातः ॥ ९९ ॥
 मानुषशरीरलेशावयवस्याप्यत्र दण्डपञ्चाशत् ।
 संशोध्या^२ तिरश्चां तदर्द्धमात्रैव भूमिः स्यात् ॥ १०० ॥
 व्यन्तरभेरीताडन-तत्पूजासंकटे कर्पणे वा ।
 संमृक्षण-संमार्जनसमीपचाण्डालबालेषु ॥ १०१ ॥
 अग्निजलरुधिरदीपे मांसास्थिप्रजनने तु जीवानां ।
 क्षेत्रविशुद्धिर्न स्याद्यथोदितं सर्वभावज्ञैः ॥ १०२ ॥
 क्षेत्रं संशोध्य पुनः स्वहस्तपादौ विशोध्य शुद्धमनाः ।
 प्राशुकदेशावस्थो^३ गृह्णीयाद् वाचनां पश्चात् ॥ १०३ ॥

आने पर (?) अथवा अपने शरीरके शुद्धिसे रहित होनेपर मोक्षसुखके चाहनेवाले व्रती पुरुषको सिद्धान्तका अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥ ९७-९८ ॥

मल छोड़नेकी भूमिसे सौ अरति प्रमाण दूर, तनुसलिल अर्थात् मूत्रके छोड़नेमें भी इस भूमिसे पचास अरति दूर, मनुष्यशरीरके लेशमात्र अवयवके स्थानसे पचास मनुष, तथा तिर्यचोंके शरीरसम्बन्धी अवयवके स्थानसे उससे आधी मात्र अर्थात् पच्चीस धनुष प्रमाण भूमिको शुद्ध करना चाहिये ॥ ९९-१०० ॥

व्यन्तरोंके द्वारा भेरीताडन करनेपर, उनकी पूजाका संकट होनेपर, कर्पणके होनेपर, चाण्डालबालकोंके समीपमें झाड़ा-बुहारी करनेपर; अग्नि, जल व रुधिरकी तीव्रता होनेपर; तथा जीवोंके मांस व हड्डियोंके निकाले जानेपर क्षेत्रकी विशुद्धि नहीं होती जैसा कि सर्वज्ञोंने कहा है ॥ १०१-१०२ ॥

क्षेत्रकी शुद्धि करनेके पश्चात् अपने हाथ और पैरोंको शुद्ध करके तदनन्तर विशुद्ध मन युक्त होता हुआ प्राशुकदेशमें स्थित होकर वाचनाको ग्रहण करे ॥ १०३ ॥

१ प्रतिष्ठ 'विनतार्थागमने' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठ 'संशोध्यां' इति पाठः ।

३ प्रतिष्ठ 'देशावस्था' इति पाठः ।

युक्त्वा समधीयानो वक्ष्णैकक्षाद्यमस्पृशन् स्वाङ्गम् ।

यत्नेनाधीत्य पुनर्यथाश्रुतं वाचनां मुचेत् ॥ १०४ ॥

तपसि द्वादशसंख्ये स्वाध्यायः श्रेष्ठ उच्यते साङ्गिः ।

अस्वाध्यायदिनानि ज्ञेयानि ततोऽत्र विद्वद्भिः ॥ १०५ ॥

पर्वसु नन्दीश्वरवरमहिमादिवसेषु चोपरागेषु ।

सूर्याचन्द्रमसोरपि नाध्येयं जानता व्रतिना ॥ १०६ ॥

अष्टम्यामध्ययनं गुरु-शिष्यद्वयवियोगमावहति ।

कलहं तु पौर्णमास्यां करोति विघ्नं चतुर्दश्याम् ॥ १०७ ॥

कृष्णचतुर्दश्यां यद्यधीयते साधवो ह्यमावस्याम् ।

विद्योपवासविधयो विनाशवृत्तिं प्रयान्त्यशेषं सर्वे ॥ १०८ ॥

मध्याह्ने जिनरूपं नाशयति करोति संध्योर्व्याधिम् ।

तुष्यन्तोऽप्यप्रियतां मध्यमरात्रौ समुपयान्ति ॥ १०९ ॥

वाजू और कांख आदि अपने अंगका स्पर्श न करता हुआ उचित रीतिसे अध्ययन करे और यत्नपूर्वक अध्ययन करके पश्चात् शास्त्रविधिसे वाचनाको छोड़ दे ॥ १०४ ॥

साधु पुरुषोंने बारह प्रकारके तपमें स्वाध्यायको श्रेष्ठ कहा है । इसीलिये विद्वानोंको स्वाध्याय न करनेके दिनोंको जानना चाहिये ॥ १०५ ॥

पर्वदिनों (अष्टमी व चतुर्दशी आदि), नन्दीश्वरके श्रेष्ठ महिमदिवसों अर्थात् अष्टादिक दिनोंमें और सूर्य-चन्द्रका ग्रहण होनेपर विद्वान् व्रतीको अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥ १०६ ॥

अष्टमीमें अध्ययन गुरु और शिष्य दोनोंके वियोगको करता है । पूर्णमासीके दिन किया गया अध्ययन कलह और चतुर्दशीके दिन किया गया अध्ययन विघ्नको करता है ॥ १०७ ॥

यदि साधु जन कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्याके दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या और उपवासविधि सब विनाशवृत्तिको प्राप्त होते हैं ॥ १०८ ॥

मध्याह्न कालमें किया गया अध्ययन जिनरूपको नष्ट करता है, दोनों संध्या-कालोंमें किया गया अध्ययन व्याधिको करता है, तथा मध्यम रात्रिमें किये गये अध्ययनसे अनुरक्त जन भी द्वेषको प्राप्त होते हैं ॥ १०९ ॥

१ प्रतियु 'वक्ष्ण-' इति पाठः ।

अतितीव्रदुःखितानां रुदतां संदर्शने समीपे च ।
 स्तनयित्नुविद्युदभ्रेष्यतिवृष्ट्या उल्कनिर्वीते ॥ ११० ॥
 प्रतिपद्येकः पादो ज्येष्ठामूलस्य पौर्णमास्यां तु ।
 सा वाचनाविमोक्षे छाया पूर्वाह्णवेलायाम् ॥ १११ ॥
 सैवापराह्णकाले वेला स्याद्वाचनाविधौ विहिता ।
 सप्तपदी पूर्वाह्णपराह्णयोर्ग्रहण-मोक्षेषु ॥ ११२ ॥
 ज्येष्ठामूलात्परतोऽप्यापौषाद्द्वयंगुला^१ हि वृद्धिः स्यात् ।
 मासे मासे विहिता क्रमेण सा वाचनाछाया ॥ ११३ ॥
 एवं क्रमप्रवृद्ध्या पादद्वयमत्र हीयते पश्चात् ।
 पौषादाज्येष्ठान्तादू^२ द्वयंगुलमेवेति विज्ञेयम्^३ ॥ ११४ ॥

अतिशय तीव्र दुःखसे युक्त और रोते हुए प्राणियोंको देखने या समीपमें होनेपर भेद्योंकी गर्जना व विजलीके चमकनेपर और अतिवृष्टिके साथ उल्कापात होनेपर [अध्ययन नहीं करना चाहिये] ॥ ११० ॥

जेठ मासकी प्रतिपदा एवं पूर्णमासीको पूर्वाह्ण कालमें वाचनाकी समाप्तिमें एक पाद अर्थात् एक वितस्ति प्रमाण [जांघोंकी] वह छाया कही गई है । अर्थात् इस समय पूर्वाह्ण कालमें बारह अंगुल प्रमाण छायाके रह जानेपर अध्ययन समाप्त कर देना चाहिये ॥ १११ ॥

वही समय (एक पाद) अपराह्णकालमें वाचनाकी विधिमें अर्थात् प्रारम्भ करनेमें कहा गया है । पूर्वाह्णकालमें वाचनाका प्रारम्भ करने और अपराह्णकालमें उसके छोड़नेमें सात पाद (वितस्ति) प्रमाण छाया कही गई है (अर्थात् प्रातःकाल जब सात पाद छाया हो जावे तब अध्ययन प्रारम्भ करे और अपराह्णमें सात पाद छाया रहजानेपर समाप्त करे) ॥ ११२ ॥

ज्येष्ठ मासके आगे पौष मास तक प्रत्येक मासमें दो अंगुल प्रमाण वृद्धि होती है । यह क्रमसे वाचना समाप्त करनेकी छायाका प्रमाण कहा गया है ॥ ११३ ॥

इस प्रकार क्रमसे वृद्धि होनेपर पौष मास तक दो पाद हो जाते हैं । पश्चात् पौष माससे ज्येष्ठ मास तक दो अंगुल ही क्रमशः कम होते जाते हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ११४ ॥

१ प्रतिषु ' -प्यापौषाद्द्वयंगुला ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' पौषादाज्येष्ठान्ता ' इति पाठः ।

३ सज्जाये पट्टवणे जंघच्छायं त्रियाण सत्तपयं । पुव्वण्हे अवरण्हे तावादियं चैव णिट्टवणे ॥ आसादे इपदा छाया पुत्तमासे चतुप्पदा । वड्ढदे हीयदे चावि मासे मासे इअंगुला ॥ मूला. ५, ७४-७५.

दब्बादिवदिकमणं करेदि सुत्तथसिक्खलोहेण ।

असमाहिमसज्जायं^१ कलहं वाहिं वियोगं च^२ ॥ ११५ ॥

विणएण सुदमवीतं किह वि पमादेण होइ विस्सरिदं ।

तमुवट्ठादि परभवे केवलणाणं च आवहदि^३ ॥ ११६ ॥

अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद् गूढनिर्णयम् ।

निर्दीपं हेतुमत्तथ्यं सूत्रमिच्युते बुधैः^४ ॥ ११७ ॥

इदि वयणादो तित्थयरवयणविणिग्गयवीजपदं सुत्तं । तेण सुत्तेण समं वट्ठदि उप्प-
ज्जदि ति गणहरदेवम्मि द्विदसुदणाणं सुत्तसमं । अर्यते परिच्छिद्यते गम्यते इत्यर्थो द्वादशांग-
विषयः, तेण अत्थेण समं सह वट्ठदि ति अत्थसमं । दब्बसुदाइरिए अणवेक्खिय संजमजणिद-
सुदणाणावरणक्खओवसमसमुप्पण्णवारहंगसुदं संयंबुद्धाधारमत्थसममिदि सुत्तं होदि । गणहर-

सूत्र और अर्थकी शिक्षाके लोभसे किया गया द्रव्यादिकका अतिक्रमण असमाधि
अर्थात् सम्यक्त्वादिकी विराधना, अस्वाध्याय अर्थात् शास्त्रादिकोंका अलंभ, कलह,
व्याधि और वियोगको करता है ॥ ११५ ॥

चिनयसे पढ़ा गया श्रुत यदि किसी प्रकार भी प्रमादसे विस्मृत हो जाता है तो
परभवमें वह उपस्थित हो जाता है और केवलज्ञानको भी प्राप्त कराता है ॥ ११६ ॥

जो थोड़े अक्षरोंसे संयुक्त हो, सन्देहसे रहित हो, परमार्थ सहित हो, गूढ़
पदार्थोंका निर्णय करनेवाला हो, निर्दीप हो, युक्ति युक्त हो और यथार्थ हो उसे पण्डित
जन सूत्र कहते हैं ॥ ११७ ॥

इस वचनके अनुसार तीर्थकरके मुखसे निकला बीजपद सूत्र कहलाता है । उस
सूत्रके साथ चूंकि रहता अर्थात् उत्पन्न होता है, अतः गणधर देवमें स्थित श्रुतज्ञान सूत्रसमं
कहा गया है ।

जो 'अर्यते' अर्थात् जाना जाता है वह द्वादशांगका विषयभूत अर्थ है । उस
अर्थके साथ रहनेके कारण अर्थसम कहलाता है । द्रव्यश्रुत आचार्योंकी अपेक्षा न करके
संयमसे उत्पन्न हुए श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जन्य स्वयंबुद्धोंमें रहनेवाला
द्वादशांगश्रुत अर्थसम है, यह अभिप्राय है । गणधर देवसे रचा गया द्रव्यश्रुत ग्रन्थ कहा

१ प्रतिपु 'असमाहियसज्जायां' इति पाठः । २ मूली. ४, १७१. ३ मूली. ५, ८६.

४ सुत्तं गणधरकथिदं तदेव धत्तेयंबुद्धिकथिदं च । सुदकेवलणा कथिदं अमिण्णदसपुविकथिदं च ॥
मूली. ५, ८०. अप्पगंधमहत्थं बचीसादोसविरहियं जं च । लवखण्णुत्तं सुत्तं अट्टेहि च गुणेहि उववेयं ॥ आव. सू.
८८०. अप्पक्खरमसंदिद्धं सारवं विस्सओप्पुहं । अत्थोमसणवज्जं च सुत्तं सव्वण्णुमासियं ॥ आव. सू. ८८६.

देवविरहदद्वसुदं गंधो, तेण सह वट्टदि उप्पज्जदि त्ति बोहियवुद्धाहरिएसु द्विदवारहंगसुद-
णाणं गंधसमं । नाना मिनेतीति नाम । अणेगेहिं पयोरेहि अत्थपरिच्छित्तिं णामभेदेण' कुणदि
त्ति एगादिअक्खराण वारसंगाणिओगाणं मज्झद्विदद्वसुदणाणवियप्पा णाममिदि वुत्तं होदि ।
तेण णामेण दव्वसुदेण समं सह वट्टदि उप्पज्जदि त्ति सेसाहरिएसु द्विदसुदणाणं णामसमं ।

अणियोगो य नियोगो भास विहासा य वट्टिया चेव ।

एदे अणियोगस्स दु णामा एयट्टया पंच ॥ ११८ ॥

सूई मुदा पडिघो संभवदल-वट्टिया' चेव ।

अणियोगणिरुत्तीए दिट्ठता होति पंचैते' ॥ ११९ ॥

इदि वयणादो अणियोगस्स घोससण्णो णामेगदेसेण' अणिओगो वुच्चदे । सच्चभामा-
पदेण' अवगम्ममाणत्थस्स तदेगदेसभामासदादो वि अवगमादो । कवं दिट्ठंतसण्णा अणि-

जाता है । उसके साथ रहने अर्थात् उत्पन्न होनेके कारण बोधितबुद्ध आचार्योंमें स्थित
द्वादशांग श्रुतज्ञान ग्रन्थसम कहलाता है । 'नाना मिनेति' अर्थात् नाना रूपसे जो
जानता है उसे नाम कहते हैं; अर्थात् अनेक प्रकारोंसे अर्थज्ञानको नामभेद द्वारा करनेके
कारण एक आदि अक्षरों स्वरूप वारह अंगोंके अनुयोगोंके मध्यमें स्थित द्रव्य श्रुतज्ञानके
भेद नाम है, यह अभिप्राय है । उस नामके अर्थात् द्रव्यश्रुतके साथ रहने अर्थात् उत्पन्न
होनेके कारण शेष आचार्योंमें स्थित श्रुतज्ञान नामसम कहलाता है ।

अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वर्तिका, ये पांच अनुयोगके समानार्थक
नाम हैं ॥ ११८ ॥

अनुयोगकी निरुक्तिमें सूची, मुदा, प्रतिघ, सम्भवदल और वर्तिका, ये पांच
दृष्टान्त हैं ॥ ११९ ॥ (देखिये पु. १, पृ. १५४) ।

इस वचनसे घोष संज्ञावाला अनुयोगका अनुयोग (घोषानुयोग) नामका एक
देश होनेसे अनुयोग कहा जाता है, क्योंकि, सत्यभामा पदसे अवगम्यमान अर्थ उक्त
पदके एक देशभूत भामा शब्दसे भी जाना ही जाता है ।

शंका — अनुयोगकी दृष्टान्त संज्ञा कैसे सम्भव है ?

१ प्रतिपु ' णामभेदेन ' इति पाठः ।

२ नाम अभिधानम्, तेन समं नामसमम् । इदमुक्तं भवति— यथा स्वनाम कस्याचिच्छिक्षितं जितं मितं
परिजितं भवति तथैतदपीत्यर्थः । अनु. टीका सू. १३.

३ प्रतिपु ' सम्भवदलवट्टिया ' इति पाठः ।

४ प. खं. पु. १, पृ. १५४.

५ प्रतिपु ' घोससण्णामेगदेसेण ' इति पाठः । ६ प्रतिपु ' वुच्चदे ण च सच्चभामापदेण ' इति पाठः ।

ओगस्स ? उवमेये उवमाणोवयारादो । वोसेण दव्वाणिओगद्वारेण समं सह वट्ठदि उप्पज्जदि
त्ति घोससमं^१ णाम अणियोगसुदणाणं ।

विभक्त्यन्तभेदेन पढनं सूत्रसमम्, कारकभेदेनार्थसमम्, विभक्त्यन्ताभेदेन ग्रन्थसमम् ।

लिंगात्तियं वयणसमं अत्रणिदुवणिणदमिस्सयं चेव ।

अज्झत्थं च वहित्थं पच्चक्खपरोक्ख सोलसिमे ॥ १२० ॥

एदेहि सोलसवयणेहि पढणं णामसमं । उदात्त-अणुदात्त-सरिदसरभेएण पढणं घोस-
सममिदि के वि आइरिया परूवेति । तण्ण वडदे, अणवत्थापसंगादो । कुदो ? विहत्ति-लिंग-
कारय-काल-पच्चक्ख-परोक्खज्झत्थ-वहित्थभेदाभेदेहि सुदणाणस्स अण्यविहत्तप्पसंगादो । ण
च लिंगादीहि सुदणाणभेदो होदि, तेहि विणा पढणाणुववत्तीदो । एदे आगमस्स णव अत्थाहि-

समाधान—उपमेयमें उपमानका उपचार करनेसे वह भी सम्भव ही है । अर्थात्
अनुयोग उपमेय है और दृष्टान्त उपमान है । उनके इस सम्बन्धके कारण अनुयोगको भी
दृष्टान्त संज्ञा प्राप्त है ।

घोष अर्थात् द्रव्यानुयोगद्वारके समं अर्थात् साथ रहता है अर्थात् उत्पन्न होता है,
इस कारण अनुयोगश्रुतज्ञान घोषसम कहलाता है ।

विभक्त्यन्तभेदसे पढ़ना सूत्रसम, कारकभेदसे अर्थसम और विभक्त्यन्तके
अभेदसे पढ़ना ग्रन्थसम है ।

[तीनों] वचनोंके साथ तीन लिंग, अपनीत, उपनीत व मिश्र अर्थात् उदात्त,
अनुदात्त व स्वरित (?), अभ्यन्तर, बाह्य, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये सोलह हैं ॥ १२० ॥

इन सोलह वचनोंसे पढ़ना नामसम है । उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरोंके
भेदसे पढ़नेका नाम घोषसम है, ऐसा कितने ही आचार्य प्ररूपण करते हैं । किन्तु वह
घटित नहीं होता, क्योंकि, ऐसा माननेपर अनवस्थाका प्रसंग आता है; कारण कि इस
प्रकार विभक्ति, लिंग, कारक, काल, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अभ्यन्तर और बाह्यके भेदाभेदोंसे
श्रुतज्ञानके अनेक प्रकार होनेका प्रसंग आता है । और लिंगादिकोंसे श्रुतज्ञानका भेद
होता नहीं है, क्योंकि, उनके बिना पढ़ना बन नहीं सकता । ये आगमके नौ अर्थाधिकार

१ घोषा — उदात्तादयः, तैर्वीचनान्चार्याभिहितंघोषैः समं घोषसमम् । यथा शृणुया अभिहितास्तथा
शिष्योऽपि यत्र शिक्षते तद् घोषसममिति भावः । अनु. टीका सू. १३.

२ आ. कामलोः 'विभक्त्यन्तभेदेन' इति पाठः ।

यारा परूविदा । एसो अत्थो पयदकदीए जोजेयव्वो । कधमणियोगस्सणियोगा ? ण, कदीए वि संतादिणाणाणियोगसंभवादो । संपधि एदेसु जो उवजोगो तस्स भेदपरूवणइमुत्तर-सुत्तमागदं —

जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियट्ठणा वा
वा अणुपेक्खणा वा थय-थुदि-धम्मकहा वा जे चामण्णे एवमादिया'
॥ ५५ ॥

एदस्सत्थो वुच्चदे— जा तत्थ णवसु आगमसु वायणा अण्णेसिं भवियाणं जहा-सत्तीए गंथत्थपरूवणा उवजोगो णाम । तत्थ आगमे अमुणिदत्थपुच्छा वा उवजोगो । आइ-रियभडारएहि परूविज्जमाणत्थावहारणं पडिच्छणा णाम । सा' वि उवजोगो । एत्थ सच्चत्थ वासदो समुच्चयडो घेत्तव्वो । अविस्सरणडं पुणो पुणो भावागमपरिमलणं परियट्ठणा णाम ।

कहे नये हैं । यह अर्थ प्रकृत कृतिमें जोड़ना चाहिये ।

शंका — अनुयोगके अनुयोग कैसे सम्भव हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, कृतिअनुयोगके भी सत् संख्या आदि नाना अनुयोग सम्भव हैं ।

अब इन आगमोंमें जो उपयोग है उसके भेदोंकी प्ररूपणाके लिये उत्तर सूत्र प्राप्त होता है—

उन नौ आगमोंमें जो वाचना, पृच्छना, प्रतीच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षणा, स्तव, स्तुति, धर्मकथा तथा और भी इनको आदि लेकर जो अन्य हैं वे उपयोग हैं ॥ ५५ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — जो उन नौ आगमोंमें वाचना अर्थात् अन्य भव्य जीवोंके लिये शक्त्यनुसार ग्रन्थके अर्थकी प्ररूपणा की जाती है वह उपयोग है । वहां आगममें नहीं जाने हुए अर्थके विषयमें पूछना भी उपयोग है । आचार्य भट्टारकों द्वारा कहे जानेवाले अर्थके निश्चय करनेका नाम प्रतीच्छना है । वह भी उपयोग है । यहां सद्य जगह वा-शब्दको समुच्चयार्थक ग्रहण करना चाहिये । ग्रहण किया हुआ अर्थ विस्मृत न हो जावे, एतदर्थ बार बार भावागमका परिशीलन करना परिवर्तना है । यह भी उपयोग

१ परियट्ठणा य वायणे पडिच्छणाणपैहणा य धम्मकहा । थुदिमंगलसंयुक्तेः [संयुक्तो] पंचविहो हीं संज्ञाओं । मूला. ५-१९६. X X X से ण तत्थ वायणाए पुच्छणाए-परिअट्ठणाए-धम्मकहाए । नो अणुपेक्खाए । कहा ? अणुवजोगो दव्वमिति कट्ठ । अनु. सू. १३.

२ अप्रती ' सो ' इति पाठः ।

एसा^१ वि उवजोगो । कम्मणिज्जरणड्डमट्ठि-मज्जाणुगयस्स सुदणानस्स परिमलणमणुवेक्खणा-
णाम । एसा^१ वि सुदणानोवजोगो । चारसंगसंधारो सयलंगविसयप्पणादो थवो णाम । तम्हि
जो उवजोगो वायण-पुच्छण-परियट्ठणाणुवेक्खणसरूवो सो वि थओवयारेण । चारसंगेसु
एक्कंगोवसंधारो थुदी णाम । तम्हि जो उवजोगो सो वि थुदि^२ ति धेत्तव्वो । एक्कंगस्स
एगाहियारोवसंहारो धम्मकहा । तत्थ जो उवजोगो सो वि धम्मकहा ति धेत्तव्वो । जे च
अमी अण्णे एवमादिया ति वुत्ते कदि-वेदणादिउवसंधारविसया उवजोगा धेत्तव्वा । उवजोग-
सद्धो जदि वि सुत्ते णत्थि तो वि अत्थावत्तीदो अज्झाहारेदव्वो । एवमेदे अट्ठ सुदणानोव-
जोगा परूविदा ।

संपहि कदीए अट्ठविहोपजोगपरूवणा कीरदे— अण्णेसिं जीवाणं कदीए अत्थ-
परूवणा वायणा । अणवगयत्थपुच्छा पुच्छणा । कहिज्जमाणअत्थावहारणं पडिच्छणा ।
अविस्सरणट्ठं पुणो पुणो कदियट्ठपरिमलणं परियट्ठणा । सांगीभूदकदीए कम्मनिज्जरणमणुसरण-
मणुवेक्खणा । कदीए उवसंहारस्स सयलाणियोगद्वारेसु उवजोगो थवो णाम । तत्थेगणि-

हैं । कर्मोंकी निर्जराके लिए अस्थि-मज्जानुगत अर्थात् पूर्ण रूपसे हृदयंगम हुए श्रुतज्ञानके
परिशीलन करनेका नाम अनुप्रेक्षणा है । यह भी श्रुतज्ञानका उपयोग है । सब अंगोंके
विषयोंकी प्रधानतासे चारह अंगोंके उपसंहार करनेको स्तव कहते हैं । उसमें जो वाचना,
पृच्छना, परिचर्तना और अनुप्रेक्षणा स्वरूप उपयोग है वह भी उपचारसे स्तव कहा जाता
है । चारह अंगोंमें एक अंगके उपसंहारका नाम स्तुति है । उसमें जो उपयोग है वह भी
स्तुति है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । एक अंगके एक अधिकारके उपसंहारका नाम धर्म-
कथा है । उसमें जो उपयोग है वह भी धर्मकथा है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 'इनको
आदि लेकर और जो वे अन्य हैं' इस प्रकार कहनेपर कृति व वेदना आदिके उपसंहार-
विषयक उपयोगोंको ग्रहण करना चाहिये । उपयोग शब्द यद्यपि सूत्रमें नहीं है तो भी
अर्थापत्तिसे उसका अध्याहार करना चाहिये । इस प्रकार ये आठ श्रुतज्ञानोपयोग कहे
गये हैं ।

अथ कृतिके विषयमें आठ प्रकार उपयोगोंकी प्ररूपणा करते हैं— अन्य जीवोंके लिये
कृतिके अर्थकी प्ररूपणा करना वाचना कहलाती है । अज्ञात अर्थके विषयमें पूछना पृच्छना ह ।
प्ररूपित किये जानेवाले अर्थका निश्चय करनेको प्रतीच्छना कहते हैं । विस्मरण न होने
देनेके लिये चार चार कृतिके अर्थका परिशीलन करना परिचर्तना है । सांगीभूत कृतिका
कर्मनिर्जराके लिये अनुस्मरण अर्थात् विचार करना अनुप्रेक्षणा कही जाती है । समस्त
अनुयोगोंमें कृतिके उपसंहारविषयक उपयोगका नाम स्तव है । कृतिके एक अनुयोगद्वार

१ प्रतिपु ' एसा ' इति पाठः ।

२ काप्रतौ ' एसो ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' मदि ' इति पाठः ।

योगद्वासुवजोगो शुदी णाम । एगमग्गणोवजोगो धम्मकहा णाम । एवमेदे कदीए अट्ठुवजोगा परूविदा । सेसं सुगमं । एदेहि वदिरित्तजीवो सुदणाणक्खओवसमसहिओ णट्ठक्खओवसमो वा अणुवजुत्तो णाम । सुत्तम्मि अणुवजुत्तजीवलक्खणमपरूविदं कधं णव्वेदे ? ण, उवजुत्त-परूवणाए तदवगमादो । अणुवजुत्तपरूवणइमुत्तरसुत्ताणि आगयाणि—

णेगम-ववहाराणमेगो अणुवजुत्तो आगमदो दव्वकदी अणेया वा अणुवजुत्तो आगमदो दव्वकदी ॥ ५६ ॥

एत्थ पढ्मो सुत्तावयवो घड्ढे, एगस्साणुवजुत्तो त्ति एगवयणेण णिद्देसादो । ण विदिओ, अणेयाणमणुवजुत्तो त्ति एगवयणपओगादो ? ण एस दोसो, अणेयाणं पि आगमदव्व-कदित्तणेण एयत्तमावण्णाणं एगवयणविसयसंभवेण अणुवजुत्तो त्ति एगवयणणिद्देसोववत्तीदो ।

विषयक उपयोगका नाम स्तुति है । एक मार्गणाविषयक उपयोग धर्मकथा कहलाता है । इस प्रकार ये कृतिके आठ उपयोग कहे गये हैं । शेष प्ररूपणा सुगम है ।

इन उपयोगोंसे भिन्न श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे सहित अथवा नष्ट हुए क्षयोपशमवाला जीव अनुपयुक्त कहलाता है ।

शंका—सूत्रमें अपरूपित यह अनुपयुक्त जीवका लक्षण कैसे जाना जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उपयुक्त जीवकी प्ररूपणा करनेसे उसका ज्ञान स्वयमेव हो जाता है ।

अनुपयुक्त जीवकी प्ररूपणाके लिये उत्तर सूत्र प्राप्त होते हैं—

नैगम और व्यवहार नयकी अपेक्षा एक अनुपयुक्त जीव आगमसे द्रव्यकृति है अथवा अनेक अनुपयुक्त जीव आगमसे द्रव्यकृति हैं ॥ ५६ ॥

शंका—यहां सूत्रका प्रथम अवयव घटित होता है, क्योंकि, उसमें एकके लिये 'अणुवजुत्तो' इस प्रकार एक वचनका निर्देश किया गया है । किन्तु द्वितीय अवयव घटित नहीं होता, क्योंकि, उसमें अनेकोंके लिये 'अणुवजुत्तो' इस प्रकार एक वचनका प्रयोग किया गया है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, आगमद्रव्यकृति रूपसे एकताको प्राप्त अनेकोंके भी एक वचन विषयके सम्भव होनेसे 'अणुवजुत्तो' ऐसा एक वचनका निर्देश घटित होता ही है ।

संगहणयस्स एयो वा अणेया वा अणुवजुत्तो आगमदो दव्वकदी ॥ ५७ ॥

एसो संगहिदत्थग्गाहि त्ति संगहणओ भण्णदि । तेणेत्यसंगहपरूवणाए होदव्वमिदि । अत्थि एत्थ संगहो, जादि-वत्तिण्यत्तवाचियाणं दोण्णं पि आगमदो दव्वकदीणमेयत्तन्भुव-गमादो । पुव्विल्लणएहि एदासिं दोण्णं कदीणमेयत्तं किण्ण इच्छिदं ? जादि-वत्तिगयएगत्ताण-मेगाणेयदव्वाहारणं एगजोग-क्खेमविरहिदाणं एगत्तविरोहादो । एसो णओ पुण संगहणसहाओ जादिव्वत्तिट्ठियसंखाणं एगत्तेण भेदाभावादो दोण्णमागमदो दव्वकदीणं एयत्तमिच्छे ।

उजुसुदस्स एओ अणुवजुत्तो आगमदो दव्वकदी ॥ ५८ ॥

अणेया इदि अवत्थु । कधमुज्जुसुदस्स पज्जवट्ठियस्स दव्वसंभवो ? ण, असुद्धमि

संग्रहनयकी अपेक्षा एक अथवा अनेक अनुपयुक्त जीव आगमसे द्रव्यकृति हैं ॥ ५७ ॥

चूंकि यह संग्रहीत अर्थोंको ग्रहण करता है इसीलिये संग्रहनय कहा जाता है । इसी कारण यहाँ संग्रहकी प्ररूपणा होना चाहिये । यहाँ संग्रह है ही, क्योंकि, जाति और व्यक्तिषी एकताकी वाचक दोनों ही आगमसे द्रव्यकृतियोंको एक स्वीकार किया गया है ।

शंका—पूर्वाक्त नयोंसे इन दोनों कृतियोंको एक क्यों नहीं स्वीकार किया ?

समाधान—एक व अनेक द्रव्योंके आश्रित रहनेवालों तथा एक योग-क्षेम (ईप्सित वस्तुका लाभ और उसका संरक्षण) से रहित जाति व व्यक्तिगत एकताओंकी एकताका विरोध होनेसे उक्त नयोंसे उन दोनों कृतियोंको एक नहीं स्वीकार किया गया । परन्तु यह नय संग्रहण स्वभाव होता हुआ जाति व व्यक्तिगत संख्याओंके एकताकी अपेक्षा कोई भेद न होनेसे दोनों आगमद्रव्यकृतियोंकी एकताको स्वीकार करता है ।

ऋजुसूत्रकी अपेक्षा एक अनुपयुक्त जीव आगमसे द्रव्यकृति है ॥ ५८ ॥

इस नयकी दृष्टिमें 'अनेक' अवस्तु है ।

शंका—पर्यायार्थिक ऋजुसूत्रके द्रव्यकी सम्भावना कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अशुद्ध ऋजुसूत्रनयमें द्रव्यकी सम्भावनाके प्रति कोई

१ प्रतिपु 'अणुवजुत्तो वा' इति पाठः ।

२ अप्रती 'जादिव्वट्ठियसंखाणं', आ-काप्रत्योः 'जादिव्वट्ठियसंखाणं' इति पाठः ।

द्वसंभवं पडि विरोहाभावादो । उजुसुदे किमिदि अण्यसंखा णत्थि ? एयसदस्स एय-
पमाणस्स य एगत्थं मोत्तूण अणेत्येसु एक्ककाले पवुत्तिविरोहादो । ण च सह-पमाणाणि
बहुसत्तिजुत्ताणि अत्थि, एक्कमिह विरुद्धाण्यसत्तीणं संभवविरोहादो एयसंखं मोत्तूण अण्य-
संखाभावादो वा ।

सहणयस्स अवत्तव्वं ॥ ५९ ॥

कुदो ? एदस्स विसए दव्वाभावादो ।

सा सव्वा आगमदो दव्वकदी णाम ॥ ६० ॥

सा सव्वा इदि वयणेण पुव्वुत्तासेसकदीणं गहणं कायव्वं । कधं बहूणमेगवयण-
णिदेसो ? ण एस दोसो, बहूणं पि कदित्तणेण एगत्तमावण्णाणमेगवयणणिदेसोववत्तीदो ।

विरोध नहीं है ।

शंका—अजुसूत्रनयमें अनेक संख्या क्यों नहीं सम्भव है ?

समाधान — चूंकि इस नयकी अपेक्षा एक शब्द और एक प्रमाणकी एक अर्थको
छोड़कर अनेक अर्थोंमें एक कालमें प्रवृत्तिका विरोध है, अतः उसमें अनेक संख्या सम्भव
नहीं है । और शब्द व प्रमाण बहुत शक्तियोंसे युक्त हैं नहीं, क्योंकि, एकमें विरुद्ध अनेक
शक्तियोंके होनेका विरोध है, अथवा एक संख्याको छोड़ अनेक संख्याओंका वहां
अभाव है ।

शब्दनयकी अपेक्षा अवक्तव्य है ॥ ५९ ॥

इसका कारण शब्दनयके विषयमें द्रव्यका अभाव है ।

वह सब आगमसे द्रव्यकृति कहलाती है ॥ ६० ॥

‘ वह सब ’ इस वचनसे पूर्वोक्त समस्त कृतियोंका ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—बहुत कृतियोंके लिये एक वचनका निर्देश कैसे किया ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, कृतिस्वरूपसे अभेदको प्राप्त बहुत
कृतियोंके लिये भी एक वचनका निर्देश युक्तिसंगत है ।

जा सा णोआगमदो दब्बकदी णाम सा तिविहा—जाणुगसरीर-
दब्बकदी भवियदब्बकदी जाणुगसरीर-भवियवदिरित्तदब्बकदी चेदि
॥ ६१ ॥

जा सा णोआगमदो दब्बकदि त्ति वयणेण पुच्चुद्धिद्धा णोआगमदो दब्बकदी संभालिदां
अत्थपरूवणहं । जाणयस्स सरीरं जाणयसरीरं । कस्स जाणओ ? कदिपाहुडस्स । कधमेदं
णव्वदे ? पयरणवसादो । तदेव दब्बकदी जाणुगसरीरदब्बकदी । भविस्सदि त्ति भविया ।
केण भविस्सदि ? कदिपज्जाएण । कुदो णव्वदे ? पयरणादो । सा चेव दब्बकदी भविय-
दब्बकदी । ताहिंतो वदिरित्ता तव्वदिरित्ता, [सा चेव दब्बकदी] तव्वदिरित्तदब्बकदी ।

जो वह नोआगमसे द्रव्यकृति है वह तीन प्रकार है— ज्ञायकशरीर द्रव्यकृति,
भावी द्रव्यकृति और ज्ञायकशरीर-भाविव्यतिरिक्त द्रव्यकृति ॥ ६१ ॥

‘ जो वह नोआगमसे द्रव्यकृति है ’ इस वचनसे पूर्वादिष्ट नोआगमसे द्रव्य-
कृतिका अर्थप्ररूपणाके लिये स्मरण कराया गया है । ज्ञायकका शरीर ज्ञायकशरीर है ।

शंका—किसका ज्ञायक ?

समाधान—कृतिप्राभृतका ज्ञायक ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—प्रकरणके सम्बन्धसे वह जाना जाता है ।

वही (ज्ञायकशरीर स्वरूप) द्रव्यकृति ज्ञायकशरीरद्रव्यकृति कहलाती है । जो
आगे होनेवाली है उसका नाम भावी है ।

शंका—किस रूपसे होनेवाली है ?

समाधान—कृतिपर्यायसे होनेवाली है ।

शंका—यह कहांसे जाना जाता है ?

समाधान—वह प्रकरणसे जाना जाता है ।

वही द्रव्यकृति भावी द्रव्यकृति है ।

उन दोनों कृतियोंसे व्यतिरिक्त तद्रव्यतिरिक्त है, तद्रव्यतिरिक्त ऐसी जो कृति

तिणं णोआगमद्वक्कदीणं सरूवं भणिय तसिं विसेसपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

जा सा जाणुगसरीरद्वक्कदी णाम तिससे इमे अत्थाहियारा भवन्ति— द्विदं जिदं परिजिदं वायणोवगदं सुत्तसमं अत्थसमं गन्धसमं णामसमं घोससमं ॥ ६२ ॥

तत्थ सणिं सणिं सगविसए वट्टमाणो कदिअणियोगो द्विदं णाम । पडिक्खलणेण विणा मंथरगईए सगविसए संचरमाणो कदिअणियोगो जिदं णाम । अट्टुरियाए गईए पडिक्खलणेण विणा आइद्धकुलालचक्कं व सगविसए परिब्भमणक्खमो कदिअणियोगो परिजिदं णाम । पत्तणंदादिसरूवं कदिसुदणं वायणोवगयं णाम । जिणवयणविणिग्गयवीजपदादो अणंतत्थावगहणेण अपक्खरणिद्वेसत्तणेण य पत्तसुत्तणामादो गणहरदेवसुप्पणकदिअणियोगो सुत्तेण सह वुत्तीदो सुत्तसमं । गन्ध-वीजपदेहि विणा संजमवलेण केवलणं व सयंबुद्धेसुप्पणकदिअणियोगो अत्थेण सह वुत्तीदो अत्थसमं णाम । अरहंतवुत्तत्थो गणहरदेवगंधियो सद्धकलावो गंधो णाम । तत्तो समुप्पणो भट्टवाहुआदिथेरेसु वट्टमाणो कदिअणियोगो गंधेण सह

वह तद्व्यतिरिक्तकृति है । अब तीन नोआगमकृतियोंका स्वरूप कहकर उनकी विशेष प्ररूपणाके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

जो वह ज्ञायकशरीर द्रव्यकृति है उसके ये अर्थधिकार हैं— स्थित, जित, परिजित, वाचनोपगत, सूत्रसम, अर्थसम, ग्रन्थसम, नामसम और घोषसम ॥ ६२ ॥

उनमेंसे धीरे धीरे अपने विषयमें वर्तमान कृतिअनुयोग स्थित कहलाता है । विना रुकावटके मन्द गतिसे अपने विषयमें संचार करनेवाला कृतिअनुयोग जित कहलाता है । रुकावटके बिना अति शीघ्र गतिसे घुमाए हुए कुम्हारके चक्रके समान अपने विषयमें जो संचार करनेमें समर्थ है वह कृतिअनुयोग परिजित है । मन्त्रा आदिके स्वरूपको प्राप्त कृतिश्रुतज्ञानका नाम वाचनोपगत है । अनन्त पदार्थोंका ग्रहण करने और अक्षरनिर्देशसे रहित होनेके कारण सूत्र नामको प्राप्त हुए जिन भगवान्के मुखसे निकले वीजपदसे गणधर देवोंमें उत्पन्न हुआ कृतिअनुयोग सूत्रके साथ रहनेसे सूत्रसम कहा जाता है । ग्रन्थ और वीजपदोंके बिना संयमके प्रभावसे केवलज्ञानके समान स्वयंबुद्धोंमें उत्पन्न कृतिअनुयोग अर्थके साथ रहनेसे अर्थसम कहलाता है । अरहन्त देवके द्वारा जिसका अर्थ कहा गया है तथा जो गणधरोंसे गूँथित है उसे शब्दकलापको ग्रन्थ कहते हैं । उससे उत्पन्न हुआ भट्टवाहु आदि स्थविरोंमें रहनेवाला कृतिअनुयोग ग्रन्थके

बुत्तीदो गंथसमं णाम । बुद्धिविहूणपुरिसभेदेण एगक्खरादीहि ऊणकदिअणियोगो णाणा मिणोदीदि बुप्पत्तीदो णाममिदि भण्णदे । तेण सह वट्टमाणो भावंकदिअणियोगो णामसमं णाम । तस्स कदिअणियोगद्वारस्स एगाणियोगो घोसो । ततो समुप्पण्णो कदिअणियोगो ततो असमुप्पज्जिय म्मेदेण समो वि घोससमो । एवं णवविहो कदिअणियोगो परूविदो । जाणया वि एत्तिया चेव, दोण्हं भेदाभावादो ।

तस्स कदिपाहुडजाणयस्स चुद-चइद-चत्तेदेहस्स इमं सरीर-
मिदि सा सव्वा जाणुगसरीरद्वयकदी णाम ॥ ६३ ॥

सयमेव आउक्खएण पदिदसरीरो चुददेहो णाम । उवसग्गेण पादिदसरीरो कदि-
पाहुडजाणओ साहू चइददेहो णाम । भत्तपच्चक्खणिगिणि-पाओवगमणविहाणेहि छंडिदसरीरो
साहू कदिपाहुडजाणओ चत्तेदेहो णाम । एदेसिं कदिपाहुडजाणयाणं चुद-चइद-चत्तेदेहाणं

साथ रहनेसे ग्रन्थसम कहलाता है । बुद्धिविहीन पुरुषोंके भेदसे एक-दो अक्षर आदिकोंसे हीने कृतिअनुयोग ' नाना मिनेति ' अर्थात् जो नाना अर्थोंको ग्रहण करता है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार ' नाम ' कहा जाता है । उसके साथ रहनेवाले भावकृतिअनुयोगको नामसम कहते हैं । उस कृतिअनुयोगद्वारका एक अनुयोग घोष कहलाता है । उससे उत्पन्न कृतिअनुयोगको और उससे न उत्पन्न होकर उसके समान भी कृतिअनुयोगको घोषसम कहते हैं । इस तरह नौ प्रकार कृतिअनुयोगकी प्ररूपणा की है । ज्ञायक भी इतने ही हैं, क्योंकि, उन दोनोंमें कोई भेद नहीं है ।

च्युत, च्यावित और त्यक्त देहवाले उस कृतिप्राभृतज्ञायकका यह शरीर है, ऐसा समझकर वह सब ज्ञायकशरीरद्रव्यकृति कहलाती है ॥ ६३ ॥

आयुके क्षयसे स्वयं ही गिरे हुए (निर्जीव हुए) शरीरवाला ज्ञायक जीव च्युत-
देह कहलाता है । उपसर्गसे गिराये गये शरीरवाला कृतिप्राभृतका जानकार साधु च्यावितदेह कहा जाता है । भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनि और प्रायोपगमन विधानसे शरीरको छोड़नेवाला कृतिप्राभृतका जानकार साधु त्यक्तदेह कहा जाता है । च्युत, च्यावित और त्यक्त

१ जाणुगसरीर भाविंयं तच्चद्विरितं तु हादि जं विदिथं । तत्थ सरीरं तिविहं तियकालगयंति दी-सुगमां ॥
भूदं तु चुदं चइदं चदं ति तेषां × × × । गो. क. ५५-५६. से किं तं जाणयसरीरद्वयवस्सयं ? आवस्सए ति
पयत्थाहिगारजाणयस्स जं सरीरयं ववगदच्चुत-चावित-चत्तेदेहं × × × । अनु. सू. १६.

२ × × × चुदं सपाकेण । पडिदं कदलीघाद-परिच्चाणेणयं होदि ॥ गो. क. ५६.

३ कदलीघादसमेदं चागविहीणं तु चइदमिदि होदि । घादेण अघादेण व पडिदं चाणेण चइमिदि ॥
गो. क. ५८.

इमं सरीरमिदि कट्टु ताणि सव्वसरीराणि जाणुगसरीरदव्वकदी णाम । कथं सरीराणं णोआगम-
दव्वकदिव्ववएसो ? आधारे आधेओवयारादो । जदि एवं तो सरीराणमागमत्तमुवयारेण किण्ण
वुच्चदे ? आगम-णोआगमाणं भेदपदुप्पायण्डं ण' वुच्चदे पओजणाभावादो च । भविय-
वट्ठमाणजाणुगसरीरणोआगमदव्वकदीओ सुत्ते केण णण्ण ण वुत्ताओ ? सरीर-सरीरीणमभेद-
पण्णावएण । कथं सरीरादो सरीरी अभिण्णो ? सरीरदाहे जीवे दाहोवलंभादो, सरीरे भिज्जमाणे
छिज्जमाणे च जीवे वेयणोवलंभादो, सरीरागरिसणे जीवागरिसणदंसणादो, सरीरगमणागमणेहि
जीवस्स गमणागमणदंसणादो, पडियारखंडयाणं व' दोण्णं भेदाणुवलंभादो, एगीभूददुद्धोदयं व'

देहवाले कृतिप्राभृतके ज्ञायकोंका यह शरीर है, ऐसा जानकर वे सब शरीर ज्ञायकशरीर-
द्रव्यकृति कहलाते हैं ।

शंका — शरीरोंकी नोआगमद्रव्यकृति संज्ञा कैसे सम्भव है ?

समाधान—चूंकि शरीर नोआगमद्रव्यकृतिके आधार हैं, अतः आधारमें आधेयका
उपचार करनेसे शरीरोंकी उक्त संज्ञा सम्भव है ।

शंका—यदि ऐसा है तो शरीरोंको उपचारसे आगम क्यों नहीं कहते ?

समाधान—आगम और नोआगमका भेद बतलानेके लिये तथा कोई प्रयोजन न
होनेसे भी शरीरोंको आगम नहीं कहते ।

शंका—भावी और वर्तमान ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्यकृतियोंको सूत्रमें किस
नयसे नहीं कहा ?

समाधान — शरीर और शरीरीका अभेद बतलानेवाले नयसे उन्हें सूत्रमें नहीं कहा ।

शंका — शरीरसे शरीरधारी जीव अभिन्न कैसे है ?

समाधान—चूंकि शरीरका दाह होनेपर जीवमें दाह पाया जाता है, शरीरके
भेदे जाने और छेदे जानेपर जीवमें वेदना पायी जाती है, शरीरके खींचनेमें जीवका
आकर्षण देखा जाता है, शरीरके गमनागमनमें जीवका गमनागमन देखा जाता है,
प्रत्याकार (म्यान) और खण्डक (तलवार) के समान दोनोंके भेद नहीं पाया जाता है,
तथा एक रूप हुए दूध और पानीके समान दोनों एक रूपसे पाये जाते हैं । इस कारण

एगत्तेणुवलंभादो । तदो कद्रिपाहुडजाणओ चेव सररीरमिदि जाणुगभविय-वट्टमाणसररीराणि आगमद्वयकदीए पविट्ठाणि ति णएण पुध ण वुत्ताओ ।

जीव-सररीराणं भेदपणवणिज्जेण णएण ताओ दो वि कदीओ परुविज्जंति । तं जहा— जीवो सररीरादो भिण्णो, अणादि-अणंतत्तादो सररीरे-सादि-सांतभावदंसणादो; सव्व-सररीरेसु जीवस्स अणुगमदंसणादो सररीरस्स तदणुवलंभादो; जीव-सररीराणमकारणत्त [-सकारणत्त] दंसणादो । सकारणं सररीरं, मिच्छत्तादिआसवफलत्तादो; णिककारणो जीवो, जीवभावेण धुवत्तादो सररीरदाहच्छेद-भेदे हि जीवस्स तदणुवलंभादो । तेण दो वि कदीओ मंगलादीसु परुविदाओ ।

जा सा भवियद्वयकदी णाम— जे इमे कद्रि ति अणियोगद्वारा भविओवकरणदाए जो ट्टिदो जीवो ण ताव तं करेदि सा सव्वा भवियद्वयकदी णाम ॥ ६४ ॥

शरीरसे शरीरधारी अभिन्न है ।

इस कारण चूंकि कृतिप्राभृतका जानकार जीव ही शरीर है, अतः भावी और वर्तमान ज्ञायकशरीरोंके आगमद्रव्यकृतिमें प्रविष्ट होनेसे [जीव और शरीरके अभेद प्रज्ञापक] नयसे उन्हें पृथक् नहीं कहा ।

जीव और शरीरके भेदप्रज्ञापनीय नयसे उन दोनों कृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— जीव शरीरसे भिन्न है, क्योंकि, वह अनादि-अनन्त है, परन्तु शरीरमें सादि-सान्तता पायी जाती है; सब शरीरोंमें जीवका अनुगम देखा जाता है, किन्तु शरीरके जीवका अनुगम नहीं पाया जाता; तथा जीव अकारण और शरीर सकारण देखा जाता है । शरीर सकारण है, क्योंकि, वह मिथ्यात्व आदि आत्मव्योक्तोंका कार्य है । जीव कारण रहित है, क्योंकि, वह चेतनभावकी अपेक्षा नित्य है, तथा शरीरके दाह, छेदन और भेदनसे जीवका दहन, छेदन एवं भेदन नहीं पाया जाता । इसीलिये दोनों ही कृतियोंकी मंगल आदिकोंमें प्ररूपणा की गई है ।

जो वह भावी द्रव्यकृति है— जो वे कृतिअनुयोगद्वार हैं उनके भविष्यमें होनेवाले उपादान कारण रूपसे जो जीव स्थित होकर उसे उस समय नहीं करता है वह सब भावी नोआगमद्रव्यकृति कहलाती है ॥ ६४ ॥

१ प्रतिपु ' भविओवकरणदाए गो यपु ण ताव ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' भविओ द्वयकदी ' इति पाठः ।

एदस्स अत्थो वुच्चदे— 'जे इमे कदि त्ति अणियोगद्वारा' एदेण बहुवयणंत-
सुत्तावयवेण कदिअणियोगद्वाराणं बहुत्तं परुविदं । तेसिमणिओगद्वाराणमिदि संबधो कायव्वो,
अण्णहा अत्थाणुववत्तीदो । भवियोवकरणदाए त्ति उवयरणं कारणं । तं च तिविहं भूदं
भवियं वड्डमाणमिदि । तत्थ जो कदिअणियोगद्वाराणं भवियोवकरणदाए भविस्सकाले
एदेसिमणिओगद्वाराणमुवायाणकारणदाए जो द्विदो जीवो ण ताव तं करोदि सा सच्चा भविय-
दब्बकदी णाम ।

जा सा जाणुगसरीर-भवियवदिरित्तदब्बकदी णाम सा अणेय-
विहा । तं जहा — गंथिम-वाइम-वेदिम-पूरिम-संघादिम-अहोदिम-
णिकखोदिम-ओवेल्लिम-उव्वेल्लिम-वण्ण-चुण्ण-गंधविलेवणादीणि जे
चामण्णे एवमादिया सा सच्चा जाणुगसरीर-भवियवदिरित्तदब्बकदी
णाम ॥ ६५ ॥

'जा सा जाणुगसरीरभवियवदिरित्तदब्बकदी णाम' एदं पुच्छुद्विद्वियप्पसंभालणद्वं
परुविदं । तत्थ गंधणकिरियाणिप्फणं फुल्लमादिदब्बं गंथिमं णाम । वायणकिरियाणिप्फणं
सुप्प-पच्छिया-चंगेरि-किदय-चालणि-कंबल-वत्थादिदब्बं वाइमं णाम । सुत्ति धुवकोसपल्लादि-

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— 'जो ये कृतिअनुयोगद्वार हैं' इस बहुवचनान्त
सूत्रांशसे कृतिअनुयोगद्वारोंकी अधिकता बतलाई है । यहां 'उन अनुयोगद्वारोंकी' ऐसा
सम्बन्ध करना चाहिये, क्योंकि, इसके बिना अर्थ नहीं बनता । 'भवियोवकरणदाए'
यहां उपकरणका अर्थ कारण है । वह तीन प्रकार है— भूत, भविष्यत्
और वर्तमान । उनमें जो कृतिअनुयोगद्वारोंके 'भवियोवकरणदाए' अर्थात् भविष्य कालमें
इन अनुयोगद्वारोंके उत्पादन कारण स्वरूपसे जो जीव स्थित होता हुआ उस समय उसे
नहीं करता है वह सब भावी द्रव्यकृति है ।

जो वह ज्ञायकशरीर और भावीसे भिन्न द्रव्यकृति है वह अनेक प्रकार है । वह इस
प्रकारसे है — ग्रन्थिम, वाइम, वेदिम, पूरिम, संघातिम, अहोदिम, निकखोदिम, ओवेल्लिम,
उव्वेल्लिम, वण्ण, चूर्ण, गन्ध और विलेपन आदि तथा और जो इसी प्रकार अन्य हैं वह सब
ज्ञायकशरीर-भाविव्यतिरिक्तद्रव्यकृति कही जाती है ॥ ६५ ॥

'जो वह ज्ञायकशरीर-भाविव्यतिरिक्त द्रव्यकृति है' यह पूर्वोक्त विकल्पोका
स्मरण करानेके लिये प्ररूपणा की है । उनमें गूँथने रूप क्रियासे सिद्ध हुए फूल आदि द्रव्यको
ग्रन्थिम कहते हैं । बुनना क्रियासे सिद्ध हुए सूत्र, टिपारी, चंगेर (एक प्रकारकी बड़ी टोकरी),
किदय (कूतक?), चालनी, कम्बल और वस्त्रादि द्रव्य वाइम कहलाते हैं । वेधन क्रियासे

दव्वं वेदणकिरियाणिप्पणं वेदिमं णाम । तलावालि-जिणहराहिट्ठाणादिदव्वं पूरणकिरिया-
णिप्पणं पूरिमं णाम । कट्टिमजिणभवण-घर-पायार-थूहादिदव्वं कट्टिड्डय-पत्थरादिसंघादणकिरिया-
णिप्पणं संघादिमं णाम । णिंघंज-जंजु-जंजीरादिदव्वं अहोदिमकिरियाणिप्पणमहोदिमं णाम ।
अहोदिमकिरिया सच्चित्त-अच्चित्तदव्वाणं रोवणकिरिए त्ति वुत्तं हेदि । पोक्खरिणी-चावी-कूव-
तलाय-लेण-सुरंगादिदव्वं णिक्खोदणकिरियाणिप्पणं णिक्खोदिमं णाम । णिक्खोदणं खणण-
मिदि वुत्तं हेदि । एक-दु-तिउणंसुत्त-डोरा-वेट्ठादिदव्वमोवेल्लणकिरियाणिप्पणमोवेल्लिमं णाम ।
गंधिम-वाइमादिदव्वाणमुवेल्लेण जाददव्वमुवेल्लिमं णाम । चित्तरयाणमण्णेसिं च वण्णु-
प्पायणकुसलाणं किरियाणिप्पणदव्वं णर-तुरयादिबहुसंठाणं वण्णं णाम । पिट्ठ-पिट्ठिया-
कणिकादिदव्वं चुण्णणकिरियाणिप्पणं चुण्णं णाम । बहूणं दव्वाणं संजोगेणुप्पाइदगंधपहाणं
दव्वं गंधं णाम । घुट्ठे-पिट्ठ-चंदण-कुंकुमादिदव्वं विलेपणं णाम । 'जे च अमी अण्णे एवमादिया'
एदेण वयणेण ओहाणत्थुरणादीणं दुसंजोगादिदव्वाणं च अत्थित्तं परूविदं हेदि । कधमेदेसिं

सिद्ध हुए सूति (सोम निकालनेका स्थान), इंधुव (पंथी अर्थात् भट्टी), कोश और
पल्य आदि द्रव्य वेधिम कहे जाते हैं । पूरण क्रियासे सिद्ध हुए तालावका बांध व जिनग्रहका
चवूतरा आदि द्रव्यका नाम पूरिम है । काष्ठ, ईंट और पत्थर आदिकी संघातन क्रियासे
सिद्ध हुए कृत्रिम जिनभवन, ग्रह, प्राकार और स्तूप आदि द्रव्य संघातिम कहलाते हैं ।
नीम, आम, जामुन और जंजीर आदि अधोधिम क्रियासे सिद्ध हुए द्रव्यको अधोधिम
कहते हैं । अधोधिम क्रियाका अर्थ सच्चित्त व अच्चित्त द्रव्योंकी रोपन क्रिया है, यह तात्पर्य
है । पुष्करिणी, चापी, कूप, तड़ाग, लयन और सुरंग आदि निष्खनन क्रियासे सिद्ध हुए
द्रव्य णिक्खोदिम कहलाते हैं । णिक्खोदनसे अभिप्राय खोदना क्रियासे है । उपवेल्लन
क्रियासे सिद्ध हुए एकगुणे, दुगुणे एवं तिगुणे सूत्र, डोरा व वेष्ट आदि द्रव्य उपवेल्लन
कहलाते हैं । ग्रन्थिम व वाइम आदि द्रव्योंके उद्वेल्लनसे उत्पन्न द्रव्य उद्वेल्लिम कहे जाते
हैं । चित्रकार एवं वर्णोंके उपादनमें निपुण दूसरोंकी क्रियासे सिद्ध मनुष्य व तुरग आदि
अनेक आकार रूप द्रव्य वर्ण कहे जाते हैं । चूर्णन क्रियासे सिद्ध हुए पिष्ट, पिष्टिका और
कणिका आदि द्रव्यको चूर्ण कहते हैं । बहुत द्रव्योंके संयोगसे उत्पादित गन्धकी प्रधानता
रखनेवाले द्रव्यका नाम गन्ध है । घिसे व पीसे गये चन्दन और कुंकुम आदि द्रव्य विलेपन
कहे जाते हैं । ' इनको आदि लेकर जो वे और द्रव्य हैं ' इस वचनसे अवधान व सुरण
अर्थात् जोड़कर व काटकर बनाने व द्विसंयोगादि द्रव्योंके अस्तित्वकी प्ररूपणा होती है ।

द्व्याणं कदिसदो परूवओ ? ण एस दोसो, कम्मकारए वि कदिसद्वणिप्फत्तीदो । एसा सव्वा वि जाणुगसरीर-भवियवदिरित्तदव्वकदी णाम ।

जा सा गणणकदी णाम सा अणेयविहा । तं जहा — एओ णोकदी, दुवे अवत्तव्वा कदि त्ति वा णोकदि त्ति वा, तिप्पहुडि जाव संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा कदी, सा सव्वा गणणकदी णाम ॥ ६६ ॥

एगो णोकदी । कुदो ? जो रासी वग्गिदो संतो वड्ढिदि सगवग्गादो संगवग्गमूलमवणिय वग्गिज्जमाणो वुड्ढिमल्लियइ सो कदी णाम' । एगो वग्गिज्जमाणो ण वड्ढिदि, मूल अवणिदे णिम्मूलं फिट्ठिदि । तेण एगो णोकदि त्ति वुत्तं । एसो एगो गणणपयारो दरिसिदो । दोरूवेसु वग्गिदेसु वड्ढिदंसणादो दोणणं ण णोकदित्तं । ततो मूलमवणिय वग्गिदे ण वड्ढिदि, पुव्विल्ल-रासी चेव हेदि; तेण दोणणं ण कदित्तं पि अत्थि । एदं मणेण अवहारिय दुवे अवत्तव्वमिदि

शंका—कृति शब्द इन सब द्रव्योंका प्ररूपक कैसे है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, कर्म कारकमें भी कृति शब्द सिद्ध है ।

यह सब ही ज्ञायकशरीर-भाविव्यतिरिक्त द्रव्यकृति कहलाती है ।

जो वह गणनकृति है वह अनेक प्रकार है । वह इस प्रकारसे है — एक संख्या नोकृति है, दो संख्या कृति और नोकृति रूपसे अवक्तव्य है, तीनको आदि लेकर संख्यात, असंख्यात व अनन्त कृति कहलाते हैं; वह सब गणनकृति है ॥ ६६ ॥

एक यह नोकृति है, क्योंकि, जो राशि वर्गित होकर वृद्धिको प्राप्त होती है और अपने वर्गमेंसे अपने वर्गके मूलको कम कर वर्ग करनेपर वृद्धिको प्राप्त होती है उसे कृति कहते हैं । एक संख्याका वर्ग करनेपर वृद्धि नहीं होती तथा उसमेंसे वर्गमूलके कम कर देनेपर वह निर्मूल नष्ट हो जाती है । इस कारण एक संख्या नोकृति है, ऐसा सूत्रमें कहा है । यह 'एक' गणनाका प्रकार बतलाया गया है ।

दो रूपोंका वर्ग करनेपर चूंकि वृद्धि देखी जाती है अतः दोको नोकृति नहीं कहा जा सकता है । और चूंकि उसके वर्गमेंसे मूलको कम करके वर्गित करनेपर वह वृद्धिको प्राप्त नहीं होती, किन्तु पूर्वोक्त राशि ही रहती है, अतः 'दो' कृति भी नहीं हो सकता । इस बातको मनसे निश्चित कर 'दो संख्या अवक्तव्य है' ऐसा सूत्रमें निर्दिष्ट किया है ।

१ यस्य कृतौ मूलमपनीय शेषे वर्गिते वर्धिते (वर्धते) सा कृतिरिति । त्रि. सा. (टीका) १६.

वुत्तं । एसा विदियगणणजाई । तिप्पहुडि जा संखा वग्गिदे वड्ढुदि, तत्थ मूलमवणिय वग्गिदे वि वड्ढिमल्लियइ; तेण सा कदि त्ति वुत्ता । एदं तदियगणणकदिविहाणं । ण चउत्थी गणण-कदी अत्थि, तीहिंतो वदिरित्तगणणाणुवलंभादो । एगो एगो त्ति गणिज्जमाणे णोकदिगणणा । दो-दो त्ति गणिज्जमाणे अवत्तच्चा गणणा । तिण्णि-चत्तारि-पंचादिककमेण गणिज्जमाणे कदि-गणणा त्ति । तेण गणणाकदी तिविधा चेव । अधवा कदिगयसंखेज्जासंखेज्ज-अणंतभेदेहि अणयविहा । तत्थ एगादिएगुत्तरकमेण वड्ढिदरासी णोकदिसंकलणा । दोआदिदोउत्तरकमेण वड्ढि गदा अवत्तच्चसंकलणा । तिण्णि-चत्तारिआदीसु अण्णदरमादिं कादूण तेसु चेव वण्णदरुत्तर-कमेण गदवड्ढी कदिसंकलणा । एदेसिं दुसंजोगेण अण्णाओ छस्संकलणाओ उप्पाएअच्चाओ । एवं रिणगणणाओ णवविहा उप्पाएयच्चा ।

यह द्वितीय गणनाकी जाति है । तीनको आदि लेकर जो संख्या वर्गित करनेपर चूंकि बढ़ती है और उसमेंसे वर्गमूलको कम करके पुनः वर्ग करनेपर भी वृद्धिको प्राप्त होती है इसी कारण उसे कृति ऐसा कहा है । यह तृतीय गणनकृतिका विधान है । चतुर्थ कोई गणन-कृति नहीं है, क्योंकि, तीनसे अतिरिक्त गणना पायी नहीं जाती । एक-एक ऐसी गणना करनेपर नोकृतिगणना, दो-दो इस प्रकार गणना करनेपर अवक्तव्यगणना, तथा तीन चार व पांच इत्यादि क्रमसे गणना करनेपर कृतिगणना कहलाती है । अत एव गणना-कृति तीन प्रकार ही है । अथवा कृतिगत संख्यात, असंख्यात व अनन्त भेदोंसे गणना-कृति अनेक प्रकार है । उनमें एकको आदि लेकर एक अधिक क्रमसे वृद्धिको प्राप्त राशि नोकृतिसंकलना है । दोको आदि लेकर दो अधिक क्रमसे वृद्धिको प्राप्त राशि अवक्तव्य-संकलना है । तीन व चार इत्यादिकोंमें अन्यतरको आदि करके उनमें ही अन्यतरके अधिक क्रमसे वृद्धिगत राशि कृतिसंकलना है । इनके द्विसंयोगसे अन्य छह संकलनाओंको उत्पन्न कराना चाहिये । इसी प्रकार नौ ऋणगणनाओंको उत्पन्न कराना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहां नौ संकलनाओंका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया प्रतीत होता है—

१ नोकृतिसंकलना—जैसे १, २, ३, ४, ५, ६, ७ आदि ।

२ अवक्तव्यसंकलना—२, ४, ६, ८, १०, १२, १४ आदि ।

३ कृतिसंकलना—३, ६, ९, १२ आदि; ४, ८, १२, १६ आदि; ५, १०, १५, २० इत्यादि ।

इन तीनोंके ६ द्विसंयोगी भंगे— ४ नोकृति-अवक्तव्य ५ नोकृति-कृति ६ अवक्तव्य-कृति ७ अवक्तव्य-नोकृति ८ कृति-नोकृति ९ कृति-अवक्तव्य ।

इन्हीं नौ संकलनाओंको विपरीत क्रमसे ग्रहण करनेपर ऋणगणनाओंके नौ प्रकार उत्पन्न होते हैं ।

जेणेदं सुत्तं देसामासियं तेणेत्थ धण-रिण-धणरिणगणिदं सव्वं वत्तव्वं । संकलणा-वग्ग-वग्गावग्ग-धण-धणाधणरासिउप्पत्तिणिमित्तगुणयारो कलासवण्णा^१ जाव ताव भेयपइण्णय-जाईओ तेरासिय-पंचरासियादि सव्वं धणगणिदं । वोकलणा भागहारो खयकं च कलासवणादिसुत्त-पडिवद्धसंखा^२ च रिणगणिदं । गइणिवित्तिगणिदं^३ कुट्टाकारादिगणिदं^४ च धण-रिणगणिदं । एवं तिनिहं पि गणिदमेत्थ परूवेदव्वं ।

अथवा कदिमुवलक्खणं काऊण गणणा-संखेज्ज-कदीणं पि एत्थ लक्खणं वत्तव्वं । तं जहा— एकमादिं कादूण जाव उक्कस्साणंते त्ति ताव गणणा त्ति वुच्चदे । दोआदिं कादूण जाउक्कस्साणंते त्ति जा गणणा संखेज्जमिदि भण्णदे । तिणिआदिं कादूण जाउक्कस्साणंते त्ति गणणा कदि त्ति भण्णदे । वुत्तं च—

एयादीया गणणा दोआदीया वि जाण संखे त्ति ।

तीयादीणं नियमा कदि त्ति सण्णा दु वोद्धव्वा^५ ॥ १२१ ॥

चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है अत एव यहां धन, ऋण और धन-ऋण गणित सबको कहना चाहिये । संकलना, वर्ग, वर्गावर्ग, धन व घनाघन राशियोंकी उत्पत्तिमें निमित्त-भूत गुणकार और कलासवर्ण तक भेदप्रकीर्णक जातियां (देखो गणितसारसंग्रह द्वितीय कलासवर्ण व तृतीय प्रकीर्णक व्यवहार), त्रैराशिक व पंचराशिक आदि सब धन-गणित हैं । व्युत्कलना, भागहार और क्षय रूप कलासवर्ण आदि सूत्रप्रतिबद्ध संख्यायें ऋणगणित हैं । गतिनिवृत्तिगणित और कुट्टिकार आदि गणित धन-ऋणगणित है । इस प्रकार तीनों ही प्रकारके गणितकी यहां प्ररूपणा करना चाहिये ।

अथवा कृतिका उपलक्षण कर गणना, संख्यात व कृति, इनका भी यहां लक्षण कहना चाहिये । वह इस प्रकार है—

एको आदि करके उत्कृष्ट अनन्त तक 'गणना' कही जाती है । दोको आदि करके उत्कृष्ट अनन्त तककी गणना 'संख्यात' कहलाती है । तीनको आदि करके उत्कृष्ट अनन्त तककी गणना 'कृति' कहलाती है । कहा भी है—

एक आदिकको गणना और दो आदिको संख्या समझो । तथा तीन आदिककी नियमसे 'कृति' यह संज्ञा जानना चाहिये ॥ १२१ ॥

१ प्रतिपु, 'कलासवण्णणा' इति पाठः । भाग-प्रभागान्वय भागभागो भागानुबन्धः परिकीर्तितोऽतः । भागापवाहः सह भागमात्रः पड् जातयोऽपुत्र कलासवर्णे ॥ गणितसारसंग्रह २-५४.

२ प्रतिपु 'णसंवग्गादिसुत्त-' इति पाठः ।

३ गतिनिवृत्तौ सूत्रम्— निज-निजकालोद्धृतयोगमननिवृत्त्योर्विशेषणाज्जाताम् । दिनशब्दगतिं न्यस्य त्रैराशिकविधिमतः कुर्यात् ॥ गणितसारसंग्रह ४-२३.

४ गणितसारसंग्रह ५, ७९-२०८. लीलावती २. ६५-७७

५ वि. सा. १६.

एत्थ ताव कदि-णोकदि-अवत्तव्वाणमुदाहरणडमिमा परवणा कीरदे । तीए कीर-
माणए ओघाणुगमो पढमाणुगमो चरिमाणुगमो संचयाणुगमो चेदि चत्तारि अणियोगद्वाराणि ।
तत्थ ताव ओघाणुगमो वुच्चदे— सो दुविहो मूलोघाणुगमो चेदि आदेसोघाणुगमो चेदि ।
तत्थ मूलोघाणुगमो वुच्चदे । तं जहा— जीवा कदी । कुदो एदस्स मूलोघत्तं ? सुद्धसंगह-
वयणादो । आदेसोघो वुच्चदे— गदियादिचौदसमगणद्वारेणु सुद्धजीवा कदी, तत्थ सुद्धग-
दोजीवाणुवलंभादो । णवरि मणुसअपञ्जत्त-वेउच्चियमिस्साहारदुग-सुद्धमसांपराइयसुद्धिसंजद-
उवसम-सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छादिडिजीवा सिया कदी, तिण्हुडिउवरिमसंखाए कदाचि-
दुवलंभादो । सिया णोकदी, एदेसु अडसु कदाचि एगस्सेव जीवस्स दंसणादो । सियावत्तव्व-
कदी, कदाचि दोणं चवुवलंभादो । एवमोघाणुगमो समत्तो ।

पढमाणुगमो वुच्चदे— कस्स पढमसमए एसो अणुगमो कीरदे ? मरगणाणं । एत्थ

यहां कृति, नोकृति और अवक्तव्यके उदाहरणोंके लिये यह प्ररूपणा की जाती है ।
उस प्ररूपणाके करनेमें ओघानुगम, प्रथमानुगम, चरमानुगम और संचयानुगम, ये चार
अनुयोगद्वार हैं । उनमें पहले ओघानुगमको कहते हैं । वह दो प्रकार है— मूलोघानुगम
और आदेशोघानुगम । उनमें मूलोघानुगमको कहते हैं । वह इस प्रकार है— जीव
कृति हैं ।

शंका— यह मूलोघ कैसे है ?

समाधान— चूंकि यह कथन शुद्ध संग्रहनयकी अपेक्षा किया गया है, अतः वह
मूलोघ है ।

आदेशोघकी प्ररूपणा करते हैं— गति आदि चौदह मार्गणास्थानोंमें स्थित जीव
कृति हैं, क्योंकि, उनमें शुद्ध एक दो जीव नहीं पाये जाते । विशेषता इतनी है कि मनुष्य
अपर्याप्त, वैक्रियकमिश्र, आहारद्विक, सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि,
सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव कथंचित् कृति हैं, क्योंकि, वे तीन आदि
उपरिम संख्यामें कभी पाये जाते हैं । कथंचित् वे नोकृति हैं, क्योंकि, इन आठ स्थानोंमें
कभी एक ही जीव देखा जाता है । कथंचित् अवक्तव्य कृति हैं, क्योंकि, कभी वहां दो ही
जीव पाये जाते हैं । इस प्रकार ओघानुगम समाप्त हुआ ।

प्रथमानुगमकी प्ररूपणा करते हैं—

शंका— किसके प्रथम समयमें यह अनुगम किया जाता है ?

समाधान— मार्गणाओंके प्रथम समयमें यह अनुगम किया जाता है ।

अपढमाणुगमो वि कायव्वो । कुदो ? पढमापढमाणमणोण्णाविणाभावादो । णेरइया पढमसमए सिया कदी । कुदो ? णेरइयाणमुवक्कमणंतरं जहणेण एगसमओ, उक्कस्सेण संखेज्जा-वल्लियाओ, एदेणंतरेणुप्पज्जमाणणेरइयाणं तिप्पहुडिसंखेज्जाणमण्णो आउपढमसमए उव-लंभादो । सिया णोकदी, एदेणेवंतरेणुप्पणपढमसमए कदाचि एक्कस्सेव जीवस्सुवलंभादो । सियावत्तव्वकदी, कदाचि णेरइयपढमसमए दोण्णं जीवाणं उवलंभादो । अपढमा कदी चेव, सगाउअविदियसमयप्पहुडि जाव चरिमसमओ त्ति एसो अपढमकालो; एत्थ द्विदजीवाणं णिय-मेण सव्वकालमसंखेज्जत्तवलंभादो । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-सव्वदेव-मणुस-मणुस-पज्जत्त-मणुसिणी-एइंदिय^१ व्वविगल्लिंदिय-सव्वपंचिंदिय-वादरपुढवि-वादरआउ-वादरतेउ-वादर-वाउ-वादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्त-तस-तसपज्जत्तापज्जत्त-पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगि-वेउव्वियकायजोगि-इत्थि-पुरिस-णवुंसयावगदवेद-अकसाय-सव्वणाण-सामाइयच्छेदो-वड्ढावण-परिहार-जहाक्खाद-संजमासंजम-संजम-चक्खुदंसणी-तेउ-पम्म-सुकलेस्सिय-सम्माइडि-खइय-वेदगसम्माइडि-मिच्छाइडि-सण्णि-असण्णीणं पि वत्तव्वमेदेसिमुवक्कमणंतरदंसणादो ।

यहां अप्रथमानुगम भी करना चाहिये, क्योंकि, प्रथम और अप्रथमके परस्पर अविनाभाव है । नारकी जीव प्रथम समयमें कथंचित् कृति हैं, क्योंकि, नारकियोंके उप-क्रमका अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे संख्यात आवलियां हैं; इस अन्तरसे उत्पन्न होनेवाले नारकी अपनी आयुके प्रथम समयमें तीनको आदि लेकर संख्यात पाये जाते हैं । कथंचित् वे नोकृति हैं, क्योंकि, इसी अन्तरसे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें कभी एक ही जीव पाया जाता है । कथंचित् वे अवक्तव्यकृति हैं, क्योंकि, कदाचित् नारकी होनेके प्रथम समयमें दो जीव पाये जाते हैं । अप्रथमसमयवर्ती नारकी कृति ही हैं, क्योंकि, अपनी आयुके द्वितीय समयसे लेकर अन्तिम समय तक यह अप्रथम काल है, इस कालमें स्थित जीव नियमसे सर्व काल असंख्यात पाये जाते हैं ।

इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब देव, मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पंचेन्द्रिय, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर तेजकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, वैक्रियिककाय-योगी, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, अपगतवेद, अकपाय, सर्व ज्ञान, सामायिकछेदोप-स्थापनासंयम, परिहारशुद्धिसंयम, यथाख्यातसंयम, संयमासंयम, संयम, चक्षुदर्शनी, तेजोलेइया, पद्मलेइया, शुक्ललेइया, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, संझी और असंझी, इनके भी कहना चाहिये, क्योंकि, इनके उपक्रमणका अन्तर देखा जाता है ।

कधमेइंदियाणं कायजोगीणं च णोकदि-अवत्तव्वकदीओ होंति ? ण, तसेहि पंचमण-वचि-जोगेहि य सांतरमेइंदिय-कायजोगेसुप्पज्जंताणं तदुवलंभादे । मणुसापज्जत्त-वेउव्वियमिस्साहार-दुग-सुहुमसांपराइय-उवसमसम्माइडि-सासणसम्माइडि-सम्माभिच्छाइडि पढमापढमसमएसु सिया कदी सिया णोकदी सिया अवत्तव्वा । कुदे ? सांतररासित्तादे । सव्ववादेइंदिय-सव्वसुहुमे-इंदिय-पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-वणप्फदिकाइय-णिगोदजीव-सव्वसुहुम-वादरपुढविकाइय-वादरआउकाइय-वादरतेउकाइय-वादरवाउकाइय-वादरवणप्फदिकाइय-वादर-णिगोदजीव-पत्तेयसरीरा तेसिं सव्वेसिमपज्जत्ता ओरालियकायजोगि-ओरालियमिस्सकायजोगि-कम्म-इयकायजोगि-चत्तारिकसाय-किण्ण-णील-काउलेस्सिय-आहार-अणाहारा पढमापढमसमएसु णियमा कदी, एदेसु एग-दोजीवाणं केवलणं सव्वकालं पवेसाभावादे । अचक्खुदंसणीसु पढमापढम-वियप्पो णत्थि, केवलदंसणीणमचक्खुदंसणीसरूवेण परिणामाभावादे । भवाभवसिद्धियाणं पि पढमापढमभंगो णत्थि, सिद्धाणं भवसिद्धियसरूवेण परिणामाभावादां, भवसिद्धियाणमभव-

शंका — एकेन्द्रियों और काययोगियोंके नोक्तति और अवक्तव्यकृति कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, क्रमसे ब्रह्म और पांच मनोयोगी एवं पांच वचन-योगियोंसे अन्तर सहित एकेन्द्रियों और काययोगियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके नोक्तति और अवक्तव्यकृति पायी जाती है ।

मनुष्य अपर्याप्त, वैकित्थिकमिश्र, आहारकट्टिक, सूक्ष्मसाम्परायिक, उपशमसम्य-गृह्ण, सासादनसम्यगृह्ण और सम्यग्मिथ्याहृष्टि प्रथम और अप्रथम समयोंमें कथंचित् कृति, कथंचित् नोक्तति और कथंचित् अवक्तव्यकृति हैं, क्योंकि, ये सान्तर राशियां हैं । सब वादर एकेन्द्रिय, सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायु-कायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, सब सूक्ष्म और वादर पृथिवीकायिक, वादर जल-कायिक, वादर तेजकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वनस्पतिकायिक, वादर निगोद जीव और प्रत्येकशरीर तथा उन सबके अपर्याप्त, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-काययोगी, कर्मणकाययोगी, चार कपाय, कृष्ण, नील व कापोत लेश्यावाले, आहारक और अनाहारक, ये प्रथम व अप्रथम समयमें नियमसे कृति हैं, क्योंकि, इनमें सर्व काल केवल एक दो जीवोंके प्रवेशका अभाव है । अचक्षुदर्शनियोंमें प्रथम व अप्रथम विकल्प नहीं है, क्योंकि, केवलदर्शनी जीव अचक्षुदर्शनी रूपसे परिणमन नहीं करते । भव्यसिद्धिक और अभव्यसिद्धिक जीवोंके भी प्रथम व अप्रथम विकल्प नहीं है, क्योंकि, सिद्ध जीवोंका भव्यसिद्धिक रूपसे परिणमन नहीं होता, तथा भव्यसिद्धिकोंका अभव्यसिद्धिक रूपसे

१ प्रतिष्ठा ' एदेसु गदो जीवाणं ' इति पाठः ।

सिद्धियसरूवेण परिणामाभावादो । खइयसम्मादिद्धि-केवलणाणि-केवलदंसणि-णवभवसिद्धि-णव-
अभवसिद्धि-णवसणि-णवअसणीणं पढमापढमभंगो अत्थि । कारणं सुगमं । एवं पढमाणु-
गमो समत्तो ।

चरिमाणुगमं वत्तइस्सामो — चरिमाणुगमो अचरिमाणुगमेण सह वत्तव्वो, दोण्ण-
मणोण्णाविणाभावादो । णेरइया चरिमसमए सिया कदी, तिप्पहुडिसंखेज्जासंग्गेज्जाणं णारग-
चरिमसमए कदाचिदुवलंभादो । सिया णोकदी, चरिमसमए वट्टमाणणारयस्स कदाचि एक-
स्सेव-दंसणोदो । सिया अवत्तव्वं, कदाचि तत्थ दोण्णं चेवुवलंभादो । णेरइया अचरिमा
णियमा कदी, तत्थ सुद्धेग-दोर्जीवाणमभावादो । एवं जघा पढमाणुगमो परूविदो तथा परूवे-
दव्वो । णवरि भवसिद्धिया अचक्खुदंसणी च चरिमसमए सिया, कदी सिया णोकदी, सिया
अवत्तव्वं । कुदो ? एदेसिं चरिमस्स सांतरत्तुवलंभादो । अचरिमसमए णियमा कदी । खइय-
सम्मादिद्धि-केवलणाणि-णवभवसिद्धि-णवअभवसिद्धि-णवसणि-णवअसणीणं चरिमाचरिमविसे-
सणं णत्थि, सिद्धाणमसिद्धत्तपरिणामाभावादो । एवं चरिमाणुगमो समत्तो ।

संचयाणुगमं वत्तइस्सामो — एत्थ संतपरूवणा दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो

परिणमन नहीं होता । क्षायिकसम्यग्दृष्टि, केवलज्ञानी, केवलदर्शनी, न भव्यसिद्धिक न
अभव्यसिद्धिक तथा न संज्ञी न असंज्ञी जीवोंके प्रथमाप्रथम भंग है । कारण सुगम है ।
इस प्रकार प्रथमानुगम समाप्त हुआ ।

चरमानुगमको कहते हैं — चरमानुगमको अचरमानुगमके साथ कहना चाहिये,
क्योंकि, दोनोंके परस्पर अविनाभाव है । नारकी जीव चरम समयमें कथंचित् कृति हैं,
क्योंकि, तीनको आदि लेकर संख्यात व असंख्यात नारकी अन्तिम समयमें कदाचित् पाये
जाते हैं । कथंचित् नोकृति हैं, क्योंकि, कदाचित् चरम समयमें वर्तमान नारकी एक ही
देखा जाता है । कथंचित् अवक्तव्य हैं, क्योंकि, कदाचित् वहां दो ही नारकी पाये जाते हैं ।

अचरम समयवर्ती नारकी नियमसे कृति हैं, क्योंकि, अचरम समयमें शुद्ध एक
दो जीवोंका अभाव है । इस प्रकार जैसे प्रथमानुगमकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार
प्ररूपणा करना चाहिये । विशेषता इतनी है कि भव्यसिद्धिक और अचक्षुदर्शनी चरम
समयमें कथंचित् कृति, कथंचित् नोकृति और कथंचित् अवक्तव्य हैं; क्योंकि, इनके चरम
समयके सान्तरता पायी जाती है । अचरम समयमें नियमसे कृति हैं । क्षायिकसम्यग्दृष्टि,
केवलज्ञानी, न भव्यसिद्धिक न अभव्यसिद्धिक और न संज्ञी न असंज्ञी जीवोंके चरमा-
चरम विशेषण नहीं है, क्योंकि, सिद्ध जीवोंके असिद्धत्ता रूप परिणमन करनेका अभाव
है । इस प्रकार चरमानुगम समाप्त हुआ ।

संचयानुगमको कहते हैं — इस संचयानुगमकी प्ररूपणामें सत्प्ररूपणा, द्रव्य-

पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पावहुगाणुगमो चेदि अट्ठ अणियोग-
दाराणि हवन्ति । तत्थ संतपरूवणदाए अत्थि णिरयगदीए णेरइया कदि-णोकदि-अवत्तव्व-
संचिदा । एवं सव्वणिरय-सव्वतिरिक्ख-सव्वदेव-मणुसअपज्जत्तवदिरित्तसव्वमणुस-एइंदिय-
सव्वविगल्लिंदिय-सव्वपंचिंदिय-वादरपुढविकाइय-वादरआउकाइय-वादरतेउकाइय-वादरवाउ-
काइय-वादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्त-सव्वतस-पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगि-
वेउव्वियकायजोगि-तिण्णिवेद-अवगदवेद-अकसाय-अट्ठणाण-सुहुमसांपराइयवदिरित्तसव्वसंजम-
चक्खुदंसणि-ओहिंदंसणि-केवलदंसणि-तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सा-सम्मादिट्ठि-खइयसम्मादिट्ठि-वेदग-
सम्मादिट्ठि-मिच्छादिट्ठि-साण्णि-असण्णीणं वत्तव्वं, एदेसु सांतस्सव्वकमणदंसणादो । आहार-
दुग-वेउव्वियमिस्स-सुहुमसांपराइय-उवसमसम्मत्त-मणुसअपज्जत्त-सासणसम्माइट्ठि-सम्मामिच्छा-
इही कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा सिया अत्थि सिया णत्थि । अवसेसासु मग्गणासु अत्थि
कदिसंचिदा, णोकदि-अवत्तव्वेहि एदेसु पवेसाभावादो^१ । एवं संतपरूवणा समत्ता ।

दव्वपरूवणाणुगमं वत्तइस्सामो— णिरयगदीए णेरइया कदिसंचिदा दव्वपमाणेण

प्रमाणानुगमं, क्षेत्रानुगमं, स्पर्शानुगमं, कालानुगमं, अंतरानुगमं, भावानुगमं और अल्प-
बहुत्वानुगमं, ये आठ अनुयोगद्वार हैं । उनमें सत्प्ररूपणाकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकी
जीव कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब
वेव, मनुष्य अपर्याप्तोंको छोड़कर शेष सब मनुष्य, एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पंचे-
न्द्रिय, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर तेजकायिक, वादर वायुकायिक, वादर
वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, सब ब्रह्म, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काय-
योगी, वैक्रियिककाययोगी, तीन वेद, अपगतवेद, अकपाय, आठ ज्ञान, सूक्ष्म साम्परायिकको
छोड़ सब संयम, चक्षुदर्शनी, अधिदर्शनी, केवलदर्शनी, तेज, पद्म व शुफल लेख्या,
सम्यग्दृष्टि, श्लोयिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, संक्षी और असंक्षी जीवोंके
कहना चाहिये, क्योंकि, इनमें सान्तर उपक्रमण देखा जाता है । आहारद्विक, वैक्रियिक-
मिथ्र, सूक्ष्मसाम्परायिक, उपशमसम्यक्त्व, मनुष्य अपर्याप्त, सासादनसम्यग्दृष्टि और
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव कृति, नोकृति व अवक्तव्य संचित कथंचित् हैं और कथंचित् नहीं
हैं । शेष मार्गणाओंमें कृतिसंचित हैं, क्योंकि, इनमें नोकृतिसंचित और अवक्तव्यसंचितोंके
प्रवेशका अभाव है । इस प्रकार सत्प्ररूपणा समाप्त हुई ।

द्रव्यप्रमाणानुगमको कहते हैं— नरकगतिमें नारकी जीव द्रव्यप्रमाणसे कृति-

^१ प्रतिषु ' पदेसाभावादो ' इति पाठः ।

केवडिया ? असंखेज्जा पदरस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ सेडीओ । णोकदि-अवत्तच्च-
संचिदा केवडिया ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । तं कधं ? बुच्चदे— संखेज्जा-
वलियाओ अंतरिदूण एगो वा दो वा तिणिण वा जा उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदि-
भागमेत्तो वा णिरंतस्वक्कमणकालो लब्भदि त्ति कट्ठु णिरयाउवपढमसमयप्पहुडि संखेज्जा-
वलियमेत्तमुवक्कमणंतरं ठाडूण तस्सुवरि आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तोणिरंतरउवक्कमण-
कालयणा कायच्चा । एवं पुणो पुणो कायच्चो जाव अप्पिदाउअसंवुत्तमिदि । संपदि
एदेसिमंतराणं विच्चालेसु द्विदउवक्कमणकालाणमाणयणं बुच्चदे— संगुवक्कमणकालसहिदं
संखेज्जावलियमेत्तंतरमिह जदि आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तुवक्कमणकालो लब्भदि तो
अप्पिदाउअम्मि मिस्सीभूदउवक्कमणाणुवक्कमणकालम्मि केत्तियमुवक्कमणकालं लमामो त्ति
आवलियाए असंखेज्जदिभागगुणिदसंखेज्जपलिदोवमसु संखेज्जावलियमेत्तेणोवट्ठिदेसु सच्चो-
वक्कमणकालो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो आगच्छदि । एसो कदि-णोकदि-अवत्तच्च्वाणं
तिण्णं पि कालो । एत्थ सच्चत्थोवो अवत्तच्चुवक्कमणकालो । णोकदिउवक्कमणकालो
विसेसाहिओ । कदिउवक्कमणकालो असंखेज्जगुणो । पुणो णोकदिकालमेगरूवेण गुणिदे

संचित कितने हैं ? असंख्यात हैं जो कि जगप्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात
जगश्रेणी रूप हैं । नोक्कतिसंचित और अवक्तव्यकृतिसंचित नारकी कितने हैं ? पल्योपमके
असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ।

शंका—पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण कैसे हैं ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि संख्यात आवलियोंका अन्तर करके
एक दो तीन [समय] अथवा उत्कर्षसे आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र निरन्तर
उपक्रमण काल प्राप्त होता है, ऐसा जानकर नारकायुके प्रथम समयको लेकर संख्यात
आवली मात्र उपक्रमणके अन्तरको स्थापित कर उसके ऊपर आवलीके असंख्यातवें
भागमात्र निरन्तर उपक्रमणकालकी रचना करना चाहिये । इस प्रकार विवक्षित आयुके
समाप्त होने तक बार बार करना चाहिये । अब इन अन्तरालोंके बीचमें स्थित
उपक्रमणकालोंके लानेके विधानको कहते हैं— यदि अपने उपक्रमणकाल सहित संख्यात
आवली मात्र अन्तरमें आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र उपक्रमण काल प्राप्त होता है तो
विवक्षित आयुमें मिले हुए उपक्रमण और अनुपक्रमण कालमें कितना उपक्रमणकाल प्राप्त
होगा, इस प्रकार त्रैराशिक विधानसे आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित संख्यात पल्यो-
पमोंमें संख्यात आवली मात्रका भाग देनेपर सर्व उपक्रमणकाल पल्योपमके असंख्यातवें
भाग मात्र आता है । यह कृति, नोक्कति और अवक्तव्यकृति तीनोंका ही काल है । इसमें
सबसे स्तोक अवक्तव्य उपक्रमणकाल है । नोक्कति उपक्रमणकाल इससे विशेष अधिक
है । इससे कृतिउपक्रमणकाल असंख्यातगुणा है । पुनः नोक्कतिकालको एक रूपसे गुणित

णोकदिसंचिदजीवपमाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तं होदि । अवत्तव्वकालं दोहि
रूवेहि गुणिदे अवत्तव्वसंचयपमाणं होदि । कदिसंचयकालं तप्पाओग्गअसंखेज्जरूवेहि गुणिदे
कदिसंचिदपमाणं होदि । एवं सत्तसु पुढवीसु वत्तव्वं ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केवडिया ? अणंता । एत्थ
णोकदि-अवत्तव्वानमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ठेहिंतो उवक्कमणकाले पुव्वं व जीवसंचयए आणिदे
अणंता णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा जीवा होति । सामण्णुवक्कमणकालेण संचिदजीवेहिंतो
णोकदि-अवत्तव्वसंचिदजीवेसु अवणिदेसु सेसा तिरिक्खा कदिसंचिदा होति । ण णिच्च-
णिगोदानमेत्थ गहणं, कदि-णोकदि-अवत्तव्वसरूवेण असंचिदत्तादो ।

पंचिंदियतिरिक्खचउक्कम्मि कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केत्तिया ? असंखेज्जा ।
पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तादीणं संखेज्जासंखेज्जवासाउआण अपज्जत्ताणं च अंतोमुहुत्तआउआणं
णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा आवलियाए असंखेज्जदिभागो, आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तफल-
गुणिदसंखेज्जवासेसु अंतोमुहुत्तन्मंतरसंखेज्जावलियासु च संखेज्जावलियाहि ओवट्ठिदेसु आव-
लियाए असंखेज्जदिभागवक्कमणकालुवलंभादो । णोकदि-अवत्तव्वसंचिदजीवेहिंतो वदि-

करनेपर नोकृतिसंचित जीवोंका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र होता है ।
अवक्तव्यकालको दो रूपोंसे गुणित करनेपर अवक्तव्यसंचित जीवोंका प्रमाण होता है ।
कृतिसंचयकालको उसके योग्य असंख्यात रूपोंसे गुणित करनेपर कृतिसंचित जीवोंका
प्रमाण होता है ।

इस प्रकार सात पृथिवियोंमें कहना चाहिये ।

तिर्य्यचगतिमें तिर्य्यचोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्यसंचित जीव कितने हैं ?
अनन्त हैं । यहां नोकृति और अवक्तव्योंके असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनोंमेंसे उपक्रमण-
कालमें पूर्वके समान जीवसंचयके निकालनेपर नोकृति और अवक्तव्यसंचित जीव अनन्त
होते हैं । सामान्य उपक्रमणकालसे संचित जीवोंमेंसे नोकृति और अवक्तव्यकृति संचित
जीवोंके क्रम कर देनेपर शेष तिर्य्यच कृतिसंचित होते हैं । यहां नित्यनिगोद जीवोंका
ग्रहण नहीं है, क्योंकि, वे कृति, नोकृति और अवक्तव्य स्वरूपसे संचित नहीं हैं ।

पंचेन्द्रिय तिर्य्यच आदिक चारमें कृति, नोकृति व अवक्तव्य संचित कितने हैं ?
असंख्यात हैं । संख्यात व असंख्यात वर्षकी आयुवाले पंचेन्द्रिय तिर्य्यच पर्याप्त आदिक
तथा अन्तर्मुहूर्त आयुवाले अपर्याप्तोंमें नोकृति और अवक्तव्य संचित आवलीके असंख्यातवें
भाग हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र फल राशिसे गुणित संख्यात वर्षों
और अन्तर्मुहूर्तके भीतर संख्यात आवलियोंको संख्यात आवलियोंसे अपवर्तित करनेपर
आवलीके असंख्यातवें भाग उपक्रमणकाल प्राप्त होता है । नोकृति और अवक्तव्य संचित

रित्तो कदिसंचिदरासी होदि । एसो तेरासियकमेण णाणेदव्वो । एत्थ णोकदि-अवत्तव्वसंचिद-
रासी असंखेज्जवासाउएसु धेत्तव्वो, तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तर्जीवाणमुवलंभादो ।
कदिसंचिदा पुण संखेज्जवासाउएसु धेत्तव्वो । कारणं सुगमं ।

मणुस-मणुसअपज्जत्तएसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केत्तिया ? असंखेज्जा । तत्थ
संचयाणयणविहाणं जाणिय वत्तव्वं । एवं देव-भवनवासियप्पहुडि जाव अवराइददेव सव्व-
विगल्लिंदिय-सव्वपंचिंदिय-वादरपुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-वणप्फदिपत्तेय-
सरीरपज्जत्त-तसत्तिणि-पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-वेउव्वियदुगित्थि-पुरिसवेद-विहंगणाणि-
आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणि-संजदासंजद-चक्खुदंसण-ओहिदंसण-तेउ-पम्म-सुक्कल्लेस्सिय-
सम्मादिट्ठि-खइयसम्मादिट्ठि-वेदगसम्मादिट्ठि-उवसमसम्मादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छा-
दिट्ठि-सण्णीणं वत्तव्वं, भेदाभावादो ।

मणुसपज्जत्त-मणुसिणी-सव्वडुसिद्धि-विमाणवासियदेव-आहारदुग-अवगदवेद-अकसाय-
संजद-सामाइयछेदोवट्ठावणसुद्धिसंजद-परिहारसुद्धिसंजद-सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजद-जहाक्खाद-
विहारसुद्धिसंजदेसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केत्तिया ? संखेज्जा । कुदो ? संखेज्ज-

जीवोंसे भिन्न कृतिसंचित राशि है । इसे त्रैराशिक क्रमसे नहीं लाया जा सकता । यहाँ
नोकृति और अवक्तव्यसंचित राशिका असंख्यात वर्ष आयुवालोंमें ग्रहण करना चाहिये,
क्योंकि; उनमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र जीव पाये जाते हैं । परन्तु कृतिसंचित
राशिका संख्यात वर्ष आयुवालोंमें ग्रहण करना चाहिये । कारण सुगम है ।

मनुष्य व मनुष्य अपर्याप्तोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं । वहाँपर संचय लानेके विधानको जानकर कहना चाहिये ।

इसी प्रकार देव व भवनवासियोंको आदि लेकर अपराजित विमानवासी देव, सब
विकलेन्द्रिय, सब पंचेन्द्रिय, वादर पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक,
वनस्पतिकायिक व प्रत्येकशरीर पर्याप्त, त्रस तीन, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी,
वैकियिकद्विक, खविद, पुरुषवेद, विभंगज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-
ज्ञानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, तेज, पद्म व शुक्ल-लेइयावाले, सम्यग्दृष्टि,
क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्या-
दृष्टि और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये, क्योंकि, उनके कोई विशेषता नहीं है ।

मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देव, आहारद्विक, अपगत-
वेदी, अकपायी, संयत, सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिहारशुद्धिसंयत, सूक्ष्म-
साम्परायिकशुद्धिसंयत और यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोंमें कृति, नोकृति व अवक्तव्य
संचित कितने हैं ? संख्यात हैं, क्योंकि, ये राशियां संख्यात हैं ।

रासित्तादो । एइंदिय-कायजोगि-णवुंसयवेद-मदि-सुदअण्णाणि-असंजद-मिच्छाइडि-असण्णीसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केत्तिया ? अणंता । कारणं सुगमं । वादरेइंदिय-सुहुमेइंदिय-तप्पज्जत्तापज्जत्त-सव्ववणप्फदि-णिगोदजीव-सुहुमणिगोदे-ओरालियकायजोगि-ओरालियमिस्स-काय-जोगि-कम्मइयकायजोगि-चत्तारिकसाय-किण्ण-णील-काउलेस्सिय-आहारि-अणाहारीसु कदि-संचिदा केत्तिया ? अणंता, अंतरेण विणा-गंगापवाहो व्व अणंतजीवप्पवेसादो । पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-त्राउकाइया तेसिं वादरा तेसिं चैव अपज्जत्ता तेसिं सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता कदिसंचिदा केवडिया ? असंखेज्जा, असंखेज्जलोगरासित्तादो । एवं दव्वाणुगमो समतो ।

खेत्ताणुगमेण गदियाणुवद्वैण णिरयगदीए णेरइएसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वदेव-मणुसअपज्जत्ता सव्वविगल्लिंदिय-पंचिदियअपज्जत्त-वादरपुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-पत्तेयसरीरपज्जत्त-तसअपज्जत्त-पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-वेउव्वियदुग-आहारदुग-इत्थि-पुरिस-वेद-विमंगणाणि-आमिणिबोहियणाणि-सुदणाणि-ओहिणाणि-मणपज्जवणाणि-सामाइयछेदेवड्ढा-

एकेन्द्रिय, काययोगी, नपुंसकवेदी, मतिअज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें कृति, नोकृति व अवक्तव्य संचित कितने हैं ? अनन्त हैं । इसका कारण सुगम है । वादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, उनके पर्याप्त व अपर्याप्त, सब धनस्पति, निगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, चार कपाय, कृष्ण, नील व कापोत लेश्यावाले, आहारी तथा अनाहारी जीवोंमें कृतिसंचित जीव कितने हैं ? अनन्त हैं, क्योंकि, इनमें अन्तरके विना गंगाप्रवाहके समान अनन्त जीवोंका प्रवेश है । पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, उनके वादर, उनके ही अपर्याप्त, उनके सूक्ष्म पर्याप्त व अपर्याप्त जीव कृतिसंचित कितने हैं ? असंख्यात हैं, क्योंकि, ये असंख्यात लोक प्रमाण राशियां हैं । इस प्रकार द्रव्यानुगम समाप्त हुआ ।

क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा गतिमार्गणानुसार नरकगतिमें नारकियोंमें कृति, नोकृति व अवक्तव्य संचित जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? उक्त जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । इस प्रकार सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच, सब देव, मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, वादर पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक व प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, वैक्रियिकद्विक, आहारद्विक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, विभंगज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यय-

वणसुद्धिसंजद-परिहाससुद्धिसंजद-सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजद-संजदासंजद-चक्खुदंसण-ओहिदंसण-
तेउ-पम्मलेस्सिय-वेदगसम्माइडि-उवसमसम्माइडि-सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडि-सण्णीणं
वत्तव्वं, लोगस्स असंखेज्जदिभागत्तणेण भेदाभावादो ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खा कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे ।
कुदो ? आणंतियादो । एवं सव्वेइंदिय-कायजोगि-णवुंसयवेद-मदि-सुदअण्णाण-असंजद-मिच्छा-
इडि-असण्णीणं वत्तव्वमाणंतियं पडि भेदाभावादो । मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु कदि-
णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सव्व-
लोगे वा । एवं पंचिदिय-तसाणं तेसिं पज्जत्ताणं अवगदेवद-अकसाय-केवलणाणि-जहाक्खाद-
विहारसुद्धिसंजद-केवलदंसण-सुक्कलेस्सिय-सम्मादिडि-खइयसम्मादिड्डीणं वत्तव्वं, केवलि-
पदस्स सव्वत्थुवलंभादो । बादरेइंदिय-सुहुमेइंदिया तेसिं पज्जत्ता अपज्जत्ता पुढविकाइय-
आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउ-
काइया^१ तेसिमपज्जत्ता वणप्फदिकाइय-णिगोदजीवा तेसिं पज्जत्तापज्जत्ता कदिसंचिदा केवडि-

ज्ञानी, सामायिकछेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिहारशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत,
संयतासंयत, चक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, तेज व पद्म लेझ्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि,
उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये,
क्योंकि, लोकके असंख्यातवें भागकी अपेक्षा इनमें नारकियोंसे कोई भेद नहीं है ।

तिर्यचगतिमें तिर्यच जीव कृति, नोकृति व अवक्तव्य संचित कितने क्षेत्रमें रहते
हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं, क्योंकि, वे अनन्त हैं । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, काययोगी,
नपुंसकवेद, मतिअज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना
चाहिये, क्योंकि, अनन्तताकी अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं है । मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त
और मनुष्यनियोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके
असंख्यातवें भागमें, अथवा असंख्यात बहुभागोंमें, अथवा सब लोकमें रहते हैं । इसी
प्रकार पंचेन्द्रिय, त्रस, उनके पर्याप्त, अपगतवेदी, अकषाय, केवलज्ञानी, यथाख्यातविहार-
शुद्धिसंयत, केवलदर्शन, शुक्ललेझ्यावाले, सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके
कहना चाहिये, क्योंकि, इन सबमें केवली पद पाया जाता है । बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म
एकेन्द्रिय, उनके पर्याप्त व अपर्याप्त, पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायु-
कायिक, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर तेजकायिक, बादर वायुकायिक,
उनके अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निगोद जीव और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीव कृति

खेत्ते ? सव्वलोए । कारणं सुगमं । एवमोराणिकायजोगि-ओराणियमिस्सकायजोगि-कम्मइय-कायजोगि-चत्तारिकसाय-किण्ण-णील-काउलेस्सिय-आहार-अणाहाराणं वत्तव्वं, भेदाभावादो । वादरवाउकाइयपज्जत्ता कदिसंचिदा केवडिखेत्ते ? लोगस्स संखेज्जदिभागे । णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा लोगस्स संखेज्जदिभागे, वादरवाउपज्जत्तद्धिदीए संखेज्जवाससहस्सपमाणाए णोकदि-अवत्तव्वेहि संचिदजीवाणमावलिआए असंखेज्जदिभागपमाणाणुवलंभादो । एवं खेत्ताणु-गमो समत्तो ।

पोसणाणुगमेण गदियाणुवादेण गिरयगदीए गेरइएसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदेहि केवडियं खेत्तं पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो छचोइसभागा वा देसुणा । पढमाए पुढवीए खेत्तभंगो । बिदियादि जाव सत्तमि ति गेरइएसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो एक्क-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छचोइस-भागा वा देसुणा ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । एवमेइंदिय-कायजोगि-णवुंसयवेद-मदि-सुदअण्णाण-असंजद-मिच्छा-इड्डिअसण्णीणं पि वत्तव्वमविसेसादो । पंचिंदियतिरिक्खचउक्कम्मि कदि-णोकदि-अवत्तव्व-

संचित कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सब लोकमें रहते हैं । कारण सुगम है । इसी प्रकार औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, चार कषाय, कृष्ण, नील, व कापोत लेंद्र्याचाले, आहारक व अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये, क्योंकि, इनके कोई विशेषता नहीं है । वादर वायुकायिक पर्याप्त कृतिसंचित कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके संख्यातवें भागमें रहते हैं । नोकृति व अवक्तव्य संचित वे लोकके संख्यातवें भागमें पाये जाते हैं, क्योंकि, संख्यात हजार वर्ष प्रमाण वादर वायुकायिक पर्याप्तोंकी स्थितिमें नोकृति और अवक्तव्यसे संचित जीव आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण पाये जाते हैं । इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ ।

स्पर्शानुगमसे गतिमार्गणानुसार नरकगतिमें नारकियोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं । प्रथम पृथिवीमें स्पर्शनकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है । द्वितीयसे लेकर सप्तम पृथिवी तक नारकियोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा क्रमसे कुछ कम एक, दो, तीन, चार, पांच और छह बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं ।

तिर्यचगतिमें तिर्यचोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? सर्व लोक स्पृष्ट है । इसी प्रकार एकेन्द्रिय, काययोगी, नपुंसकवेद, मति-अज्ञानी, भ्रुताज्ञानी, असंयत, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके भी कहना चाहिये, क्योंकि, इनके कोई विशेषता नहीं है । पंचेन्द्रिय तिर्यच आदिक चारमें कृति, नोकृति और

संचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । एवं मणुस-
अपज्जत्त-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदिय-अपज्जत्त-वादरपुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-पत्तेय-
सरीरपज्जत्त-तसअपज्जत्तकदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदाणं वत्तव्वमविसेसादो ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदेहि केवडियं
खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जा भागा सव्वलोगो वा । एवमवगदेवद-
अकसाय-संजद-जहाक्खादविहारसुद्धिसंजद-केवलणाणि-केवलदंसणीणं वत्तव्वं ।

देवगदीए देवेषु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागो अट्ठ-णवचोइसभागा वा देसूणा । भवणवासिय-वाणवेत्तर-जोदिसियदेवेहि
केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो फोसिदो अट्ठ-अट्ठ-णवचोइसभागा वा
देसूणा । सोहम्मीसाणे देवोषमंगो । सणक्कुमारादि जाव सहस्सारदेवेषु कदि-णोकदि-
अवत्तव्वसंचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठभागा वा देसूणा ।

अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा
सर्व लोक स्पृष्ट है ।

इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, वादर
पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक व प्रत्येकशरीर पर्याप्त और अस अपर्याप्त, कृति,
नोकृति और अवक्तव्य संचित जीवोंके कहना चाहिये, क्योंकि, इनके कोई विशेषता
नहीं है ।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें कृति, नोकृति एवं अवक्तव्य-
संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग,
अथवा सर्व लोक स्पृष्ट है । इसी प्रकार अपगतवेदी, अकषायी, संयत, यथाख्यातविहार-
शुद्धिसंयत, केवलज्ञानी और केवलदर्शनी जीवोंके कहना चाहिये ।

देवगतिमें देवोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्यसंचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र
स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम आठ व नौ बटे चौदह भाग स्पृष्ट
हैं । भव्रनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका
असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम साढ़े तीन, आठ व नौ बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं ।
सौधर्म व ईशान कल्पमें देवोंके समान प्ररूपणा है । सनत्कुमार कल्पको आदि लेकर
सहस्रार कल्प तकके देवोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्यसंचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र
स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं ।

आणदादि जाव अच्चुदो ति तिपदसंचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो छचोदसभागा वा देसूणा । णवगेवज्जादि जाव सव्वेडु ति खेत्तंभंगो ।

एवमाहारदुग-सामाइयछेदोवट्ठावणसुद्धिसंजद-परिहारसुद्धिसंजद-सुहुमसांपराइयसुद्धि-संजद-मणपज्जवणाणीणं पि वत्तव्वमविसेसादो । वादरेइंदिय-सुहुमेइंदियाणं तेसिं पज्जत्ता-पज्जत्ताणं च खेत्तंभंगो । पंचिंदियदुगेण केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठचोदसभागा सव्वलोगो केवलभंगो वा ।

कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइयाणं तेसिं चेव बादराणं [तेसिं] चेव अपज्जत्ताणं सव्वसुहुम-तप्पज्जत्तापज्जत्ताणं वणप्फदि-णिगोद-वादरवणप्फदि-वादरणि-गोदाणं तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं वादरवणप्फदिपत्तेयसरीराणं तेसिमपज्जत्ताणं च कदिसंचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो [वा] । वादरवाउपज्जत्तएहि कदिसंचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स संखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । णोकदि-अवत्तव्वसंचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । तस-

आनत आदिसे लेकर अच्युत कल्प तक उक्त तीन पदोंमें संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम छह वटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं । नौ ग्रैवेयकोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमान तक क्षेत्रके समान प्ररूपणा है ।

इसी प्रकार आहारद्विक, सामायिकछेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिहारशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत और मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके भी कहना चाहिये, क्योंकि, इनमें कोई विशेषता नहीं है । वादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है । पंचेन्द्रिय व पंचेन्द्रिय पर्याप्तों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग आठ वटे चौदह भाग या सर्व लोक स्पृष्ट है; अथवा इनकी प्ररूपणा केवली जीवोंके समान है ।

कायमार्गणानुसार पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और उनके ही वादर व उनके ही अपर्याप्त, सब सूक्ष्म व उनके पर्याप्त अपर्याप्त, वनस्पति-कायिक, निगोद जीव, वादर वनस्पतिकायिक, वादर निगोद, उनके पर्याप्त अपर्याप्त तथा वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर व उनके अपर्याप्तोंके कृतिसंचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा सर्व लोक स्पृष्ट है । कृतिसंचित वादर वायुकायिक पर्याप्तों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका संख्यातवां भाग अथवा सब लोक स्पृष्ट है । नोकृति और अवक्तव्य संचित वादर वायुकायिक पर्याप्तों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा सर्व लोक स्पृष्ट है । तस व तस

दुगस्स पंचिदियभंगो । पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु तिण्णिपदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठचोद्दसभागा देसूणा सव्वलोगो वा । कुदो ? सुक्कमारणंतियस्स वि मण-वचिजोगसंभवादो । ओरालियकायजोगि-ओरालियमिस्सकायजोगि-कम्मइयकायजोगीणं खेत्तंभंगो । वेउव्वियकायजोगीसु तिण्णिपदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदि-भागो अट्ठ-तेरहचोद्दसभागा वा देसूणा । वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं खेत्तंभंगो । इत्थि-पुरिसवेदाणं मणजोगिभंगो । चत्तारिकसायाणं कदिसंचिदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । विभंगणाणि-तिपदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठ-तेरहचोद्दसभागा वा देसूणा सव्वलोगो वा । आभिणिवोहिय-सुद-ओहिणाणिसु तिण्णिपदेहि लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठ-चोद्दसभागा वा देसूणा । संजदासंजदतिण्णिपदेहि' लोगस्स असंखेज्जदिभागो छचोद्दसभागा [वा] देसूणा । चक्खुदंसणीणं मणपज्जवभंगो । ओहिदंसणीणं ओहिणाणिभंगो । किण्ण-णील-काउ-लेस्सियाणं ओरालियकायजोगिभंगो । तेउलेस्सियाणं सोहम्मभंगो । पम्मलेस्सियाणं सणक्कुमार-भंगो । सुक्काए छचोद्दसभागा केवलभंगो वा । भवसिद्धियाणं ओघभंगो । एवमभवसिद्धियाणं ।

पर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रियोंके समान है । पांच मनोयोगी व पांच वचनयोगियोंमें उक्त तीन पदों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम आठ बटे चौदह भाग अथवा सर्व लोक स्पृष्ट है । इसका कारण मुक्तमारणन्तिकके भी मनोयोग व वचनयोगकी सम्भावना है । औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी और कर्मण-काययोगी जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है । वैक्रियिककाययोगियोंमें उक्त तीन पदों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम आठ व तेरह बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है ।

अविदी व पुरुषवेदियोंकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके समान है । चार कषायवालोंमें कृतिसंचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? सर्व लोक स्पृष्ट है । विभंगज्ञानियोंमें तीन पदों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम आठ व तेरह बटे चौदह भाग अथवा सर्व लोक स्पृष्ट है । आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें उक्त तीन पदों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं । संयतासंयत तीन पदों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं । चक्षुदर्शनियोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । अवधिदर्शनियोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । कृष्ण, नील व कापोत लेश्यावालोंकी प्ररूपणा औदारिककाययोगियोंके समान है । तेजलेश्यावालोंकी प्ररूपणा सौधर्म कल्पके समान है । पद्मलेश्यावालोंकी प्ररूपणा सनत्कुमार कल्पके समान है । शुक्ललेश्यावालोंमें उक्त तीन पदों द्वारा छह बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं, अथवा उनकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है । भव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । इसी प्रकार अभव्यसिद्धिक जीवोंकी भी प्ररूपणा है । विशेषता केवल इतनी है कि उनके केवलि-

१ अग्रतौ संजदासंजदा तिण्णिपदाणि', आप्रतौ 'संजदासंजदा तिण्णिप०', काप्रतौ 'संजदासंजदा तिण्णि पल्लो०' इति पाठः ।

णवरि केवलभंगो णत्थि । सम्मादिट्ठि-खइयसम्मादिट्ठीसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदेहि लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठचोइसभागा केवलभंगो वा । वेदगसम्मादिट्ठि-उवसमसम्मादिट्ठि-सम्मा-मिच्छादिट्ठीहि लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठचोइसभागा वा [देसूणा] । सासणसम्मादिट्ठीहि [लोगस्स असंखेज्जदिभागो] अट्ठ-त्रारहचोइसभागा वा देसूणा । सण्णीणं पुरिसवेदभंगो । आहारि-अणाहारीणं खेत्तभंगो । एवं फोसणाणुगमो समत्तो ।

कालाणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइया कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण दसवास-सहस्साणि, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं पढमाए [पुढवीए] । णवरि एगजीवं पडुच्च उक्कस्सेण सागरोवमं । विदियादि जाव सत्तमि त्ति णाण्णजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेणेक्क-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीससागरोवमाणि समयाहियाणि, उक्कस्सेण तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीस-तेत्तीससागरोवमाणि संपुण्णाणि ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खा तिपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च

भंग नहीं है । सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा आठ बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं; अथवा इनकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है । वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें उक्त तीन पदों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा [कुछ कम] आठ बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवों द्वारा [लोकका असंख्यातवां भाग] अथवा कुछ कम आठ व बारह बटे चौदह भाग स्पृष्ट हैं । संज्ञी जीवोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । आहारी व अनाहारी जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है । इस प्रकार स्पर्श-नानुगम समाप्त हुआ ।

कालानुगमसे गतिमार्गानुसार नरकगतिमें नारकी कृति, नोकृति व अवक्तव्य-संचित कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा वे सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे दश हजार वर्ष और उत्कर्षसे तेत्तीस सागरोपम काल तक रहते हैं । इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें कहना चाहिये । विशेष इतना है कि वहां एक जीवकी अपेक्षा उत्कर्षसे एक सागरोपम काल तक रहते हैं । द्वितीयसे लेकर सप्तम पृथिवी तक नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्रमशः एक समय अधिक एक, तीन, सात, दश, सत्तरह और बाईस सागरोपम, तथा उत्कर्षसे सम्पूर्ण तीन, सात, दश, सत्तरह, बाईस और तेत्तीस सागरोपम काल तक रहते हैं ।

तिर्यचगतिमें कृतिसंचित आदि तीन पदवाले तिर्यच कितने काल तक रहते

सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गल-
परियट्ठा । पंचिंदियतिरिक्खतिग-तिपदा णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च
जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तिणिण पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणव्वहि-
याणि । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
खुद्दाभवग्गहणं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

मणुस्सतियतिणिणपदाणं पंचिंदियतिरिक्खतिगभंगो । मणुसअपज्जत्ता तिणिणपदा णाणा-
जीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

देवगदीए देवेसु तिणिणपदा णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
दसवाससहस्साणि^१, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । भवणवासिय-वाणवेत्तर-जोदिसिया तिणिण-
पदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण

हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभव-
ग्रहण और उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन रूप अनन्त काल तक रहते हैं । पंचेन्द्रिय
तिर्य्यच आदि तीन तीनों पदवाले नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी
अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक
तीन पल्योपम प्रमाण काल तक रहते हैं । पंचेन्द्रिय तिर्य्यच अपर्याप्त नाना जीवोंकी अपेक्षा
सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा वे जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अन्त-
र्मुहूर्त काल तक रहते हैं ।

मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनिर्योमें तीनों पदोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्य्यच
आदि तीन तिर्य्यचोंके समान है । मनुष्य अपर्याप्त तीन पदवाले नाना जीवोंकी अपेक्षा
जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग तक रहते हैं । एक
जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं ।

देवगतिमें देवोंमें तीनों पदवाले नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक
जीवकी अपेक्षा जघन्यसे दश हजार वर्ष और उत्कर्षसे तेत्तीस सागरोपम काल तक रहते
हैं । भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देव तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ?
नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्रमशः दश हजार

१ काप्रतावतोऽमे ' पलिदोवमस्स अट्ठमभागो ' इत्यधिकः पाठः समुपलभ्यते ।

दसवाससहस्साणि [दसवाससहस्साणि] पलिदोवमस्स अट्टमभागो, उक्कस्सेण सागरोवमं पलिदो-
वमं पलिदोवमं सादिरेयं' । सोहम्मीसाणप्पहुडि जाव सहस्सारे त्ति तिण्णिपदा केवचिरं कालादो
होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण [पलिदोवमं वे-सत्त-दस-चोदस-
सोलससागरोवमाणि सादिरेयाणि, उक्कस्सेण वे-सत्त-दस-चोदस-सोलस-अट्टारससागरोवमाणि
सादिरेयाणि । आणद-पाणदप्पहुडि जाव णवगेवज्जविमाणवासिय त्ति तिण्णिपदा केवचिरं
कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण] अट्टारस-वीस-
चावीस-तेवीस-चउवीस-पणुवीस-छवीस-सत्तावीस-अट्ठावीस-एगूणतीस-तीससागरोवमाणि सादि-
रेयाणि, उक्कस्सेण वीस-चावीस-तेवीस-चउवीस-पणुवीस-छवीस-सत्तावीस-अट्ठावीस-एगूणतीस-
तीस-एक्कत्तीससागरोवमाणि । अणुदिसादि जाव अवराजिद त्ति तिण्णिपदा केवचिरं कालादो
होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एक्कत्तीस-वत्तीस-
सागरोवमाणि सादिरेयाणि, उक्कस्सेण वत्तीस-तेत्तीससागरोवमाणि । सव्वद्धसिद्धिविमाण-
वासियतिण्णिपदा केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च
जहण्णुक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

वर्ष, [दश हजार वर्ष] और पल्योपमके आठवें भाग प्रमाण काल तक; तथा उत्कर्षसे
कुछ अधिक सागरोपम, पल्योपम और पल्योपम प्रमाण काल तक रहते हैं । सौधर्म व ईशान
कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तक तीनों पदवाले देव कितने काल तक रहते हैं ? नाना
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे [साधिक पल्योपम व
साधिक दो, सात, दश, चौदह और सोलह सागरोपम प्रमाण काल तक; तथा उत्कर्षसे
दो, सात, दश, चौदह, सोलह और अठारह सागरोपम प्रमाण काल तक रहते हैं ।
आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयकों तक तीनों पदवाले देव कितने काल
तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी
अपेक्षा जघन्यसे] साधिक अठारह, वीस, चाईस, तेईस, चौवीस, पच्चीस, छवीस,
सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस और तीस सागरोपम काल तक; तथा उत्कर्षसे वीस, चाईस,
तेईस, चौवीस, पच्चीस, छवीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस और इक्कीस
सागरोपम काल तक रहते हैं । अनुदिशोंसे लेकर अपराजित विमान तक तीनों पदवाले
देव कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी
अपेक्षा जघन्यसे कुछ अधिक इक्कीस और वत्तीस सागरोपम काल तक तथा
उत्कर्षसे वत्तीस और तेतीस सागरोपम काल तक रहते हैं । सर्वार्थसिद्धि विमानवासी
तीनों पदवाले देव कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं ।
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे तेतीस सागरोपम काल तक रहते हैं ।

एइंदियाणं तिरिक्खभंगो । बादरेइंदिया कदिसंचिदा केवचिरं कालादो होति ?
 णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अंगुलस्स
 असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । बादरेइंदियपज्जत्ता कदिसंचिदा
 केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं,
 उक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तेसिं चेव अपज्जत्ता केवचिरं कालादो होति ?
 णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अंतो-
 मुहुत्तं । सुहुमेइंदिया णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं,
 उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । तेसिं चेव पज्जत्ता केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं
 पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । तेसिं चेव अपज्जत्ता
 णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अंतो-
 मुहुत्तं । बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया तेसिं चेव पज्जत्ता तिण्णिपदा णाणाजीवं पडुच्च
 सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण संखेज्जाणि
 वस्ससहस्साणि । तेसिं चेव अपज्जत्ता तिण्णिपदा केवचिरं कालादो होति ? णाणाजीवं

एकेन्द्रियोंकी प्ररूपणा तिर्यंच जीवोंके समान है । बादर एकेन्द्रिय कृतिसंचित
 कितने काल तक रहते हैं । नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा
 जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी-
 अवसर्पिणी प्रमाण रहते हैं । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त कृतिसंचित कितने काल तक रहते
 हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त
 और उत्कर्षसे संख्यात हजार वर्ष तक रहते हैं । उनके ही अपर्याप्त कितने काल तक
 रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्र-
 भवग्रहण और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल तक रहते हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रिय नाना जीवोंकी
 अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे
 असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहते हैं । उनके ही पर्याप्त जीव कितने काल तक रहते
 हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे
 अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं । उनके ही अपर्याप्त नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं ।
 एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल तक रहते हैं ।
 द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व उनके ही पर्याप्त जीव तीनों पदवाले नाना जीवोंकी
 अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण मात्र अन्तर्मुहूर्त
 और उत्कर्षसे संख्यात हजार वर्ष तक रहते हैं । उनके ही अपर्याप्त तीनों पदवाले कितने

पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । पंचि-
दियदुगस्स तिण्णिपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण सागरोवमसहस्सं पुव्वकोडिपुध-
त्तेणव्वहियं सागरोवमसदपुधत्तं ।

सोधम्मो माहिंदे पढमपुढवीए होदि चदुगुणिदं ।

वम्हादि आरणच्चुद पुढवीणं होदि पचगुणं ॥ १२२ ॥

एसा गाहा पंचिदियडिदिं परूवेदि । सोधम्म-माहिंद-पढमपुढवीसु चदुक्खुत्तमुप्पणस्स
विदियादिछपुढवीसु वम्हलोगादिआरणच्चुददेवेसु च पंचवारमुप्पणस्स पंचिदियडिदी सागरो-
वमसहस्समेत्ता । १००० । पुव्वकोडिपुधत्तेणव्वहिया । ९६ । पंचिदियडिदिं भमंतस्स एसा
दिसा परूविदा, ण पुण एसो णियमो, अण्णेण वि पयारेण पंचिदियडिदी हिंडणं पडि
संभवदंसणादो ।

काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे
शुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं । पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त
तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं ।
एक जीवकी अपेक्षा वे क्रमशः जघन्यसे शुद्रभवग्रहण व अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे पूर्वकोटि-
पृथक्त्वसे अधिक एक हजार सागरोपम व सागरोपमशतपृथक्त्व काल तक रहते हैं ।

सौधर्म, माहेन्द्र और प्रथम पृथिवीमें चार बार और ब्रह्म कल्पसे लेकर आरण-
अच्युत कल्पों तथा द्वितीयादि पृथिवियोंमें पांच बार उत्पन्न होनेपर उक्त पंचेन्द्रिय काल
पूर्ण होता है ॥ १२२ ॥

यह गाथा पंचेन्द्रिय कालकी प्ररूपणा करती है— सौधर्म, माहेन्द्र और प्रथम
पृथिवीमें चार बार उत्पन्न हुए तथा द्वितीयादिक छह पृथिवियों व ब्रह्मलोकको
आदि लेकर आरण-अच्युत कल्प तकके देवोंमें पांच बार उत्पन्न हुए जीवका पंचेन्द्रियकाल
पूर्वकोटिपृथक्त्व (९६) से अधिक एक हजार (सात पृथिवियोंमें— ४ + १५ + ३५ + ५०
+ ८५ + ११० + १६५ = ४६४; सौधर्मादि कल्पोंमें— ८ + २८ + ५० + ७० + ८० + ९०
+ १०० + ११० = ५३६; ५३६ + ४६४ = १०००) सागरोपम मात्र होता है ।
पंचेन्द्रियस्थितिको लेकर भ्रमण करनेवाले जीवके यह एक रीति बतलायी है, किन्तु
सर्वथा ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि, अन्य प्रकारसे भी पंचेन्द्रियस्थिति तक भ्रमण करना
सम्भव है ।

पढमपुढवीए^१ चटुरो पण [पण] सेसासु होंति पुढवीसु ।

चटु चटु देवेसु भवा वावीसं ति सदपुधत्तं ॥ १२३ ॥

पढमपुढवीए चत्तारिवारमुप्पज्जिय सेसासु पुढवीसु पंच-पंचवारमुप्पज्जिय सोहम्मादि जाव आरणच्चुददेवेसु चत्तारि-चत्तारिवारमुप्पणस्स सागरोवमसदपुधत्तं पंचिदियपज्जत्तद्धिदी होदि । ९०० ।

पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइया कदिसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं [पडुच्च] जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । तेसिं चेव बादरा कदिसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी । एवं बादरवणप्फदिपत्तेयसरीराणं च वत्तव्वं । एदेसिं चेव पज्जत्ताणं तिण्णिपद केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि । तेसिं चेव अपज्जत्ताणं वादरेइंदियअपज्जत्तभंगो ॥

प्रथम पृथिवीमें चार भव और शेष पृथिवियोंमें पांच पांच भव होते हैं । वाईस सागरोपम स्थिति तकके देवोंमें चार भव होते हैं । इस प्रकार पंचेन्द्रिय पर्याप्त काल सागरोपमशतपृथक्त्व प्रमाण होता है ॥ १२३ ॥

प्रथम पृथिवीमें चार बार उत्पन्न होकर और शेष पृथिवियोंमें पांच पांच बार उत्पन्न होकर सौधर्म कल्पको आदि लेकर आरण-अच्युत कल्प तकके देवोंमें चार चार बार उत्पन्न हुए जीवके सागरोपमशतपृथक्त्व प्रमाण पंचेन्द्रिय पर्याप्त स्थिति पूर्ण होती है । (सात पृथिवियोंमें ४६४, सौधर्मादि कल्पोंमें ४३६; ४३६+४६४=९०० सागरोपम) ।

पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक और वायुकायिक, कृतिसंचित जीव कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहते हैं । उनके ही बादर कृतिसंचित जीव कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे कर्मस्थिति प्रमाण काल तक रहते हैं । इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंके भी कहना चाहिये । इनके ही पर्याप्त तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे संख्यात हजार वर्ष तक रहते हैं । उनके ही अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय

सच्चसुहुमाणं सुहुमेइंदियभंगो । वणप्फदिकाइया कदिसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ?
 णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंत-
 कालमावलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ता पोग्गलपरियट्ठा । तेसिं चेव वादरपज्जत्तापज्जत्ताणं
 वादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्तभंगो । णिगोदजीवा कदिसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणा-
 जीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अट्ठाइज्ज-
 पोग्गलपरियट्ठा । तेसिं चेव वादराणं कदिसंचिदा वादरपुढविभंगो । तेसिं चेव पज्जत्ताणं
 वादरपुढविपज्जत्तभंगो । तेसिं चेव अपज्जत्ताणं वादरपुढविअपज्जत्तभंगो । तसदुग्गस्स
 तिणिणपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
 खुद्दाभवग्गहणं, अंतोमुहुत्तं; उक्कस्सेण वेसागरोवमसहस्साणि पुव्वकोटिपुधत्तेण अव्वहियाणि,
 वेसागरोवमसहस्साणि ।

अपर्याप्तोंके समान है । सब सूक्ष्म जीवोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है ।
 वनस्पतिकायिक कृतिसंचित कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व
 काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे आवलीके
 असंख्यानर्थ भाग मात्र पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अनन्त काल तक रहते हैं । उनके ही
 वादर, पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और
 वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है ।

निगोद जीव कृतिसंचित कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व
 काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अढ़ाई पुद्गल-
 परिवर्तन प्रमाण काल तक रहते हैं । उनके ही वादर कृतिसंचितोंकी प्ररूपणा वादर
 पृथिवीकायिक जीवोंके समान है । उनके ही पर्याप्तोंकी प्ररूपणा वादर पृथिवीकायिक
 पर्याप्तोंके समान है । उनके ही अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्तोंके
 समान है ।

प्रस व प्रस पर्याप्त तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी
 अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण व अन्तर्मुहूर्त और
 उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम एवं केवल दो हजार सागरोपम
 प्रमाण काल तक रहते हैं ।

सोहस्मे माहिंदे पढमपुढवीसु होदि चदुगुणिदं ।

बम्हादिआरणच्चुद पुढवीणं अट्टगुणं ॥ १२४ ॥

गेवज्जेसु च विगुणं उवरिमगेवज्जएगवज्जेसु ।

दोणिण सहस्साणि भवे कोडिपुधत्तेण अहियाणि ॥ १२५ ॥

एदाहि दोहि गाहाहि तसडिदी उप्पादेदव्वा । तिस्से पमाणमेदं २००० । १६ एदं पुव्वकोडिपुधत्तं । तसअपज्जत्ताणं पंचिंदियअपज्जत्तभंगो ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंजवचिजोगितिण्णिपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । कायजोगीसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोगाल-परियट्ठा । ओरालियकायजोगीसु कदिसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वावीसवस्ससहस्साणि देसूणाणि । ओरालियमिस्सकायजोगीसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं

सौधर्म, माहेन्द्र और प्रथम पृथिवीमें चार बार उत्पन्न होता है । ब्रह्म कल्पसे आरण-अच्युत कल्पों और द्वितीयादि शेष पृथिवियोंमें आठ बार उत्पन्न होता है । एक उपरिम त्रैवेयकको छोड़कर सब त्रैवेयकोंमें दो बार उत्पन्न होता है । इस प्रकार त्रस पर्यायका काल पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम प्रमाण होता है ॥ १२४-१२५ ॥

इन दो गाथाओंसे त्रस पर्यायकी स्थितिको उत्पन्न कराना चाहिये । उसका प्रमाण यह है । (कल्पोंमें ८३६, प्रथमादिक आठ त्रैवेयकोंमें ४२४, सात पृथिवियोंमें ७४०; ८३६ + ४२४ + ७४० = २००० सागरोपम) यह (१६) पूर्वकोटिपृथक्त्व है । त्रस अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है ।

योगमार्गणानुसार पांच मनोयोगी और पांच वचनयोगी तीन पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल तक रहते हैं । काययोगियोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीव कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अनन्त काल तक रहते हैं । औदारिककाययोगियोंमें कृतिसंचित कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे कुछ कम वाईस हजार वर्ष तक रहते हैं । औदारिकमिश्रकाय-योगियोंमें कृति, नोकृति व अवक्तव्य संचित जीव कितने काल तक रहते हैं ? नाना

पडुच्च सञ्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । वेउव्विय-
कायजोगीणं मणजोगिभंगो । वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु तिण्णिपदा केवचिरं कालादो होंति ?
णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो
एगमंतोमुहुत्तं; पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तवक्कमणवारसलागाहि पडुप्पण्णे समुप्पत्तीदो ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारकायजोगीसु तिण्णिपदा केवचिरं कालादो
होंति ? णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारमिस्सकाय-
जोगीसु तिण्णिपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।
कम्मइयकायजोगीसु कदि-णोकदि-अवत्तच्चसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च
सञ्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णिसमया ।

इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु तिण्णिपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च
सञ्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, अंतोमुहुत्तं, एगसमओ; उक्कस्सेण पलिदोवम-
सदपुधत्तं, सागरोवमसदपुधत्तं, अणंतकालमसंखेज्जा पोगलपरियट्ठा ।

जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और
उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल रहते हैं । वैकियिककाययोगियोंकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके
समान है । वैकियिकमिश्रकाययोगियोंमें तीन पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना
जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र एक
अन्तर्मुहूर्त काल तक रहते हैं; क्योंकि, पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र उपक्रमणवार-
शलाकाओंसे उत्पन्न होनेपर यह काल प्राप्त होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व
उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं । आहारकाययोगियोंमें तीनों पदवाले कितने काल तक
रहते हैं ? नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त
काल तक रहते हैं । आहारमिश्रकाययोगियोंमें तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ?
नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल तक रहते हैं । कर्मण-
काययोगियोंमें कृति, नोकृति व अवक्तव्य संचित कितने काल तक रहते हैं ? नाना
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे
तीन समय तक रहते हैं ।

स्त्री, पुरुष व नपुंसक वेदियोंमें तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्रमशः एक समय,
अन्तर्मुहूर्त व एक समय तथा उत्कर्षसे पल्योपमशतपृथक्त्व, सागरोपमशतपृथक्त्व व
असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन मात्र अनन्त काल तक रहते हैं ।

सोहम्मं सत्तगुणं तिगुणं जाव दु सुसुक्ककप्पो त्ति ।

सेसेसु भवे विगुणं जाव दु आरणच्चुदो कप्पो ॥ १२६ ॥

पणगादी दोहि जुदा सत्तावीसा त्ति पल्ल देवीणं ।

तत्तो सत्तुत्तरियं जाव दु आरणच्चुओ' कप्पो' ॥ १२७ ॥

एदमाउअं ठवेदूण सोहम्माउअं सत्तगुणं, ईसाणादि जाव महासुक्के त्ति तिगुणं, तत्तो जाव आरणच्चुदे त्ति विगुणं काऊण मेलिदे त्थिवेदुक्कस्सट्ठिदी पल्लिदोवमसदपुधत्तमेत्ता होदि । तिस्से पमाणमेदं । १०० ।

पुरिसेसु सदपुधत्तं असुरकुमारेसु होदि तिगुणेण ।

तिगुणे णवगेवज्जे सगगिदी' छागुणं होदि ॥ १२८ ॥

स्त्रीवेदी सौधर्म कल्पमें सात वार, ईशानसे लेकर महाशुक्र कल्प तक तीन वार, और आरण-अच्युत कल्प तक शेष कल्पोंमें दो वार उत्पन्न होता है ॥ १२६ ॥

देवियोंकी आयु सत्ताईस पल्य तक दोसे युक्त पांच आदि पल्य प्रमाण अर्थात् सौधर्म स्वर्गमें पांच, ईशानमें सात, सनत्कुमारमें नौ, माहेन्द्रमें ग्यारह, इस प्रकार दो पल्यकी उत्तरोत्तर वृद्धि होकर सहस्रार कल्पमें सत्ताईस पल्य प्रमाण है । इसके आगे आरण-अच्युत कल्प तक उत्तरोत्तर सात पल्य अधिक होते गये हैं ॥ १२७ ॥

इस आयुको स्थापित कर सौधर्म कल्पकी आयुको सातगुणी, ईशान कल्पकी आदि लेकर महाशुक्र तक तिगुणी और इससे आगे आरण-अच्युत कल्प तक दुगुणी करके मिलानेपर स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थिति पल्योपमशतपृथक्त्व मात्र होती है । उसका प्रमाण यह है— $35 + 21 + 27 + 33 + 39 + 45 + 51 + 57 + 63 + 69 + 75 + 81 + 87 + 93 = 900$ पल्योपम ।

पुरुषवेदियोंमें रहनेका काल शतपृथक्त्व [सागरोपम] प्रमाण है । असुर-कुमारोंमें तीन वार उत्पन्न होता है । नौ ऋषेयकोंमें तीन वार उत्पन्न होता है । स्वर्गोंकी स्थिति छहगुणी होती है ॥ १२८ ॥

१ प्रतिष्ठा ' अरसप्पओ ' इति पाठः ।

२ जे सोलस कप्पाणि केई इच्छंति ताण उवएसे । अट्ठसु आउपमाणं देवीणं दक्खिणिदैसुं ॥ पल्लिदोवमाणि पण णव तेरस सत्तरस एक्कवीसं च । पणवीसं चउतीसं अट्ठत्तालं कमेणेव ॥ पल्ला सत्तेक्कारस पणरसे-नकोणवीस-तेवीसं । सगवीसमेक्कत्तालं पणवण्णं उत्तरिदेदेवीणं ॥ ति. पं. ८, ५२७-२९. साहियपल्लं अवरं कप्प-दुगित्थीण पणग पदमवरं । एक्कारसे चउक्के कप्पे दो-सत्तपरिवट्ठी ॥ त्रि. सा. ५४२.

३ अप्रतौ ' -गेवज्जेसु सगगिदि ', आ-काप्रत्योः ' गेवज्जे सगगिदी ' इति पाठः ।

कप्पेसु एदेसिं पमाणमेदं । ९०० । -

एगं पोग्गलपरियट्ठिं ठविय आवलियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिदे णवुंसयवेदुक्कस्स-
ट्ठिदी हेदि । अवगदवेदा तिणिणपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा ।

चत्तारिकसायाणं मणजोगिभंगो' । अकसायाणमवगदवेदभंगो । मदि-सुदअण्णाणि-
तिणिणपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ठं देसूणं । विभंगणाणितिणिणपदा णाणाजीवं पडुच्च
सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।
आभिणिवोहिय-सुद-ओहिणाणितिणिणपदा णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च
जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण छावट्ठिसागरोवमाणि सादिरियाणि । मणपज्जवणाणीसु तिणिण-

कल्पोंमें इनका प्रमाण यह है -- असुर. $१ \times ३ = ३$, स्वर्ग $२ \times ६ = १२$, $७ \times ६ = ४२$,
 $१० \times ६ = ६०$, $१४ \times ६ = ८४$, $१६ \times ६ = ९६$, $१८ \times ६ = १०८$, $२० \times ६ = १२०$, २२×६
 $= १३२$, अ. म. त्रै. $२४ \times ३ = ७२$, म. म. त्रै. $२७ \times ३ = ८१$, उ. म. त्रै. $३० \times ३ = ९०$; $३ + १२$
 $+ ४२ + ६० + ८४ + ९६ + १०८ + १२० + १३२ + ७२ + ८१ + ९० = ९००$ सागरोपम ।

एक पुद्गलपरिवर्तनको स्थापित करके आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित
करनेपर नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थिति होती है । अपगतवेदी तीन पदवाले कितने काल
तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा वे सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे
एक समय और उत्कर्षसे कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक रहते हैं ।

चार कपायवाले जीवोंकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके समान है । अकपायी जीवोंकी
प्ररूपणा अपगतवेदियोंके समान है ।

मति अक्षानी व श्रुताक्षानी तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी
अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम
अर्ध पुद्गलपरिवर्तन काल तक रहते हैं । विभंगक्षानी तीनों पदवाले नाना जीवोंकी
अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे कुछ
कम तेत्तीस सागरोपम काल तक रहते हैं । आभिनिवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी और अवधि-
क्षानी तीनों पदवाले नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा
जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे छयासठ सागरोपमसे कुछ अधिक काल तक रहते हैं ।

पदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा । एवं केवलणाणि-संजद-सामाइयच्छेदोवट्ठावणसुद्धि-संजद-परिहारसुद्धिसंजद-जहाक्खादाणं पि वत्तवं । णवरि सामाइयच्छेदोवट्ठावणसुद्धिसंजद-जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदाणं जहण्णेण एगसमओ । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । संजदासंजदाणं मणपज्जवभंगो । असंजदाणं मदिअण्णाणिभंगो । चक्खुदंसणीणं तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदंसणीणं णत्थि कालणिहेसो । अधवा अणादिअपज्जवसिदो अणादिसपज्जवसिदो । ओविदंसणी ओहिणाणीणं भंगो । केवलदंसणी केवलणाणीणं भंगो ।

किण्ण-णील-काउलेस्सिया कदिसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि सादिरेयाणि । तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सिया तिण्णिपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण वे-अट्ठारस-तेत्तीस-

मनःपर्ययज्ञानियोंमें तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक रहते हैं ।

इसी प्रकार केवलज्ञानी, संयत, सामायिकछेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिहारशुद्धि-संयत और यथाख्यातसंयतोंके भी कहना चाहिये । विशेष केवल इतना है कि सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत और यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोंका जघन्यसे एक समय काल है । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं । संयतासंयतोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । असंयत जीवोंकी प्ररूपणा मतिअज्ञानियोंके समान है ।

चक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा त्रसपर्याप्तोंके समान है । अचक्षुदर्शनी जीवोंके कालका निर्देश नहीं है । अथवा अचक्षुदर्शनी जीवोंका काल अनादि-अपर्यवसित और अनादि-सपर्यवसित है । अवधिदर्शनियोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । केवल-दर्शनियोंकी प्ररूपणा केवलज्ञानियोंके समान है ।

कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले कृतिसंचित कितने काल तक रहते हैं । नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे तेत्तीस, सत्तरह और सात सागरोपमसे कुछ अधिक काल तक रहते हैं ? तेज, पद्म व शुक्ल लेश्या युक्त तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे दो, अठारह एवं

सागरोवमाणि सादिरयाणि ।

भवसिद्धियाणं अभवसिद्धियाणं च णत्थि कालणिद्दसो, भवसिद्धियाणमभवसिद्धिय-
सरूवेण, अभवसिद्धियाणं पि भवसिद्धियभावेण परिणामाभावादो । अधवा अभवसिद्धियाण-
मणादिओ अपज्जवसिदो । एवं भवसिद्धियाणं पि वत्तव्वं । णवरि अणादिसपज्जवसिदभंगो
वि अत्थि, णिव्वुदाणं भव्वत्ताभावादो । सम्माइड्डीणमाभिणिवोहियभंगो । खइयसम्माइड्डीसु
तिण्णिपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि सादिरयाणि । वेदगसम्मादिड्डीसु तिण्णिपदा
केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं,
उक्कस्सेण छावट्ठिसागरोवमाणि । उवसमसम्मादिड्ढि-सम्मामिच्छादिड्ढिणं वेउव्वियमिस्सभंगो ।
सासणसम्मादिड्डीसु तिण्णिपदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ,
उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जादेभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण
छावलियाओ । मिच्छादिड्ढिणमसंजदभंगो ।

तेत्तीस सागरोपमसे कुछ अधिक काल तक रहते हैं ।

भव्यसिद्धिक और अभव्यसिद्धिक जीवोंके कालका निर्देश नहीं है, क्योंकि
भव्यसिद्धिक अभव्यसिद्धिक रूपसे और अभव्यसिद्धिक भी भव्यसिद्धिक रूपसे परिणमन
नहीं करते । अथवा अभव्यसिद्धिकोंका काल अनादि-अपर्यवसित है । इसी प्रकार भव्य-
सिद्धिकोंके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि उनके अनादि-सपर्यवसित भंग भी है,
क्योंकि, मुक्त होनेपर उनके भव्यत्वका अभाव हो जाता है ।

सम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा आभिनिवोधिकज्ञानियोंके समान है । क्षायिकसम्य-
ग्दृष्टियोंमें तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल
रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे तेत्तीस सागरोपमसे कुछ
अधिक रहते हैं । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें तीनों पदवाले कितने काल तक रहते हैं ? नाना
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे
छयासठ सागरोपम काल तक रहते हैं । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंकी
प्ररूपणा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें तीनों पदवाले
कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे
पल्योपमके असंख्यातवें भाग काल तक रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय
और उत्कर्षसे छह आवली तक रहते हैं । मिथ्यादृष्टियोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके
समान है ।

सण्णीणं पंचिंदियपज्जत्तभंगो । असण्णीणमेइंदियभंगो । आहारा कदिसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊणं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । अणाहारा कदिसंचिदा केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एवं कालाणुगमो समत्तो ।

अंतराणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदाण-मंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोगलपरियट्ठा । सव्वासु मग्गणासु कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदाणं णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । णवरि मणुसअपज्जत्त-वेउव्वियमिस्स-आहारदुग--सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजद-उवसमसम्मादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छादिट्ठी वज्जिदूण' । पढमादि जाव सत्तमपुढवि त्ति णिरयोघभंगो । तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खतिग-पंचि-

संज्ञी जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंके समान है । असंज्ञी जीवोंकी प्ररूपणा एकेन्द्रिय जीवोंके समान है । आहारक जीव कृतिसंचित कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी-अव-सर्पिणी काल तक रहते हैं । अनाहारक कृतिसंचित कितने काल तक रहते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल रहते हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं । इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

अन्तरानुगमसे गतिमार्गणानुसार नरकगतिमें नारकियोंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीवोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अनन्त काल तक होता है ।

सब मार्गणाओंमें कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है । विशेष इतना है कि मनुष्य अपर्याप्त; वैक्रियिकमिश्रकाय-योगी, आहारक व आहारकमिश्र काययोगी, सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंको छोड़कर, अर्थात् इनको छोड़कर शेष सब मार्गणाओंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । प्रथम पृथिवीसे लेकर सप्तम पृथिवी तक अन्तरकी प्ररूपणा सामान्य नारकियोंके समान है ।

तिर्य्यच, पंचेन्द्रिय तिर्य्यच आदि तीन और पंचेन्द्रिय तिर्य्यच अपर्याप्त तीनों पद-

दियतिरिक्खअपज्जत्ताणं तिण्णिपदाणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । होदु एदमंतरं पंचिंदियतिरिक्खाणं, ण तिरिक्खाणं; सेसतिगड्ढिदीए आणंतियाभावादो ? ण, अप्पिदपद-जीवं सेसतिगदीसु हिंडाविय अणप्पिदपदेण तिरिक्खेसु पवेसिय तत्थ अणंतकालमच्छिय णिप्पिदिदूण पुणो अप्पिदपदेण तिरिक्खेसुवक्कंतस्स अणंततरुवलंभादो ।

एवं मणुसतिय-सच्चविगल्लिंदिय-सच्चपंचिंदियाणं च वत्तव्वमविसेसादो । मणुसअपज्जत्तेसु तिण्णिपदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ठं ।

देवगदीए देवाणं भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवाणं सोहम्मीसाणाणं च णारगमंगो । एवं सणक्कुमार-माहिंददेवाणं पि अंतरं परूवेदव्वं । णवरि मुहुत्तपुवत्तमेत्तमेत्थ

वालोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अनन्त काल तक होता है ।

शंका—यह अन्तर पंचेन्द्रिय तिर्यचोंका भले ही हो, किन्तु वह सामान्य तिर्यचोंका नहीं हो सकता; क्योंकि, शेष तीन गतियोंका काल अनन्त नहीं है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, विवक्षित पद (कृतिसंचित आदि) वाले जीवको शेष तीन गतियोंमें घुमाकर अविवक्षित पदसे तिर्यचोंमें प्रवेश कराकर वहां अनन्त काल रह कर और फिर निकल कर विवक्षित पदसे तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेपर अनन्त काल अन्तर पाया जाता है ।

इसी प्रकार मनुष्य आदि तीन, सब विकलेन्द्रिय और सब पंचेन्द्रियोंके भी कहना चाहिये, क्योंकि, इनके उनसे कोई विशेषता नहीं हैं । मनुष्य अपर्याप्तोंमें तीनों पदवालोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग अन्तर होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अनन्त काल अन्तर होता है ।

देवगतिमें देवों, भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषी देवों और सौघर्म-ईशान कल्पके देवोंकी अन्तरप्ररूपणा नारकियोंके समान है । इसी प्रकार सनत्कुमार-माहेन्द्र कल्पके देवोंके भी अन्तरकी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेषता इतनी है कि इनमें जघन्य अन्तर

जहणंतरं हेदि । कुदो ? सणक्कुमार-माहिंददेवेहिं तो तिरिक्ख-मणुस्सेसु गम्भोवकंतिएसु उप्पज्जिय मुहुत्तपुधत्तमच्छिय आउअं बंधिय सणक्कुमार-माहिंददेवेसु पुणो उप्पण्णस्स मुहुत्तपुधत्तमेत्तंतस्वलंभादो । एदम्हादो थोवमंतरं किण्ण लब्भदे ? ण, सणक्कुमार-माहिंद-देवाणं तिरिक्ख-मणुसगम्भोवकंतिएसु आउअं बंधताणं मुहुत्तपुधत्तादो हेद्वा बंधाभावादो । भुंजमाणाउअं घादिय मुहुत्तपुधत्तादो हेद्वा कादूण घादियसेसं जीविय सणक्कुमार-माहिंदेसु उप्पण्णस्स जहणंतरं किण्ण कीरदे ? ण, देवेहि वद्धाउअस्स घादाभावादो । एस अत्थो उवरि सव्वत्थ वत्तव्वो । बम्हवम्होत्तर-लंतवकाविट्ठदेवेसु जहण्णाउअबंधो दिवसपुधत्तं । सुक्क-महासुक्क-सदर-सहस्सारकप्पेसु पक्खपुधत्तं । आणद-पाणद-आरणच्चुदकप्पेसु मास-पुधत्तं । णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु वासपुधत्तं । अणुदिसादि जाव अवराइदे ति वासपुधत्तं । एदाणि जहण्णायुगाणि बंधिय तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पज्जिय अप्पिददेवेसु उप्पण्णाणं जहणमंतरं

मुहूर्तपृथक्त्व मात्र होता है, क्योंकि, सनत्कुमार-माहेन्द्र देवोंमेंसे गर्भोपक्रान्तिक तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न होकर मुहूर्तपृथक्त्व काल रहकर आयुको बांधकर पुनः सनत्कुमार-माहेन्द्र देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके मुहूर्तपृथक्त्व मात्र अन्तर पाया जाता है ।

शंका—इससे स्तोक अन्तर क्यों नहीं पाया जाता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तिर्यंच व मनुष्य गर्भोपक्रान्तिकोंमें आयुको बांधनेवाले सनत्कुमार-माहेन्द्र देवोंके मुहूर्तपृथक्त्वसे नीचे आयुका बन्ध नहीं होता ।

शंका—भुज्यमान आयुका घात करके मुहूर्तपृथक्त्वसे नीचे कर घातनेसे शेष रही आयुके प्रमाण जीवित रहकर सनत्कुमार-माहेन्द्र देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके जघन्य अन्तर क्यों नहीं किया जाता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, देवों द्वारा बांधी गई आयुका घात नहीं होता । यह अर्थ आगे सब जगह कहना चाहिये ।

ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर और लान्तव-कापिष्ठ देवोंमें जघन्य आयुका बन्ध दिवसपृथक्त्व मात्र होता है । शुक्र-महाशुक्र और शतार-सहस्सार कल्पोंमें जघन्य आयुका बन्ध पक्षपृथक्त्व मात्र होता । आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पोंमें जघन्य आयुका बन्ध मासपृथक्त्व मात्र होता है । नौ अवैयक विमानवासी देवोंमें जघन्य आयुका बन्ध वर्षपृथक्त्व मात्र होता है । अनुदिशोंसे लेकर अपराजित विमानवासी देवोंमें जघन्य आयुका बन्ध वर्ष-पृथक्त्व मात्र होता है । इन जघन्य आयुओंको बांधकर तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न होकर पुनः विवक्षित देवोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके जघन्य अन्तर होता है । विशेषता इतनी है कि

१ प्रतिष्ठ 'भुंजमाणाउअ' इति पाठः ।

होदि । णवरि आणद-पाणद-आरणच्चुददेवाणं जहणंतरे भणमाणे मणुस्सेसु मासपुधत्त-
मेत्ताउअं बंधिय मणुस्सेसुप्पज्जिय तत्थ मासपुधत्तं जीविय पुणो सम्मुच्छिमम्मि उप्पज्जिय
अंतोमुहुत्तेण संजमासंजमं धेत्तूण कालं करिय आणद-पाणद-आरणच्चुददेवेसु उप्पणस्स
जहणंतरे वत्तव्वं । कुदो ? संजमासंजमेण संजमेण वा विणा तत्थ उववादाभावादो । सम्मत्तं
चेव गेण्हाविय किण्ण उप्पादिदो ? ण, मणुस्सेसु वासपुधत्तेण विणा मासपुधत्तव्वंतरे सम्मत्त-
संजम-संजमासंजमाणं गहणाभावादो । सम्मुच्छिमेसु सम्मत्तं चेव गेण्हाविय किण्ण देवेसु
उप्पाइदो ? होदु णामेदं, संजमासंजमेण विणा तिरिक्खअसंजदसम्मादिट्ठीणमाणदादिसु
उप्पत्तिदंसणादो । एदं कुदो णव्वदे ? तिरिक्खासंजदसम्मादिट्ठीणं मारणंतियस्स छचोइस-
भागमेत्तपोसणपरूवणादो । दव्वलिंगी मिच्छाइट्ठी किण्ण उप्पादिदो ? ण, वासपुधत्तेण विणा

आनत-प्राणत और आरण-अच्युत देवोंके जघन्य अन्तरकी प्ररूपणा करते समय मनुष्योंमें
मासपृथक्त्व मात्र आयुको बांधकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर और वहां मासपृथक्त्व काल
जीवित रहकर पुनः सम्मूर्च्छिममें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तसे संयमासंयमको ग्रहण
करके मृत्युको प्राप्त हो आनत-प्राणत और आरण-अच्युत देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके जघन्य
अन्तर कहना चाहिये, क्योंकि, संयमासंयम अथवा संयमके बिना उन देवोंमें उत्पत्ति
सम्भव नहीं है ।

शंका — सम्यक्त्वको ही ग्रहण कराकर क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—नहीं कराया, क्योंकि, मनुष्योंमें वर्षपृथक्त्वके बिना मासपृथक्त्वके
भीतर सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमके ग्रहणका अभाव है ।

शंका — सम्मूर्च्छिमोंमें सम्यक्त्वको ही ग्रहण कराकर देवोंमें क्यों नहीं उत्पन्न
कराया ?

समाधान—यह भी सम्भव है, क्योंकि, संयमासंयमके बिना तिर्यंच असंयत-
सम्यग्दृष्टियोंकी आनतादिकोंमें उत्पत्ति देखी जाती है ।

शंका—यह कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान—यह तिर्यंच असंयतसम्यग्दृष्टियोंके मारणान्तिकसमुद्घातकी अपेक्षा
छह बटे चौदह भाग मात्र स्पर्शनकी प्ररूपणा करनेसे जाना जाता है ।

शंका—द्रव्यलिंगी मिथ्यादृष्टिको क्यों नहीं वहां उत्पन्न कराया ?

समाधान—नहीं कराया, क्योंकि, वर्षपृथक्त्वके बिना मासपृथक्त्वके भीतर द्रव्य-

मासपुधत्तमंतरे दव्वलिंगगहणाभावादो । सम्माइड्डी आणदादिदेवेहिंतो मणुस्सेसु किण्ण ओदारिदो ? ण', वासपुधत्तादो हेह्हा सम्माइड्डीणमाउअवंधाभावादो । एवं सच्चैसिं देवाणं जहणंतरपरूवणा कदा ।

उवरिमगेवज्जादिहेह्हिमेदेवाणमुक्कस्संतरमणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्ठा । अणु-दिस-अणुत्तरदेवेसु वेसागरोवमाणि सादिरेयाणि उक्कस्संतरं, अप्पिददेवेहिंतो मणुस्सेसुप्पज्जिय पुव्वकोडिं जीविदूण सोहम्मीसाणदेवेसु वेसागरोवमाउएसु उप्पज्जिय पुणो वि पुव्वकोडाउओ मणुसो होदूण कालं कादूण अप्पिददेवेसुप्पणं दोपुव्वकोडीहि सादिरेयाणि वेसागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि ।

अणुदिसदेवेसु समयाहियएक्कत्तीससागरोवमाउएसु उप्पज्जिय तत्तो भविय मणुस्सेसुप्पज्जिय पुणो भुत्त-भुंजमाणं-भुंजिस्समाणेहि य चदुहि मणुस्साउएहि ऊणचत्तारि-

लिंगका ग्रहण करना सम्भव नहीं है ।

शंका—आनतादि देवोंमेंसे सम्यग्दृष्टियोंको मनुष्योंमें अवतार लिवाकर जघन्य भस्तर क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वर्षपृथक्त्वके नीचे सम्यग्दृष्टियोंके आयुका बन्ध नहीं होता; अतः उनके उक्त प्रकारसे अन्तर घन नहीं सकता था ।

इस प्रकार सब देवोंके जघन्य अन्तरकी प्ररूपणा की गई है ।

उपरिम त्रैवेयको आदि लेकर अधस्तन देवोंके उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुद्गल-परिवर्तन प्रमाण अनन्त काल होता है । अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवोंमें उत्कृष्ट अन्तर दो सागरोपमोंसे कुछ अधिक होता है, क्योंकि, विवक्षित देवोंमेंसे मनुष्योंमें उत्पन्न होकर पूर्वकोटि काल जीवित रहकर दो सागरोपम आयुवाले सौधर्म-ईशान कल्पके देवोंमें उत्पन्न होकर फिर भी पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाला मनुष्य होकर मरकर विवक्षित देवोंमें उत्पन्न होनेपर दो पूर्वकोटियोंसे अधिक दो सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है ।

शंका—एक समय अधिक इकतीस सागरोपम प्रमाण आयुवाले अनुदिश देवोंमें उत्पन्न होकर वहांसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर पुनः भुक्त, भुंजमान और भविष्यमें भोगी जानेवाली चार मनुष्यायुओंसे कम चार सागरोपम प्रमाण आयुवाले

सागरोवमाउएसु सणक्कुमारदेवेसुप्पज्जिय पुणो मणुसगइमागंतूणं समयाहियएक्कत्तीससागरो-
वमाउएसु अणुदिसदेवेसुप्पणे अंतरकालो चत्तारिसागरोवममेत्तो देसूणो लब्भदि । वेदग-
सम्मत्तकालो वि छावडिसागरोवममेत्तो संपुणो होदि । तदो एसो उक्कस्संतरकालो धेत्तव्वो
त्ति ? ण, एत्थ वेदगसम्मत्तेण एक्केण चैव होद्व्वमिदि णियमाभावादो । णियमे वा सादिरेय-
वेसागरोवममेत्तो अणुत्तरदेवाणमंतरकालो विरुज्झदे वेदगसम्मत्तस्स सादिरेयछावडिसागरोवम-
कालप्पसंगादो' च । तदो तिणिण वि सम्मत्ताणि एत्थ ण विरुज्झंति त्ति धेत्तव्वं । जदि एवं
धेप्पदि तो समयाहियएक्कत्तीससागरोवमाणि आउवदेवं मणुस्सेसुप्पाइय पुणो एक्कत्तीस-
सागरोवमाउएसु उवरिमगेवज्जदेवेसु उप्पाइय मणुसगइमाणेदूणं दंसणमोहणीयं खविय खइय-
सम्मत्तेण अणुदिसदेवेसु उप्पाइदे सादिरेयएक्कत्तीससागरोवममेत्तंतरकालो लब्भदे ? ण, अणु-
दिसाणुत्तरदेवाणं तत्तो भविय पुणो तत्थेव उप्पज्जमाणाणं सादिरेयवेसागरोवमे मोत्तूण अहियं-

सनत्कुमार देवोंमें उत्पन्न होकर पुनः मनुष्यगतिको प्राप्त होकर एक समय अधिक
इकतीस सागरोपम प्रमाण आयुवाले अनुदिश देवोंमें उत्पन्न होनेपर अन्तरकाल कुछ
कम चार सागरोपम प्रमाण प्राप्त होता है । और इस प्रकार वेदकसम्यक्त्वका काल भी
छथासठ सागरोपम मात्र सम्पूर्ण होता है । अत एव इस उत्कृष्ट अन्तरकालको ग्रहण
करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां एक वेदकसम्यक्त्व ही होना चाहिये, ऐसा
नियम नहीं है । अथवा ऐसा नियम माननेपर अनुत्तरविमानवासी देवोंका कुछ
अधिक दो सागरोपम मात्र अन्तरकाल विरोधको प्राप्त होगा, तथा वेदकसम्यक्त्वके कुछ
अधिक छथासठ सागरोपम प्रमाण कालका प्रसंग भी आवेगा । इस कारण तीनों ही
सम्यक्त्व यहां विरोधको प्राप्त नहीं होते, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—यदि इस प्रकार ग्रहण करते हैं तो एक समय अधिक इकतीस सागरोपम
प्रमाण आयुवाले देवको मनुष्योंमें उत्पन्न कराकर पुनः इकतीस सागरोपम आयुवाले
उपरिम त्रैवेयकविमानवासी देवोंमें उत्पन्न कराकर मनुष्यगतिमें लाकर दर्शनमोहनीयता
क्षयकर क्षायिक सम्यक्त्वके साथ अनुदिशविमानवासी देवोंमें उत्पन्न करानेपर कुछ
अधिक इकतीस सागरोपम मात्र अन्तरकाल पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अनुदिश व अनुत्तर विमानवासी देवोंके वहांसे व्युत्त
होकर फिरसे वहांपर ही उत्पन्न होनेपर कुछ अधिक दो सागरोपमोंको छोड़कर अधिक

तरकालाणुवलंभादो । एदं कुदो णव्वदे ? ' अणुदिसाणुत्तरदेवाणभुक्कस्संतरं वेसागरोवमाणि सादिरेयाणि ' ति खुद्दाबंधसुत्तादो णव्वदे । ण जुत्तीए सुत्तविरुद्धाए बहुवमंतरं वोत्तुं सक्किज्जदे, अणवत्थापसंगादो । कधमणवत्था ? अणुदिसाणुत्तरदेवस्स मणुस्सेसुप्पज्जिय मिच्छत्तं गदस्स अद्धपोगलपरियट्ठमेत्तंतरप्पसंगादो । तत्तो चुदा मिच्छत्तं ण गच्छंति ति उवव्वुपोगलपरियट्ठमेत्तंतरं ण लब्भदि ति जदि उच्चदि तो अणुदिसाणुत्तरोहिंते भविय पुणो तत्थुप्पज्जमाणाणं सादिरेयवेसागरोवमे मोत्तूण अहिओ अंतरकालो ण लब्भदि ति सुत्तवलेण किण्ण इच्छिज्जदे । सव्वट्ठसिद्धिहि जहणुक्कस्संतरं णत्थि, तत्तो च्चुदाणं' पुणो तत्थुववादाभावादो ।

अन्तरकाल नहीं पाया जाता ।

शंका — यह कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान — अनुदिश व अनुत्तर विमानवासी देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ अधिक दो सागरोपम प्रमाण है, इस क्षुद्रकवन्धके सूत्र(देखिये पु. ७, पृ. १९६) से जाना जाता है । सूत्रविरुद्ध युक्तिसे बहुत अन्तर कहना शक्य नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेसे अनवस्थाका प्रसंग आता है ।

शंका — अनवस्था कैसे आती है ?

समाधान — अनुदिश व अनुत्तर विमानवासी देवके मनुष्योंमें उत्पन्न होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर अर्धपुद्गलपरिवर्तन मात्र अन्तरका प्रसंग आनेसे अनवस्था आती है ।

शंका — अनुदिश व अनुत्तर विमानोंसे व्युत्त हुए देव चूंकि मिथ्यात्वको प्राप्त होते नहीं हैं अतः उनके उपार्धपुद्गलपरिवर्तन मात्र अन्तर नहीं प्राप्त हो सकता ?

समाधान — यदि ऐसा कहते हो तो अनुदिश व अनुत्तर विमानोंसे व्युत्त होकर फिरसे वहाँ उत्पन्न होनेपर कुछ अधिक दो सागरोपमोंको छोड़कर अधिक अन्तरकाल नहीं पाया जाता, ऐसा सूत्रबलसे क्यों नहीं स्वीकार करते; यह भी उत्तर दिया जा सकता है ।

सर्वार्थसिद्धि विमानमें जघन्य व उत्कृष्ट अन्तर नहीं है, क्योंकि, वहाँसे व्युत्त जीवोंकी फिरसे वहाँ उत्पत्ति सम्भव नहीं है ।

एइंदिय-वि-ति-चदु-पंचिंदिएसु' तिरिखभंगो । बादरेइंदियाणं तेसिं चैव पज्जत्ता-
पज्जत्ताणं कदिसंचिदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुद्दामवग्गहणं, उक्कस्सेण
असंखेज्जा लोगा । सुहुमाणं तेसिं चैव पज्जत्तापज्जत्ताणं कदिसंचिदाणं अंतरं केवचिरं
कालादो होदि ? जहण्णेण खुद्दामवग्गहणं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखे-
ज्जाओ ओसप्पिणी-उत्सप्पिणीओ ।

चत्तारिकायाणं तेसिं चैव वादराणं तेसिमपज्जत्ताणं तेसिं सुहुमाणं तेसिं चैव पज्जत्ता-
पज्जत्ताणं कदिसंचिदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दामव-
ग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ठा । वादरपुढविकाइय-वादरआउकाइय-वादर-
तेउकाइय-वादरवाउकाइय-वादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ताणं तसकाइयपज्जत्तापज्जत्ताणं
पंचिंदियतिरिखभंगो । वादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीराणं तेसिमपज्जत्ताणं च एगजीवं पडुच्च
जहण्णेण खुद्दामवग्गहणं, उक्कस्सेण अट्ठाइज्जपोग्गलपरियट्ठा । वणप्फदिकाइयणिगोदजीवाणं
वादर-सुहुमाणं च तेसिं चैव पज्जत्तापज्जत्ताणं च कदिसंचिदाणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियोंमें कृतिसंचित जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यचोके समान है । वादर एकेन्द्रिय और उनके ही पर्याप्त व अपर्याप्त कृति-संचितोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे असंख्यात लोक प्रमाण काल उक्त जीवोंका अन्तर होता है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय और उनके ही पर्याप्त व अपर्याप्त कृतिसंचितोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? उक्त जीवोंका अन्तर जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल होता है ।

चार काय अर्थात् पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक व वायु-कायिक और उनके ही वादर व उनके अपर्याप्त, उनके सूक्ष्म व उनके ही पर्याप्त-अपर्याप्त कृतिसंचितोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण व उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण काल तक होता है । वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर तेजकायिक, वादर वायुकायिक व वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त तथा त्रसकायिक पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोके समान है । वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर व उनके अपर्याप्तोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अट्ठाई पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । वनस्पतिकायिक निगोद जीव उनके वादर व सूक्ष्म तथा उनके ही पर्याप्त व अपर्याप्त कृतिसंचितोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? उक्त जीवोंका

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ।

पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीणं णेरइयभंगो । कायजोगीणमेइंदियभंगो । णवरि जहण्ण-
मंतरं एगसमओ । ओरालियकायजोगि-ओरालियमिस्सकायजोगीणं कदिसंचिदाणं एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि सादिरैयाणि । वेउव्वियकाय-
जोगीणं एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोगगलपरियट्ठा ।
वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एग-
समओ, उक्कस्सेण बारस मुहुत्ताणि । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण दसवाससहस्साणि सादिरैयाणि,
उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोगगलपरियट्ठा । आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीणं
तिणिणपदानमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण
वासपुधत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अट्ठपोगगलपरियट्ठं देसूणं । कम्मइय-
कायजोगीणं कदिसंचिदाणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभव-
ग्गहणं तिसमऊणं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओसप्पिणी-
उत्सप्पिणीओ ।

अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे असंख्यात लोक प्रमाण
काल तक होता है ।

पांच मनोयोगी और पांच वचनयोगी जीवोंकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है ।
काययोगियोंकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान है । विशेषता इतनी है कि इनका जघन्य
अन्तर एक समय होता है । औदारिककाययोगी और औदारिकमिश्रकाययोगी कृतिसंचित
जीवोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तेतीस सागरो-
पमोंसे कुछ अधिक है । वैक्रियिककाययोगियोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे
एक समय और उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अनन्त काल है । वैक्रियिक-
मिश्रकाययोगियोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे
एक समय और उत्कर्षसे बारह मुहूर्त प्रमाण अन्तर होता है । एक जीवकी अपेक्षा
जघन्यसे दश हजार वर्षोंसे कुछ अधिक और उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण
अनन्त काल तक होता है । आहारकाययोगी और आहारमिश्रकाययोगी तीनों पदवालोंका
अन्तर कितने काल तक होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और
उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व प्रमाण उक्त जीवोंका अन्तर होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे
अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । कामेणकाययोगी
कृतिसंचितोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय
कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी-
अवसर्पिणी काल तक होता है ।

इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदाणं तिण्णिपदाणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, एगसमओ, अंतोमुहुत्तं; उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा, [सागरोवमसदपुधत्तं] । अवगदवेदतिण्णं पदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ठं देसूणं ।

चत्तारिकसायकदिसंचिदाणं अंतरं एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अकसायाणं अवगदवेदभंगो ।

णाणाणुवादेण मदि-सुदअण्णाणि-आभिणिवोहिय-सुद-ओहि-मणपज्जवणाणितिण्णि-पदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ठं देसूणं । विभंगणाणीणं णारगभंगो, आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियट्ठंतरेण साम-णादो । केवलणाणीणं णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं ।

सच्चसंजदाणं संजदासंजदाणमसंजदाणं च मदिणाणिभंगो । णवरि सुहुमसांपराइएसु

स्त्री, पुरुष और नपुंसकवेदी तीनों पदवालोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? उक्त तीनों वेदवालोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्रमशः क्षुद्रभवग्रहण, एक समय और अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कर्षसे स्त्री व पुरुषवेदियोंका असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अनन्त काल [तथा नपुंसकवेदियोंका सागरोपमशतपृथक्त्व काल] होता है । अपगतवेदी तीन पदोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्ध पुद्गलपरिवर्तन काल तक अन्तर होता है ।

चार कपायवाले कृतिसंचितोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त होता है । अकपायी जीवोंकी अन्तरप्ररूपणा अपगतवेदियोंके समान है ।

ज्ञानमार्गानुसार मातिअज्ञानी, श्रुताज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानियोंमें तीन पदोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्ध पुद्गलपरिवर्तन काल उक्त जीवोंका अन्तर होता है । विभंगज्ञानियोंकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवै भाग मात्र पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अन्तरसे इनकी नारकियोंके साथ समानता है । केवल-ज्ञानियोंका नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता ।

सब संयत, संयतासंयत और असंयत जीवोंकी प्ररूपणा मतिज्ञानियोंके समान है । विशेषता इतनी है कि सूक्ष्मसाम्परायिकसंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक

णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छम्मासा । एगंजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोगलपरियट्ठं ।

चक्खुदंसणीणं णारगभंगो । अचक्खुदंसणीणं णत्थि अंतरं, केवलदंसणीणं पुणो अचक्खुदंसणपरिणामाभावादो । ओहिदंसणीणं ओहिणाणिभंगो । केवलदंसणीणं केवलणाणिभंगो ।

किण्ण-णील-काउलेस्सियाणं कदिसंचिदाणं अंतरं केवचिरं कालादो होदि ? एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि । तेउ-पम्म-सुक्क-लेस्सियाणं णारगभंगो । भवसिद्धियाणं णत्थि अंतरं, सिद्धाणं भवियपरिणामाभावादो । अभव-सिद्धियाणं णत्थि अंतरं । कारणं सुगमं ।

सम्मादिट्ठि-वेदगसम्मादिट्ठि-मिच्छादिट्ठीणमाभिणिबोहियभंगो । खइयसम्मादिट्ठीणं णत्थि अंतरं, सम्मत्तंतरगमणाभावादो । उवसमसम्मादिट्ठीणं तिण्णं पदाणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण सत्तरादिदियाणि । एगजीवं पडुच्च सम्मादिट्ठिभंगो । सम्मामिच्छा-इट्ठीणं तिण्णिपदाणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स

समय और उत्कर्षसे छह मास तक अन्तर होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्त-मुहूर्त और उत्कर्षसे अर्ध पुद्गलपरिवर्तन काल तक अन्तर होता है ।

चक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है । अचक्षुदर्शनी जीवोंका अन्तर नहीं होता, क्योंकि, केवलदर्शनी जीव पुनः अचक्षुदर्शनी रूपसे परिणमन नहीं करते । अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । केवलदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा केवलज्ञानियोंके समान है ।

कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले कृतिसंचितोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तमुहूर्त और उत्कर्षसे तेत्तीस सागरोपमोंसे कुछ अधिक अन्तर होता है । तेज, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले जीवोंकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है ।

भव्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर नहीं होता, क्योंकि, सिद्ध जीवोंका पुनः भव्य स्वरूपसे परिणमन नहीं होता । अभव्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर नहीं होता । इसका कारण सुगम है ।

सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा आभिनिबोधक-ज्ञानियोंके समान है । क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर नहीं होता, क्योंकि, क्षायिक-सम्यक्त्व अन्य सम्यक्त्व स्वरूप परिणत नहीं होता । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके तीन पदोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे सात रात्रि-दिन होता है । एक जीवकी अपेक्षा उनकी प्ररूपणा सम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है । सम्यग्मिथ्या-दृष्टियोंके तीन पदोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे

असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च आभिणिबोहियभंगो । सासणसम्मादिट्ठीणं णाणाजीवं पडुच्च सम्मामिच्छत्तभंगो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, उक्कस्सेण अद्धपोगगलपरियट्ठं देसूणं ।

साण्णि-असण्णीणमेइंदियभंगो । आहारएसु तिण्णिपदाणं जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णिसमया । अणाहारएसु जहण्णेण खुदाभवग्गहणं तिसमऊणं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओसप्पिणी-उस्सप्पिणीओ । एवमंतराणुगमो समत्तो ।

भावाणुगमेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइयाणं कदि-णोकदि-अवत्तव्वसंचिदाणं को भावो ? ओदइओ भावो । अणेगेसु भावेसु संतेसु कधमोदइयत्तं चेव जुज्जदे ? ण, णेरइय-भावप्पणादो; इदरेहि भावेहितो णेरइयभावाणुप्पत्तीदो । एवं सव्वगदीणं वत्तव्वं । इंदियमग्गणाए वि ओदइओ भावो, एग-वि-ति-चटु-पंचिंदियजादिकम्मेहितो तस्सुप्पत्तीदो । एवं कायमग्गणाए

पल्योपमके असंख्यातवें भाग होता है । एक जीवकी अपेक्षा उनकी प्ररूपणा आभिनि-बोधिकक्षानियोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके समान है । एक जीवकी अपेक्षा वह जघन्यसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग और उत्कर्षसे कुछ कम अर्ध पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है ।

संक्षी और असंक्षी जीवोंकी प्ररूपणा एकेन्द्रिय जीवोंके समान है । आहारक जीवोंमें तीनों पदोंका अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय तक होता है । अनाहारकोंमें वह अन्तर जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी प्रमाण है । इस प्रकार अन्तराणुगम समाप्त हुआ ।

भावानुगमकी अपेक्षा गतिमार्गणानुसार नरकगतिमें नारकी कृति, नोकृति और अवक्तव्य संचित जीवोंके कौनसा भाव होता है ? उक्त जीवोंके औदयिक भाव होता है ।

शंका—उनके अनेक भावोंके होते हुए केवल एक औदयिक भाव कहना कैसे उचित है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि यहां नारक भाव (पर्याय) की विवक्षा है और यह नारक पर्याय अन्य भावोंसे उत्पन्न होती नहीं है ।

इसी प्रकार सब गतियोंके औदयिक भाव कहना चाहिये । इन्द्रियमार्गणामें भी औदयिक भाव है, क्योंकि, वह एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जाति नामकमौके उदयसे होती है । इसी प्रकार कायमार्गणामें भी औदयिक भाव कहना

वि वत्तव्वं, पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-चाउकाइय-वणप्फदिकाइय-तसकाइयंणामकम्मे-
हिंतो तदुप्पत्तीदो । जोगमग्गणा वि ओदइया, णामकम्मस्स उदीरणोदयजणिदत्तादो । एवं
वेद-कसायमग्गणाओ वि वत्तव्वाओ, वेद-कसायाणमुदएण तदुप्पत्तीदो । णाणमग्गणा सिया
खइया, णाणावरणक्खएण केवलणाणुप्पत्तीदो । सिया खओवसमिया, मदि-सुद-ओहि-मण-
पज्जवणाणावरणक्खओवसमेण मदि-सुद-ओहि-मणपज्जवणाणुप्पत्तीदो ।

संजममग्गणा सिया ओदइया, चारित्तावरणोदएण असंजमुप्पत्तीदो । सिया खओव-
समिया, चारित्तावरणक्खओवसमेण संजमासंजम-सामाइयच्छेदोवट्ठावण-परिहारसुद्धिसंजमाण-
मुप्पत्तिदंसणादो । सिया खइया, चारित्तावरणक्खएण जहाक्खादसंजमुप्पत्तीदो । सिया उव-
समिया, चारित्तमोहोवसमेण उवसंतकसाय-उवसामएसु संजमुवलंभादो ।

दंसणमग्गणा सिया खइया, दंसणावरणक्खएण केवलदंसणुप्पत्तीदो । सिया खओव-
समिया, चक्खु-अचक्खु-ओहिदंसणावरणक्खओवसमेण चक्खु-अचक्खु-ओहिदंसणाणुप्पत्ति-
दंसणादो ।

चाहिये, क्योंकि, पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, घनस्पतिकायिक
और व्रसकायिक नामकमौके उदयसे उन उन भावोंकी उत्पत्ति होती है ।

योगमार्गणा भी औदयिक है, क्योंकि, वह नामकर्मकी उदीरणा व उदयसे उत्पन्न
होती है । इसी प्रकार वेद व कपाय मार्गणाओंको भी कहना चाहिये, क्योंकि, उनकी
उत्पत्ति वेद व कपायके उदयसे होती है । ज्ञानमार्गणा कथंचित् क्षायिक है, क्योंकि,
ज्ञानावरणके क्षयसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है । कथंचित् वह क्षायोपशमिक है, क्योंकि,
मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे क्रमशः मति, श्रुत, अवधि
और मनःपर्यय ज्ञानोंकी उत्पत्ति होती है ।

संयममार्गणा कथंचित् औदयिक है, क्योंकि, चारित्रावरणके उदयसे असंयम
भाव उत्पन्न होता है । कथंचित् वह क्षायोपशमिक है, क्योंकि, चारित्रावरणके क्षयोपशमसे
संयमासंयम, सामायिक-छेदोपस्थापना और परिहारशुद्धिसंयमकी उत्पत्ति देखी जाती
है । कथंचित् वह क्षायिक है, क्योंकि, चारित्रावरणके क्षयसे यथाख्यात संयम उत्पन्न
होता है । कथंचित् वह औपशमिक है, क्योंकि, उपशान्तकपाय व उपशामकोंमें चारित्र-
मोहनीयके उपशमसे संयम भाव पाया जाता है ।

दर्शनमार्गणा कथंचित् क्षायिक है, क्योंकि, दर्शनावरणके क्षयसे केवलदर्शनकी
उत्पत्ति होती है । कथंचित् क्षायोपशमिक है, क्योंकि, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शना-
वरणके क्षयोपशमसे क्रमशः चक्षु, अचक्षु व अवधि दर्शनकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

लेस्सामगणा ओदइया, कसायाणुविद्धजोगं मोत्तूण लेस्सामावादे । भवियमगणा पारिणामिया, कम्माणमुदयक्खय-खओवसमुवसमेहि भव्वाभव्वत्ताणमणुप्पत्तीदो । सम्मत्तमगणा सिया ओदइया, दंसणमोहोदएण मिच्छतुप्पत्तीदो । सिया उवसमिया, तस्सेव उवसमेण उवसमसम्मत्तुप्पत्तिदंसणादो । सिया खओवसमिया सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं खओवसमेण वेदग-सम्मामिच्छत्ताणमुप्पत्तीए । सिया खइया, दंसणमोहक्खएण खइयसम्मत्तस्सुप्पत्ति-दंसणादो । सिया पारिणामिया, दंसणमोहणीयस्स उदय-उवसमक्खय-खओवसमेहि विणा सासणंसम्मत्तुप्पत्तीदो ।

सण्णिमगणा सिया खओवसमिया, णोइंदियावरणक्खओवसमेण सण्णितुप्पत्तीदो । सिया ओदइया, णोइंदियावरणोदएण असण्णितुवलंभादो । आहारमगणा ओदइया, ओरालिय-वेउव्विय-आहारसरीराणमुदएण आहारित्तस्सुप्पत्तीदो कम्मइयसरीरमेत्तोदएण अणाहारित्तुप्पत्तीदो च । एवं भावानुगमो समत्तो ।

लेइया मार्गणा औदयिक है, क्योंकि, कषायानुविद्ध योगको छोड़कर लेइयाका अभाव है, अर्थात् कषायानुरजित योगप्रवृत्तिको लेइया कहते हैं । अत एव वह औदयिक है । भव्य मार्गणा पारिणामिक है, क्योंकि, कर्मोंके उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशमसे भव्यत्व व अभव्यत्वकी उत्पत्ति नहीं होती ।

सम्यक्त्व मार्गणा कथंचित् औदयिक है, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके उदयसे मिथ्यात्वकी उत्पत्ति होती है । कथंचित् वह औपशमिक है, क्योंकि, उसीके उपशमसे उपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति देखी जाती है । कथंचित् क्षयोपशमिक है, क्योंकि, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके क्षयोपशमसे वेदकसम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्पत्ति होती है । कथंचित् वह क्षायिक है, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्ति देखी जाती है । कथंचित् पारिणामिक है, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके बिना सासादनसम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है ।

संक्षी मार्गणा कथंचित् क्षयोपशमिक है, क्योंकि, नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे संक्षित्वकी उत्पत्ति होती है । कथंचित् औदयिक है, क्योंकि, नोइन्द्रियावरणके उदयसे असंक्षित्व पाया जाता है । आहार मार्गणा औदयिक है, क्योंकि, औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरके उदयसे आहारित्वकी उत्पत्ति होती है और कर्मण शरीर मात्रके उदयसे अनाहारित्वकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

१ प्रतिष्ठ 'खओवसमियाओ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठ 'आहारमगणा' इति पाठः ।

३ प्रतिष्ठ 'आहारित्तस्सुप्पत्तीदो' इति पाठः ।

अप्पाबहुगाणुगमेण गदियाणुवादेण गिरयगदीए णेरइएसु सव्वत्थोवा णोकदिसंचिदा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? पदरस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ सेडीओ । एवं पढमादि जाव सत्तमपुढवी त्ति पत्तेगं पत्तेगं णोकदिवत्तव्व-कदिसंचिदाणं सत्थाणप्पाबहुगं वत्तव्वं । एवं चेव असंखेज्जाणंतरासीणं पि वत्तव्वं । णवरि सिद्धेसु सव्वत्थोवा कदिसंचिदा, तिप्पहुडीणं जीवाणं सिज्जंताणं पाएण अभावादो । अवत्तव्वसंचिदा संखेज्जगुणा, दोणं दोणं जीवाणं पाएण णिव्वुइगमणुवलंभादो । णोकदिसंचिदा संखेज्जगुणा, एक्केक्कजीवाणं पाएण सिद्धिसंभवादो । एदमप्पाबहुगं सोलसवदियअप्पाबहुएण सह विसुज्जदे, सिद्धकालादो सिद्धाणं संखेज्जगुणत्तं फिट्ठिदूणं विसेसाहियत्तप्पसंगादो । तेणेत्थ उवएसं लहिय एगदरणिणओ कायव्वो । संतकम्मप्पयडिपाहुडं मोत्तूण सोलसवदियअप्पाबहुअदंडए पहाणे कदे मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं एत्तो संचयं पडिवज्जमाण-सिद्धाणं आणदादिदेवरासीणं च अप्पाबहुए भणमाणे सव्वत्थोवा णोकदिसंचिदा, अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया, कदिसंचिदा संखेज्जगुणा त्ति वत्तव्वं । मणुसिणीसु सव्वत्थोवा कदिसंचिदा,

अल्पबहुत्वानुगमसे गतिमार्गानुसार नरकगतियोंमें नारकियोंमें नोकृतिसंचित जीव सबसे स्तोके हैं । उनसे अवक्तव्यसंचित जीव विशेष अधिक हैं । उनसे कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । गुणकार यहां क्या है ? जगप्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात जगत्रेणी गुणकार है । इसी प्रकार प्रथम पृथिवीसे लेकर सप्तम पृथिवी तक प्रत्येक प्रत्येक नोकृति, अवक्तव्य और कृतिसंचित जीवोंके स्वस्थान अल्पबहुत्व कहना चाहिये ।

इसी प्रकार ही असंख्यात और अनन्त राशियोंके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि सिद्धोंमें कृतिसंचित सबसे स्तोके हैं, क्योंकि, तीन आदि सिद्ध होनेवाले जीवोंका प्रायः अभाव है । उनसे अवक्तव्यसंचित असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, दो दो जीवोंका प्रायः मुक्तिगमन पाया जाता है । उनसे नोकृतिसंचित संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, एक एक जीवोंके सिद्ध होनेकी अधिक सम्भावना है ।

यह अल्पबहुत्व षोडशपदिक अल्पबहुत्वके साथ विरोधको प्राप्त होता है, क्योंकि, सिद्धकालकी अपेक्षा सिद्धोंके संख्यातगुणत्व नष्ट होकर विशेषाधिकपनेका प्रसंग आता है । इस कारण यहां उपदेश प्राप्तकर दोमेंसे किसी एकका निर्णय करना चाहिये । सत्कर्मप्रकृतिप्राभृतको छोड़कर षोडशपदिक अल्पबहुत्वदण्डको प्रधान करनेपर मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, इनसे संचयको प्राप्त होनेवाले सिद्ध और आनतादिक देवराशियोंके अल्पबहुत्वको कहनेपर — नोकृतिसंचित सबमें स्तोके हैं, इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष हैं, इनसे कृतिसंचित संख्यातगुणे हैं, ऐसा कहना चाहिये । मनुष्यनियोंमें कृतिसंचित

बहुणं जीवाणमक्कमेण मणुसिणीसु पविट्ठवारणमइत्थोवत्तादो । अवत्तव्वसंचिदा संखेज्जगुणा, मणुसिणीसु दोण्णं दोण्णं जीवाणं पाएणुप्पत्तिदंसणादो । णोकदिसंचिदा संखेज्जगुणा, एक्केकजीवपवेसस्स पउरमुवलंभादो । एवं मणुसपज्जत्त-मणपज्जवणाणि-खइयसम्माइडि-संजद-सामाइयछेदोवट्ठावण-परिहार-सुहुम-जहाक्खादसंजद-आणदादिमणुसोववादियदेवाणणेसि च संखेज्जरासीणं वत्तव्वं । एवं सत्थाणप्पावहुगं सम्मत्तं ।

परत्थाणे सव्वत्थोवा सत्तमाए पुढवीए णोकदिसंचिदा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । छट्ठीए णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । पंचमीए णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । चउत्थीए णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । तदियाए णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । विदियाए णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । पढमाए णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । सत्तमाए कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । छट्ठीए कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । पंचमीए कदिसंचिदा

सबमें स्तोक हैं, क्योंकि, बहुत जीवोंके एक साथ मनुष्यनियोंमें प्रविष्ट होनेके वार अत्यन्त स्तोक हैं । अवक्तव्यसंचित संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, मनुष्यनियोंमें दो दो जीवोंकी प्रायः करके उत्पत्ति देखी जाती है । नोकृतिसंचित संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, एक एक जीवका प्रवेश उनमें अधिकतासे पाया जाता है ।

इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त, मनःपर्ययज्ञानी, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, संयत, सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिहारशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत, यथाख्यात-संयत, आनतादि विमानोंसे मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले देव तथा अन्य भी संख्यात राशियोंके कहना चाहिये । इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

परस्थान अल्पबहुत्वमें सातवीं पृथिवीके नोकृतिसंचित जीव सबमें स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे छट्ठी पृथिवीके नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे पांचवीं पृथिवीके नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । चतुर्थ पृथिवीके नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे तृतीय पृथिवीके नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे द्वितीय पृथिवीके नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे प्रथम पृथिवीके नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे सातवीं पृथिवीके कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे छठी पृथिवीके कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे पांचवीं पृथिवीके कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे चतुर्थ

असंखेज्जगुणा । चउत्थीए कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । तदियाए कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । त्रिदियाए कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । पढमाए कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । एवं परत्थाणप्पाबहुगं जाणिदूण सव्वमग्गणासु णेयव्वं ।

सव्वपरत्थाणे सव्वत्थोवाओ मणुसिणीओ कदिसंचिदाओ । अवत्तव्वसंचिदाओ संखेज्जगुणाओ । णोकदिसंचिदाओ संखेज्जगुणाओ । मणुसा णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । तिरिक्खजोणिणीओ णोकदिसंचिदाओ असंखेज्जगुणाओ । अवत्तव्वसंचिदाओ विसेसाहियाओ । णेरइया णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । देवा णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । देवीओ णोकदिसंचिदाओ संखेज्जगुणाओ । अवत्तव्वसंचिदाओ विसेसाहियाओ । मणुसा कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । णेरइया कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । तिरिक्खजोणिणीओ कदिसंचिदाओ असंखेज्जगुणाओ । देवा कदिसंचिदा संखेज्जगुणा । देवीओ कदिसंचिदाओ संखेज्जगुणाओ । तिरिक्खणोकदिसंचिदा अणंतगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । कुदो ? असंखेज्जपोग्गलपरियट्ठकालभन्तरसंचिदरासिग्गहणादो । सिद्धा कदिसंचिदा अणंतगुणा । अवत्तव्वसंचिदा संखेज्जगुणा । णोकदिसंचिदा संखेज्जगुणा ति ।

पृथिवीके कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे तृतीय पृथिवीके कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे द्वितीय पृथिवीके कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे प्रथम पृथिवीके कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार परस्थान अल्पबहुत्वको जानकर सब मार्गणाओंमें ले जाना चाहिये ।

सर्व परस्थान अल्पबहुत्वमें— मनुष्यनियां कृतिसंचित सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित संख्यातगुणी हैं । इनसे नोकृतिसंचित संख्यातगुणी हैं । इनसे मनुष्य नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे तिर्य्यच योनिमती नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे नारकी नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे देव नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे देवियां नोकृतिसंचित संख्यातगुणी हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे मनुष्य कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे नारकी कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे तिर्य्यच योनिमती कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे देव कृतिसंचित संख्यातगुणे हैं । इनसे देवियां कृतिसंचित संख्यातगुणी हैं । इनसे तिर्य्यच नोकृतिसंचित अनन्तगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, यहां असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन कालके भीतर संचित राशिका ग्रहण है । इनसे सिद्ध कृतिसंचित अनन्तगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित संख्यातगुणे हैं । इनसे नोकृति-संचित संख्यातगुणे हैं ।

संपहि इंदियमग्गणाए वुच्चदे । तं जहा— सच्चत्थोवा चउरिंदिया णोकदिसंचिदा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । तेइंदिया णोकदिसंचिदा विसेसाहिया । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । वेइंदिया णोकदिसंचिदा विसेसाहिया । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । पंचिंदिया णोकदिसंचिदा असंखेज्जगुणा, असंखेज्जवाससंचिदत्तादो । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । चउरिंदिया कदिसंचिदा विसेसाहिया । तेइंदिया कदिसंचिदा विसेसाहिया । वेइंदिया कदिसंचिदा विसेसाहिया । एइंदिया णोकदिसंचिदा अणंतगुणा । अवत्तव्वसंचिदा विसेसाहिया । कदिसंचिदा असंखेज्जगुणा । एवं जे जहा भवंति ते तहा णेदव्वा । एवं गणणकदी समत्ता ।

जा सा गंथकदी णाम सा लोए वेदे समए सद्दपबंधणा अक्खर-
कव्वादीणं जा च गंथरचना कीरदे सा सव्वा गंथकदी णाम ॥६७॥

अय इन्द्रिय मार्गणामें अल्पबहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है— चतुरिन्द्रिय नोकृतिसंचित सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे त्रीन्द्रिय नोकृतिसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे द्वीन्द्रिय नोकृतिसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे पंचेन्द्रिय नोकृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे असंख्यात वर्षोंमें संचित हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित पंचेन्द्रिय विशेष अधिक हैं । इनसे कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इनसे चतुरिन्द्रिय कृतिसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे त्रीन्द्रिय कृतिसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे द्वीन्द्रिय कृतिसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे एकेन्द्रिय नोकृतिसंचित अनन्तगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यसंचित विशेष अधिक हैं । इनसे कृतिसंचित असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार जो जिस प्रकार होते हैं उन्हें उसी प्रकार ले जाना चाहिये ।

इस प्रकार गणनकृति समाप्त हुई ।

जो वह ग्रन्थकृति है वह लोकमें, वेदमें व समयमें शब्दसन्दर्भ रूप अक्षरात्मक काव्यादिकोंके द्वारा जो ग्रन्थरचना की जाती है वह सब ग्रन्थकृति कहलाती है ॥ ६७ ॥

१ अप्रती 'चउरिंदिया कदि० पंचिंदिया विसेसाहिया', आप्रती 'चउरिंदिया कदि० संचिंदिया विसेसाहिया' इति पाठः ।

गंधकदी चउव्विहा णाम-डुवणा-दव्व-भावगंधकदिभेएण । णाम-डुवणाओ सुगमाओ । दव्वगंधकदी दुविहा आगम-णोआगमभेएण । आगमदव्वगंधकदी णोआगमजाणुंगसरीर-भावियगंधकदीओ च सुगमाओ, बहुसो उत्तत्तादो । जा सा तव्वदिरित्तदव्वगंधकदी सा गंधिम-वाइम-वेदिम-पूरिमादिभेएण अण्यविहा । कधमेदेसिं गंधसण्णा ? ण, एदे जीवो बुद्धीए अप्पाणम्मि गंधदि^१ त्ति तेसिं गंधत्तिसिद्धीदो । जा सा भावगंधकदी सा दुविहा आगम-णोआगमभावगंधकदिभेएण । गंधकइपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावगंधकई णाम । णोआगम-भावगंधकई दुविहा सुद-णोसुदभावगंधकदिभेएण । तत्थ सुदं तिविहं —लोइयं वेदिमं सामाइयं चेदि । तत्थ एक्केक्कं दुविहं दव्व-भावसुदभेएण । तत्थ दव्वसुदस्स सद्दप्पयस्स तव्वदि-^२ दिरित्तणोआगमदव्वगंधकदीए परूवणा कायव्वा, भावाहियारे दव्वेण पओजणाभावादो । हस्स्यश्च-तंत्र-कौटिल्य-वात्स्यायनादिवोधो लौकिकभावश्रुतग्रन्थः । द्वादशांगादिवोधो वैदिक-

नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे ग्रन्थकृति चार प्रकारकी है। इनमेंसे नाम व स्थापना ग्रन्थकृतियां सुगम हैं। द्रव्यग्रन्थकृति आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारकी है। आगमद्रव्यग्रन्थकृति, नोआगम-ज्ञायकशरीर-द्रव्यग्रन्थकृति और नोआगम-भावि द्रव्यग्रन्थकृति सुगम हैं, क्योंकि, उनका अर्थ बहुत बार कहा जा चुका है। जो तदव्यतिरिक्त द्रव्यग्रन्थकृति है वह गूँथना, बुनना, वेष्टित करना और पूरना आदिके भेदसे अनेक प्रकारकी है।

शंका—इनकी ग्रन्थ संज्ञा कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जीव इन्हें बुद्धिसे आत्मामें गूँथता है अतः उनके ग्रन्थपना सिद्ध है।

भावग्रन्थकृति आगम और नोआगम भावग्रन्थकृतिके भेदसे दो प्रकारकी है। ग्रन्थकृतिप्राभृतका जानकार उपयुक्त जीव आगमभावग्रन्थकृति कहलाता है। नोआगम-भावग्रन्थकृति श्रुत और नोश्रुत भावग्रन्थकृतिके भेदसे दो प्रकारकी है। उनमेंसे श्रुत तीन प्रकारका है—लौकिक, वैदिक और सामायिक। इनमेंसे प्रत्येक द्रव्य और भाव श्रुतके भेदसे दो प्रकारकी है। उनमेंसे शब्दात्मक द्रव्यश्रुतकी तदव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यग्रन्थ-कृतिमें प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, भावके अधिकारमें द्रव्यसे कोई प्रयोजन नहीं है।

हाथी, अश्व, तन्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र और वात्स्यायन कामशास्त्र आदि विषयक ज्ञान लौकिक भावश्रुत ग्रन्थकृति है। द्वादशांगादि विषयक बोध वैदिक भावश्रुत ग्रन्थकृति

१ काप्रतौ ' गंधदि ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' -प्पयस्स करणं तव्वदि- ' इति पाठः ।

भावश्रुतग्रन्थः । नैयायिक-वैशेषिक-लोकायत-सांख्य-मीमांसक-बौद्धादिदर्शनविषयबोधः सामा-
यिकभावश्रुतग्रन्थः । एदेसिं सहपबंधणा^१ अक्खरकच्चादीणं जा च गंथरयणा अक्षरकाव्यै-
ग्रन्थरचना प्रतिपाद्यविषया सा सुदगंथकदी णाम । जा सा णोसुदगंथकदी सा दुविहा
अब्भंतरिया बाहिरा चेदि । तत्थ अब्भंतरिया मिच्छत्त-तिवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-
दुगुंछा-कोह-माण-माया-लोहभेएण चोदसविहा । बाहिरिया खेत्त-वत्थु-धण-धण्ण-दुवय-चउ-
प्पय-जाण-सयणासण-कुप्प-भंडभेएण दसविहा^२ । कधं खेत्तादीणं भावगंथसण्णा ? कारणे
कज्जोवयारादो । व्यवहारणयं पडुच्च खेत्तादी गंथो, अब्भंतरगंथकारणत्तादो । एदस्स परिहरणं
णिगंथत्तं । णिच्छयणयं पडुच्च मिच्छत्तादी गंथो, कम्मबंधकारणत्तादो । तेसिं परिच्चागो

है । तथा नैयायिक, वैशेषिक, लोकायत, सांख्य, मीमांसक और बौद्ध, इत्यादि दर्शनोंको विषय
करनेवाला बोध सामायिक भावश्रुत ग्रन्थकृति है । इनकी शब्दसन्दर्भ रूप अक्षरकाव्यों
द्वारा प्रतिपाद्य अर्थको विषय करनेवाली जो ग्रन्थरचना की जाती है वह श्रुतग्रन्थकृति
कही जाती है ।

नोश्रुतग्रन्थकृति दो प्रकारकी है — आभ्यन्तर और बाह्य । उनमेंसे आभ्यन्तर
नोश्रुतग्रन्थकृति मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध,
मान, माया और लोभके भेदसे चौदह प्रकारकी है । बाह्य नोश्रुतग्रन्थकृति क्षेत्र, वास्तु,
धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, शयन, आसन, कुप्य और भाण्डके भेदसे दस
प्रकारकी है ।

शंका — क्षेत्रादिकोंकी भावग्रन्थ संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान — कारणमें कार्यका उपचार करनेसे क्षेत्रादिकोंकी भावग्रन्थ संज्ञा बन
जाती है । व्यवहारनयकी अपेक्षा क्षेत्रादिक ग्रन्थ हैं, क्योंकि, वे आभ्यन्तर ग्रन्थके कारण हैं
और इनका त्याग करना निर्ग्रन्थता है । निश्चय नयकी अपेक्षा मिथ्यात्वादिक ग्रन्थ हैं,
क्योंकि, वे कर्मबन्धके कारण हैं और इनका त्याग करना निर्ग्रन्थता है । नैगम नयकी

१ प्रतिपु 'सत्थपबंधणा ग्रन्थरचना अक्खर-' इति पाठः ।

२ मिच्छत्त-वेदरागा त्वेव हस्सादियां यं छंदोसा । चत्वारि तह कसाया चौदस अब्भंतरा गंथ ॥ खेत्त
वत्थु धण-धण्णगंदं दुपद-चउप्पदगंदं च । जीण-सयणासणाणि यं कुप्पे भंडेषु दसं होति । मूला. ५, २१७-२१८.

णिग्गंथत्तं । णइग्गमणएण तिरियणाणुवजोगी वज्झंभंतरपरिग्गहपरिच्चाओ णिग्गथत्तं । एवं गंथकदी समत्ता ।

जा सा करणकदी णाम सा दुविहा मूलकरणकदी चेव उत्तर-
करणकदी चेव । जा सा मूलकरणकदी णाम सा पंचविहा- ओरालिय-
सरीरमूलकरणकदी वेउव्वियसरीरमूलकरणकदी आहारसरीरमूल-
करणकदी तेयासरीरमूलकरणकदी कम्मइयसरीरमूलकरणकदी चेदि
॥ ६८ ॥

‘ जा सा करणकदी णाम ’ इति पुबुद्धिअहियारसंभालणडं भणिदं । सा दुविहा,

अपेक्षा तो रत्नत्रयमें उपयोगी पड़नेवाला जो भी बाह्य व अभ्यन्तर परिग्रहका परित्याग है उसे निर्ग्रन्थता समझना चाहिये ।

विशेषार्थ — यहां नामादि निक्षेपों द्वारा ग्रन्थकृतिका विचार करते हुए मुख्यतया तद्व्यतिरिक्त द्रव्यग्रन्थकृति और भावग्रन्थकृतिके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । जैसा कि ग्रन्थकृतिका निर्देश करते हुए सूत्रमें उसे लौकिक, वैदिक और सामायिक भेदसे तीन प्रकारका बतलाया है । तदनुसार जिन निमित्तोंके आधारसे इन ग्रन्थोंकी रचना होती है वे सब तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यग्रन्थकृति कहलाते हैं । प्रकृतमें टीकाकारने गूथना, चुनना आदि द्वारा लौकिक ग्रन्थकृतिके निमित्तोंका निर्देश किया है । इसी प्रकार अन्य ग्रन्थकृतियोंकी रचनाके निमित्त जानने चाहिये । भावग्रन्थकृतिका निर्देश करते हुए नोआगमभावग्रन्थकृति श्रुत और नोश्रुत भेदसे दो प्रकारकी बतलाई है । श्रुतमें लौकिक, वैदिक और सामायिक सब प्रकारके श्रुतका ज्ञान लिया गया है और नोश्रुतमें बाह्य तथा अभ्यन्तर परिग्रह लिया गया है । अभ्यन्तर परिग्रह तो आत्माके परिणाम हैं, इसलिये इनका भाव निक्षेपमें अन्तर्भाव हो जाता है इसमें सन्देह नहीं; किन्तु बाह्य परिग्रहका भावनिक्षेपमें अन्तर्भाव नहीं होता । फिर भी यहां कारणमें कार्यका उपचार करके भाव-निक्षेपके प्रकरणमें बाह्य परिग्रहका भी ग्रहण किया है, ऐसा यहां समझना चाहिये ।

इस प्रकार ग्रन्थकृति समाप्त हुई ।

करणकृति दो प्रकारकी है — मूलकरणकृति और उत्तरकरणकृति । मूलकरणकृति पांच प्रकारकी है — औदारिकशरीरमूलकरणकृति, वैकियिकशरीरमूलकरणकृति, आहारक-शरीरमूलकरणकृति, तैजसशरीरमूलकरणकृति और कार्मणशरीरमूलकरणकृति ॥ ६८ ॥

‘ जो वह करणकृति ’ यह वचन पूर्वमें उद्दिष्ट अधिकारका स्मरण करानेके लिये

मूलत्तरकरणेहिंतो वदिरित्तकरणाभावादो । तं जहा — करणेसु जं पढमं करणं पंचसरीरप्पयं तं मूलकरणं । कधं सरीरस्स मूलत्तं ? ण, सेसकरणाणमेदम्हादो पउत्तीए सरीरस्स मूलत्तं पडि विरोहाभावादो । जीवादो कत्तारादो अभिणत्तणेण कत्तारत्तमुपगयस्स कधं करणत्तं ? ण, जीवादो सरीरस्स कधंचि भेदुवलंभादो । अभेदे वा चेयणत्त-णिच्चत्तादिजीवगुणा सरीरे वि होति । ण च एवं, तहाणुवलंभादो । तदो सरीरस्स करणत्तं ण विरुज्जेदे । सेसकारयभावे^१ सरीरम्मि संते सरीरं करणमेवेत्ति किमिदि उच्चदे ? ण एस दोसो, सुत्ते करणमेवे त्ति अव- हारणाभावादो ।

सा च मूलकरणकदी ओरालिय-वेउव्विय-आहार-तेया-कम्मइयसरीरभेएण पंचविहा

कहा है । वह दो प्रकारकी है, क्योंकि, मूल और उत्तर करणको छोड़कर अन्य करणोंका अभाव है । यथा— करणोंमें जो पांच शरीर रूप प्रथम करण है वह मूल करण है ।

शंका—शरीरके मूलपना कैसे सम्भव है ?

समाधान—चूंकि शेष करणोंकी प्रवृत्ति इस शरीरसे होती है अतः शरीरको मूल करण माननेमें कोई विरोध नहीं आता ।

शंका—कर्ता रूप जीवसे शरीर अभिन्न है, अतः कर्तापनेको प्राप्त हुए शरीरके करणपना कैसे सम्भव है ?

समाधान—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, जीवसे शरीरका कथंचित् भेद पाया जाता है । यदि जीवसे शरीरको सर्वथा अभिन्न स्वीकार किया जावे तो चेतनता और नित्यत्व आदि जीवके गुण शरीरमें भी होने चाहिये । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, शरीरमें इन गुणोंकी उपलब्धि नहीं होती । इस कारण शरीरके करणपना विरुद्ध नहीं है ।

शंका—शरीरमें शेष कारक भी सम्भव हैं । ऐसी अवस्थामें शरीर करण ही है, ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सूत्रमें 'शरीर करण ही है' ऐसा नियत नहीं किया गया है ।

वह मूलकरणकृति औदारिक, वैकियिक, आहारक, तैजस और कर्मण शरीरके

चेव, छद्वादिसरीराभावादो । एदेसिं मूलकरणाणं कदी कज्जं संघादणादी तं मूलकरणकदी णाम, क्रियते कृतिरिति व्युत्पत्तेः; अथवा मूलकरणमेव कृतिः; क्रियते अनया इति व्युत्पत्तेः । कधं संघादणादीणं सरीरत्तं ? ण एस दोसो, तेसिं ततो भेदाभावादो ।

एवं मूलकरणकदीए सरूवत्तं भेदं च परूविय तत्थ एक्केक्किस्से भेदपरूवणइमुत्तर-सुत्तं भणदि—

जा सा ओरालिय-वेउव्विय-आहारसरीरमूलकरणकदी णाम सा
तिविहा—संघादणकदी परिसादणकदी संघादण-परिसादणकदी चेदि ।
सा सव्वा ओरालिय-वेउव्विय-आहारसरीरमूलकरणकदी णाम ॥६९॥

तत्थ अप्पिदसरीरपरमाणूण णिज्जराए विणा जो संचओ सा संघादणकदी णाम ।

भेदसे पांच प्रकारकी ही है, क्योंकि, छडे आदि शरीर नहीं पाये जाते है । इन मूल करणोंकी कृति अर्थात् संघातनादि कार्य मूलकरणकृति कही जाती है, क्योंकि, जो किया जाता है वह कृति है, ऐसी कृति शब्दकी व्युत्पत्ति है; अथवा मूलकरण ही कृति है, क्योंकि, जिसके द्वारा किया जाता है वह कृति है, ऐसी कृति शब्दकी व्युत्पत्ति है ।

शंका—संघातन आदिके शरीरपना कैसे सम्भव है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, वे शरीरसे अभिन्न हैं ।

विशेषार्थ—कृतिका अर्थ कार्य है । पांच शरीर संघातन आदि कार्योंके प्रति अत्यन्त साधक होते हैं, इसलिये इन्हें करण कहा है । और ये शेष कार्योंकी प्रवृत्तिके मूल हैं इसलिये इन्हें मूलकरण कहा है । इनसे संघातन आदि कार्य होते हैं, इसलिये ये मूल-करणकृति कहलाते हैं । संघातन आदि कार्योंको पांचों शरीरोंसे पृथक् मान कर यह अर्थ किया गया है । यदि संघातन आदि कार्योंको पांचों शरीरोंसे अभिन्न माना जाता है तो स्वयं पांच शरीर मूलकरणकृति ठहरते हैं । यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

इस प्रकार मूलकरणकृतिके स्वरूप और भेदकी प्ररूपणा करके उनमें एक एकके भेद बतलानेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

औदारिकशरीरमूलकरणकृति, वैक्रियिकशरीरमूलकरणकृति और आहारकशरीरमूल-करणकृति तीन तीन प्रकारकी है— संघातनकृति, परिशातनकृति और संघातन-परिशातन-कृति । वह सब औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरमूलकरणकृति है ॥ ६९ ॥

उनमेंसे विवक्षित शरीरके परमाणुओंका निर्जराके विना जो संचय होता है उसे

तेसिं चेव अप्पिदसरीरपोगगलक्खंधाणं संचएण विणा जा णिज्जरा सा परिसादणकदी णाम । अप्पिदसरीरस्स पोगगलक्खंधाणमागम-णिज्जराओ संघादण-परिसादणकदी णाम । तत्थ तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पण्णपढमसमए ओरालियसरीरस्स संघादणकदी चेव, तत्थ तक्खंधाणं णिज्जराभावादो । विदियसमयप्पहुडि संघादण-परिसादणकदी होदि, विदियादिसमएसु अभवसिद्धिएहि अणंतगुणाणं सिद्धेहिंतो अणंतगुणहीणाणं ओरालियसरीरक्खंधाणमागमण-णिज्जराणमुवलंभादो । तिरिक्ख-मणुस्सेहि उत्तरसरीरे उड्ढाविदे ओरालियपरिसादणकदी होदि, तत्थोरालियसरीरक्खंधाणमागमाभावादो ।

देव-णेरइएसुप्पण्णपढमसमए वेउच्चियरीरस्स संघादणकदी, तत्थ तक्खंधाणं णिज्जरा-भावादो । विदियादिसमएसु संघादण-परिसादणकदी, तत्थ तक्खंधाणमागमण-णिज्जराणं दंसणादो । उत्तरसरीरमुड्ढाविय मूलसरीरं पविडुस्स परिसादणकदी, तत्थ तक्खंधाणमागमा-भावादो ।

कथं तिरिक्ख-मणुस्सेसु विविहगुणिद्विविहदसरीरेसु वेउच्चियसरीरसंभवो ? णत्थि

संघातनकृति कहते हैं । उन्हीं विचक्षित शरीरके पुद्गलस्कन्धोंकी संचयके विना जो निर्जरा होती है वह परिशातनकृति कहलाती है । तथा विचक्षित शरीरके पुद्गलस्कन्धोंका आगमन और निर्जराका एक साथ होना संघातन-परिशातनकृति कही जाती है ।

उनमेंसे तिर्यंच और मनुष्योंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें औदारिक शरीरकी संघातनकृति ही होती है, क्योंकि, उस समय उक्त शरीरके स्कन्धोंकी निर्जरा नहीं पायी जाती । द्वितीय समयसे लेकर आगेके समयोंमें औदारिक शरीरकी संघातन-परिशातनकृति होती है, क्योंकि, द्वितीयादिक समयोंमें अभव्यसिद्धिकोंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंसे अनन्त-गुणे हीन औदारिक शरीरके स्कन्धोंका आगमन और निर्जरा दोनों पाये जाते हैं । तथा तिर्यंच और मनुष्यों द्वारा उत्तर शरीरके उत्पन्न करनेपर औदारिक शरीरकी परिशातनकृति होती है, क्योंकि, उस समय औदारिक शरीरके स्कन्धोंका आगमन नहीं होता ।

देव व नारकियोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति होती है, क्योंकि, उस समय वैक्रियिक शरीरके स्कन्धोंकी निर्जरा नहीं होती । द्वितीया-दिक समयोंमें उसकी संघातन-परिशातनकृति होती है, क्योंकि, उस समय उक्त शरीरके स्कन्धोंका आगमन और निर्जरा दोनों एक साथ देखे जाते हैं । तथा उत्तर शरीरका उत्पादन कर मूल शरीरमें प्रविष्ट हुए देव व नारकीके मूलशरीरकी परिशातनकृति होती है, क्योंकि, उस समय उक्त शरीरके स्कन्धोंका आगमन नहीं होता ।

शंका—विविध प्रकारके गुण व ऋद्धिसे रहित शरीरवाले तिर्यंच व मनुष्योंके वैक्रियिकशरीर कैसे सम्भव है ?

तिरिक्ख-मणुस्सेसु वेउव्वियसरीरं, एदेसु वेउव्वियसरीरणामकम्मोदयाभावादो । किंतु दुविह-
मोरालियसरीरं विउव्वणप्पयमविउव्वणप्पयमिदि । तत्थ विउव्वणप्पयं जमोरालियसरीरं तं
वेउव्वियमिदि एत्थ धेत्तव्वं ।

आहारसरीरमुद्धाविदपढमसमए आहारसरीरसंघादणकदी, तत्थ तक्खंधाणं परिसदणा-
भावादो । तत्तो उवरि संघादण-परिसादणकदी होदि, आगम-णिज्जरणं तत्थुवलंभादो । मूल-
सरीरं पविडे परिसादणकदी, तत्थागमाभावादो । एवं तिण्णं सरीराणं तिण्णि तिण्णि कदीओ
परूविदाओ । एदाओ सव्वाओ ओरालिय-वेउव्विय-आहारसरीरमूलकरणकदीओ त्ति भणंत्ति ।

**जा सा तेजा-कम्मइयसरीरमूलकरणकदी णाम सा दुविहा—
परिसादणकदी संघादण-परिसादणकदी चेदि । सा सव्वा तेजा-कम्म-
इयसरीरमूलकरणकदी णाम ॥ ७० ॥**

अजोगिम्मि जोगाभावेण बंधाभावादो एदासिं दोण्णं सरीराणं परिसादणकदी होदि ।
अण्णत्थ सव्वत्थ वि तदुभयकदी चेव संसारे सव्वत्थ एदासिं आगम-णिज्जरुवलंभादो ।

समाधान—तिर्यंच व मनुष्योंके वैक्रियिकशरीर सम्भव नहीं है, क्योंकि, इनके
वैक्रियिकशरीरनामकर्मका उदय नहीं पाया जाता । किन्तु औदारिकशरीर विक्रियात्मक
और अविक्रियात्मकके भेदसे दो प्रकारका है । उनमें जो विक्रियात्मक औदारिकशरीर है
उसे यहां वैक्रियिक रूपसे ग्रहण करना चाहिये ।

आहारकशरीरको उत्पन्न करनेके प्रथम समयमें आहारकशरीरकी संघातनकृति
होती है, क्योंकि, उस समय उक्त शरीरके परिशातनका अभाव है । इससे ऊपरके
समयोंमें संघातन-परिशातनकृति होती है, क्योंकि, उस समय उक्त शरीरके स्कन्धोंका
आगमन और निर्जरा दोनों पाये जाते हैं । मूलशरीरमें प्रविष्ट होनेपर आहारकशरीरकी
परिशातनकृति होती है, क्योंकि, उस समय उक्त शरीरस्कन्धोंका आगमन नहीं होता ।

इस प्रकार तीन शरीरोंके तीन तीन कृतियां कही गई हैं । ये सब औदारिक,
वैक्रियिक और आहारक शरीर मूलकरणकृतियां कही जाती हैं ।

तैजसशरीर और कार्मणशरीर मूलकरणकृति दो प्रकारकी है— परिशातनकृति और
संघातन-परिशातनकृति । यह सब तैजसशरीर और कार्मणशरीर मूलकरणकृति है ॥ ७० ॥

अयोगकेवलीके योगका अभाव हो जानेके कारण बन्ध नहीं होता, इसलिये इनके
इन दो शरीरोंकी परिशातनकृति होती है । तथा अन्य सब जगह उक्त दोनों शरीरोंकी
संघातन-परिशातनकृति ही होती है, क्योंकि, संसारमें सर्वत्र उनका आगमन और निर्जरा

एदासिं संघादणकदी णत्थि, वंध-संतोदयविरीहदसिद्धाणं बंधकारणाभावादो । एदाओ सव्वाओ तेजा-कम्मइयसरीरमूलकरणकदीओ त्ति भणंति ।

एदेहि सुत्तेहि तेरसण्हं मूलकरणकदीणं संतपरूवणा कदा ॥ ७१ ॥

पुणो एदेण देसामासियसुत्तेण सूइदअहियाराणं परूवणा कीरेदे । तं जहा— पदमीमांसा-सामित्तमप्पावहुअं चेदि तिण्णि अहियारा होंति, एदेहि विणा संताणुववत्तीदो । तत्थ पदमीमांसा उच्चदे । तं जहा— ओरालियसरीरस्स संघादणकदी अत्थि उक्कस्सा अणुक्कस्सा जहण्णा अजहण्णा च । एवं परिसादण-तदुभयकदीयो उक्कस्साओ अणुक्कस्साओ जहण्णाओ अजहण्णाओ च अत्थि । एवं सेससरीराणं पि वत्तव्वं । पदमीमांसा गदा ।

सामित्तं उच्चदे— ओरालियसरीरस्स उक्कस्ससंघादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स मणुसस्स मणुसणीए वा तिरिक्खस्स तिरिक्खजोणिणीए वा पंचिंदियस्स पज्जत्तस्स सण्णिस्स

दोनों पाये जाते हैं । इन दोनों शरीरोंकी संघातनकृति नहीं होती, क्योंकि बन्ध, सत्त्व और उदयसे रहित सिद्ध जीवोंके बन्धके कारणोंका अभाव है । अतः उनके इन शरीरोंका नवीन बन्ध सम्भव नहीं है । ये सब तैजसशरीर और कर्मणशरीर मूलकरणकृतियां हैं, ऐसा जानना चाहिये ।

इन सूत्रों द्वारा तेरह मूल करणकृतियोंकी सत्प्ररूपणा की गई है ॥ ७१ ॥

अब इस देशामर्शक सूत्र द्वारा सूचित होनेवाले अधिकारोंकी प्ररूपणा की जाती है । यथा— पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, ये तीन अधिकार और हैं, क्योंकि, इनके बिना सत्प्ररूपणा नहीं बनती । उनमेंसे सर्व प्रथम पदमीमांसा अधिकारका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है— औदारिकशरीरकी संघातनकृति उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य चारों प्रकारकी होती है । इसी प्रकार परिशातन और तदुभय कृतियां भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्यके भेदसे चार प्रकारकी होती हैं । इसी प्रकार शेष शरीरोंकी पदमीमांसाका भी कथन करना चाहिये । पदमीमांसा समाप्त हुई ।

विशेषार्थ—पदमीमांसा प्रकरणमें उत्कृष्ट आदि पदोंका विचार किया जाता है । पहले औदारिकशरीर संघातनकृति आदि जिन तेरह कृतियोंका निर्देश कर आये हैं उनमेंसे प्रत्येकके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, ये चारों पद सम्भव हैं; ऐसा यहां जानना चाहिये ।

अब स्वामित्व अधिकारका कथन करते हैं— औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट संघातन-कृति किसके होती है ? जो कोई मनुष्य या मनुष्यनी अथवा तिर्यंच या तिर्यंचयोनिनी

संखेज्जवासाउअस्स तिसमयतम्भवत्थस्स पढमसमयआहारयरस्स उक्कस्सजोगिस्स उक्क-
स्सिया संघादणकदी । तच्चदिरित्तरस्स अणुक्कस्सा । एत्थ पंचिंदियणिदेसो विगल्लिंदिय-
पडिसेहफलो । अपज्जत्तजोगपडिसेहडं पज्जत्तगहणं । असण्णिजोगपडिसेहडो सण्णिणिदेसो ।
णेरइएहितो आगंतूण तिरिक्ख-मणुस्सेसु उप्पण्णस्स उक्कस्ससामित्तं होदि त्ति जाणावण्डं
संखेज्जवासाउअस्से त्ति उत्तं । तदियसमयउक्कस्सएंगंताणुवड्ढिजोगग्गहण्डं तिसमय-
तम्भवत्थादिवयणं । उक्कस्सिया संघादणकदी केत्तिया ? एगसमयपत्रद्वमेत्ता ।

ओरालियसरीरस्स उक्कस्सिया परिसादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स मणुस्स
मणुसिणीए वा पंचिंदियतिरिक्खस्स पंचिंदियतिरिक्खजोगिणीए वा सण्णिस्स पज्जत्तयस्स पुच्च-
कोडिआउअस्स कम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपडिभागस्स वा । जेण पढमसमयतम्भवत्थप्पहुडि
उक्कस्सेण जोगेण आहारिदं, उक्कस्सियाए वड्ढीए वड्ढिदं, जो उक्कस्साइं जोगट्ठाणाइं बहुसो
बहुसो गच्छदि, जहण्णाइं ण गच्छदि; तप्पाओग्गउक्कस्सजोगी बहुसो बहुसो होदि,

पंचेन्द्रिय है, पर्याप्त है, संज्ञी है, संख्यात वर्षकी आयुवाला है, तीसरे समयमें तद्भवस्थ
हुआ है, तद्भवस्थ होनेके प्रथम समयवर्ती आहारक है एवं उत्कृष्ट योगवाला है, उसके
उत्कृष्ट संघातनकृति होती है । इससे भिन्न जीवके अनुत्कृष्ट संघातनकृति होती है । यहां
पंचेन्द्रिय पदका निर्देश विकलेन्द्रिय जीवोंका प्रतिषेध करनेके लिये किया है । अपर्याप्त
योगका प्रतिषेध करनेके लिये पर्याप्त पदका ग्रहण किया है । असंज्ञियोगका प्रतिषेध
करनेके लिये संज्ञी पदका निर्देश किया है । नारकियोंमेंसे आकर तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न
हुआ जीव उत्कृष्ट स्वामी होता है, इस बातके बतलानेके लिये 'संख्यातवर्षायुष्कके' ऐसा
कहा है । तृतीय समयवर्ती जीवके होनेवाले उत्कृष्ट एकान्तानुवृद्धियोगका ग्रहण करनेके
लिये 'तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ' आदि पदका ग्रहण किया है । उत्कृष्ट संघातनकृति
कितनी होती है ? एक समयप्रबद्ध प्रमाण होती है ।

औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट परिशातनकृति किसके होती है ? जो कोई मनुष्य या
मनुष्यनी अथवा पंचेन्द्रिय तिर्यंच या पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनी संज्ञी है, पर्याप्त है, पूर्व-
कोटि प्रमाण आयुवाला है, कर्मभूमिज है अथवा कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुआ है ।
जिसने विवक्षित भवमें स्थित होनेके प्रथम समयसे लेकर उत्कृष्ट योगके द्वारा आहार
ग्रहण किया है, जो उत्कृष्ट वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है, जो उत्कृष्ट योगस्थानोंको बहुत
बहुत बार प्राप्त होता है, जघन्य योगस्थानोंको प्राप्त नहीं होता; जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट-

तप्पाओग्गजहणजोगी बहुसो बहुसो ण हेदि; जस्स हेडिल्लीणं डिदीणं णिसेयस्सं जहणं पदं, उवरिल्लीणं डिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदं, अंतरे ण विउव्विदो, अंतरे छविच्छेदो' ण उप्पाइदो, अप्पाओ' भासद्धाओ, अप्पाओ मणअद्धाओ, रहस्साओ भासद्धाओ, रहस्साओ मणअद्धाओ, अंतोमुहुत्ते जीविदावसेसे जोगद्धाणाणमुवरिल्ले अद्धे अंतोमुहुत्तमच्छिदो, चरिमे जीवगुणहाणिद्धाणंतरे आवलियाए असंखेज्जदिभागमच्छिदो', तिचरिम-दुचरिमसमए उक्कस्सजोगं गदो, चरिमसमए उत्तरसरीरं विउव्विदो, तस्स पढमसमयउत्तरविउव्विदस्स उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सिया परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा ।

तिण्णिपलिदोवमाउअं मोत्तूण किमडं पुव्वकोडिआउएसु सामित्तं दिण्णं ? ण एस दोसो, णेरइएहिंतो आगदस्स भोगभूमिसु उप्पत्तीए अमावादो । ण च णिरयभवपच्चयदं मोत्तूण अण्णत्थ ओरालियसरीरस्स उक्कस्ससंचओ हेदि, अण्णत्थ सुहेण जीविदस्स तिरिक्ख-

योगी बहुत बहुत बार होता है, तत्प्रायोग्य जघन्ययोगी बहुत बहुत बार नहीं होता; जिसके अधस्तन स्थितियोंके निषेकका जघन्य पद होता है और उपरिम स्थितियोंके निषेकका उत्कृष्ट पद होता है, जो मध्य कालमें विक्रियाको प्राप्त नहीं होता, जिसने मध्य कालमें शरीरका छेद नहीं किया है, जिसका भाषाकाल स्तोक है, मनोयोगकाल स्तोक है, भाषा-काल ह्रस्व है, मनोयोगकाल ह्रस्व है, जो जीवितके अन्तर्मुहूर्त मात्र शेष रहने पर योगस्थानोंके उपरिम भागमें अन्तर्मुहूर्त काल तक स्थित है, जो अन्तिम जीवगुणहानि-स्थानके मध्यमें आवलीके असंख्यातवें भाग काल तक स्थित है, त्रिचरम और द्विचरम समयमें जो उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ है तथा जो अन्तिम समयमें उत्तर शरीरकी विक्रिया करता है; उसके उत्तर शरीरकी विक्रिया करनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट योगयुक्त होनेपर उत्कृष्ट परिशातनकृति होती है । उससे भिन्न अनुत्कृष्ट परिशातनकृति होती है ।

शंका—तीन पल्योपम प्रमाण आयुवाले तिर्यंच व मनुष्यको छोड़कर पूर्वकोटि मात्र आयुवालोंमें स्वामित्व किस लिये दिया है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, नारकियोंमेंसे आये हुए जीवकी भोगभूमियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है । यदि कहा जाय कि नारक भवनिमित्तक पर्यायके सिवा अन्यत्र औदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि, अन्यत्र सुखपूर्वक जीवन विताकर जो जीव तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न होता है उसके

१ छवी सरीरं, तस्स ... किरियाविसेसेहि खंडणं छेदो णाम । धवला पत्र १०४० सरसावा ।

२ प्रतिपु 'उप्पाइदो अप्पावहुसद्धाओ अप्पाओ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु 'जोगद्धाणाणं' इति पाठः । ४ प्रतिपु 'भोगमुवरिल्ले अद्धे अच्छिदो' इति पाठः ।

मणुस्सेसुप्पज्जिय अणुप्पणसंतोसस्स' बहुओरालियपदेसग्गहणाभावादो । अवसेसं सुत्तडं वग्गणाए परूवइस्सामो । एत्थ परिसदमाणउक्कस्सदव्वं दिवड्डुसमयपवद्धमेत्तं हेदि, समय-पवद्धस्स विदियणिसेयप्पहुडि सव्वणिसेयाणं तत्थुवलंभादो ।

ओरालियसरीरस्स उक्कस्सिया संघादण-परिसादणकदी कस्स ? एदस्स एसो चेव आलावो वत्तव्वो । तस्स चरिमसमयतव्ववत्थस्स उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सिया । तव्व-दिरित्ता अणुक्कस्सा ।

सुगमं । एत्थ संचओ दिवड्डुसमयपवद्धमेत्तो असंखेज्जसमयपवद्धमेत्तो वा

ओरालियसरीरस्स जहणिया संघादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स सुहुमस्स अपज्जत्तस्स पत्तेयसरीरस्स अणादियलंभे पदिदस्स पढमसमयतव्ववत्थस्स पढमसमयआहारयस्स सव्व-जहणजोगस्स ओरालियसरीरस्स जहणिया संघादणकदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा । अणा-

असंतोष उत्पन्न न होनेसे बहुत औदारिक प्रदेशोंका ग्रहण नहीं होता ।

शेष सूत्रार्थ वर्गणा खण्डमें कहेंगे । यहां निर्जराको प्राप्त होनेवाला उत्कृष्ट द्रव्य डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रवद्ध मात्र होता है, क्योंकि, समयप्रवद्धके द्वितीय निपेकसे लेकर सब निपेक वहां पाये जाते हैं ।

औदारिकशरीरकी उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति किसके होती है ? इसके यही आलाप कहना चाहिये । यह जीव जब विवक्षित भवके अन्तिम समयमें स्थित होता है और उत्कृष्ट योगवाला होता है तब उसके औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति होती है । इससे भिन्न अनुत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति होती है ।

यह कथन सुगम है । यहां संचय डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रवद्ध मात्र अथवा असंख्यात समयप्रवद्ध मात्र होता है ।

औदारिक शरीरकी जघन्य संघातनकृति किसके होती है ? जो कोई जीव सूक्ष्म है, अपर्याप्त है, प्रत्येकशरीरी है, अनादिलम्भमें पतित है, अर्थात् जिसने अनेक बार इस पर्यायको ग्रहण किया है, प्रथम समयमें तद्भवस्थ हुआ है, प्रथम समयसे आहारक है और सबसे जघन्य योगवाला है; उसके औदारिक शरीरकी जघन्य संघातनकृति होती है । इससे भिन्न अजघन्य संघातनकृति होती है ।

दियलंभे पदिदस्से ति किमडं उच्चदे^१ ? ण, पढमलंभे सव्वजहणुववादजोगाणुवलंभादो ।

पत्तेयसरीरस्से ति संतकम्मपयडिपाहुडवयणं पुव्वकोडायुगचरिमसमए उक्कस्स-
सामित्तणिदेसो च सुत्तविरुद्धो ति^२ णाणायरो कायव्वो, दोण्णं सुत्ताणं विरोहे संते तथप्पाव-
लंघणस्स णाइयत्तादो । सेसं सुगमं ।

ओगालियसरीरस्स जहणिया परिसादनकंदी कस्स ? अण्णदरस्स बादरवाउजीवस्स,
जेण पढमसमयतवभवत्थप्पहुडि जहण्णएण जोगेण आहारिदं, जहणियाए वड्डीए वड्ढिदं,
जहण्णाइं जोगट्ठाणाइं बहुसो बहुसो जो गच्छदि^३, उक्कस्साइं ण गच्छदि; तप्पाओग्गजहण-
जोगी बहुसो बहुसो होदि, तप्पाओग्गउक्कस्सजोगी बहुसो बहुसो ण होदि; हेट्ठिल्लीणं
ट्ठिदीणं णिसेगस्स उक्कस्सपदं, उवरिल्लीणं ट्ठिदीणं णिसेयस्स जहण्णपदं, जो सव्वलहुं
पज्जत्तिं गदो, सव्वलहुं उत्तरं विउव्विदो, सव्वचिरेण कालेण जीवपदेसे णिछुहदि, सव्वचिरेण

शंका — ‘अनादिलम्भमें पतित’ यह किसलिये कहा जाता है ?

समाधान — यह ठीक नहीं है, चूंकि प्रथम लम्भमें सर्व जघन्य उपपादयोग नहीं
पाया जाता अतः ‘अनादिलम्भमें पतित’ ऐसा कहा गया है ।

‘प्रत्येकशरीरके’ यह सत्कर्मप्रकृतिप्राभृतका वचन और पूर्वकोटि प्रमाण आयुके
अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश, ये दोनों वचन चूंकि सूत्रविरुद्ध हैं; इसलिये
इनका अनादर नहीं करना चाहिये, क्योंकि, दो सूत्रोंके मध्यमें विरोध होनेपर चुप्पीका
अवलम्बन करना ही न्याय्य है । शेष प्ररूपणा सुगम है ।

औदारिक शरीरकी जघन्य परिशातनकृति किसके होती है ? जिस बादर वायु-
कायिक जीवने उस भवमें स्थित होनेके प्रथम समयसे लेकर जघन्य योगके द्वारा आहार
ग्रहण किया है, जो जघन्य वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है, जो जघन्य योगस्थानोंको बहुत
बहुत बार प्राप्त होता है, उत्कृष्ट योगस्थानोंको नहीं प्राप्त होता; उसके योग्य जघन्ययोगी
बहुत बहुत बार होता है, उसके योग्य उत्कृष्टयोगी बहुत बहुत बार नहीं होता; अधस्तन
स्थितियोंके निषेकके उत्कृष्ट पदको करता है, उपरितन स्थितियोंके निषेकके जघन्य पदको
करता है, जो सर्वलघु कालमें पर्याप्तिको प्राप्त होता है, सर्वलघु कालमें उत्तर शरीरकी
विक्रियाको समाप्त कर लेता है, सर्वचिर कालसे जीवप्रदेशोंका निक्षेपण करता है, सर्व-

१ अंप्रतौ ‘-उच्चदे णापढमं’ इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठु ‘-णिदेसा च सुत्तविरोधा ति’ इति पाठः ।

३ काप्रतौ ‘जो गच्छदि’ इत्येतस्य स्थाने ‘आगच्छदि’ इति पाठः ।

कोलेण उत्तरसरीरं विउव्विदो, तस्स चरिमसमयअणियट्ठिस्स ओरालियस्स जहणिया परिसादण-
कदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा ।

सुगममेदं ।

जहणिया संघादण-परिसादणकदी करस ? अण्णदरस्स सुहुमस्स अपज्जत्तस्स पत्तेय-
सरीरस्स अणादिगलंभे पदिदस्स दुसमयतव्भवत्थस्स दुसमयआहारयस्स तप्पाओग्गजहण-
जोगिस्स जहणिया संघादण-परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा ।

सुगमं ।

वेउव्वियसरीरस्स उक्कस्सिया संघादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स वेमाणियदेवस्स
सव्वमहंतमसंवद्धरूवं^१ विउव्वमाणस्स तस्स पढमसमयउत्तरविउव्विदस्स उक्कस्सजोगिस्स
वेउव्वियस्स उक्कस्ससंघादणकदी । तव्विवरीदा अणुक्कस्सा । मूलसरीरादो पुव्वभूदसरीर-
विउव्विदे वि मूलसरीरस्स उत्तरसरीरस्सेव वेउव्वियणामकम्मोदएण आगच्छंता पोग्गलखंधा

चिर कालसे उत्तर शरीरकी विक्रियाको प्राप्त होता है, उस अन्तिम समयवर्ती अनिवृत्ति
किसी भी वादर वायुकायिक जीवके औदारिक शरीरकी जघन्य परिशातनकृति होती है ।
इससे भिन्न अजघन्य परिशातनकृति होती है ।

यह कथन सुगम है ।

औदारिक शरीरकी जघन्य संघातन-परिशातनकृति किसके होती है ? जो कोई
सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येकशरीरी जीव अनादिलम्भमें पतित है, दूसरे समयमें तद्भवस्थ
हुआ है, आहारक होनेके दूसरे समयमें स्थित है और उसके योग्य जघन्य योगसे युक्त
है, उसके औदारिक शरीरकी जघन्य संघातन-परिशातनकृति होती है । उससे भिन्न
अजघन्य संघातन-परिशातनकृति है ।

यह कथन सुगम है ।

वैक्रियिक शरीरकी उत्कृष्ट संघातनकृति किसके होती है ? जो कोई वैमानिक देव
सबसे बड़े असंवद्ध रूपकी विक्रिया करनेवाला है, उस उत्तर शरीरकी विक्रिया करनेके
प्रथम समयमें स्थित रहनेवाले और उत्कृष्ट योगवाले जीवके वैक्रियिक शरीरकी उत्कृष्ट
संघातनकृति होती है । इससे विपरीत अनुत्कृष्ट संघातनकृति है ।

शंका—मूल शरीरसे पृथग्भूत शरीरकी विक्रिया करनेपर भी उत्तर शरीरके
समान मूल शरीरके लिये भी वैक्रियिक नामकर्मके उदयसे पुद्गलस्कन्ध आते हैं और

अत्थि, परिसदंता वि अत्थि; उभयत्थ जीवपदेससंभवादो । तदो एत्थ संघादणकदी ण जुज्जे, किंतु संघादण-परिसादणकदी चेव एत्थ होदि; दोणं पि उवलंभादो ति ? ण एस दोसो, मूलसरीरादो पुधभूदसरीरम्मि विउव्वमाणम्मि परिसादणकदीए विणा संघादणकदी चेव ति कट्ठ संघादणत्तव्वगमादो । सेसं सुगमं ।

वेउव्वियसरीरस्स उक्कस्सिया परिसादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स मणुसस्स मणु-
स्सिणीए वा पंचिंदियतिरिक्खस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीए वा सण्णिस्स पज्जत्तयस्स पुव्वकोडाउअस्स कम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपडिभागस्स वा । जेण पढमसमयउत्तरविउ-
व्विदप्पहुडि उक्कस्सेण जोगेण आहारिदं, उक्कस्सियाए वड्डीए वड्ढिदं, हेड्डिलीणं डिदीणं णिसेयस्स जहण्णपदमुवरिल्लीणं डिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदं, अंतोमुहुत्तजीविदावसेसे जोगट्ठाणाणमुवरिल्ले अद्धे अंतोमुहुत्तमच्छिदो, चरिमे जीवगुणहाणिट्ठाणंतरे आवलियाए असंखेज्जदिभागमच्छिदो, दुचरिमसमए उक्कस्सजोगं गदो, चरिमे समए उत्तरं विउव्विदो, सव्वलहुं जीवपदेसे णिच्छुभदि, सव्वचिरं उत्तरं विउव्विदो; तस्स पढमसमयणियत्तस्स उक्क-
स्सजोगिस्स उक्कस्सिया परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा ।

उनकी निर्जरा भी होती है, क्योंकि, दोनों शरीरोंमें जीवप्रदेशोंकी सम्भावना है । इस कारण वैक्रियिक शरीरकी संघातनकृति नहीं बनती । किन्तु इसकी संघातन-परिशातन-कृति ही होती है, क्योंकि, दोनों ही एक साथ पायी जाती हैं ।

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मूल शरीरसे पृथग्भूत शरीरकी विक्रिया करनेपर परिशातनकृतिके विना संघातनकृति ही होती है, ऐसा मानकर संघा-
तनता स्वीकार की गई है । शेष प्ररूपणा सुगम है ।

वैक्रियिक शरीरकी उत्कृष्ट परिशातनकृति किसके होती है ? जो कोई मनुष्य या मनुष्यनी अथवा पंचेन्द्रिय तिर्यंच या पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनी संज्ञी है, पर्याप्त है, पूर्व-
कोटि प्रमाण आयुसे संयुक्त है, कर्मभूमिज है अथवा कर्मभूमिके प्रतिभागमें रहनेवाला है । जिसने उत्तर शरीरकी विक्रिया करनेके प्रथम समयसे लेकर उत्कृष्ट योगके द्वारा आहार ग्रहण किया है, उत्कृष्ट वृद्धिसे जो वृद्धिको प्राप्त हुआ है, जो अधस्तन स्थितियोंके निषेकका जघन्य पद करता है, उपरिम स्थितियोंके निषेकका उत्कृष्ट पद करता है, अन्त-
र्मुहूर्त मात्र जीवितके शेष रहनेपर योगस्थानोंके उपरिम भागमें अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है, अन्तिम जीवगुणहानिस्थानके मध्यमें आवलोंके असंख्यातवैभाग काल तक रहता है, द्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगको प्राप्त होता है, चरम समयमें उत्तर शरीरकी विक्रिया करता है, सर्वलघु कालमें जीवप्रदेशोंका निक्षेपण करता है, तथा जो सर्वचिर कालमें उत्तर शरीरकी विक्रिया करता है; उस प्रथम समय निवृत्त उत्कृष्ट योगीके उत्कृष्ट परि-
शातनकृति होती है । इससे विपरीत अनुत्कृष्ट परिशातनकृति है ।

सुगमं ।

उक्कस्सिया संघादण-परिसादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स आरणच्चुदेवस्स चावीस-सागरोव्माउअस्स । जेण पढमसमयतव्ववत्थप्पहुडि उक्कस्सएण जेगेण आहारिदं, उक्कस्सियाए वड्डीए वड्ढिदं, हेड्डिल्लीणं ड्ढिदीणं णिसेयस्स जहण्णपदं, उवरिल्लीणं ड्ढिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदमप्पाओ भासद्धाओ, अप्पाओ मणजोगद्धाओ, रहस्साओ भासद्धाओ, रहस्साओ मणजोगद्धाओ, अंतोमुहुत्ते जीविदावसेसे ण विउव्विदो, अंतोमुहुत्ते जीविदावसेसे जोगट्ठाणाण-मुवरिल्ले अद्धे अंतोमुहुत्तमच्छिदो, चरिमे जीवगुणहाणिट्ठागंतरे आवल्लियाए असंखेज्जदि-भागमच्छिदो, चरिम-दुचरिमसमए उक्कस्सजोगं गदो, तस्स चरिमसमए तव्ववत्थस्स उक्कस्सा तदुभयकदी । तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा ।

सुगमं ।

वेउव्वियस्स जहण्णिया संघादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स णेरइयस्स असण्णि-पच्छायदस्स पढमसमयतव्ववत्थस्स पढमसमयआहारयस्स तप्पाओगजहण्णजोगस्स जहण्णिया

यह कथन सुगम है ।

वैक्रियिकशरीरकी उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति किसके होती है ? जो कोई आरण-अच्युत कल्यावासी देव, ब्राह्मण सागरोपम आयुवाला है । जिसने उस भवमें स्थित होनेके प्रथम समयसे लेकर उत्कृष्ट योगके द्वारा आहार ग्रहण किया है, जो उत्कृष्ट वृद्धिसे वृद्धि को प्राप्त हुआ है, अधस्तन स्थितियोंके निषेकका जघन्य पद करता है, उपरिम स्थितियोंके निषेकका उत्कृष्ट पद करता है, जिसका भाषाकाल अल्प है, मनेयोगकाल अल्प है, भाषाकाल ह्रस्व है, मनेयोगकाल ह्रस्व है, अन्तर्मुहूर्त मात्र जीवितके शेष रहने पर जो विक्रियाको नहीं प्राप्त हुआ है, अन्तर्मुहूर्त मात्र जीवितके शेष होनेपर जो योगस्थानोंके उपरिम भागमें अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है, चरम जीवगुणहानिस्थानके मध्यमें आवलीके असंख्यातवें भाग काल तक रहता है, तथा जो चरम व द्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगको प्राप्त है, उस भवमें स्थित उसके चरम समयमें उत्कृष्ट तदुभय कृति होती है । इससे विपरीत अनुत्कृष्ट कृति होती है ।

यह कथन सुगम है ।

वैक्रियिक शरीरकी जघन्य संघातन कृति किसके होती है ? जो कोई नारकी जीव असंखी पर्यायसे वापिस आकर नारकी हुआ है, प्रथम समयमें तदभवस्थ हुआ है, प्रथम समयमें आहारक हुआ है, तथा उसके योग्य जघन्य योगसे संयुक्त है; उसके

वेउव्वियसंघादणकदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा । असण्णिपच्छायदग्गहणं किमहं ? देव-
णेइएसु असण्णिपच्छायदपाओग्गजहण्णुववादजोगग्गहणहं । सेसं सुगमं ।

वेउव्वियस्स जहण्णिया परिसादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स बादरवाउजीवस्स । जो^१
सव्वलहुं पज्जतिं गदो, सव्वलहुमुत्तरसरीरं विउव्विदो, पढमसमयउत्तरविउव्विदप्पहुडिं
जहण्णएण जोगेण आहारिदो, जहण्णियाए वड्डीए वड्ढिदो, जहण्णाइं जोगट्ठाणाइं बहुसो बहुसो
गदो, उक्कस्साणि ण गदो; तप्पाओग्गजहण्णजोगो ति हेट्ठिलीणं डिदीणं णिसेयस्स
उक्कस्सपदमुवरिल्लीणं डिदीणं णिसेयस्स जहण्णपदं, सव्वत्थोचं कालमुत्तरं विउव्विदो,
सव्वचिरेण कालेण जीवपदेसे णिच्छुहदि, तस्स चरिमसमयअणिल्लेविदस्स जहण्णिया वेउ-
व्वियपरिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा । सुगमं ।

जघन्य वैक्रियिक शरीरकी संघातनकृति होती है । इससे भिन्न अजघन्य संघातनकृति होती है ।

शंका—यहां ' असंक्षी पर्यायसे वापिस आया हुआ ' इस पदका ग्रहण किसलिये किया है ?

समाधान—जो असंक्षी पर्यायमेंसे वापिस आकर देव और नारकियोंमें उत्पन्न होता है उसके योग्य जघन्य उपपाद योगका ग्रहण करनेके लिये उक्त पदका ग्रहण किया है ।

शेष प्ररूपणा सुगम है ।

वैक्रियिक शरीरकी जघन्य परिशातनकृति किसके होती है ? जिस किसी बादर वायुकायिक जीवने सर्वलघु कालमें पर्याप्तिको प्राप्त किया है, सर्वलघु कालमें उत्तर शरीरकी विक्रिया की है, उत्तर शरीरकी विक्रियाके प्रथम समयसे लेकर जघन्य योगसे आहार ग्रहण किया है, जघन्य वृद्धिसे जो वृद्धिको प्राप्त हुआ है, जो जघन्य योगस्थानोंको बहुत बहुत बार प्राप्त कर चुका है, उत्कृष्ट योगस्थानोंको बहुत बहुत बार नहीं प्राप्त हुआ है; उसके योग्य जघन्य योग होनेसे जो अघस्तन स्थितियोंके निपेकके उत्कृष्ट पदको और उपरिम स्थितियोंके निपेकके जघन्य पदको करता है, अति स्वल्प काल तक जिसने उत्तर शरीरकी विक्रिया की है तथा जो सर्वच्चिर कालसे जीवप्रदेशोंका निक्षेपण करता है, उस चरम समय अनिलेपितके वैक्रियिकशरीरकी जघन्य परिशातनकृति होती है । उससे भिन्न अजघन्य परिशातनकृति है ।

यह कथन सुगम है ।

१ अप्रतौ ' जीवस्स वा जो ' इति पाठः ।

वेउव्वियस्स जहणिया संघादण-परिसादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स बादरवाउ-जीवस्स । जो सव्वलहुं पज्जतिं गदो, सव्वलहुमुत्तरं विउव्विदो, जेण पढमसमयउत्तरं विउव्विद-प्पहुडि जहण्णएण जोगेण आहारिदं, जहणियाए वड्डीए वड्ढिदं, हेडिल्लीणं डिदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदं, उवरिल्लीणं डिदीणं [णिसेयस्स] जहणपदं, तस्स दुसमयविउव्विदस्स जह-णिया वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा । सुगमं ।

आहारसरीरस्स उक्कस्सिया संघादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स संजदस्स आहारय-सरीरस्स पढमसमयाहारयस्स उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सा आहारसरीरस्स संघादणकदी । तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा । सुगमं ।

तस्सेव उक्कस्सिया परिसादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स संजदस्स आहारसरीरस्स । जेण पढमसमयाहारयप्पहुडि उक्कस्सेण जोगेण आहारिदं, उक्कस्सियाए वड्डीए वड्ढिदं, उक्कस्साइं

वैक्रियिकशरीरकी जघन्य संघातन-परिशातनकृति किसके होती है ? अन्यतर यादर वायुकायिक जीवके । जो सर्वलघु कालमें पर्याप्तिको प्राप्त हुआ है, जिसने सर्व-लघु कालमें उत्तर शरीरकी विक्रिया की है, जिसने उत्तर शरीरकी विक्रिया करनेके प्रथम समयसे लेकर जघन्य योगसे आहारको ग्रहण किया है, जो जघन्य वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है, तथा जो अधस्तन स्थितियोंके निषेकके उत्कृष्ट पदको और उपरिम स्थितियोंके निषेकके जघन्य पदको करता है, उस किसी एक यादर वायुकायिक जीवके विक्रिया करनेके वृत्तरे समयमें जघन्य वैक्रियिक शरीरकी संघातन-परिशातन कृति होती है । इससे भिन्न अजघन्य संघातन-परिशातन कृति है ।

यह कथन सुगम है ।

आहारकशरीरकी उत्कृष्ट संघातनकृति किसके होती है ? आहारकशरीरवाले अन्यतर संयतके आहारक होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट योगसे संयुक्त होनेपर उत्कृष्ट आहारकशरीरकी संघातनकृति होती है । इससे भिन्न अनुत्कृष्ट संघातनकृति है ।

यह कथन सुगम है ।

आहारकशरीरकी उत्कृष्ट परिशातनकृति किसके होती है ? अन्यतर आहारक-शरीर संयतके । जिसने आहारकशरीर युक्त होनेके प्रथम समयसे लेकर उत्कृष्ट योगके द्वारा आहार ग्रहण किया है, जो उत्कृष्ट वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है, जो उत्कृष्ट योग-

१ प्रतिष्ठ ' विउव्विदो अण्णिदो सव्व- ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठ ' -दीणं जह ' इति पाठः ।

जोगडाणाइं बहुसो बहुसौ जो गदो, जहण्णाइं जोगडाणाइं ण गदो; होडिल्लीणं दिडीणं णिसे-
यस्स जहण्णपदं, उवरिल्लीणं द्विदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदं; अंतोमुहुत्ते जीवियावसेसे जोग-
डाणाणमुवरिल्ले अद्धे अंतोमुहुत्तमच्छिदो, चरिमे जीवगुणहाणिडाणंतरे आवलियाए असंखे-
ज्जदिभागमच्छिदो, दुचरिमसमए उक्कस्सजोगं गदो, सव्वलहुं जीवपदेसे णिच्छुहदि, सव्व-
चिरमुत्तरं विउव्विदो, तस्स पढमसमयणियत्तस्स उक्कस्सिया आहारयस्स परिसादणकदी ।
तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा । सुगमं ।

संघादण-परिसादणकदीए एसेव आलावो । णवरि चरिमसमयअणियट्ठिस्स उक्कस्स-
जोगिस्स उक्कस्सा । तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा । सुगमं ।

आहारयस्स जहणिया संघादणकदी कस्स ? अण्णदरस्स संजदस्स आहारसरीरस्स
पढमसमयआहारयस्स जहण्णजोगिस्स जहणिया आहारसंघादणकदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा ।
इदरासिं दोण्हं जहण्णकदीणं जहा वेउव्वियस्स दोण्हं जहण्णकदीणं परूवणा कदा तद्वा
कायव्वा ।

स्थानोंको बहुत बहुत बार प्राप्त हुआ है, जघन्य योगस्थानोंको नहीं प्राप्त हुआ है, अधस्तन
स्थितियोंके निषेकके जघन्य पदको और उपरिम स्थितियोंके निषेकके उत्कृष्ट पदको करता
है, जो आयुके अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर योगस्थानोंके उपरिम भागमें अन्तर्मुहूर्त काल तक
स्थित रहा है, अन्तिम जीवगुणहानिस्थानके मध्यमें आवलीके असंख्यातवें भाग तक
स्थित रहा है, द्विचरम समयमें जो उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ है, सर्वलघु कालमें जो
जीवप्रदेशोंका निक्षेपण करता है, तथा सर्वचिर कालमें जिसने उत्तर शरीरकी विक्रिया
की है, उस प्रथम समयवर्ती निवृत्तके आहारक शरीरकी उत्कृष्ट परिशातनकृति होती
है । इससे भिन्न अनुत्कृष्ट संघातनकृति है ।

यह कथन सुगम है ।

संघातन-परिशातनकृतिका यही आलाप है । केवल इतनी विशेषता है कि चरम-
समयवर्ती अनिवृत्ति उत्कृष्ट योगीके उत्कृष्ट आहारक शरीरकी संघातन-परिशातनकृति
होती है । इससे भिन्न अनुत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति है ।

यह कथन सुगम है ।

आहारक शरीरकी जघन्य संघातनकृतिकिसके होती है ? आहारकशरीर अन्त्यतर
संयतके आहारशरीर होनेके प्रथम समयमें जघन्य योग युक्त होनेपर आहारक शरीरकी
जघन्य संघातनकृति होती है । इससे भिन्न अजघन्य संघातनकृति होती है । अन्य दो
जघन्य कृतियोंकी प्ररूपणा, जैसे वैक्रियिक शरीरकी दो जघन्य कृतियोंकी प्ररूपणा की
है, वैसे करना चाहिये ।

तेजइयस्स उक्कस्सिया परिसादणकदी कस्स ? जो जीवो अंतोमुहुत्ततरिदाइं चेव
 णेरइयभवग्गहणाइं पकरेदि तेत्तीससागरोवमट्ठिदियाइं, तम्हि तम्हि पढमसमयंतवभवत्थप्पहुडि
 उक्कस्सएण' जोगेण आहारिदो, उक्कस्सियाए वड्डीए वड्ढिदो, उक्कस्साइं जोगट्ठाणाइं
 बहुसो बहुसो गदो, जहण्णाइं ण गदो; हेड्डिल्लड्ठिदिट्ठाणेहि णिसेयस्स जहण्णपदं, उवरिल्ल-
 ड्ठिदिट्ठाणेहि णिसेयस्स उक्कस्सपदं, अंतोमुहुत्ते जीविदावसेसे जोगट्ठाणाणमुवरिल्ले अट्ठे
 अंतोमुहुत्तमच्छिदो, चरिमगुणहाणिट्ठाणंतरे आवलियाए असंखेज्जदिभागमच्छिदो, दुचरिम-
 चरिमेसु समएसु उक्कस्सजोगं गदो, चरिमसमए तदो उव्वट्ठिदो जल-थलचरपांचिंदियतिरिक्ख-
 जोणिएसु उववण्णो, तम्हि पढमसमयप्पहुडि सो चेव आलाओ, पुणो णिरयगदिं गंतूण उव्वट्ठिदो,
 जल-थलचरपांचिंदिएसु उववण्णो, तम्हि अंतोमुहुत्तं जीविदूण मदो, गव्भोवक्कंतिएसु मणुस्सेसु
 उववण्णो, सव्वलहुं जोणिणिकखमणैजम्मणेण जादो, सव्वलहुं सम्मतं पडिवण्णो, अट्ठवस्सियो
 संजमं पडिवण्णो, सव्वलहुं णाणमुप्पादेदि, सव्वलहुं सेल्लसिं पडिवण्णो, तस्स पढमसमयअजोगिस्स
 उक्कस्सिया तेजइयस्स परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा ।

तैजस शरीरकी उत्कृष्ट परिशातनकृति किसके होती है ? जो जीव मध्यमें अन्त-
 मुहूर्त कालका अन्तर देकर ही तेतीस सागरोपम स्थितिवाले नारक भवोंको प्राप्त करता
 है, ऐसा करते हुए जिसने उस उस भवमें तद्भवस्थ होनेके प्रथम समयसे लेकर उत्कृष्ट
 योगके द्वारा आहारको ग्रहण किया है, जो उत्कृष्ट वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है,
 उत्कृष्ट योगस्थानोंको बहुत बहुत बार प्राप्त हुआ है, जघन्य योगस्थानोंको बहुत बहुत बार
 नहीं प्राप्त हुआ है; अधस्तन स्थितिस्थानोंके निषेकके जघन्य पदको और उपरिम स्थिति-
 स्थानोंके निषेकके उत्कृष्ट पदको करता है, आयुके अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर योग-
 स्थानोंके उपरिम भागमें स्थित रहा है, अन्तिम गुणहानिस्थानके मध्यमें
 आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र काल तक स्थित रहा है, द्विचरम व चरम
 समयमें उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ है, अन्तिम समयमें उक्त पर्यायसे निकलकर जलचर
 व थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतियोंमें उत्पन्न हुआ है; उस भवमें प्रथम समयसे
 लेकर वही आलाप कहना चाहिये, तत्पश्चात् फिरसे नरकगतिको प्राप्त हो व वहांसे
 निकलकर जलचर व थलचर पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ है, फिर उस भवमें अन्तर्मुहूर्त
 काल तक जीवित रहकर मरणको प्राप्त हो गर्भज मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ है, उसमें भी
 जो सर्वलघु कालमें योनिनिष्क्रमण रूप जन्मसे उत्पन्न हुआ है, सर्वलघु कालमें
 सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है, आठ वर्षका होकर संयमको प्राप्त हो सर्वलघु कालमें केवल
 ज्ञानको उत्पन्न करता है, तथा सर्वलघु कालमें जो शैलेशी अवस्थाको प्राप्त हुआ है, उस
 प्रथम समयवर्ती अयोगकेवलीके तैजस शरीरकी उत्कृष्ट परिशातनकृति होती है । इससे
 भिन्न अनुत्कृष्ट परिशातनकृति होती है ।

अद्ववस्सादो हेडा चेव सम्मत्तं पडिवज्जदि त्ति जाणावणं सव्वलहुं सम्मत्तं पडिवेण्णो त्ति उत्तं । संजमं पुण अद्ववस्सेहिंतो हेडा ण हेदि त्ति जाणावणं अद्ववस्सीओ संजमं पडिवेण्णो त्ति भणिदं । जेण तेजइयसरीरणो कम्मडिदी छासडिसागरोवममेत्ता तेण विदियं णेरइय-भवग्गहणमंतो मुहुत्तूणतेत्तीससागरडिदीयमिदि वत्तव्वं । सेसं सुगमं ।

तेजइयसंघादण-परिसादणकदी उक्कस्सिया कस्स ? विदियणेरइयभवग्गहणे चरिम-समयतवभवत्थस्स उक्कस्सिया संघादण-परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा । सुगमं ।

तेजइयस्स जहण्णा परिसादणकदी कस्स ? जो जीवो छावडिसागरोवमाणि सुहुमेसु अच्छिदो, तम्हि पज्जत्तापज्जत्ताणं भवग्गहणाणि करोदि, बहुवाइमपज्जत्तयाइं, थोवाइं पज्जत्तयाइं, दीहाओ अपज्जत्तद्धाओ, रहस्साओ पज्जत्तद्धाओ, जहण्णएण जेगेण आहारिदो, जहण्णियाए वड्डीए वड्ढिदो, जहण्णाइं जोगडाणाइं बहुसो बहुसो गदो, उक्कस्साइं ण गदो; हेडिल्लडिदि-

आठ वर्षसे पहिले ही सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, इस बातको जतलानेके लिये 'सर्वलघु कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है' ऐसा कहा है । परन्तु संयम आठ वर्षके नीचे नहीं होता, इस बातको जतलानेके लिये 'आठ वर्षका होकर संयमको प्राप्त हुआ है' ऐसा कहा है । चूंकि तैजस शरीर नो कर्मकी स्थिति छयासठ सागरोपम प्रमाण है अतः दूसरी बार नारक पर्यायका ग्रहण अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागर स्थिति प्रमाण होता है, ऐसा कहना चाहिये । शेष प्ररूपणा सुगम है ।

तैजस शरीरकी उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति किसके होती है ? दूसरी बार नारक भवके ग्रहण करनेपर उस भवमें स्थित रहनेके अन्तिम समयको प्राप्त हुए जीवके तैजस शरीरकी उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति होती है । इससे भिन्न अनुत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति है ।

यह कथन सुगम है ।

तैजस शरीरकी जघन्य परिशातनकृति किसके होती है ? जो जीव छयासठ सागरोपम काल तक सूक्ष्म जीवोंमें रहा है और वहां रहते हुए जो पर्याप्त व अपर्याप्त भवोंको ग्रहण करता है, इनमें जिसके अपर्याप्त भव बहुत हुए हैं और पर्याप्त भव थोड़े हुए हैं, अपर्याप्त काल दीर्घ रहा है और पर्याप्त काल थोड़ा रहा है, जिसने जघन्य योगसे आहार ग्रहण किया है, जघन्य वृद्धिसे जो वृद्धिको प्राप्त हुआ है, जो जघन्य योगस्थानोंको बहुत बहुत बार प्राप्त हुआ है, उत्कृष्ट योगस्थानोंको बहुत बहुत बार प्राप्त नहीं हुआ है,

इणोहि णिसेयस्स उक्कस्सपदं, उवरिल्लड्ढिदिइणोहि णिसेयस्स जहण्णपदं, तदो उव्वट्ठिदो तिक्खेसुववण्णो, अंतोमुहुत्तं जीविदूण उव्वट्ठिदो पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववण्णो, सव्वलहुं जोणिणिकस्समणजम्मणेण जादो, सव्वलहुं सम्मत्तं पडिवण्णो, अट्ठवस्साउओ संजमं पडिवण्णो, सव्वलहुं [केवल] णाणमुप्पादेदि, उप्पण्णणाण-दंसणहरो जिणो केवली देसूणं पुव्वकोडिं विहरिदो, अंतोमुहुत्ते जीवियावसेसे सेलेसिं पडिवण्णो, तस्स चरिमसमयभवसिद्धियस्स खविदकम्मंसियस्स जहण्णिया परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा । सुगमं ।

तेजइयस्स जहण्णिया संघादण-परिसादणकदी कस्स ? [जो] जीवो छावट्ठिसागरो-वमाणि सुहुमेसु अच्छिदो । एवं णीदं जाव' उवरिल्लड्ढिदिइणोहि णिसेयस्स जहण्णपदं ति । तदो सुहुमेहि पज्जत्तएहि उववण्णो, तस्स तम्हि पज्जत्तीहि पज्जत्तापज्जत्तीहि एयंतवड्ढमाणस्स अभिक्खवड्ढीए अपज्जत्तयस्स जम्हि समए बहुओ बंधो णिज्जरा च ण तम्हि समयम्हि डिदो', तस्स तेजइयस्स जहण्णिया संघादण-परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा । एयंताणुवड्ढीए

जो अधस्तन स्थितिस्थानोंके निषेकका उत्कृष्ट पद करता है और उपरिम स्थितिस्थानोंके निषेकका जघन्य पद करता है, पश्चात् सूक्ष्म पर्यायसे निकलकर जो तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ और अन्तर्मुहूर्त काल तक जीवित रहकर वहांसे निकल पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें आकर अति शीघ्र योनिनिष्क्रमण रूप जन्मसे उत्पन्न हुआ है, जिसने अति शीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त किया है, जो आठ वर्षका होकर संयमको प्राप्त हो अति शीघ्र केवल-ज्ञानको उत्पन्न करता है, फिर उत्पन्न हुए केवलज्ञान व केवलदर्शनसे सहित होकर केवली जिन होता हुआ कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक विहार करता है, तथा 'अन्तर्मुहूर्त मात्र आयुके शेष रहनेपर शैलेशी भावको प्राप्त होता है, ऐसे उस चरम समयवर्ती भव्यसिद्धिक और क्षपितकर्मांशिक जीवके जघन्य-परिशातनकृति होती है । इससे भिन्न अजघन्य परिशातनकृति है । यह कथन सुगम है ।

तैजस शरीरकी जघन्य संघातन-परिशातनकृति किसके होती है ? जो जीव छ्यासठ सागरोपम काल तक सूक्ष्म जीवोंमें रहा है । इस प्रकार उपरिम स्थितिस्थानोंके निषेकके जघन्य पदके प्राप्त होने तक आलाप ले जाना चाहिये । पश्चात् जो सूक्ष्म पर्याप्तकोंसे उत्पन्न हुआ है उसके उस भवमें पर्याप्तियों पर्याप्त-अपर्याप्तियोंसे आभीक्ष्य वृद्धि द्वारा एकान्तवृद्धिसे बढ़ते हुए अपर्याप्तक जीवके जिस समयमें बन्ध बहुत होता है, पर निर्जरा नहीं देखी जाती है, उस समयमें जो स्थित है, उसके तैजस शरीरकी जघन्य संघातन-परिशातनकृति होती है । इससे भिन्न अजघन्य संघातन-परिशातनकृति होती है ।

सामित्तं किमिदं दिण्णं ? परिणामजोगेहि संचिदपोगलक्खंघगलणद्धं ।

कम्मइयस्स उक्कस्सपरिसादणकदी कस्स ? जो जीवो तीससागरोवमकोडाकोडीओ भेहि सागरोवमसहस्सेहि य ऊणियाओ बादरेसु अच्छिदो, तम्हि पज्जत्तापज्जत्तयाइं भव-
ग्गहणाइं करेदि, तत्थ बहुआइं पज्जत्तयाइं, [थोवाइं अपज्जत्तयाइं], दीहाओ पज्जत्तद्धाओ,
रहस्साओ अपज्जत्तद्धाओ, उक्कस्सेण जोगेण आहारिदो, उक्कस्सियाए वड्डीए वड्ठिदो, बहुसो
बहुसो उक्कस्साइं जोगट्ठाणाइं गदो, जहण्णाइं ण गदो; संकिलेसं बहुसो जाओ, बहुसो तप्पा-
ओग्गउक्कस्ससंकिलेसो, विसुज्झंतो, तप्पाओग्गजहण्णविसोहिसहियो, हेडिल्लड्ठिदिट्ठाणेहि णिसे-
यस्स जहण्णपदमुवरिल्लड्ठिदिट्ठाणेहि णिसेयस्स उक्कस्सपदं, तदो उव्वड्ठिदो बादरतसेसु उव-
वण्णो । तसेसु किं सुहुमा संति' ? ण, तम्हि पज्जत्तापज्जत्ता इदि भेदोवलंभादो बादरवयणेण
तसपज्जत्ताणं गहणं । तत्थ वि उवरिल्ले हेडिल्लड्ठिदिट्ठाणेहि णिसेयस्स उक्कस्सपदं, सम्मतं

शंका—एकान्तानुवृद्धिसे स्वामित्व किसलिये दिया है ?

समाधान — परिणामयोगोंसे संचित पुद्गलस्कन्धोंके गलानेके लिये एकान्तानु-
वृद्धिसे स्वामित्व कहा है ।

कर्मण शरीरकी उत्कृष्ट परिशातनकृति किसके होती है ? जो जीव दो हजार
सागरोपमोंसे हीन तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल तक बादर जीवोंमें रहा है, वहां
रहते हुए जो पर्याप्त व अपर्याप्त भवग्रहणोंको करता है, वहां पर्याप्त भव अधिक और
अपर्याप्त भव थोड़े होते हैं, पर्याप्त भवोंका काल दीर्घ और अपर्याप्त भवोंका काल ह्रस्व
होता है, जो उत्कृष्ट योगसे आहारको ग्रहण करता है, उत्कृष्ट वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता
है, जो बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त होता है, जघन्य योगस्थानोंको बहुत
बहुत बार नहीं प्राप्त होता है, संक्लेशको बहुत बार प्राप्त होता है, इस प्रकार बहुत
बार उसके योग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त होकर विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ उसके योग्य
जघन्य विशुद्धिसे सहित होता है; अधस्तन स्थितिस्थानोंके निषेकका जघन्य पद व
उपरिम स्थितिस्थानोंके निषेकका उत्कृष्ट पद करता है, पश्चात् उस पर्यायसे निकलकर
बादर असोंमें उत्पन्न होता है ।

शंका—क्या असोंमें सूक्ष्म होते हैं ?

समाधान — नहीं होते । हां उनमें पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद अवश्य होते हैं ।
इसलिये यहां ' बादर ' इस वचनसे अस पर्याप्तोंका ग्रहण करना चाहिये ।

वहां भी जो ऊपरके स्थितिस्थानमें अधस्तन स्थितिस्थानोंकी अपेक्षा निषेकका

संजमं वा ण किं चि गुणं पडिवज्जदि, तदो पच्छिमसु भवग्गहणेसु तेत्तीसं सांगरोवमिएसु णेरइएसु उववण्णो । उवरि जघा तेजइयस्स उक्कस्साए परिसादणकदीए परूविदं तथा परूवे-
द्वं । णवरि बहुसो बहुसो बहुसंकिलेसं गदो त्ति वत्तवं । दुचरिम-तिचरिमसमए उक्कस्स-
संकिलेसं गदो, चरिम-दुचरिमसमए उक्कस्सजोगं गदो त्ति वत्तवं । एवं विधाणेणागदपढम-
समयअजोगिस्स उक्कस्सिया परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा । सुगमं । संघादण-
परिसादणकदीए उक्कस्सियाए एवं चेव वत्तवं । णवरि सत्तमपुढवीणेरइयचरिमसमए उक्कस्सा ।
तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा । सुगमं ।

कम्मइयस्स जहणिया परिसादणकदी कस्स ? जो जीवो तीसं सांगरोवमाणं कोडा-
कोडीओ प्रलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊगाओ सुहुमेसु अच्छिदो, तत्थ थोवा पज्जत्तभवा
बहुवा अपज्जत्तभवा, दीहाओ अपज्जत्तद्धाओ, रहस्साओ पज्जत्तद्धाओ, पढमसमयतव्ववत्थप्पहुडि
जहणजोगेण आहारिदो, जहणियाए वड्डीए वड्ढिदो, बहुसो बहुसो मंदसंकिलेसं गदो, एवं
तत्थ परियट्ठिदूण उव्वट्ठिदो बांदरेसुववण्णो, अंतोमुहुत्तं जीविदूण उव्वट्ठिदो पुव्वकोडाउएसु

उत्कृष्ट पद करता है, सम्यक्त्व या संयम किसी भी गुणको नहीं प्राप्त होता है, पश्चात् जो
अन्तिम भवग्रहणोंमें तेतीस सांगरोपम स्थिति युक्त नारकियोंमें उत्पन्न हुआ है, इसके आगे
जैसे तैजस शरीरकी उत्कृष्ट परिशातनकृतिमें प्ररूपणा की है वैसे ही प्ररूपणा करनी चाहिये ।
विशेष इतना है कि यहां बहुत संकलेशको बहुत बहुत बार प्राप्त हुआ, ऐसा कहना चाहिये ।
तथा द्विचरम व त्रिचरम समयमें उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ और चरम व द्विचरम
समयमें उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ, ऐसा कहना चाहिये । इस प्रकार इस विधानसे आये
हुए प्रथम समयवर्ती अयोगिजिनके उत्कृष्ट परिशातनकृति होती है । इससे भिन्न
अनुकृष्ट परिशातनकृति है । यह सब कथन सुगम है । इसी प्रकार उत्कृष्ट संघातन-
परिशातनकृतिके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि सप्तम पृथिवीके नारकीके
अन्तिम समयमें उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति होती है । इससे भिन्न अनुकृष्ट संघातन-
परिशातनकृति है ।

यह कथन सुगम है ।

काम्मण शरीरकी जघन्य परिशातनकृति किसके होती है ? जो जीव पल्योपमके
असंख्यातवै भागसे हीन तीस कोडाकोडी सांगरोपम काल तक सूक्ष्म जीवोंमें रहा है,
वहां रहते हुए जिसने पर्याप्त भव थोड़े व अपर्याप्त भव बहुत ग्रहण किये हैं, अपर्याप्त
भवोंका काल दीर्घ और पर्याप्त काल ह्रस्व रहा है, जिनसे उस भवमें स्थित होनेके प्रथम
समयसे लेकर जघन्य योगके द्वारा आहार ग्रहण किया है, जघन्य वृद्धिसे जो वृद्धिको
प्राप्त हुआ है, जो बहुत बहुत बार मन्द संकलेशको प्राप्त हुआ है, इस प्रकार भ्रमण करके
वहांसे निकला और बादर जीवोंमें उत्पन्न हुआ, अन्तर्मुहूर्त जीवित रहकर वहांसे निकला

मणुसेसु उववण्णो, सव्वलहुं जोणिणिकखमणजम्मणेण जादो, सव्वलहुं सम्मत्तं पडिवण्णो, अट्ठ-
वस्सादीदो संजमं पडिवण्णो, दो वारे कसाए उवसामेदि, अंतोमुहुत्ते जीविदसेसे मिच्छत्तं गदो,
तदो दसवाससहस्सट्ठिदिएसु देवेसुववण्णो, सम्मत्तं पडिवण्णो, अणंताणुबंधी विसंजोएदि, दस-
वाससहस्साणि सम्मत्तमणुपालेदि, तदो मिच्छत्तं गंतूण बादरेसु उववण्णो, तत्थ अंतोमुहुत्तं
जीविदूण सुहुमेसु साहारणकाइएसु उववण्णो, तत्थ खविदकम्मंसियलक्खणेण पलिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागमेत्तं कालमच्छिय उव्वट्ठिदो बादरेसुप्पज्जिय अंतोमुहुत्तमच्छिय पुव्वकोडाउएसु
मणुसेसु उववट्ठिय दो वारे कसाए उवसामिय दसवाससहस्सिएसु देवेसु उववज्जिय पुणो थावरेसु^१
उप्पज्जिय सुहुमेसु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छिय बादरेसु अंतोमुहुत्तं पुणरवि पुव्व-
कोडाउएसु मणुस्सेसु उववण्णो, सव्वलहुं जोणिणिकखमणजम्मणेण जादो, सव्वलहुं सम्मत्तं
पडिवण्णो, अट्ठवस्सादीदो संजमं पडिवण्णो, सव्वलहुं णाणमुप्पादेदि, उप्पण्णणाण-दंसणहरो
देसूणपुव्वकोडिं विहरदि, अंतोमुहुत्तं जीविदावसेसे सेलेसिं पडिवण्णो, तस्स चरिमसमयभव-
सिद्धियस्स खविदकम्मंसियस्स जहणिया परिसादणकदी । तव्वदिरित्ता अजहण्णा । संघादण-

और पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ, सर्वलघु कालमें योनिनिष्क्रमण रूप
जन्मसे उत्पन्न हो सर्वलघु कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, आठ वर्ष वितकर संयमको
प्राप्त हो दो बार कषायोंको उपशमाता है, पुनः अन्तर्मुहूर्त जीवितके शेष रहनेपर
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, पश्चात् दश हजार वर्ष आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर
सम्यक्त्वको प्राप्त हो अनन्तानुबन्धिचतुष्टयका विसंयोजन करता है और दश हजार
वर्ष तक सम्यक्त्वका पालन करता है, पश्चात् मिथ्यात्वको प्राप्त हो बादर जीवोंमें
उत्पन्न हुआ, वहां अन्तर्मुहूर्त जीवित रहकर सूक्ष्म साधारणकायिकोंमें उत्पन्न हुआ, वहां
क्षपितकर्मांशिक स्वरूपसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र काल तक रहकर निकला
व बादर जीवोंमें उत्पन्न हुआ, पुनः वहां अन्तर्मुहूर्त रहकर पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योंमें
उत्पन्न हो दो बार कषायोंको उपशमाकर दश हजार वर्ष आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ,
पुनः स्थावरोंमें उत्पन्न होकर सूक्ष्मोंमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग व बादरोंमें
अन्तर्मुहूर्त काल तक रहकर पुनः पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न
हो सर्वलघु कालमें योनिनिष्क्रमण रूप जन्मसे उत्पन्न हुआ, वहां सर्वलघु कालमें
सम्यक्त्वको प्राप्त कर आठ वर्ष वीतनेपर संयमको प्राप्त होता हुआ सर्वलघु कालमें
केवलज्ञानको उत्पन्न करता है, पुनः उत्पन्न हुए केवलज्ञान व केवलदर्शनको धारण कर
कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक विहार करता है, पश्चात् आयुके अन्तर्मुहूर्त शेष
रहनेपर शैलेश्य भावको प्राप्त करता है; उस चरम समयवर्ती भव्यसिद्धिक क्षपित-
कर्मांशिक जीवके कर्मण शरीरकी जघन्य परिशातनकृति होती है । इससे भिन्न
अजघन्य परिशातनकृति होती है । संघातन-परिशातनकृतिके विषयमें इसी प्रकार ही

परिसादणकदीए एवं चेव वत्तव्वं । णवरि एइंदिएसु जहण्णं दादव्वं । एवं सामित्तरूपवणा गदा ।

अप्पावहुगं वत्तइस्सामो । तं जहा—सव्वत्थेवा^१ ओरालियसरीरस्स जहणिया संघा-
दणकदी, सुहुमेइंदियजहण्णुववादजोगेणाहारिदओरालियपोगलक्खंधपमाणत्तादो । संघादण-
परिसादणकदी जहणिया असंखेज्जगुणा, एइंदियसुहुमस्स विदियसमयतव्ववत्थस्स जहण-
एंगंताणुववड्डीए गहिदएगसमयपवद्धेण सह तक्कालियजहण्णुववाददव्वस्स पढमणिसेगेणूणस्स
गहणादो । परिसादणकदी जहणिया असंखेज्जगुणा, चादरवाउजीवस्स पज्जत्तयस्स सव्व-
लहुमुत्तरसरीरमुट्ठाविदस्स दीहाए^२ विउव्वणद्धाए चरिमसमए वट्टमाणस्स एइंदियपरिणाम-
जोगेणाहारिदओरालियपोगलक्खंधगहणादो । विउव्वमाणकालव्वंतरे संचएण विणा परिसदिद-
ओरालियसरीरस्स उदयगदपोगलक्खंधा कधमेगसमयपवद्धादो असंखेज्जगुणा होंति ? ण,

कहना चाहिये । विशेष इतना है कि एकेन्द्रियोंमें जघन्य देना चाहिये; अर्थात् कार्मण
शरीरकी जघन्य संघातन-परिशातनकृति एकेन्द्रियोंके होती है, ऐसा कहना चाहिये; इस
प्रकार स्वामित्वप्ररूपणा समाप्त हुई ।

अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है—औदारिक शरीरकी जघन्य संघा-
तनकृति सबसे स्तोक है, क्योंकि, वह सूक्ष्म एकेन्द्रियके जघन्य उपपादयोगसे ग्रहण
किये गये औदारिक पुद्गलस्कन्धोंके बराबर है । उससे जघन्य संघातन-परिशातनकृति
असंख्यातगुणी है, क्योंकि, इसमें एकेन्द्रिय सूक्ष्मके उस भवमें स्थित होनेके द्वितीय
समयमें जघन्य एकान्तानुवृद्धिसे ग्रहण किये गये एक समयप्रवद्धके साथ प्रथम निपेकको
छोड़ तात्कालिक जघन्य उपपाद द्रव्यका ग्रहण किया गया है । उससे जघन्य परिशातन-
कृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, इसमें पर्याप्त, सर्वलघु कालमें उत्तर शरीरको उत्पन्न
करनेवाले और दीर्घ विक्रिया कालके अन्तिम समयमें रहनेवाले वादर वायुकायिक
जीवके एकेन्द्रिय सम्बन्धी परिणामयोगसे ग्रहण किये गये औदारिक पुद्गलस्कन्धोंका
ग्रहण किया है ।

शंका—विक्रियाकालके भीतर संचयके बिना पृथक् होनेवाले औदारिक शरीरके
उदयको प्राप्त हुए पुद्गलस्कन्ध एक समयप्रवद्धसे असंख्यातगुणे कैसे हैं ?

१ प्रतिष्ठ 'सव्वद्धावा' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठ 'दीसाए' इति पाठः ।

३ अ-आप्रत्योः 'हारिसदंतओरालिय', काप्रतौ 'हारिदसंतओरालिय', 'मप्रतौ 'हारिदंतओरालिय'
इति पाठः ।

संखेज्जगुणहाणीसु गलिदासु वि दिवङ्गुणहाणिमेत्तसमयपंबद्धाणं संखेज्जदिभागस्स एगंताणु-
वड्ढिजोगेगसमयपवद्धादो असंखेज्जगुणत्तदंसणादो । ओरालियस्स उक्कस्सिया संघादणकदीं
असंखेज्जगुणा, सण्णिपंचिदियतिरिक्ख-मणुसपज्जत्तस्स णिरयभवपच्छायदस्स संखेज्जवासाउअस्स,
तिसमयतवभवत्थस्स पढमसमयआहारयस्स तदित्थउक्कस्सएगंताणुवड्ढिजोगस्स एगसमयपवद्ध-
गहणादो । एइंदियपरिणामजोगेण पवद्धपरिसादणदव्वादो कधं पंचिदियस्स एयंताणुवड्ढि-
जोगेण वद्धेगसमयपवद्धस्स असंखेज्जगुणत्तं ? ण, एइंदियउक्कस्सपरिणामजोगादो वि पंचि-
दियजहण्णेगंताणुवड्ढिजोगस्स वि असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । उक्कस्सिया परिसादणकदी असं-
खेज्जगुणा, पंचिदियपज्जत्तमणुस्सस्स सण्णिपंचिदियपज्जत्ततिरिक्खस्स वा पुव्वकोडिआउअस्स
उक्कस्सजोगस्स अप्पभासा-मणद्धस्स' तिचरिम-दुचरिमसमएहि उक्कस्सजोगं गदस्स सगाउ-
ट्ठिदिचरिमसमए उत्तरसरीरं विउव्विदस्स चरिमसमए परिसदमाणोक्कम्मपोगलक्खंधाणं

समाधान—नहीं, क्योंकि, संख्यात गुणहानियोंके गलित हो जानेपर भी डेढ़
गुणहानि प्रमाण समयप्रबद्धोंका संख्यातवां भाग एकान्तानुवृद्धियोग सम्बन्धी एक समय-
प्रबद्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणा देखा जाता है ।

उससे औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट संघातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, यहां
जो नारक पर्यायसे पीछे आया है, संख्यात वर्षकी आयुवाला है, तीसरे समयमें तद्भवस्थ
हुआ है, आहारक होनेके प्रथम समयमें स्थित है और वहांके उत्कृष्ट एकान्तानुवृद्धि
योगसे संयुक्त है ऐसे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच व मनुष्य पर्याप्तके एक समयप्रबद्धका
ग्रहण किया है ।

शंका—एकेन्द्रियके परिणामयोगसे बांधे गये परिशातनद्रव्यकी अपेक्षा पंचे-
न्द्रियके एकान्तानुवृद्धियोगसे बांधा गया एक समयप्रबद्ध असंख्यातगुण कैसे हो
सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियके उत्कृष्ट परिणामयोगकी अपेक्षा भी
पंचेन्द्रियका जघन्य एकान्तानुवृद्धियोग भी असंख्यातगुणा पाया जाता है ।

उससे उत्कृष्ट परिशातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, जो पंचेन्द्रिय पर्याप्त
मनुष्य या संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यच पूर्वकोटिकी आयुवाला है, उत्कृष्ट योगवाला है,
भापा व मनके अल्प कालसे युक्त है, त्रिचरम या द्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगको प्राप्त
हुआ है, और जिसने अपनी आयुके अन्तिम समयमें उत्तम शरीरकी विक्रिया की है
उसके उस समय जो नोर्कर्मपुद्गलस्कन्ध निर्जीर्ण होते हैं पंचेन्द्रियके परिणामयोगके

पंचिंदियपरिणामजोगागददिवड्डुसमयपवद्धमेत्तत्तादो । उक्कस्सिया संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । दोणं पि एक्कम्हि चेव डाणे सामित्तं जादं, तदो ण विसेसाहियत्तं ? ण एस दोसो, चरिमड्ढिदीए समऊणपुव्वकोडिसंचयं होदूण गलंतदव्वं परिसादणकदी णाम । तिस्से चव चारमड्ढिदीए पुव्वकोडिसंचिदानिसेगा संघादण-परिसादणकदी णाम । समऊणपुव्वकोडिसंचयं पेक्खिऊण संपुण्णपुव्वकोडिसंचओ जेण एगसमयपवद्धमेत्तेण अहिओ तेण विसेसाहियत्तं ण विरुज्झदे ।

सव्वत्थोवा वेउव्वियसरीरस्स जहणिया संघादणकदी, देवस्स णेरइयस्स वा असणिण-पच्छायदस्स पढमसमयतव्ववत्थस्स पढमसमयआहारयस्स जहणजोगिस्स उववादजोगेग-समयपवद्धगहणादो । एइंदिएसु जहण्णा वेउव्वियसंघादणकदी किण्ण गहिदा ? ण, एसो पंचिंदियजहणउववादजोगो एइंदियपरिणामजोगादो असंखेज्जगुणहीणो त्ति तदग्गहणादो ।

द्वारा प्राप्त हुए उनका परिमाण डेढ़गुणहानिगुणित समयप्रवद्ध प्रमाण है । उससे उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति विशेष अधिक है ।

शंका.—चूंकि इन दोनों कृतियोंका एक ही स्थानमें स्वामित्व होता है, अतः संघातन-परिशातनकृति विशेषाधिक नहीं हो सकती ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अन्तिम स्थितिमें एक समय कम पूर्वकोटि काल तक संचय होकर गलनेवाला द्रव्य परिशातनकृति कहलाता है । और उसी अन्तिम स्थितिमें पूर्वकोटि काल तक संचित निपेक संघातन-परिशातनकृति कहलाते हैं । अतएव एक समय कम पूर्वकोटि कालके संचयकी अपेक्षा संपूर्ण पूर्वकोटि कालका संचय चूंकि एक समयप्रवद्ध मात्रसे अधिक है इसलिये उसके विशेष अधिक होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

वैक्रियिक शरीरकी जघन्य संघातनकृति सबसे स्तोक है, क्योंकि, इसमें असंज्ञियोंमेंसे पीछे आये हुए, प्रथम समयमें तद्भवस्थ हुए, प्रथम समयवर्ती आहारक और जघन्य योगसे संयुक्त ऐसे देव अथवा नारकीके उपपादयोगसे ग्रहण किये गये एक समय-प्रवद्धका ग्रहण किया गया है ।

शंका — एकेन्द्रियोंमें वैक्रियिक शरीरकी जघन्य संघातनकृतिका ग्रहण क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यह पंचेन्द्रियका जघन्य उपपादयोग एकेन्द्रियके परिणामयोगसे असंख्यातगुणा हीन है, अतः वहां उसका ग्रहण नहीं किया ।

जहणिया संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, बादरवाउपज्जत्तस्स संवलहुमुत्तरसरीरं विउव्विदस्स जहणजोगिस्स विउव्वणद्धाए बिदियसमए वट्टमाणस्स देसूणदोसमयपवद्ध-गहणादो । परिसादणकदी जहणिया असंखेज्जगुणा । कुदो ? बादरवाउकाइयपज्जत्तयस्स जहणजोगेण उत्तरसरीरं विउव्विदस्स मूलसरीरं पविसिय दीहेण कालेण णिल्लेवयंतस्स अणिल्लेविदचरिमसमए एगचरिमणिसेगस्स गहणादो । ण च असंखेज्जगुणत्तमसिद्धं, चरिम-णिसेगागमणणिमित्तसंखेज्जावलियाहि जोगगुणगोर ओवट्ठिदे पल्लिदोवमस्स असंखेज्जभागुव-लंभादो । उक्कस्सिया संघादणकदी असंखेज्जगुणा । कुदो ? वेमाणियदेवस्स पुधत्तत्तेण सच्चमहंतरूवं विउव्वमाणस्स पढमसमयपंचिदियउक्कस्सपरिणामजोगेगसमयपवद्धगह-णादो । उक्कस्सिया परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, मणुस्सस्स पज्जत्तयस्स सण्णिपंचि-दियतिरिक्खपज्जत्तस्स वा पुव्वकोडाउअस्स पढमसमयविउव्वियप्पहुडि उक्कस्स-जोगिस्स पुव्वुक्कस्सविउव्वणद्धस्स मूलसरीरपवेसपढमसमयदिवड्डुमेत्तसमयपवद्धगहणादो । पुधत्तेण विउव्विय मूलसरीरं पविट्ठपढमसमए ट्ठिदेवस्स उक्कस्सिया परिसादणकदी

वैक्रियिक शरीरकी जघन्य संघातनकृतिसे उसकी जघन्य संघातन-परिशातन-कृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, इसमें सर्वलघु कालमें उत्तर शरीरकी विक्रियाको प्राप्त हुए, जघन्य योगसे संयुक्त, तथा विक्रियाकालके द्वितीय समयमें वर्तमान ऐसे बादर वायु-कायिक पर्याप्त जीवके कुछ कम हो समयप्रवद्धोंका ग्रहण किया है। उससे जघन्य परिशातन-कृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, इसमें जघन्य योगसे उत्तर शरीरकी विक्रियाको प्राप्त हुए तथा मूल शरीरमें प्रवेश करके दीर्घ काल तक निर्जरा करनेवाले ऐसे बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवके अनिलोपित चरम समयमें एक अन्तिम निपेकका ग्रहण किया है। यदि कहा जाय कि यह कृति वैक्रियिक शरीरकी जघन्य संघातन-परिशातनकृतिसे असंख्यातगुणी है, यह बात असिद्ध है; सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, अन्तिम निपेकके आनेमें निमित्तभूत संख्यात आवलियोंसे योगगुणकारको अपवर्तित करनेपर पल्लोपमका असंख्यातवां भाग उपलब्ध होता है। उससे उत्कृष्ट संघातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, इसमें सबसे महान् रूपकी पृथक् विक्रिया करनेवाले वैमानिक देवके प्रथम समयमें पंचेन्द्रियके उत्कृष्ट परिणामयोगसे ग्रहण किये गये एक समयप्रवद्धका ग्रहण किया है। उससे उत्कृष्ट परिशातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, पूर्वकोटि आयुवाले, विक्रिया करनेके प्रथम समयसे लेकर उत्कृष्ट योगसे संयुक्त और पहलेसे उत्कृष्ट विक्रिया-कालसे सहित ऐसे मनुष्य पर्याप्तके अथवा संक्षी पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तके मूल शरीरमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रवद्ध मात्र द्रव्यका ग्रहण किया है।

शुंका — पृथक् विक्रिया करके मूल शरीरमें प्रविष्ट होनेके प्रथम समयमें स्थित

किंण हेदि ? णं, तत्थं मूलसरीरं पविडे वि संघडंत-गलंतपरमाणू पेक्खिंदूण संघादण-परिसादणं मोत्तूण परिसादणाभावादो । उक्कस्सिया संघादण-परिसादणकदी विसेसा-हिया । कुदो ? आरणच्चुददेवस्स बावीससागरोवमियस्स अप्पभासा-मणद्धस्स अप्पविउव्वयस्स चरिम-दुचरिमसमए उक्कस्सजोगं गदस्सं चरिमसमयभवत्थस्स चरिमसंचयग्गहणादो । णवं-गेवज्जप्पहुडि उवरिमदेवेसु उक्कस्सं किंण धेप्पदे ? णं, तत्थ पाणुक्कड्डुणाभावादो णिसेग-मस्सिदूण असंखेज्जलोगेण खंडिदएगखंडेण अहियत्तुवलंभादो ।

आहारयस्स जहणिया संघादणकदी थोवा, उववादजोगेगसमयपवद्धमेत्तत्तादो । जह-णिण्या संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । कुदो ? एगंताणुवड्ढिजोगेगसमयपवद्धस्स पाहणियादो । उक्कस्सिया संघादणकदी असंखेज्जगुणा । कुदो ? जहणएगंताणुवड्ढिजोगादो आहारसरीरमुड्डावेत्तस्स उक्कस्सुववादजोगस्स असंखेज्जगुणत्तादो । जहणिया परिसादणकदी

इष्ट देवकें उत्कृष्ट परिशातनकृति क्यों नहीं होती ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहां मूल शरीरमें प्रविष्ट होनेपर भी आनेवाले व गलनेवाले परमाणुओंकी अपेक्षा संघातन-परिशातनको छोड़कर केवल परिशातनका अभाव है ।

उससे उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति विशेष अधिक है, क्योंकि, इसमें जिसकी बाईस सागरकी आयु है, जिसका वचनयोग और मनोयोगमें थोड़ा काल गया है, जिसने इस कालके भीतर विक्रिया अल्प की है, जो चरम और द्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ है और जो भवके अन्तिम समयमें स्थित है उस आरण और अच्युत कल्पवासी देवके अन्तमें प्राप्त होनेवाले संचयका ग्रहण किया है ।

शंका—नवत्रैवेयकसे लेकर आगेके देवोंमें उत्कृष्ट संचयका ग्रहण क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहां प्रायः करके उत्कर्षणका अभाव है, इसलिये निषेककी अपेक्षा उसमें असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त होता है उतनी अधिकता पायी जाती है, अतः वहां उत्कृष्ट संचयका ग्रहण नहीं किया ।

आहारक शरीरकी जघन्य संघातनकृति स्तोत्र है, क्योंकि, वह उपपादयोगसे ग्रहण किये गये एक समयप्रवद्ध प्रमाण हैं । उससे जघन्य संघातन-परिशातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, यहां एकान्तानुवृद्धियोगसे ग्रहण किये गये एक समयप्रवद्धकी प्रधानता है । उससे उत्कृष्ट संघातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, आहारक शरीरको उत्पन्न करनेवाले जीवका उत्कृष्ट उपपादयोग जघन्य एकान्तानुवृद्धियोगसे असंख्यात-

असंखेज्जगुणा, आहारसरीरमुद्धाविय सव्वजहणकालेण मूलसरीरं पविसिय सव्वचिरेण कालेण आहारसरीरं णिल्लेवंतस्स चरिमसमयअणिल्लेविदस्स परिणामजोगागदएगसमयपवद्धणिसेगगहणादो । उक्कस्सिया परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । कुदो ? गुणितकमेण आहारदव्वसंचयं काऊण मूलसरीरं पविट्ठपढमसमए वट्टमाणस्स उक्कस्सपरिणामजोगागददिवट्ठमेत्तसमयपवद्धगहणादो । उक्कस्सिया संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । कुदो ? मूलसरीरं पविट्ठपढमसमए गल्लिददव्वस्स आहारसरीरमुद्धावेंतस्स चरिमसमए उवलंभादो ।

तेजइयस्स जहणिया संघादण-परिसादणकदी थोवा, छावट्टिसागरोवमाणि सुहुमेइंदिएसु खविदकम्मंसियलक्खणेणच्छिदस्स पुणो एयंताणुवट्ठीए बंधादो णिज्जराए अहिययरप्पदेसे दिवट्ठमेत्तसमयपवद्धगहणादो । जहणिया परिसादणकदी विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? सुहुमेइंदिएसु खविदकम्मंसियलक्खणेण छावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय जहणणदव्वं काऊण ततो उव्वट्टिय मणुस्सेसुप्पाज्जिय अट्ठवस्सेसु कयसंचयमेत्तेण । केवली होदण

गुणा है । उससे जघन्य परिशातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, इसमें आहार शरीरको उत्पन्न कराकर और सर्वजघन्य काल द्वारा मूल शरीरमें प्रवेश करके जो सर्वचिर काल द्वारा आहारक शरीरको निर्लेपित करते हुए चरम समयमें अनिलेपित रहता है उस जीवके परिणामयोगसे आये हुए एक समयप्रवद्धके निषेकका ग्रहण किया है । उससे उत्कृष्ट परिशातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, इसमें गुणित क्रमसे आहार द्रव्यका संचय करके मूल शरीरमें प्रविष्ट होनेके प्रथम समयमें वर्तमान प्रमत्तसंयत जीवके उत्कृष्ट परिणामयोगसे आये हुए डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रवद्ध मात्र द्रव्यका ग्रहण किया है । उससे उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति विशेष अधिक है, क्योंकि, मूल शरीरमें प्रविष्ट होनेके प्रथम समयमें जो द्रव्य जीर्ण होता है वह आहारकशरीरको उत्पन्न करनेवालेके अन्तिम समयमें पाया जाता है ।

तैजसशरीरकी जघन्य संघातन-परिशातनकृति स्तोक है, क्योंकि जो छयासठ सागरोपम काल तक सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें क्षपितकर्मांशिक स्वरूपसे रहा है उस जीवके एकान्तानुवृद्धिसे हुए बन्धकी अपेक्षा निर्जराके अधिकतर प्रदेशमें डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रवद्ध मात्र लिये गये हैं । उससे जघन्य परिशातनकृति विशेष अधिक है । कितने मात्रसे अधिक है ? सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें क्षपितकर्मांशिक स्वरूपसे छयासठ सागरोपम काल तक परिभ्रमण करके और इस द्वारा द्रव्यको जघन्य करके वहांसे निकलकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर आठ वर्षोंमें जितना संचय होगा उतने प्रमाणसे अधिक है ।

शंका—केवली होकर कुछ कम पूर्वकोटि काल तक विहार करनेवाले जीवके

देसूणपुव्वकोडि विहरमाणस्स अट्ठवस्ससंचिदस्स णिम्मूलक्खओ किण्ण जायदे ? ण, णो-
कम्मस्स गुणसेडीए णिज्जराभावादो । उक्कस्सिया परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, गुणिद-
कम्मंसियलक्खणेण छावडिसागरोवमाणि परिभमिय मणुस्सेसुप्पज्जिय अट्ठवस्साणमुवीरि संजमं
धेत्तूण अंतोमुहत्तेण अजोगिगुणट्ठाणपढमसमए ड्ढिदस्स उक्कस्सपरिणामजोगेण बद्धदिवड्ढमेत्त-
पंचिंदियसमयपवड्ढवलंभादो । उक्कस्सिया संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । केत्तिय-
मेत्तेण ? मणुस्सेसु णिज्जरिददव्वमेत्तेण ।

कम्मइयस्स जहणिया परिसादणकदी थोवा, अजोगिचरिमसमयदेसूणदिवड्ढमेत्ते-
इंदियसमयपवड्ढगहणादो । जहणिया संघादण-परिसादणकदी संखेज्जगुणा, चटुअघादिकम्म-
पोगलक्खंधादो सुहुमेइंदियअपज्जत्तअट्ठकम्मक्खंधस्स सादिरेयदुगुणत्तदंसणादो । उक्क-
स्सिया परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, गुणिदकम्मंसियलक्खणेण कम्मड्ढिदिं भमिय सत्तम-
पुढवीणेरहएसु उक्कस्सं करिय तत्तो उव्वट्ठिय अंतोमुहुत्ताहियअट्ठवस्सेहि अजोगिपढमसमए
ड्ढिदस्स दिवड्ढमेत्तपंचिंदियसमयपवड्ढवलंभादो । उक्कस्सिया संघादण-परिसादणकदी सादि-

आठ वर्षमें संचित हुए द्रव्यका निर्मूल क्षय क्यों नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, नोकर्मकी गुणधेणि रूपसे निर्जरा नहीं होती ।

जघन्य परिशातनकृतिसे उत्कृष्ट परिशातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, गुणितकर्मांशिक स्वरूपसे छयासठ सागरोपम काल तक परिभ्रमण करके मनुष्योंमें उत्पन्न हो आठ वर्षके बाद संयमको ग्रहणकर अन्तमुहूर्त काल द्वारा अयोगी गुणस्थानको प्राप्त हो उसके प्रथम समयमें स्थित जीवके उत्कृष्ट परिणामयोगसे बद्ध पंचेन्द्रिय सम्बन्धी डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रबद्ध मात्र द्रव्य पाया जाता है । उससे उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति विशेष अधिक है । कितने मात्रसे विशेष अधिक है ? मनुष्योंमें जितना द्रव्य निजीर्ण हुआ है उतने मात्रसे अधिक है ।

कर्मणशरीरकी जघन्य परिशातनकृति स्तोक है, क्योंकि, इसमें अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें एकेन्द्रिय सम्बन्धी कुछ कम डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रबद्ध मात्र द्रव्यका ग्रहण किया है । उससे जघन्य संघातन-परिशातनकृति संख्यातगुणी है, क्योंकि, चार अघातिया कर्म-पुद्गलस्कन्धोंकी अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके आठ कर्मोंके स्कन्ध दुगुणसे कुछ अधिक देखे जाते हैं । उससे उत्कृष्ट परिशातनकृति असंख्यातगुणी है, क्योंकि, गुणितकर्मांशिक स्वरूपसे कर्मस्थिति काल तक भ्रमणकर सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें गया और वहां इस द्रव्यको उत्कृष्ट करके वहांसे निकलकर अन्तमुहूर्त अधिक आठ वर्ष काल द्वारा अयोगी गुणस्थानको प्राप्त हो इसके प्रथम समयमें स्थित जीवके पंचेन्द्रिय सम्बन्धी डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रबद्ध मात्र द्रव्य पाया जाता है । उत्कृष्ट

रेयदुगुणा, चदुअघादिकम्मपोंगलखंधादो सत्तमपुढविणेरइयचरिससमयभट्टकम्मवखंधस्स सादि-
रेयदुगुणत्तदंसणादो । सत्थाणप्पाबहुगं गदं ।

परत्थाणे पयदं । सव्वत्थोवा ओरालियस्स जहणिया संधादणकदी । संधादण-
परिसादणकदी जहणिया असंखेज्जगुणा । परिसादणकदी जहणिया असंखेज्जगुणा । ओरा-
लियस्स उक्कस्सिया संधादणकदी असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया परिसादणकदी असंखेज्ज-
गुणा । उक्कस्सिया संधादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । वेउव्वियस्स जहणिया संधादण-
कदी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? सेडीए असंखेज्जदिभागो । जहणिया तस्सेव संधादण-
परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । परिसादणकदी जहणिया असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया
संधादणकदी असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया
संधादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । आहारयस्स जहणिया संधादणकदी असंखेज्जगुणा ।
को गुणगारो ? सेडीए असंखेज्जदिभागो । जहणिया संधादण-परिसादणकदी
असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया संधादणकदी असंखेज्जगुणा । जहणिया परिसादण-

संघातन-परिशातनकृति साधिक दुनी है, क्योंकि, चार अघातिया कर्मपुद्गलस्कन्धोंसे
सातवीं पृथिवीके नारकीके अन्तिम समयमें प्राप्त आठ कर्मोंके स्कन्ध साधिक दुने
देखे जाते हैं । इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

परस्थानमें अल्प-बहुत्वका प्रकरण है— औदारिकशरीरकी जघन्य संघातनकृति
सबमें स्तोक है । इससे इसीकी जघन्य संघातन-परिशातनकृति असंख्यातगुणी है । इससे
इसीकी जघन्य परिशातनकृति असंख्यातगुणी है । इससे औदारिकशरीरकी उत्कृष्ट
संघातनकृति असंख्यातगुणी है । इससे इसीकी उत्कृष्ट परिशातनकृति असंख्यातगुणी है ।
इससे इसीकी उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति विशेष अधिक है । इससे वैक्रियिक
शरीरकी जघन्य संघातनकृति असंख्यातगुणी है । गुणकार क्या है ? जगश्रेणीका असं-
ख्यातवां भाग गुणकार है । इससे वैक्रियिकशरीरकी ही संघातन-परिशातनकृति असं-
ख्यातगुणी है । इससे इसीकी जघन्य परिशातनकृति असंख्यातगुणी है । इससे इसीकी
उत्कृष्ट संघातनकृति असंख्यातगुणी है । इससे इसीकी उत्कृष्ट परिशातनकृति असंख्यात-
गुणी है । इससे इसीकी उत्कृष्ट संघातन-परिशातनकृति विशेष अधिक है । इससे
आहारकशरीरकी जघन्य संघातनकृति असंख्यातगुणी है । गुणकार क्या है ? जगश्रेणीका
असंख्यातवां भाग गुणकार है । इससे इसीकी जघन्य संघातन-परिशातनकृति असंख्यात-
गुणी है । इससे इसीकी उत्कृष्ट संघातनकृति असंख्यातगुणी है । इससे इसीकी जघन्य

१ अत्रतौ 'कदी विसेसाहिया तेजइयस्स उक्कस्सिया' इति पाठः ।

गेरइएसु अत्थि वेउव्वियसंघादणकदी संघादण-परिसादणकदी च [१], तेजा-कम्मइयाणं संघादण-परिसादणकदी च १ । गेरइएसु वेउव्वियपरिसादणकदी णत्थि, पुध्विउव्वणाभावादो । एवं सत्तसु पुढवीसु । सव्वदेवाणं एवं चेव । देवैसु पुध्विउव्वणसंभादो वेउव्वियपरिसादणकदी किण्ण भण्णदे ? ण, मूलसरीरमच्छंडिय विउव्वमाणाणं देवाणं सुद्धपरिसादणाणुवलंभादो ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खाणं पंचिदियतिरिक्खतिगस्स य अत्थि ओरालिय-वेउव्विय-तिण्णि-तिण्णिपदा तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी च ^{४ ४ ४}_{१ १ १} । पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्तएसु अत्थि ओरालियसंघादणकदी संघादण-परिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी च ।

अशुद्ध प्रतीत होता है । आगे गति मार्गणामें ऊपरका अंक गतिसूचक, मध्यका अंक शरीर-सूचक और नीचेका अंक कृतियोंका सूचक रहा होगा ।

नरकगतिमें नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति और संघातन-परिशातनकृति होती है । तैजस और कर्मण शरीरोंके संघातन-परिशातनकृति होती है । नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती, क्योंकि, उनके पृथक् विक्रियाका अभाव है । इस प्रकार सात पृथिवियोंमें कहना चाहिये । सब देवोंके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये ।

शंका—देवोंमें पृथक् विक्रिया सम्भव होनेसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति क्यों नहीं कही जाती ?

समाधान नहीं कही जाती, क्योंकि, मूल शरीरको न छोड़कर विक्रिया करने-वाले देवोंके शुद्ध परिशातनकृति नहीं पायी जाती ।

तिर्यग्गतिमें तिर्यच्चोंके और तीनों पंचेन्द्रिय तिर्यच्चोंके औदारिक व वैक्रियिक शरीरके तीनों तीनों पद हैं और तैजस व कर्मण शरीरके संघातन-परिशातनकृति है । पंचेन्द्रिय तिर्यच्च अपर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति व संघातन-परिशातनकृति होती है और तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति होती है ।

१ अंप्रतौ ++ पूर्वविधा संदष्टिरत्र, आ-कांप्रलीस्त्वत्र न काचित्संदष्टिः ।

१ प्रतिपु पुढ- इति पाठः ।

१ प्रतिव्वत्र ^{१ १}₊₊ पूर्वविधा, मंप्रतौ तु ^{१ १}₊₊₊₊ पूर्वविधा संदष्टिः ।

मणुसगदीए मणुसतियस्स ओघभंगो । णवरि मणुसिणीसु आहारपदं णत्थि । मणुस-
अपज्जत्ताणं तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एइंदियाणं वादराणं तेसिं चैव पज्जत्ताणं च तिरिक्ख-
भंगो । वादरेइंदियअपज्जत्ताणं सुहुमाणं तेसिं चैव पज्जत्तापज्जत्ताणं सव्वविगल्लिंदियाणं
पंचिंदिय-तसअपज्जत्ताणं च तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचिंदियदोण्णिपदाणं^१ ओघभंगो । एवं
तसदुवस्स । सव्वपुढवीकाइय-सव्वआउकाइय-सव्ववणप्फदिकाइय-वादरतेउकाइय-वादरवाउ-
काइयअपज्जत्ताणं सुहुमतेउकाइय-सुहुमवाउकाइयाणं तेसिं चैव पज्जत्तापज्जत्ताणं च पंचि-
दियअपज्जत्तभंगो । तेउकाइय-वाउकाइय-वादरतेउकाइय-वादरवाउकाइयाणं तेसिं चैव पज्ज-
त्ताणं च एइंदियभंगो ।

पंचमणजोगीसु पंचवाचिजोगीसु अत्थि ओरालिय-वेउव्विय-आहारपरिसादणकदी
संघादण-परिसादणकदी [च । संघादणकदी] किण्ण उत्ता ? ण, संघादणकदीए कायजोगं
मोत्तूण अण्णजोगाभावादो । तेजा-कम्मइयाणं संघादण-परिसादणकदी अत्थि । कायजोगीण-

मनुष्यगतिमें मनुष्यत्रिकके ओघके समान प्ररूपणा है । विशेष इतना है कि
मनुष्यनिर्योमें आहारपद नहीं होता । मनुष्य अपर्याप्तकोंकी तिर्यंच अपर्याप्तकोंके समान
प्ररूपणा है । एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय वादर और उनके ही पर्याप्तोंकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके
समान है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म व उनके ही पर्याप्त-अपर्याप्त, सब विकले-
न्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त, इन सबकी प्ररूपणा तिर्यंच अपर्याप्तोंके
समान है । पंचेन्द्रिय व पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । इसी प्रकार त्रस
व त्रस पर्याप्तोंकी भी प्ररूपणा ओघके समान है ।

सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब वनस्पतिकायिक, वादर तेजकायिक
व वादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म तेजकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक और उनके ही
पर्याप्त व अपर्याप्त, इनकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है । तेजकायिक, वायु-
कायिक, वादर तेजकायिक, वादर वायुकायिक और उनके ही पर्याप्तोंकी प्ररूपणा एके-
न्द्रिय जीवोंके समान है ।

पांच मनोयोगियों और पांच वचनयोगियोंमें औदारिक, वैक्रियिक और आहारक
शरीरकी परिशातनकृति और संघातन-परिशातनकृति होती है ।

शंका— इनके उक्त शरीरोंकी संघातनकृति क्यों नहीं कही ?

समाधान— नहीं कही, क्योंकि, संघातनकृतिमें काययोगको छोड़कर दूसरा योग
नहीं होता ।

पांच मनोयोगी और पांच वचनयोगियोंमें तैजस और कर्मण शरीरकी संघातन-
परिशातनकृति होती है ।

१ ज-आप्त्योः 'पंचिं' दोष्णिं ; काश्रतौ 'पंचिंदियदोष्णिं' इति पाठः ।

मोघभंगो । णवरि, तेजा-कम्मइयपरिसादणं णत्थि, अजोगिं, मोत्तूण, अण्णत्थ, तस्साभावादो । ओरालियकायजोगीसु, अत्थि, ओरालियसरीरपरिसादणकदी, संघादण-परिसादणकदी, वेउव्विय-तिण्णिपदा, आहारपरिसादणकदी, तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी च । ओरालियमिस्सकाय-जोगीणं, तसअपज्जत्तभंगो । वेउव्वियकायजोगीसु, अत्थि, वेउव्विय-तेजा-कम्मइय-संघादण-परि-सादणकदी । वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु, अत्थि, वेउव्वियसंघादणकदी, संघादण-परिसादणकदी, तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदी च । आहारकायजोगीसु, अत्थि, ओरालियपरिसादणकदी, आहार-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी च । एवं, आहारमिस्सकायजोगीसु । णवरि, आहार-संघादणं पि अत्थि । कम्मइयकायजोगीसु, अत्थि, ओरालियपरिसादणकदी, लोगमावूरिदेवलीसु, तदुवलंभादो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी च अत्थि ।

इत्थि-णवुंसयवेदाणं, तिरिक्खोघभंगो । पुरिसवेदाणमोघभंगो । णवरि, तेजा-कम्मइय-

काययोगियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनमें तैजस और कर्मण शरीरकी परिशातनकृति नहीं होती, क्योंकि, अयोगकेवलीको छोड़कर अन्य मार्गणाओंमें इस कृतिका अभाव है । औदारिककाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति व संघातन-परिशातनकृति, वैक्रियिकशरीरके तीनों पद, आहारकशरीरकी परिशातनकृति, तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति होती है । औदारिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा ब्रह्म अपर्याप्तोंके समान है ।

वैक्रियिककाययोगियोंमें वैक्रियिकशरीरकी तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति होती है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति व संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति होती है ।

आहारकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा आहारक, तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति होती है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगियोंमें समझना चाहिये । विशेष केवल इतना है कि इनमें आहारकशरीरकी संघातनकृति भी होती है । कर्मणकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति होती है, क्योंकि, लोकपूरणसमुद्घातको प्राप्त हुए केवलियोंमें उक्त कृति पायी जाती है । उनमें तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति भी होती है ।

स्त्री और नपुंसक वेदियोंकी प्ररूपणा तिर्यक् ओघके समान है । पुरुषवेदियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि इनके तैजस व कर्मण शरीरकी परिशातन-

परिसादणं णत्थि । अंवगदवेदाणमत्थि ओरालिय-तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी संघादणं-परि-
सादणकदी च । एवमकसाइ-केवलणाणि केवलदंसणि-जहाक्खादाणं वत्तव्वं । चटुकसाईण-
मोघं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । मदि-सुदअण्णाणीणं तिरिक्खोघं । एवं
विभंगं-मणपज्जवणाणीणं । णवरि ओरालियसंघादणं णत्थि । आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीणं
कायजोगिभंगो । संजदाणमोघं । णवरि ओरालियसंघादणं णत्थि । एवं सामाइय-छेदोवद्वावण-
सुद्धिसंजदाणं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणं णत्थि । परिहारसुद्धिसंजद-सुहुमसांपराइयसुद्धि-
संजदेसु अत्थि ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदी । संजदासंजदाणं मणपज्जव-
भंगो । असंजदाणं तिरिक्खभंगो । चक्खुदंसणि-अचक्खुदंसणि-ओहिंदसणीणं आभिणि-
बोहियभंगो ।

किण्ण-णील-काउलेस्सियाणं असंजदभंगो । तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सियाणं आभिणि-
बोहियभंगो । भवसिद्धिस्सु ओघं । अभवसिद्धियाण असंजदभंगो । सम्माइट्ठी खइयसम्मा-

कृति नहीं होती । अपगतवेदियोंके औदारिक, तैजस व कार्मण शरीरकी परिशातनकृति और संघातन-परिशातनकृति भी होती है । इसी प्रकार अकपांथी, केवलज्ञानी, केवल-दर्शनी और यथाख्यातसंयमी जीवोंके कहना चाहिये । चार कपायवाले जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनके तैजस व कार्मण शरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । मति व श्रुत अज्ञानियोंकी प्ररूपणा तिर्यच ओघके समान है । इसी प्रकार विभंगज्ञानी व मनःपर्ययज्ञानियोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि इनके औदारिक-शरीरकी संघातनकृति नहीं होती । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंकी प्ररूपणा काययोगियोंके समान है । संयत जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेषता इतनी है कि उनके औदारिकशरीरकी संघातनकृति नहीं होती । इसी प्रकार सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि उनके तैजस व कार्मण शरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । परिहारशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परा-यिकशुद्धिसंयतोंमें औदारिक, तैजस व कार्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति होती है । संयतासंयत जीवोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । असंयत जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा आभिनिबोधिकज्ञानियोंके समान है ।

कृष्ण, नील व कापेत लक्ष्यावाले जीवोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके समान है । तेजलक्ष्या, पद्मलक्ष्या और शुक्ल-लक्ष्यावाले जीवोंकी प्ररूपणा आभिनिबोधिकज्ञानियोंके समान है । भव्यसिद्धिकोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । अभव्यसिद्धिकोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके समान है ।

सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

इड्डी ओघं । वेदगसम्मादिड्डीणं चक्खुदंसणिभंगो । उवसमसम्माइड्डी-सम्माभिच्छाइड्डीणं विभंगणाणिभंगो । सासणसम्माइड्डी-मिच्छाइड्डीणं असंजदभंगो । एवमसण्णीणं । सण्णीणं पुरिसवेदभंगो । आहारएसु चक्खुदंसणिभंगो । अणाहारएसु अत्थि ओरालियपरिसादणकदी तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी संघादण-परिसादणकदी च । एवं सताणुगमो समत्तो ।

द्रव्यप्रमाणानुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण ओरालिय-संघादणकदी संघादण-परिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी द्रव्य-प्रमाणेण केवडिया ? अणंता । ओरालियपरिसादणकदी वेउव्वियतिणिणपदा केत्तिया ? असंखेज्जा पदरस्स असंखेज्जदिभागो । आहारतिणिणपदा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी केत्तिया ? संखेज्जा । कधं कदिसदो जीवाणं वाचओ ? क्रियन्ते अस्यां पुद्गलपरिसादनादय इति कृतिशब्दनिष्पत्तिः, करणाणं मूलं कारणमिदि जीवा मूलकरणं ।

गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु वेउव्वियसंघादणकदी संघादण-परिसादणकदी

वेदकसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा चक्षुदर्शनी जीवोंके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा विभंगज्ञानियोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा असंयतोंके समान है । इसी प्रकार असंखी जीवोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । संस्त्रियोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । आहारक जीवोंकी प्ररूपणा चक्षुदर्शनियोंके समान है । अनाहारक जीवोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा तैजस व कार्मेण शरीरकी परिशातनकृति और संघातन-परिशातनकृति भी होती है । इस प्रकार सत्प्ररूपणानुगम समाप्त हुआ ।

द्रव्यप्रमाणानुगमसे ओघ और आदेशकी अपेक्षा दो प्रकार निर्देश है । उनमें ओघकी अपेक्षा औदारिकशरीरकी संघातनकृति, संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कार्मेण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव द्रव्य प्रमाणसे कितने हैं ? उक्त जीव अनन्त हैं । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति और वैक्रियिकशरीरके तीनों पद युक्त जीव, कितने हैं ? जगप्रतरके असंख्यातवै भाग प्रमाण असंख्यात हैं । आहारकशरीरके तीनों पद युक्त तथा तैजस व कार्मेण शरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

शंका—कृति शब्द जीवोंका वाचक कैसे हो सकता है ?

समाधान—एक तो जिसमें पुद्गलोंके परिशातनादिक किये जाते हैं वह कृति है, ऐसी कृति शब्दकी व्युत्पत्ति है इसलिये कृति शब्दसे जीव लिये गये हैं । दूसरे कारणोंका मूल अर्थात् कारण होनेसे जीव मूलकरण हैं इसलिये भी कृतिशब्दका उपयोग जीवोंके लिये किया गया है ।

गतिमार्गानुसार नरकगतिमें नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति,

तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? असंखेज्जा । एवं सत्तसु पुढवीसु । एवं देव-भवनवासियप्पहुडि जाव सहस्सारे ति ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खाणमोरालिय-वेउव्वियतिणिणपदा तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी ओघं । पंचिदियतिरिक्खतिगस्स ओरालिय-वेउव्वियतिणिणपदा तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? असंखेज्जा । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताण ओरालियसंघादणकदी संघादण-परिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? असंखेज्जा । एवं मणुसअपज्जत्त-पंचिदिय-तसअपज्जत्त-सव्वविगल्लिदिय-सव्वपुढविकाइय-सव्वआउकाइय-बादर-तेउकाइय-बादरवाउकाइयअपज्जत्ताण तेसि चैव सुहुमाणं तप्पज्जत्तापज्जत्ताणं बादरवणप्फदि-पत्तेयसीरपज्जत्तापज्जत्ताणं च ।

मणुसगदीए मणुसेसु ओरालियसंघादणकदी संघादण-परिसादणकदी तेजा-कम्मइय-संघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? असंखेज्जा । सेसपदा संखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपदा संखेज्जा । णवरि मणुसिणीसु आहारपदं णत्थि ।

संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इस प्रकार सातों पृथिवियोंमें कहना चाहिये । इसी प्रकार देव और भवनवासी आदि सहस्रार कल्प तक देवोंमें कहना चाहिये ।

तिर्यग्गतिमें तिर्यच्चोंमें औदारिक और वैक्रियिक शरीरके तीनों पद तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । पंचेन्द्रिय आदि तीन तिर्यच्चोंके औदारिक व वैक्रियिक शरीरके तीनों पद तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । पंचेन्द्रिय तिर्यच्च अपर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति व संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? उक्त जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्य-अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय व ब्रह्म-अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, बादर-तेजकायिक और बादर-वायुकायिक अपर्याप्त तथा उनके ही सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त एवं बादर-वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर-पर्याप्त व अपर्याप्तोंके कहना चाहिये ।

मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति व संघातन-परिशातन-कृति तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? उक्त जीव असंख्यात हैं । मनुष्योंमें शेष पद युक्त जीव संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सब पद युक्त जीव संख्यात हैं । विशेष इतना है कि मनुष्यनियोंमें आहारक पद नहीं होता ।

आणदादि जाव अवराइदा त्ति वेउव्वियसंघादणकदी केत्तिया ? संखेज्जा । कुदो ? मणुसपज्जत्तपडिभागेण तत्थुप्पत्तीए । सेसदोपदा असंखेज्जा । सव्वेह तिणिणपदा संखेज्जा ।

एइंदियाणं बादराणं तेसिं पज्जत्ताणं च तिरिक्खभंगो । बादरेइंदियअपज्जत्ताणं सुहुमेइंदियाणं तस्सेव पज्जत्तापज्जत्ताणं ओरालियसंघादणकदी संघादण-परिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? अणंता । पंचिंदियदुगस्स ओरालिय-वेउव्विय-तिणिणपदा तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? असंखेज्जा । सेसपदा संखेज्जा ।

तेउकाइय-वाउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउकाइयाणं तेसिं चैव पज्जत्ताणमोरालिय-वेउव्वियतिणिणपदा तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? असंखेज्जा । वणप्फदि-णिगोद-बादर-सुहुमपज्जत्तापज्जत्ताणमेइंदियअपज्जत्तभंगो । तसदुगस्स पंचिंदियदुगभंगो ।

पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीणं ओरालिय-वेउव्वियपरिसादण-संघादणपरिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? असंखेज्जा । आहारदोपदा संखेज्जा । काय-

आनतसे लेकर अपराजित विमान तक वैक्रियिक शरीरकी संघातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? संख्यात हैं, क्योंकि, वहां मनुष्य पर्याप्तोंके प्रतिभागसे उत्पत्ति है । शेष दो पद युक्त जीव असंख्यात हैं । सर्वार्थसिद्धि विमानमें तीनों पद युक्त जीव संख्यात हैं ।

एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय व उसके ही पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति व संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? उक्त जीव अनन्त हैं । पंचेन्द्रिय व पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंमें औदारिक और वैक्रियिक शरीरके तीनों पद तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? उक्त जीव असंख्यात हैं । इनमें शेष पद युक्त जीव संख्यात हैं ।

तेजकायिक, वायुकायिक, बादर तेजकायिक व बादर वायुकायिक तथा उनके ही पर्याप्तोंमें औदारिक व वैक्रियिक शरीरके तीनों पद तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? उक्त जीव असंख्यात हैं । वनस्पतिकायिक निगोद-बादर सूक्ष्म पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है । व्रस व व्रस पर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय व पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है ।

पांच मनयोगी और पांच वचनयोगियोंमें औदारिक व वैक्रियिक शरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । उक्त जीवोंमें आहारशरीरके दो पद अर्थात् परि-

जोगी ओघं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणं णत्थि । [ओरालियकायजोगीसु] ओरालियसंघादण- [संघादण] परिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? अणंता । ओरालियपरिसादणकदी वेउव्वियतिणिणपदा असंखेज्जा । आहारपरिसादण-कदी संखेज्जा । ओरालियमिस्सकायजोगीणं सुहुमेइंदियभंगो । वेउव्वियकायजोगीसु दोणिणपदा असंखेज्जा । एवं वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं । णवरि संघादण-कदी अत्थि । आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीणं तिणिण-चत्तारिपदा संखेज्जा । कम्मइयकायजोगीणं तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केत्तिया ? अणंता । ओरालिय-परिसादणकदी संखेज्जा ।

इत्थिवेदाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एवं पुरिसवेदाणं । णवरि आहारतिणिणपदा संखेज्जा । णउंसयवेदाणं तिरिक्खभंगो । अवगदवेदेसु चत्तारिपदा संखेज्जा । एवमकसाइ-केवलणाणि-केवलदंसणि-जहाक्खादसुद्धिसंजदाणं वत्तव्वं । चत्तारिकसायाणं कायजोगिभंगो ।

शातन व संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यात हैं । काययोगियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि इनमें तैजस व कर्मण शरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । [औदारिककाययोगियोंमें] औदारिकशरीरकी [संघातन व] संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इनमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति व वैक्रियिकशरीरके तीनों पद युक्त जीव असंख्यात हैं । आहारकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यात हैं । औदारिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है । वैक्रियिककाययोगियोंमें दोनों पद युक्त जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके कहना चाहिये । विशेषता इतनी है कि इनके संघातनकृति होती है । आहारकाययोगी और आहारमिश्रकाययोगियोंमें तीन व चार पद युक्त जीव संख्यात हैं । कर्मणकाययोगियोंमें तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इनमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यात हैं ।

स्त्रीवेदियोंके द्रव्यप्रमाणकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच्चोंके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदियोंकी प्ररूपणा है । विशेषता इतनी है कि आहारकशरीरके तीनों पद युक्त जीव संख्यात हैं । नपुंसकवेदियोंकी प्ररूपणा तिर्यच्चोंके समान है । अपगतवेदियोंमें चार पद युक्त जीव संख्यात हैं ।

इसी प्रकार अकषायी, केवलज्ञानी, केवलदर्शनी और यथाख्यातशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

चार कषाय युक्त जीवोंकी प्ररूपणा काययोगियोंके समान है । मति और

मदि-सुदअण्णाणीणं तिरिक्खभंगो । विभंगणाणीणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि ओरालिय-
संघादणकदी णत्थि । आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु ओरालियसंघादणकदी आहारतिण्णि-
पदा संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा^१ । मणपज्जवणाणीसु अप्पणो पदा संखेज्जा ।

संजदेसु ओरालियसंघादणकदी णत्थि । सेसपदा संखेज्जा । परिहारसुद्धिसंजद-
सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु दोपदा संखेज्जा । संजदासंजदाणं विभंगभंगो । असंजदाणं
तिरिक्खभंगो । चक्खुदंसणीणं पुरिसवेदभंगो । अचक्खुदंसणीणं कोधभंगो । ओधिदंसणीणं
ओहिणाणिभंगो । किण्ण-णील-काउलेस्सियाणं तिरिक्खभंगो । तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सियाणं
ओहिणाणिभंगो । भवसिद्धियाणं ओघं । अभवसिद्धियाणं असंजदभंगो । सम्मादिट्ठि-खइय-
सम्मादिट्ठीणं ओहिणाणिभंगो । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी अत्थि । वेदंगसम्मादिट्ठीणं
ओहिभंगो । उवसमसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छादिट्ठीणं विभंगणाणिभंगो । सासणसम्मादिट्ठीणं

धृत अज्ञानियोंकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । विभंगज्ञानियोंकी प्ररूपणा
पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके समान है । विशेष इतना है कि उनके औदारिक-
शरीरकी संघातनकृति नहीं होती । आभिनिबोधकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और
अवधिज्ञानियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति और आहारकशरीरके तीनों पद युक्त
जीव संख्यात हैं । शेष पद युक्त जीव असंख्यात हैं । मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपने अपने पद
युक्त जीव संख्यात हैं ।

संयत जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति नहीं होती । शेष पद युक्त जीव
संख्यात हैं । परिहारशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत जीवोंमें दो पद युक्त जीव
संख्यात हैं । संयतासंयतोंकी प्ररूपणा विभंगज्ञानियोंके समान है । असंयतोंकी प्ररूपणा
तिर्यंचोंके समान है । चक्षुदर्शनियोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । अचक्षु-
दर्शनियोंकी प्ररूपणा क्रोधकपायी जीवोंके समान है । अवधिदर्शनियोंकी प्ररूपणा अवधि-
ज्ञानियोंके समान है । कृष्ण, नील व कापोत लेश्यावाले जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके
समान है । तेज, पद्म व शुक्ल लेश्यावाले जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ।
भव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । अभव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा
असंयत जीवोंके समान है ।

सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ।
विशेष इतना है कि उनके तैजस और कर्मण शरीरकी परिशातनकृति होती है । वेदक-
सम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्य-
गिमथ्यादाष्टि जीवोंकी प्ररूपणा विभंगज्ञानियोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी

पंचिदियतिरिक्खभंगो । मिच्छाइडीणं असंजदभंगो । सण्णीणं पुरिसवेदभंगो । असण्णीणं तिरिक्खभंगो । आहारएसु ओवं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । अणाहारएसु ओरालिय-तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी संखेज्जा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी अणंता । एवं दव्वपमाणाणुगमो समत्तो ।

खेत्ताणुगमेण दुविहो णिद्दसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण ओरालियसंघादण-संघादणपरिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केवडिखेत्ते ? सव्वलोए । ओरालियपरिसादणकदी केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु भागेसु सव्वलोगे वा । वेउव्विय-आहारतिणिणपदा केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एवं तेजा-कम्मइय-परिसादणकदी ।

णिरयगदीए णेरइएसु वेउव्वियसंघादण-संघादणपरिसादणकदी तेजा-कम्मइय-

प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । मिथ्यादृष्टियोंकी प्ररूपणा असंयतोंके समान है । संज्ञी जीवोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । असंज्ञी जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । आहारक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनके तैजस व कार्मण शरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । अनाहारक जीवोंमें औदारिक, तैजस व कार्मण शरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यात हैं । तैजस और कार्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव अनन्त हैं । इस प्रकार द्रव्यप्रमाणानुगम समाप्त हुआ ।

क्षेत्रानुगमसे ओघ और आदेशकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है । उनमें ओघकी अपेक्षा औदारिकशरीरकी संघातन व संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कार्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? उक्त जीव सब लोकमें रहते हैं । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें, असंख्यात बहुभागोंमें अथवा सर्व लोकमें रहते हैं । वैक्रियिक-शरीर और आहारकशरीरके तीनों पद युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ।

इसी प्रकार तैजसशरीर और कार्मणशरीरकी परिशातनकृतिवाले जीवोंका कथन करना चाहिये ।

नरकगतिमें नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति और संघातन-परि-

संघादण-परिसादणकदी केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एवं सत्तसु पुढवीसु सब्ब-देवेषु च । तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु ओरालियसंघादण-संघादणपरिसादणकदी तेजा-कम्म-इयसंघादण-परिसादणकदी केवडिखेत्ते ? सच्चलोगे । ओरालियपरिसादणकदी वेउव्वियतिणिण-पदा केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे ।

पंचिदियतिरिक्खतिगस्स ओरालिय-वेउव्वियतिणिणपदा तेजा-कम्मइयसंघादण-परि-सादणकदी केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तेसु ओरालिय-संघादणकदी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखे-ज्जदिभागे ।

मणुसतिगेषु ओरालियपरिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी ओघो । सेसपदा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । णवरि मणुसिणीसु आहारपदं णत्थि । मणुसअपज्जत्ताणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

शातनकृतिवाले जीव तथा तैजस और कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें और सब देवोंमें जानना चाहिये ।

तिर्यचगतिमें तिर्यचोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति और संघातन-परिशातन-कृतिवाले जीव तथा तैजसशरीरकी और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सब लोकमें रहते हैं । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति-वाले और वैक्रियिकशरीरके तीन पदवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच आदि तीनके औदारिक और वैक्रियिक शरीरके तीन पद तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? उक्त जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंमें औदारिक-शरीरकी संघातनकृति तथा औदारिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ।

मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । शेष पद युक्त जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । विशेष इतना है कि मनुष्यनियोंमें आहारक पद नहीं होता । मनुष्य अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है ।

एइंदियाणं-तिरिक्खभंगो । वादरेइंदियाणं तेसिं पज्जत्ताणमोरालियसंघादणकदी लोगस्स संखेज्जदिभागे । सेसपदाणं तिरिक्खभंगो । एवं वादरेइंदियअपज्जत्ताणं । णवरि वेउव्वियपंदं णत्थि । सुहुमेइंदियाणं तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं च ओरालियसंघादणकदी ओरालिय-तेजा-कम्मइय-संघादण-परिसादणकदी केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्ताणं पंचिंदिय-तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचिंदियदुगस्स मणुसभंगो ।

पुढवीकाइय-आउकाइय-सुहुमपुढवीकाइय-सुहुमआउकाय-सुहुमतेउकाइय-सुहुमवाउ-काइय-वणप्फदि-णिगोद-सुहुमवणप्फदि-सुहुमणिगोदाणं तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं सुहुमेइंदियभंगो । वादरपुढवीकाइय-वादरआउकाइयाणं तेसिमपज्जत्ताणं वादरतेउकाइयअपज्जत्ताणं वादरवणप्फदि-वादरणिगोदाणं तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं पत्तेयसरीर-तदपज्जत्ताणं च ओरालियसंघादणकदी केवडि-खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सेसपदा सव्वलोगे । वादरपुढवीकाइय-वादरआउकाइय-वादर-वणप्फदिपत्तेगसरीरपज्जत्त-तसकाइयअपज्जत्ताणं पंचिंदियअपज्जत्तभंगो । तेउ-वाउकाइयाणं तिरिक्खभंगो । वादरतेउकाइएसु ओरालियसंघादणकदी परिसादणकदी वेउव्वियतिणिणपदा

एकेन्द्रिय जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यच्चोंके समान है । वादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव लोकके संख्यातवें भागमें रहते हैं । शेष पदोंकी प्ररूपणा तिर्यच्चोंके समान है । इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि उनके वैक्रियिक पद नहीं होता । सूक्ष्म एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति और औदारिक, तेजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सब लोकमें रहते हैं । सब विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है । पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंकी प्ररूपणा मनुष्योंके समान है ।

पृथिवीकायिक, जलकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म तेजकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक और सूक्ष्म निगोद जीव तथा उनके पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके समान है । वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक व उनके अपर्याप्त, वादर तेजकायिक अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक, वादर निगोद व उनके पर्याप्त अपर्याप्त तथा प्रत्येकशरीर व उनके अपर्याप्त जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? उक्त जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । शेष पदोंसे युक्त ये सब जीव सब लोकमें रहते हैं । वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर वनस्पतिकायिक व प्रत्येकशरीर पर्याप्त तथा त्रसकायिक अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान है । तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यच्चोंके समान है । वादर तेजकायिक जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति व परिशातनकृति तथा

केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सेसपदा सन्वलोगे । बादरत्तेउकाइयपज्जत्ता पंचिदिय-
तिरिक्खभंगो । बादरवाउकाइया बादरेइंदियभंगो । बादरवाउकाइयपज्जत्ताणमोरालियसंघादणकदी
संघादण-परिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी लोगस्स संखेज्जदिभागे । सेस-
पदा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । बादरवाउकाइयअपज्जत्ताणं बादरेइंदियअपज्जत्तभंगो । तस-
दुगस्स पंचिदियभंगो ।

पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु ओरालिय-वेउव्विय-आहारपरिसादणकदी ओरालिय-
वेउव्विय-आहार-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदि-
भागे । कायजोगीसु ओघो । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । ओरालियकाय-
जोगीसु ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी केवडिखेत्ते ? सन्वलोगे । वेउव्विय-
तिण्णिपदा ओरालिय-आहारपरिसादणकदी केवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे ।
ओरालियमिस्सकायजोगीणं सुहुमेइंदियभंगो । वेउव्वियकायजोगीसु अप्पणो दोपदा

वैक्रियिकशरीरके तीनों पद युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें
रहते हैं । शेष पद युक्त ये जीव सब लोकमें रहते हैं । बादर तेजकायिक पर्याप्त जीवोंकी
प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । बादर वायुकायिक जीवोंकी प्ररूपणा बादर एके-
न्द्रियोंके समान है । बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति
व संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त
जीव लोकके संख्यातवें भागमें रहते हैं । शेष पदोंसे युक्त वे ही जीव लोकके असंख्यातवें
भागमें रहते हैं । बादर वायुकायिक अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके
समान है । त्रस व त्रस पर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय जीवोंके समान है ।

पांच मनयोगी और पांच वचनयोगी जीवोंमें औदारिक, वैक्रियिक व आहारक-
शरीरकी परिशातनकृति तथा औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस व कर्मणशरीरकी
संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? उक्त जीव लोकके असंख्यातवें
भागमें रहते हैं । काययोगी जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि
इनमें तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । औदारिककाययोगी जीवोंमें
औदारिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव कितने क्षेत्रमें
रहते हैं ? उक्त जीव सब लोकमें रहते हैं । औदारिककाययोगियोंमें वैक्रियिकशरीरके
तीनों पद तथा औदारिक व आहारकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते
हैं ? उक्त जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । औदारिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा
सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है । वैक्रियिककाययोगियोंमें अपने दो पद युक्त जीव लोकके

लोगस्स असंखेज्जदिभागे । वेउच्चियमिस्सकायजोगीणं देवभंगो । आहार-आहारमिस्स-
ति-चत्तारिपदा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । कम्मइयकायजोगीसु ओरालियपरिसादणकदी केवल्लि-
भंगो । तेजा-कम्मइय-संघादणपरिसादणकदी सच्चलोगे ।

इत्थिवेदस्स पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवं पुरिसवेदस्स । णवरि अत्थि आहारतिणिण-
पदा । णउंसयवेदस्स तिरिक्खभंगो । अवगदवेदेषु ओरालियपरिसादणकदी तेजा-कम्मइय-
संघादण-परिसादणकदी लोगस्स असंखेज्जदिभागे असंखेज्जेषु वा भागेषु सच्चलोगे वा । ओरालिय-
संघादण-परिसादणकदी तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एवमकसाय-
केवल्लणाण-केवल्लदंसण-जहाक्खादाणं । चदुक्कसायाणं कायजोगिभंगो । णवरि ओरालियपरिसादण-
लोगस्स असंखेज्जदिभागे ।

मदि-सुदअण्णाणीणं तिरिक्खभंगो । एवमसंजद-किण्णं-णील-काउलेस्सिय-अभवसिद्धिय-

असंख्यातवै भागमें रहते हैं । वैकियिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा देवोंके समान है ।
आहारकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति और आहारक, तैजस व कर्मण-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृति, इस प्रकार तीन पद; तथा आहारकमिश्रकाययोगियोंमें
इन तीन पदोंके साथ आहारकशरीरकी संघातनकृति, इस प्रकार चार पद युक्त जीव
असंख्यातवै भागमें रहते हैं । कर्मणकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त
जीवोंकी प्ररूपणा केवली जीवोंके समान है । इनमें तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-
परिशातनकृति युक्त जीव सब लोकमें रहते हैं ।

स्त्रीवेदियोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदियोंके
भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि इनके आहारकशरीरके तीनों पद होते हैं ।
नपुंसकवेदियोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । अपगतवेदियोंमें औदारिकशरीरकी
परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव लोकके
असंख्यातवै भागमें, असंख्यात बहुभागोंमें अथवा सर्व लोकमें रहते हैं । उक्त जीवोंमें
औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृति
युक्त जीव लोकके असंख्यातवै भागमें रहते हैं । इसी प्रकार अकपायी, केवलज्ञानी,
केवलदर्शनी और यथाख्यातशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये । चार कपाय युक्त जीवोंकी
प्ररूपणा काययोगियोंके समान है । विशेष इतना है कि उनमें औदारिकशरीरकी
परिशातनकृति युक्त जीव लोकके असंख्यातवै भागमें रहते हैं ।

मति और श्रुत अज्ञानी जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । इसी प्रकार
असंयत, कृष्ण, नील व कापोतलेश्याचाले, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी

मिच्छाद्वि-असणीणं वत्तव्वं । विभंगणाणीणमित्थिवेदभंगो । णवरि ओरालियसंघादणं णत्थि । एवं मणपज्जवणाणि-संजदासंजदाणं । आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीणं पुरिसवेदभंगो । संजदाणं मणुसभंगो । णवरि ओरालियसंघादणं णत्थि । सामाइय-छेदोवट्ठावणसुद्धिसंजदाणं पुरिसवेदभंगो । णवरि ओरालियसंघादणं णत्थि । परिहार-सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु अप्पण्णो दोपदा लोगस्स असंखेज्जदिभागे । चक्खुदंसणीणं आभिणिबोहियभंगो । एवं तेउ-पम्मलेस्सिय-वेदगसम्मा-दिट्ठि-सणीणं वत्तव्वं । एवं ओहिदंसणीणं । अचक्खुदंसणीणं कायजोगिभंगो । णवरि ओरालियपरिसादणं लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सुक्कलेस्सिएसु मणुसभंगो । णवरि तेजा-कम्मइय-परिसादणं णत्थि । भवसिद्धियाणं ओघो । सम्मादिट्ठि-खइयसम्मादिट्ठिणं मणुसभंगो । उवसमसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छादिट्ठिणं विभंगभंगो । सासणसम्मादिट्ठिणं पंचिदियतिरिक्ख-भंगो । आहारएसु कायजोगिभंगो । णवरि ओरालियपरिसादणं लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अणा-

जीवोंके कहना चाहिये । विभंगज्ञानियोंकी प्ररूपणा स्त्रीविदियोंके समान है । विशेष इतना है कि उनके औदारिकशरीरकी संघातनकृति नहीं होती । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये । आभिनिबोधिक, श्रुत और अवधिज्ञानियोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । संयत जीवोंकी प्ररूपणा मनुष्योंके समान है । विशेष इतना है कि उनके औदारिकशरीरकी संघातनकृति नहीं होती । सामायिक व छेदोप-स्थापनाशुद्धिसंयतोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । विशेष इतना है कि उनके औदारिकशरीरकी संघातनकृति नहीं होती । परिहारशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिक-शुद्धिसंयत जीवोंमें अपने अपने दो पद युक्त जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ।

चक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा आभिनिबोधिकज्ञानियोंके समान है । इसी प्रकार तेज व पद्म लेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । इसी प्रकार अवधिदर्शनी जीवोंके कहना चाहिये । अचक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा काययोगियोंके समान है । विशेष इतना है कि इनमें औदारिक-शरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । शुक्ललेश्यावाले जीवोंकी प्ररूपणा मनुष्योंके समान है । विशेष इतना है कि उनके तेजस और कामेण शरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । भव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा मनुष्योंके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा विभंगज्ञानियोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । आहारक जीवोंकी प्ररूपणा काय-योगियोंके समान है । विशेष इतना है कि इनमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । अनाहारक जीवोंमें औदारिकशरीरकी

हाराणं ओरालियपरिसादणकदीए केवलिंगो । तेजा-कम्मइयपरिसादणं लोगस्स असंखेज्जदि-
भागे । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी सव्वलोगे । एवं खेत्ताणुगमो समत्तो ।

पोसणाणुगमेण दुविहो णिद्दसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण ओरालियसंघादण-
संघादणपरिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्व-
लोगो । ओरालियपरिसादणकदीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो
असंखेज्जा वा भागा सव्वलोगो वा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीहि केवडियं खेत्तं
फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । वेउव्वियसंघादणपरिसादणकदीहि
केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठ-चोद्दसभागा वा देसूणा सव्वलोगो
वा । आहारतिण्णिपदा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स
असंखेज्जदिभागो ।

आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु वेउव्वियसंघादणकदीए खेत्तभंगो । वेउव्विय-तेजा-
कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीहि लोगस्स असंखेज्जदिभागो छचोद्दसभागा वा देसूणा ।

परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है । इनमें तैजस व कर्मण
शरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं । तैजस व कर्मण
शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव सर्व लोकमें रहते हैं । इस प्रकार क्षेत्रानुगम
समाप्त हुआ ।

स्पर्शानुगमसे ओघ और आदेशकी अपेक्षा दो प्रकार निर्देश है । उनमें ओघसे
औदारिकशरीरकी संघातनकृति व संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मण
शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ?
उक्त जीवों द्वारा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त
जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? उक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां
भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । वैक्रियिकशरीरकी
संघातन व परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? उक्त जीवों
द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । वैक्रियिकशरीरकी
संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? उक्त जीवों द्वारा
लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम आठ बटे चौदह भाग, अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया
है । आहारकशरीरके तीनों पद युक्त जीवों द्वारा तथा तैजस व कर्मण शरीरकी परिशातन-
कृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श
किया गया है ।

आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त
जीवोंकी स्पर्शनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । वैक्रियिक, तैजस व कर्मणशरीरकी
संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम छह बटे

पढमपुढवीए खेत्तमंगो । बिदियादि जाव सत्तमाए पुढवीए वेउव्वियसंघादणकदीए खेत्तमंगो । वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे-ज्जदिभागो एकक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोदसभागा वा देसूणा ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु ओरालियसंघादणकदीए ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए खेत्तमंगो । ओरालियपरिसादणकदी वेउव्वियतिण्णिपदा लोगस्स असंखे-ज्जदिभागो सव्वलोगो वा । पंचिंदियतिरिक्खएसु ओरालियसंघादणकदीहि लोगस्स असंखेज्जदि-भागो । सेसपदेहि लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । एवं पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीणं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ताणं एवं चेव । णवरि वेउव्वियतिण्णिपदा ओरालिय-परिसादणं च णत्थि ।

मणुसतियस्स ओरालियसंघादणकदीए आहारतिण्णिपदेहि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदीए च केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । ओरालियपरिसादणकदीए तेजा-

चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । प्रथम पृथिवीमें स्पर्शनकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है । द्वितीय पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है । उक्त पृथिवियोंमें वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? उक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम एक, दो, तीन, चार, पांच और छह बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं ।

तिर्यंचगतिमें तिर्यंचोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति तथा औदारिक, तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रके समान है । तिर्यंचोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरके तीनों पद युक्त जीवोंने लोकका असंख्यातवां भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया है । पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें औदा-रिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीवोंने लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है । शेष पद युक्त जीवोंने लोकका असंख्यातवां भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और योनिमत् तिर्यंचोंके कहना चाहिये । पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा भी इसी प्रकार ही है । विशेषता केवल इतनी है कि उनके वैक्रियिकशरीरके तीनों पद और औदारिकशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती ।

मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति, आहारकशरीरके तीनों पद तथा तैजस व कार्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? उक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया गया है । इनमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा तैजस व कार्मणशरीरकी संघा-

कम्मइयंसंघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जा वा भागा सव्वलोगो वा । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए वेउव्वियतिणिणपदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । णवरि मणुसिणीसु आहारपदं णत्थि । मणुसअपज्जत्ताणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

देवगदीए देवेषु वेउव्वियसंघादणकदीए णारगभंगो । संघादण-परिसादणकदीए तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठ-णवचोदसभागा वा देसूणा । भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियाणं वेउव्वियसंघादणकदीए देवभंगो । वेउव्विय-तेजा-कम्म-इयसंघादण-परिसादणकदीए केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठ-अट्ठ-णवचोदसभागा वा देसूणा । सोहम्मीसाणदेवाणं देवभंगो । सणक्कुमारादि जाव सहस्सार-देवाणं वेउव्वियसंघादणकदीए देवभंगो । वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठचोदसभागा वा देसूणा । आणदादि जाव अच्चुदा त्ति वेउव्विय-संघादणकदीए देवभंगो । वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखे-

तन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा वैक्रियिक-शरीरके तीनों पद युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? लोकका असंख्यातवां भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । विशेष इतना है कि मनुष्यनियोंमें आहार पद नहीं होता । मनुष्य अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान है ।

देवगतिमें देवोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है । देवोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम आठ और नौ वटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा देवोंके समान है । इनमें वैक्रियिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? उक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । सौधर्म व ईशान कल्पके देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है । सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातन-कृति युक्त देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है । इनमें वैक्रियिक, तैजस व कर्मण-शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम आठ वटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । आनत कल्पसे लेकर अच्युत कल्प तक वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है । इनमें वैक्रियिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा

ज्जदिभागो छचोइसभागा वा देसूणा । णवगेवज्जादि सव्वट्ठा त्ति खेत्तभंगो ।

एइंदियाणं तिरिक्खभंगो । बादरेइंदियाणं तेसिं पज्जत्ताणं ओरालियसंघादणकदीए लोगस्स संखेज्जदिभागो । सेसपदाणं तिरिक्खभंगो । बादरेइंदियअपज्जत्ताणं सव्वसुहुमाणं खेत्तभंगो । सव्वविगलंदिय-पंचिंदियअपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचिंदिय-दुगंस्स ओरालियसंघादणकदी आहारतिण्णिपदा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी खेत्तभंगो । ओरालियपरिसादणकदीए केवलभंगो । ओरालियसंघादणपरिसादणकदी वेउव्वियसंघादणकदी परिसादणकदी लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठचोइसभागा [वा देसूणा] सव्वलोगो वा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठचोइसभागा [वा देसूणा] असंखेज्जा भागा सव्वलोगो वा ।

पुढवीकाइय-आउकाइय-[सव्वसुहुम-] पुढवीकाइय-सव्वसुहुमआउकाय-सव्वसुहुम-

लोकका असंख्यातवां भाग अथवा कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । नौ ग्रैवेयकोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमान तकके देवोंकी स्पर्शनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है ।

एकेन्द्रिय जीवोंकी स्पर्शनप्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीवोंने लोकका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है । शेष पद युक्त जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त और सब सूक्ष्म जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । सब विकलेन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीवोंके समान है । पंचेन्द्रिय व पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति, आहारशरीरके तीनों पद युक्त जीव तथा तैजस व कार्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति व परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग, [कुछ कम] आठ बटे चौदह भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । तैजस व कार्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग, [कुछ कम] आठ बटे चौदह भाग, असंख्यात बहुभाग, अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है ।

पृथिवीकायिक, जलकायिक, [सर्व सूक्ष्म] पृथिवीकायिक, सर्व सूक्ष्म जलकायिक,

तेउकाइय-सव्वसुहुमवाउकाइय-सव्वसुहुमवणप्फदिकाइय-णिगोद-सुहुमवणप्फदि-सुहुमणिगो-
दाणं तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं वादरपुढवीकाइय-वादरआउकाइयाणं तेसिमपज्जत्ताणं वादर-
वणप्फदि-वादरणिगोदाणं तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं वादरवणप्फदिपत्तेयसरीराणं तेसिमपज्जत्ताणं
खेत्तभंगो । वादरपुढवीकाइय-वादरआउकाइय-वादरवणप्फदिपत्तेयसरीरपज्जत्ताणं पंचिंदियअप-
ज्जत्तभंगो । तेउकाइय-वाउकाइयाणं एइंदियभंगो । वादरतेउकाइयाणं ओरालियसंघादणकदीए
खेत्तभंगो । सेसपदाणं तिरिक्खभंगो । वादरतेउकाइयपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो ।
वादरवाउकाइयाणं वादरएइंदियभंगो । वादरवाउकाइयपज्जत्ताणं ओरालियसंघादणकदीए
लोगस्स संखेज्जदिभागो । ओरालियपरिसादणकदीए वेउद्वियतिणिपदाणं तिरिक्खभंगो ।
ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखेज्जदि-
भागो संव्वलोगो वा । वादरवाउकाइयअपज्जत्ताणं वादरेइंदियअपज्जत्तभंगो । तसकाइय-
तिणिपदाणं पंचिंदियतिगभंगो ।

पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीणं ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखे-

सर्व सूक्ष्म तेजकायिक, सर्व सूक्ष्म वायुकायिक, सर्व सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, निगोद
जीव, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म निगोद जीव, उनके पर्याप्त-अपर्याप्त,
वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, उनके अपर्याप्त, वादर वनस्पति,
वादर निगोद, उनके पर्याप्त व अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक-
शरीर तथा उनके अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । वादर
पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक व वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंकी
प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है । तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंकी प्ररूपणा
एकेन्द्रियोंके समान है । वादर तेजकायिक जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त
जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । शेष पदोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है ।
वादर तेजकायिक पर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । वादर वायु-
कायिक जीवोंकी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रिय जीवोंके समान है । वादर वायुकायिक पर्याप्त
जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका संख्यातवां भाग स्पर्श
किया गया है । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरके तीनों पद युक्त
जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा
तेजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां
भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । वादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा
वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान है । तीन त्रसकायिक जीवोंमें तीनों पदोंकी प्ररूपणा
तीनों पंचेन्द्रियोंके समान है ।

पांच मनयौगी और पांच वचनयौगी जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातन-

ज्जदिभागो सव्वलोगो वा । एवं वेउव्वियपरिसादणकदीए वि । वेउव्विय-तेजा-कम्मइय-संघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ठचोदसभागा देसूणा सव्वलोगो वा । आहारदोण्णिपदाणं खेत्तभंगो । कायजोगीणमोघो । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणं णत्थि । ओरालियकायजोगीसु ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए सव्वलोगो । ओरालिय-परिसादणकदीए वेउव्वियतिण्णिपदाणं तिक्खिखभंगो । आहारपरिसादणकदीए खेत्तभंगो । ओरा-लियमिस्सकायजोगीसु अप्पणो तिण्णिपदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । वेउव्विय-कायजोगीसु अप्पणो पदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? अट्ठ-तेरह-चोदसभागा वा देसूणा । वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं खेत्तभंगो । आहारदुग्गस्स खेत्तभंगो । कम्मइयकायजोगीणं ओरालियपरिसादणकदीए केवल्लिभंगो । तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदीए केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो ।

इत्थिवेदस्स ओरालियसंघादणकदीए खेत्तभंगो । परिसादण संघादणपरिसादणकदीहि

परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । इसी प्रकार वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिये । वैक्रियिक, तैजस व कर्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम आठ बटे चौदह भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । आहारकशरीरके दो पद युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है ।

काययोगियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि इनके तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । औदारिककाययोगियोंमें औदारिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरके तीनों पद युक्त जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । आहारकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्र-प्ररूपणाके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें अपने तीनों पद युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? उक्त जीवों द्वारा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । वैक्रियिक-काययोगियोंमें अपने पदों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? उक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ व तेरह बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा क्षेत्र-प्ररूपणाके समान है । आहारक और आहारमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । कर्मणकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है । इनमें तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? उक्त जीवों द्वारा सर्व लोक स्पर्श किया गया है ।

स्त्रीवेदियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । उक्त जीवोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति व संघातन-

वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीए लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए अट्ठचोदसभागा वा देसूणा सव्वलोगो वा । एवं पुरिसवेदस्स । णवरि आहारतिण्णिपदा अत्थि । णवुंसयवेदस्स तिरिक्खभंगो । अवगदवेदा ओरालियपरिसादण-कदीए तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए केवलभंगो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए तेजा-कम्मइयपरिसादणकदीए खेत्तभंगो । एवमकसाय-केवलणाणि-जहाक्खादसुद्धिसंजद-केवलदंसणि ति वत्तव्वं । चत्तारिकसायाणं कायजोगिभंगो । णवरि केवलभंगो णत्थि ।

मदि-सुदअण्णाणीणमप्पणो पदानमोघो । णवरि ओरालियपरिसादणकदीए तिरिक्ख-भंगो । विभंगणाणीसु ओरालियपरिसादण-संघादणपरिसादणकदीणं वेउव्वियपरिसादणकदीए पंचिंदियतिरिक्खभंगो । वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए अट्ठचोदसभागा देसूणा सव्वलोगो वा । आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु ओरालियसंघादण-आहारतिण्णि-पदानं खेत्तं । ओरालियपरिसादण-संघादणपरिसादणकदीहि वेउव्वियसंघादणकदि-परिसादण-

परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन व परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । वैक्रियिक, तैजस और कर्मण-शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि इनके आहारकशरीरके तीन पद होते हैं । नपुंसकवेदी जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है । इनमें औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मण शरीरकी परि-शातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । इसी प्रकार अकषाय, केवलज्ञानी, यथाख्यातशुद्धिसंयत और केवलदर्शनी जीवोंके कहना चाहिये । चार कषाय युक्त जीवोंकी प्ररूपणा काययोगियोंके समान है । विशेष इतना है कि उनके केवलभंग नहीं होता ।

मति और श्रुत अज्ञानी जीवोंके अपने अपने पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि इनके औदारिकशरीरकी परिशातनकृतिकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । विभंगज्ञानियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । वैक्रियिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग अथवा सर्व लोक स्पर्श किया गया है । आभिनिबोधिक, श्रुत व अवधि-ज्ञानी जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति तथा आहारकशरीरके तीनों पद युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्र प्ररूपणाके समान है । इनमें औदारिकशरीरकी परिशातन व संघा-तन-परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन व परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा

कदीहि छचोइसभागा देसूणा । वेउब्बिय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए अट्ठचोइस-
भागा वा देसूणा । मणपज्जवणाणीसु अप्पणो सच्चपदाणं खेत्तं । संजदेसु ओरालियपरिसादणकदीए
तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए केवलभंगो । सेसपदा खेत्तं । सामाइयछेदोवट्ठावणसुद्धि-
संजद-परिहारसुद्धिसंजद-सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु अप्पणो पदा खेत्तं । संजदासंजदा
अप्पणो पदाणं मणपज्जवभंगो । असंजदाणं मदि-अण्णाणिभंगो । चक्खुदंसणीणं पुरिसवेद-
भंगो । अचक्खुदंसणीणं कोहभंगो । ओहिदंसणीणं ओहिणाणिभंगो ।

किण्ण-णील-काउलेस्सिएसु ओरालियसंघादण-संघादणपरिसादणकदीए तेजा-कम्मइय-
संघादणपरिसादणकदीए सच्चलोगो । ओरालियपरिसादणकदीए वेउब्बियतिणिपदाणं तिरिक्ख-
भंगो । तेउलेस्सिएसु ओरालियसंघादणकदी आहारतिणिपदा खेत्तं । ओरालियपरिसादण-संघादण-

कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । वैक्रियिक, तैजस व कार्मणशरीरकी
संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये
हैं । मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपने सब पदोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है ।

संयत जीवोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा तैजस व कार्मणशरीरकी
संघादण-परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है । शेष पदोंकी प्ररू-
पणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । सामाधिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिहारशुद्धिसंयत
और सूक्ष्मसाम्पराधिकशुद्धिसंयत जीवोंमें अपने अपने पदोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके
समान है । संयतासंयत जीवोंमें अपने अपने पदोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान
है । असंयत जीवोंकी प्ररूपणा मतिअज्ञानियोंके समान है ।

चक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । अचक्षुदर्शनी जीवोंकी
प्ररूपणा क्रोधकपायी जीवोंके समान है । अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानी
जीवोंके समान है ।

कृष्ण, नील व कापोत लेश्यावाले जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातन व संघा-
तन-परिशातनकृति तथा तैजस व कार्मणशरीरकी संघातनपरिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा
सर्व लोक स्पर्श किया गया है । इनमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति व वैक्रियिक-
शरीरके तीनों पद युक्त जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । तेज लेश्यावाले जीवोंमें
औदारिकशरीरकी संघातनकृति तथा आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररू-
पणाके समान है । औदारिकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों

१ प्रतिपु 'मणभंगो' इति पाठः ।

२ अप्रतौ 'तिरि० वेउब्बिय०', आप्रतौ 'तिरि० वेउ०', काप्रतौ 'तिरिक्ख० वेउब्बिय०'
इति पाठः ।

परिसादणकदीहि वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? दिवङ्कुचोद्दस-
भागा देसूणा । वेउव्वियसंघादणपरिसादणकदीए तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए
अट्ठ-णवचोद्दसभागा देसूणा । पम्मलेस्साए ओरालियसंघादणकदी आहारतिगं खेत्तं । ओरालिय-
दोपद-वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? पंचचोद्दसभागा देसूणा ।
वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीए तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए अट्ठचोद्दसभागा
देसूणा । सुक्कलेस्साए ओरालियसंघादणकदी आहारतिगं खेत्तं । ओरालियपरिसादणकदी ओघो ।
ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए वेउव्वियतिणिणपदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? छचोद्दस-
भागा देसूणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए छचोद्दसभागा देसूणा केवलिभंगो वा ।

भवसिद्धिया ओघं । अभवसिद्धियाणमसंजदभंगो । सम्मादिट्ठीसु ओरालियसंघादण-

द्वारा तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन व परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र
स्पर्श किया गया है ? कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भाग स्पर्श किया गया है । वैक्रियिक-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिवाले तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-
कृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ व कुछ कम नौ बटे चौदह भाग स्पर्श किया गया है ।
पद्मलेख्यावाले जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति तथा आहारकशरीरके तीनों पदोंकी
प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । इनमें औदारिकशरीरके दो पद व वैक्रियिकशरीरकी
संघातन व परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया है ? कुछ कम पांच
बटे चौदह भाग स्पर्श किया गया है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस
व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग
स्पर्श किये गये हैं । शुक्ललेख्यावाले जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति तथा आहा-
रकशरीरके तीनों पद युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । औदारिकशरीरकी
परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परि-
शातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरके तीनों पद युक्त जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पर्श किया गया
है ? उक्त जीवों द्वारा कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । तैजस व कर्मण-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श
किये गये हैं । अथवा इनकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है ।

भव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । अभव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररू-
पणा असंयत जीवोंके समान है । सम्यग्दृष्टियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति, आहारक-

कदी आहारतिणिपदा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी खेत्तभंगो । ओरालियपरिसादणकदी ओघो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीणं छचोद्दसभागा देसूणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीए अट्टचोद्दसभागा देसूणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए अट्टचोद्दसभागा देसूणा केवलभंगो वा । खइयसम्मादिट्ठीसु ओरालियसंघादण-संघादणपरिसादणकदी' वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदि-आहारतिणिपदा तेजा-कम्मइय-परिसादणकदीणं खेत्तभंगो । ओरालियपरिसादणकदी ओघो । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीए अट्टचोद्दसभागा देसूणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए अट्टचोद्दसभागा देसूणा केवलि-भंगो वा । वेदगसम्मादिट्ठीणं ओहिभंगो । उवसमसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छादिट्ठीसु ओरालिय-परिसादण-संघादणपरिसादणकदीणं वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीणं खेत्तं । वेउव्विय-तेजा-

शरीरके तीनों पद तथा तैजस व कार्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन व परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम छह बटे चौदह भाग क्षेत्र स्पर्श किया गया है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । अथवा इनकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है ।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिकशरीरकी संघातन व संघातन-परिशातनकृति, वैक्रियिकशरीरकी संघातन व परिशातनकृति, आहारकशरीरके तीनों पद तथा तैजस व कार्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । अथवा इनकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है ।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें औदारिकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन व परिशातनकृतिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

१ अ-आपत्यो: ' ओरालिय० संघा० संघादणकदी परि० ', काप्रतौ ' ओरालिय० संघादण० परि० ' इति पाठः ।

कम्मइयसंघादणपरिसादणकदीहि अट्टचोदसभागा देसूणा । सासणसम्मादिट्ठीसु ओरालिय-
संघादणकदीए खेत्तं । ओरालियदोण्णिपद-वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीहि सत्तचोदसभागा
देसूणा । वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीहि अट्ट-चारहचोदसभागा देसूणा ।
मिच्छाइट्ठीणं असंजदभंगो । असण्णीणं तिरिक्खभंगो । आहारा अचक्खुभंगो । अणाहाराणं
ओरालियपरिसादणकदीए केवलिभंगो । तेजा-कम्मइयदोपदाणमोवो । एवं पोसणाणुगमो समत्तो ।

कालाणुगमेण दुविहो णिद्देशो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण ओरालियसरीर-
संघादणकदी केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णु-
क्कस्सेण एगसमओ । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदी केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं
पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ओरालिय-
संघादण-परिसादणकदी केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि सगज्जणाणि । वेउव्वियसंघा-

वैक्रियिक, तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिवाले जीवों द्वारा
कुछ कम आठ बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । सासादनसम्य-
ग्दृष्टि जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीवोंकी प्ररूपणा
क्षेत्रप्ररूपणाके समान है । औदारिकशरीरके दो पद तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन व
परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम सात बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं ।
वैक्रियिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीवों द्वारा कुछ कम
आठ व कुछ कम बारह बटे चौदह भाग स्पर्श किये गये हैं । मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा
असंयतोंके समान है ।

असंक्षी जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । आहारक जीवोंकी प्ररूपणा
अचक्षुदर्शनी जीवोंके समान है । अनाहारक जीवोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति
युक्त जीवोंकी प्ररूपणा केवलियोंके समान है । तैजस और कर्मणशरीरके दोनों पदोंकी
प्ररूपणा ओघके समान है । इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ ।

कालानुगमसे ओघ और आदेशकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है । उनमेंसे ओघकी
अपेक्षा औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व
काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे एक समय काल है । औदारिक
और वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व
काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहुत्त काल है ।
औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व
काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय कम तीन
पल्योपम काल है ।

दणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वेसमया । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि समऊणाणि । आहारसंघादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण संखेज्जा समया । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । संघादण-परिसादणकदी णाणगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णाणगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो ।

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु वेउव्वियसंघादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं

वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे आधलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे दो समय काल है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय कम तेत्तीस सागरोपम काल है ।

आहारकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे संख्यात समय काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे एक समय काल है । आहारकशरीरकी परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है । आहारकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है ।

तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है । इनकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अपर्यवसित और अनादि-सपर्यवसित काल है ।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गानुसार नरकगतिमें नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे आधलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे एक समय काल है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल

पडुच्च जहण्णेण दसवाससहस्साणि तिसमज्जाणि, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सम-
ज्जाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च
जहण्णेण दसवाससहस्साणि, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । पढमाए पुढवीए वेउच्चिय-
संघादणकदी णारगभंगो । एवं सच्चपुढवीसु । वेउच्चियसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं
पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण दसवाससहस्साणि तिसमज्जाणि, उक्कस्सेण
सागरोवमं समज्जं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण णारगभंगो । उक्कस्सेण सागरोवमं ।

विदियादि जाव सत्तमि ति वेउच्चियसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च
सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीससागरोवमाणि दुसम-
ज्जाणि । उक्कस्सेण तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीस-तेत्तीससागरोवमाणि समज्जाणि । तेजा-

है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम दश हजार वर्ष और उत्कर्षसे एक
समय कम तेतीस सागरोपम काल है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका
नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे दश हजार वर्ष और
उत्कर्षसे तेतीस सागरोपम काल है ।

प्रथम पृथिवीमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिकी कालप्ररूपणा सामान्य
नारकियोंके समान है । इसी प्रकार सर्व पृथिवियोंमें समझना चाहिये । वैक्रियिकशरीरकी
संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा
जघन्यसे तीन समय कम दश हजार वर्ष और उत्कर्षसे एक समय कम एक सागरोपम
काल है । तैजस और कार्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा
सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कालकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है ।
उत्कृष्ट काल एक सागरोपम है ।

द्वितीय पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी
संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा
जघन्यसे क्रमशः दो समय कम एक सागर, दो समय कम तीन सागर, दो समय कम सात
सागर, दो समय कम दस सागर, दो समय कम सत्तरह सागर और दो समय कम बाईस
सागर काल है । उत्कर्षसे एक समय कम तीन सागर, एक समय कम सात सागर, एक
समय कम दस सागर, एक समय कम सत्तरह सागर, एक समय कम बाईस सागर और
एक समय कम तेतीस सागर काल है । तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-

कम्मइय-संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एक-
तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-चावीससागरोवमाणि समयाहियाणि । उक्कस्सेण तिण्णि-सत्त-दस-
सत्तारस-चावीस-तेत्तीससागरोवमाणि ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु ओरालियसंघादण-संघादणपरिसादणकदी ओरालिय-वेउ-
व्वियपरिसादणकदी ओघो । वेउव्वियसंघादणकदी णारगभंगो । संघादण-परिसादणकदी
णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।
तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
खुदाभवगहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोगगलपरियट्ठा । पंचिंदियतिरिक्खतिगाम्भि-
ओरालिय-वेउव्वियसंघादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण आव-
लियाए असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । ओरालियपरि-
सादणकदी वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी तिरिक्खभंगो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी
ओघो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एजजीवं पडुच्च जह-

कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्रमशः एक समय
अधिक एक सागर, एक समय अधिक तीन सागर, एक समय अधिक सात सागर, एक
समय अधिक दस सागर, एक समय अधिक सत्तरह सागर और एक समय अधिक बाईस
सागर काल है । उत्कर्षसे तीन, सात, दश, सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरोपम
काल है ।

तिर्यंचगतिमें तिर्यंचोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति व संघातन-परिशातनकृति
तथा औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिकी कालप्ररूपणा ओघके समान है ।
वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है । वैक्रियिकशरीरकी
संघातनपरिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा
जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परि-
शातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभव-
ग्रहण और उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण अनन्त काल है । पंचेन्द्रिय तिर्यंच
आदिक तीनमें औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे
एक समय और उत्कर्षसे आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल है । एक जीवकी
अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे एक समय काल है । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति और
वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । औदारिक-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । तैजस व कर्मणशरीरकी
संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा

ण्णेण खुदाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणव्वहियाणि । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तेसु ओरालियसंघादणकदी पंचिंदियतिरिक्खमंगो । संघादण-परि-सादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं तिसम-ऊणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं समऊणं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

मणुसगदीए मणुसेसु ओरालियतिण्णिपदा वेउव्वियपरिसादण-संघादणपरिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी पंचिंदियतिरिक्खमंगो । वेउव्विय-आहारसंघादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण संखेज्जा समया । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । आहार-तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी आहारसंघादण-परिसादणकदी ओघो । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ओरालिय-वेउव्विय-आहारसंघादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण संखेज्जा समया । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एग-समओ । सेसपदाणं मणुसमंगो । णवरि तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी जहण्णेण अंतो-

जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण व अन्तर्मुहूर्त काल है, तथा उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्य प्रमाण काल है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण काल तथा उत्कर्षसे एक समय कम अन्तर्मुहूर्त काल है । तैजस व कार्मण शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है ।

मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें औदारिकशरीरके तीनों पद, वैक्रियिकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी कालप्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके समान है । वैक्रियिक व आहारकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे संख्यात समय काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे एक समय काल है । आहारक, तैजस और कार्मण-शरीरकी परिशातनकृति तथा आहारकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

मनुष्य पर्याप्त व मनुष्यनिर्योमें औदारिक, वैक्रियिक और आहारकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे संख्यात समय काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे एक समय काल है । शेष पदोंकी प्ररूपणा मनुष्योंके समान है । विशेष इतना है कि तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परि-

मुहुत्तं । मणुसिणीसु आहारपदं गत्थि । मणुसंयज्जत्तेसु ओरालियसंघादणकदी पंचिदियतिरिक्ख-
भंगो । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं तिसमऊणं ।
उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं
तिसमऊणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं समऊणं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं
पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

देवगदीए देवा णारगभंगो । भवणवासिय-वाणवैतर-जोदिसियदेवेसु वेउव्वियसंघा-
दणकदीए देवभंगो । संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च
जहण्णेण दसवाससहस्साणि दसवाससहस्साणि तिसमऊणाणि पलिदोवमड्डमभागो तिसम-
ऊणो । उक्कस्सेण सागरोवमं पलिदोवमं पलिदोवमं सादिरेयं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परि-
सादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च सग-सगजहण्णुक्कस्सहिंदीओ ।

सोहम्मीसाणादि जाव सहस्सारे ति वेउव्वियसंघादणं देवभंगो । वेउव्वियसंघादण-

तनकृतिका जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त काल है । मनुष्यनियोंमें आहारक पद नहीं होता ।

मनुष्य अपर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिकी कालप्ररूपणा पंचेन्द्रिय-
तिर्यंचोंके समान है । संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे तीन
समय कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग काल है । एक
जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे एक समय कम
अन्तर्मुहूर्त काल है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी
अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग काल है ।
एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है ।

देवगतिमें देवोंकी कालप्ररूपणा नारकियोंके समान है । भवनवासी, घानव्यन्तर
और ज्योतिषी देवोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिके कालकी प्ररूपणा देवोंके समान
है । संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा
जघन्यसे क्रमशः तीन समय कम दस हजार वर्ष, तीन समय कम दस हजार वर्ष और तीन
समय कम पल्योपमका आठवां भाग काल है; तथा उत्कर्षसे साधिक एक सागरोपम,
साधिक एक पल्योपम और साधिक एक पल्योपम काल है । तैजस व कार्मणशरीरकी
संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा
अपनी अपनी जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण काल है ।

सौधर्म व ईशान कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तक वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिकी
कालप्ररूपणा देवोंके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी

परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवम-वे-सत्त-
दस-चोदस-सोलससागरोवमाणि सादिरेयाणि । उक्कस्सेण वे-सत्त-दस-चोदस-सोलस-अट्ठा-
रससागरोवमाणि सादिरेयाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च
सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च सग-सगजहण्णुक्कस्सट्ठिदीओ ।

आणदादि जावं णवगेवज्जे ति वेउव्वियसंघादणकदी मणुसपज्जत्तभंगो । संघादण-
परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अट्ठारससागरोवमाणि
सादिरेयाणि, वीस-बावीस-तेवीस-चदुवीस-पणुवीस-छव्वीस-सत्तावीस-अट्ठावीस-एगुणतीस-तीस-
सागरोवमाणि विसमऊणाणि । उक्कस्सेण वीस-बावीस-तेवीस-चदुवीस-पणुवीस-छव्वीस-सत्ता-
वीस-अट्ठावीस-एगुणतीस-तीस-एक्कतीससागरोवमाणि समऊणाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-
परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च सग-सगजहण्णुक्कस्सट्ठिदीओ
वत्तव्वाओ ।

अणुदिसादि जाव अवराइद ति वेउव्वियसंघादणकदी मणुसभंगो । संघादण-परि-

अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक पल्योपम तथा दो, सात, दस, चौदह
और सोलह सागरोपमसे कुछ अधिक काल है । उत्कर्षसे दो, सात, दस, चौदह, सोलह और
अठारह सागरोपमसे कुछ अधिक काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-
कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा अपने अपने कल्पकी
जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण काल है ।

आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक तक वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका काल
मनुष्य पर्याप्तोंके समान है । इसी शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी
अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे आनत-प्राणत कल्पमें अठारह
सागरोपमसे कुछ अधिक तथा इसके आगे क्रमशः दो समय कम बीस, दो समय कम
बाईस, दो समय कम तेईस, दो समय कम चौबीस, दो समय कम पच्चीस, दो समय
कम छव्वीस, दो समय कम सत्ताईस, दो समय कम अट्ठाईस, दो समय कम उनतीस
और दो समय कम तीस सागरोपम काल है । उत्कर्षसे क्रमशः एक समय कम बीस, एक
समय कम बाईस, एक समय कम तेईस, एक समय कम चौबीस, एक समय कम
पच्चीस, एक समय कम छव्वीस, एक समय कम सत्ताईस, एक समय कम अट्ठाईस,
एक समय कम उनतीस, एक समय कम तीस और एक समय कम एक-
तीस सागरोपम काल है । तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा उसका काल अपनी अपनी जघन्य व
उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये ।

अनुदिशोंसे लेकर अपराजित विमान तक वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिके
कालकी प्ररूपणा मनुष्योंके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका

सादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एकत्तीस-वत्तीस-सागरोवमाणि विसमऊणाणि । उक्कस्सेण वत्तीस-तेत्तीससागरोवमाणि समऊणाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च सग-सग-जहण्णुक्कस्सड्ढिदीओ ।

सव्वद्धे वेउव्वियसंघादणकदी मणुसपज्जत्तमंगो । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाणि तिसमऊणाणि । उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि समऊणाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च सगड्ढिदी ।

एइंदियाणं तिरिक्खभंगो । णवरि ओरालियसंघादण-परिसादणकदी एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण बावीसवस्ससहस्साणि समऊणाणि । बादरेइंदियाणं एइंदिय-भंगो । णवरि तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेजाओ ओसाप्पिणी-उस्सप्पिणीओ । एवं बादरेइंदियपल्लत्ताणं । णवरि तेजा-कम्मइयसंघादण-

नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे दो समय कम तेत्तीस व दो समय कम वत्तीस सागरोपम काल है । उत्कर्षसे एक समय कम वत्तीस और एक समय कम तेत्तीस सागरोपम काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा उसका जघन्य व उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है ।

सर्वार्थसिद्धि विमानमें वैकियिकशरीरकी संघातनकृतिकी कालप्ररूपणा मनुष्य पर्याप्तोंके समान है । संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम तेत्तीस सागरोपम तथा उत्कर्षसे एक समय कम तेत्तीस सागरोपम काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है और एक जीवकी अपेक्षा अपनी स्थिति प्रमाण काल है ।

एकेन्द्रिय जीवोंमें औदारिकादि शरीरोंकी कृतियोंके कालकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । विशेष इतना है कि उनमें औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक कम वार्डस हजार वर्ष काल है । बादर एकेन्द्रिय जीवोंमें कालकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान है । विशेषता केवल इतनी है कि इनमें तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका उत्कर्षसे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र काल है, जो काल असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल प्रमाण है । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि तैजस व कर्मण-

परिसादनकदी जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि । वादरेइंदियअपज्ज-
त्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णवरि ओरालियसंघादनकदी ओघो । सुहुमेइंदिएसु
ओरालियसंघादनकदी तिरिक्खभंगो । संघादन-परिसादनकदी केवचिरं कालादो होदि ?
णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं चदुसमऊणं, उक्क-
स्सेण अंतोमुहुत्तं समऊणं । तेजा-कम्मइयसंघादन-परिसादनकदी णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । सुहुमेइंदियपज्जत्तेसु
ओरालियसंघादनकदीए तिरिक्खभंगो । संघादन-परिसादनकदी णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं चदुसमऊणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं समऊणं । तेजा-
कम्मइयसंघादन-परिसादनकदी णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-
मुहुत्तं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । सुहुमेइंदियअपज्जत्ताणं वादरेइंदियअपज्जत्तभंगो । णवरि
ओरालियसंघादन-परिसादनकदी जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं चदुसमऊणं ।

वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं तेसिं पज्जत्ताणं ओरालियसंघादनकदीए पंचिंदियतिरिक्ख-

शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे संख्यात हजार
वर्ष काल है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंमें कालप्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके
समान है । विशेष इतना है कि इनमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिके कालकी प्ररूपणा
ओघके समान है ।

सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिके कालकी प्ररूपणा तिर्यचोंके
समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका कितना काल है ? नाना जीवोंकी
अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम क्षुद्रभवग्रहण तथा
उत्कर्षसे एक समय कम अन्तर्मुहूर्त काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-
कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण
और उत्कर्षसे असंख्यात लोक प्रमाण काल है ।

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा तिर्यचोंके
समान है । संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी
अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे एक समय कम अन्तर्मुहूर्त
काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व
काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है ।

सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है ।
विशेष इतना है कि औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका जघन्य काल चार
समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण है ।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोंकी औदारिकशरीर
संघातनकृतिकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । संघातन-परिशातन-

भंगो । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदा-
भवग्गहणं अंतोमुहुत्तं तिसमऊणं, उक्कस्सेण चारसवासाणि । एगुणवण्णरादिंदियाणि छम्मासा
समऊणाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि । तेसि-
मपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

पंचिंदियदुगोरालियसंघादणकदीए पंचिंदियतिरिक्खभंगो । सेसपेदानमोघो ।
णवरि तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं अंतो-
मुहुत्तं, उक्कस्सेण सगट्ठिदी । पंचिंदियअपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

पुढवीकाइय-आउकाइएसु ओरालियसंघादणकदीए तिरिक्खभंगो । ओरालियसंघादण-
परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं चटुसम-
ऊणं, उक्कस्सेण चार्वीससहस्साणि सत्तवाससहस्साणि समऊणाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-
परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं,
उक्कस्सेण असंखेज्जा लोणा ।

कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय
कम क्षुद्रभवग्रहण मात्र व अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे क्रमशः एक समय कम बारह वर्ष, एक
समय कम उनंचास रात्रिदिन और एक समय कम छह मास काल है । तैजस और कर्मण-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी
अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण मात्र व अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे संख्यात हजार वर्ष काल
है । उक्त अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान है ।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररू-
पणा पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके समान है । शेष पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष
इतना है कि इनमें तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका एक जीवकी
अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण मात्र व अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे अपनी स्थिति प्रमाण
काल है । पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान है ।

पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें औदारिकशरीर सम्बन्धी संघातन-
कृतिकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका
नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम क्षुद्र-
भवग्रहण और उत्कर्षसे क्रमशः एक समय कम बाईस हजार और एक समय कम सात
हजार वर्ष काल है । तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे
असंख्यात लोक प्रमाण काल है ।

बादरपुढवीकाइय-बादरआउकाइय-बादरवणप्फदिपत्तेयसरीरेसु ओरालियसंघादणकदीए
बादेरेइंदियभंगो । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जह-
ण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊणं, उक्कस्सेण बावीस-सत्त-दसवाससहस्साणि समऊणाणि ।
तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए बादेरेइंदियपज्जत्तभंगो ।

बादरपुढवीकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउकाइय-बादरवणप्फदि-
काइय-बादरणिगोद-बादरवणप्फदिपत्तेयसरीरअपज्जत्ताणं बादेरेइंदियअपज्जत्तभंगो । तेउकाइय-
वाउकाइएसु ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए वेउव्वियतिणिपदाणं तिरिक्खभंगो । ओरालिय-
संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ,
उक्कस्सेण तिणिण रादिंदियाणि तिणिण वाससहस्साणि समऊणाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-
परिसादणकदीए सुहुमेइंदियभंगो ।

एवं बादरतेउ-वाऊणं । णवरि तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण कम्माडिदी । एवं तेसिं पज्जत्ताणं । णवरि ओरा-

बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक व बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर
जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय जीवोंके समान है ।
औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक
जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे एक समय कम
बाईस हजार वर्ष, एक समय सात हजार वर्ष और एक समय कम दस हजार वर्ष काल
है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तोंके
समान है ।

बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर तेजकायिक, बादर वायुकायिक,
बादर वनस्पतिकायिक, बादर निगोद और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्तोंकी
प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है । तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंमें औदा-
रिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा
तिथ्येचोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी
अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे क्रमशः एक
समय कम तीन रात्रि-दिन व एक समय कम तीन हजार वर्ष काल है । तैजस व कर्मण-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है ।

इसी प्रकार बादर तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंके कहना चाहिये । विशेष
इतना है कि तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका एक जीवकी अपेक्षा
जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे कर्मस्थिति प्रमाण काल है । इसी प्रकार उनके
वर्षास जीवोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि इनमें औदारिकशरीरकी संघातन-परि-

लियसंघादण-परिसादणकदीए वेउवियतिणिणपदाणं एइंदियभंगो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए जहण्णुकस्सेण तेउ-वाऊणं भंगो । तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदी एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि ।

चांदरवणप्फदिकाइयाण चांदरवणप्फदिपत्तेगभंगो । णवरि तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदीए चांदरेइंदियभंगो । तस्सेव पज्जत्तेसु ओरालियसंघादणकदीए तिरिक्खभंगो । संघादण-परिसादणकदीए पत्तेगसरीरपज्जत्तभंगो । एवं तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी । णिगोदजीवेसु ओरालियदोपदाणं सुहुमेइंदियभंगो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अड्ढाइज्जपोगलपरियट्ठा । चांदरणिगोदजीवेसु ओरालियदोपदाणं चांदरेइंदियअपज्जत्तभंगो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए चांदरपुढविकाइयभंगो । चांदरणिगोदपज्जत्ताणं चांदरेइंदियपज्जत्त-

शातनकृति और वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके जघन्य व उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा तेज व वायुकायिक जीवोंके समान है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे संख्यात हजार वर्ष प्रमाण काल है ।

बादर वनस्पतिकायिक जीवोंकी प्ररूपणा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंके समान है । विशेष इतना है कि उनमें तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रियोंके समान है । बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तोंमें औदारिकशरीर सम्बन्धी संघातनकृतिकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा प्रत्येकशरीर पर्याप्तोंके समान है । इसी प्रकार तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके कालकी प्ररूपणा करना चाहिये ।

निगोद जीवोंमें औदारिकशरीरके दो पदोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अढ़ाई पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण काल है ।

बादर निगोद व बादर निगोद अपर्याप्त जीवोंमें औदारिकशरीरके दो पदोंकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है । बादर निगोद पर्याप्तोंकी

भंगो । णवरि ओरालियसंघादण-परिसादणकदी उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं समञ्जं । सव्वसुहुमाणं सुहुमेइंदियभंगो ।

तसदुगस्स पंचिंदियदुगभंगो । णवरि तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण वेसागरोवमसहस्साणि पुच्चकोडि-पुधत्तेणब्भहियाणि, वेसागरोवमसहस्साणि । तसअपज्जत्ताणं पंचिंदियअपज्जत्तभंगो ।

पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदी ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारदोपदाणमोघो ।

कायजोगीसु ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए वेउव्वियपरिसादण-संघादणपरिसादण-कदीणं तिरिक्खभंगो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण चावीसवाससहस्साणि समञ्जणाणि । वेउव्विय-संघादणकदी ओघो । आहारसंघादणकदी ओघो । सेसदोपदाणं मणजोगिभंगो । तेजा-कम्मइय-

प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तोंके समान है । विशेष इतना है कि औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका उत्कर्षसे एक समय कम अन्तर्मुहूर्त काल है । सब सूक्ष्म जीवोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है ।

ब्रस व ब्रस पर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय व पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंके समान है । विशेष इतना है कि तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे क्षुद्रभवग्रहण मात्र व अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कर्षसे क्रमशः पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम व केवल दो हजार सागरोपम काल है । ब्रस अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है ।

पांच मनयोगी और पांच वचनयोगी जीवोंमें औदारिक, व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति तथा औदारिक, वैक्रियिक, तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है । आहारकशरीरके दो पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

काययोगियोंमें औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृतियोंकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । इनमें औदारिक-शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय कम बाईस हजार वर्ष काल है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । आहारकशरीरकी संघातन-कृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । इसके शेष दो पदोंकी प्ररूपणा मनयोगियोंके समान है ।

संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

ओरालियकायजोगीसु ओरालियसंघादण-परिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परि-
सादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण
धावीसवाससहस्साणि देसूणाणि । वेउव्वियसंघादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ,
उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ ।
वेउव्वियपरिसादण-संघादणपरिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च
जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारपरिसादणकदीए मणजोगिभंगो ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु ओरालियसंघादणकदी ओघो । ओरालियसंघादण-परि-
सादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण
अंतोमुहुत्तं समऊणं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है ।
एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण
अनन्त काल है ।

औदारिककाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व
कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक
जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे कुछ कम बाईस हजार वर्ष काल है ।
वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और
उत्कर्षसे आवलीका असंख्यातवां भाग काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे
एक समय काल है । वैक्रियिकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृतिका नाना
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे
अन्तर्मुहूर्त काल है । आहारकशरीरकी परिशातनकृतिकी प्ररूपणा मनयोगियोंके
समान है ।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके
समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व
काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय कम अन्त-
मुहूर्त काल है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा
सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है ।

वेउव्वियकायजोगीसु वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए मणजोगि-भंगो । वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु वेउव्वियसंघादणकदीए देवभंगो । वेउव्विय-तेजा-कम्मइय-संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

आहारकायजोगीसु ओरालियपरिसादणकदी आहार-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादण-कदी णाणाजीवं पडुच्च एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ; उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारमिस्सकायजोगीसु ओरालियपरिसादणकदी आहार-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी-णाणाजीवं पडुच्च एगजीवं^१ पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारसंघादणकदी ओघो ।

कम्मइयकायजोगीसु ओरालियपरिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण तिण्णि समया, उक्कस्सेण संखेज्जा समया । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण तिण्णि समया । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एग-

वैक्रियिककाययोगियोंमें वैक्रियिक, तैजस और कर्मणशरीर सम्बन्धी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा मनयोगियोंके समान है ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा देवोंके समान है । वैक्रियिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है ।

आहारककाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा आहारक, तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा और एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है । आहारकमिश्रकाय-योगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा आहारक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी व एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है । आहारकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

कर्मणकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय और उत्कर्षसे संख्यात समय काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे तीन समय काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और

समओ, उक्कस्सेण तिणिण समया ।

वेदानुवादेण इत्थिवेदेसु ओरालियतिणिणपदा वेउव्वियपरिसादणकदी पंचिंदियतिरिक्ख-
भंगो । वेउव्वियसंघादणकदीए ओघो । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पणवण्णपलिदोवमाणि समऊणाणि । तेजा-
कम्मइय-संघादणपरिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं ।

पुरिसवेदेसु ओरालियसंघादणकदीए इत्थिवेदभंगो । ओरालियदोणिणपदा वेउव्विय-
आहारतिणिणपदा ओघं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ।

णउंसयवेदेसु ओरालियसंघादण-परिसादणकदी वेउव्वियतिणिणपदा ओघं । ओरालिय-
संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ,

उत्कर्षसे तीन समय काल है ।

वेदमार्गणानुसार खीवेदियोंमें औदारिकशरीरके तीनों पद तथा वैक्रियिकशरीरकी
परिशातनकृतिकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिकी
प्ररूपणा ओघके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी
अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय
कम पचवन पत्योपम प्रमाण काल है । तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-
कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और
उत्कर्षसे पत्योपमशतपृथक्त्व काल है ।

पुरुषवेदियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा खीवेदियोंके समान
है । औदारिकशरीरके शेष दो पद तथा वैक्रियिक व आहारकशरीरके तीनों पदोंकी
प्ररूपणा ओघके समान है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे
सागरोपमशतपृथक्त्व काल है ।

नपुंसकवेदियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति और परिशातनकृति तथा
वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-
परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक

उक्कस्सेण पुव्वकोडी समऊणा । तेजा-कम्मइयमंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गल-परियट्ठा ।

अवगतवेदेसु ओरालियपरिसादणकदी णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण तिण्णि समया, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा । परिसादणकदी ओघं ।

चत्तारिकसायाणं ओरालिय-वेउव्विय-आहारसंघादणकदी ओघं । सेसपदाणं मणजोगि-भंगो । अकसायाणं अवगदवेदभंगो ।

एवं केवलणाणि-केवलदंसणीणं वत्तव्वं । मदि-सुदअण्णाणीसु ओरालिय-वेउव्विय-तिण्णिदा ओघं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं

समय और उत्कर्षसे एक समय कम पूर्वकोटि काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघा-तन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन काल प्रमाण है ।

अपगतवेदियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहुर्त काल है । औदारिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहुर्त काल व उत्कर्षसे कुछ कम पूर्वकोटि काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

क्रोधादि चार कषाय युक्त जीवोंमें औदारिक, वैक्रियिक व आहरकशरीरकी संघा-तनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । शेष पदोंकी प्ररूपणा मनयोगियोंके समान है । कषाय-रहित जीवोंकी प्ररूपणा अपगतवेदियोंके समान है ।

इसी प्रकार केवलज्ञानी और केवलदर्शनी जीवोंके कहना चाहिये । मति व श्रुत अज्ञानियोंमें औदारिक और वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल

पडुच्च अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो सादिओ सपज्जवसिदो । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो सो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोगलपरियट्ठं देसूणं ।

विभंगणाणीसु ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए वेउव्वियसंघादणकदीए तिरिक्ख-भंगो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीससागरो-वमाणि देसूणाणि ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु ओरालिय-आहारतिण्णिपदाणं मणुसपज्जत्तभंगो । वेउव्वियतिण्णिपदा ओधं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण छावट्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

मणपज्जवणाणीसु ओरालियपरिसादणकदीए वेउव्वियतिण्णिपदाणं मणुसभंगो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ,

है । एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अपर्यवसित, अनादि-सपर्यवसित और सादि-सपर्यवसित काल है । इनमें जो सादि-सपर्यवसित काल है वह जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्ध पुद्गलपरिचर्तन प्रमाण है ।

विभंगज्ञानियोंमें औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति तथा वैक्रियिक-शरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है । वैक्रियिक, तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे कुछ कम तेत्तीस सागरोपम काल है ।

आभिनिबोधिक, श्रुत और अवाधिद्वानी जीवोंमें औदारिक और आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा मनुष्य पर्याप्तोंके समान है । वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ अधिक छयासठ सागरोपम प्रमाण काल है ।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति और वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा मनुष्योंके समान है । इनमें औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा ।

संजदाणं मणपज्जवभंगो । णवरि आहारतिणिपदा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी ओधं । एवं सामाइयछेदोवहावणसुद्धिसंजदाणं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । संघादणपरिसादणकदी जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तं चेव । परिहारसुद्धिसंजदेसु ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदाणं केवलणाणिभंगो । णवरि ओरालिय-तेजा-कम्मइय-संघादण-परिसादणकदीं जहण्णेण एगसमओ । संजदासंजदेसु ओरालियपरिसादणकदीए ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदीए मणपज्जवभंगो । वेउच्चियतिणिपदाणं

उत्कर्षसे कुछ कम एक पूर्वकोटि काल है । तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुद्घर्त और उत्कर्षसे कुछ कम पूर्वकोटि काल है ।

संयत जीवोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । विशेष इतना है कि उनमें आहारकशरीरके तीनों पद तथा तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओधके समान है । इसी प्रकार सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत जीवोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि उनमें तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका जघन्यसे एक समय काल है और उत्कर्षसे भी वही पूर्वोक्त आलाप जानना चाहिये ।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें औदारिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुद्घर्त और उत्कर्षसे कुछ कम एक पूर्वकोटि काल है ।

सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें औदारिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुद्घर्त काल है । यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोंकी प्ररूपणा केवलज्ञानियोंके समान है । विशेष इतना है कि इनमें औदारिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतियोंका काल जघन्यसे एक समय है ।

संयतासंयत जीवोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा औदारिक, तैजस व कर्मणशरीर सम्बन्धी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । इनमें वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । असंयत जीवोंमें अपने

तिरिक्खभंगो । असंजदेसु अप्पणो पदा ओधं ।

चक्खुदंसणीसु ओरालियसंघादणकदीए पुरिसवेदभंगो । सेसपदा ओधं । णवरि तेजा-
कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण वेसागरोवमसहस्साणि । अचक्खुदंसणी ओधं ।
णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । ओहिंदसणीणं ओहिणाणिभंगो ।

तिण्णिलेस्साणं ओरालियसंघादणकदी ओधं । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदी
ओरालियसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । वेउव्वियसंघादणकदी ओधं । संघादण-परिसादणकदी
णाणाजीवं पडुच्च सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीस-सत्ता-
रस-सत्तसागरोवमाणि समऊणाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च
सच्चद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरो-
वमाणि सादिरैयाणि ।

अपने पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है।

चक्षुदर्शनी जीवोंमें औदारिकशरीर सम्बन्धी संघातनकृतिकी प्ररूपणा पुरुष-
बेदियोंके समान है । शेष पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनमें
तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-
परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे
अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे दो हजार सागरोपम काल है । अचक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा
ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनमें तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृति
नहीं होती । अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ।

प्रथम तीन लेइया युक्त जीवोंमें औदारिकशरीर सम्बन्धी संघातनकृतिकी प्ररूपणा
ओघके समान है । औदारिक व वैक्रियिकशरीर सम्बन्धी परिशातनकृति तथा औदारिक-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी
अपेक्षा इनका काल जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त मात्र है । वैक्रियिक-
शरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । संघातन-परिशातनकृतिका नाना
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे
क्रमशः एक समय कम तेत्तीस, एक समय कम सत्तरह और एक समय कम सात साग-
रोपम काल है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी
सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे क्रमशः कुछ अधिक
तेत्तीस, कुछ अधिक सत्तरह व कुछ अधिक सात सागरोपम काल है ।

तेउ-पम्मलेस्सिएसु ओरालिय-आहारसंघादणकदीए ओहिंभंगो । ओरालिय-वेउव्विय-परिसादणकदीए ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए क्रिणभंगो । वेउव्वियसंघादणकदी ओघं । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वे-अट्टारससागरोवमाणि सादिरेयाणि । आहारपरिसादण-संघादणपरिसादण-कदीणं मणजोगिभंगो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण वे-अट्टारससागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

सुक्कलेस्सिएसु ओरालिय-आहारसंघादणकदीए ओहिंभंगो । ओरालिय-वेउव्विय-परिसादणकदी ओघं । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा । वेउव्वियसंघादणकदी ओघं । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि समऊणाणि । आहारपरिसादण-संघादण-

तेज व पद्म लेश्यावालोंमें औदारिक और आहारकशरीर सम्बन्धी संघातन-कृतिकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातन-कृति तथा औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा कृष्णलेश्यावाले जीवोंके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । वैक्रियिक-शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे क्रमशः कुछ अधिक दो और कुछ अधिक अठारह सागरोपम काल है । आहारकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा मनयोगियोंके समान है । तेजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ अधिक दो और कुछ अधिक अठारह सागरोपम प्रमाण है ।

शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें औदारिक और आहारकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे कुछ कम एक पूर्वकोटि काल है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय कम तेतीस सागरोपम काल है । आहारकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा मनयोगियोंके

परिसादणकदीणं मणजोगिभंगो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्चं सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्चं जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

भवसिद्धियाणं ओघं । अभवसिद्धियाणं असंजदभंगो । णवरि तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी अणादि-अपज्जवसिदा । सम्माइड्डीणमोहिभंगो । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादण-कदी ओघं । एवं खइयसम्माइड्डीणं । णवरि तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी तेत्तीस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । वेदगसम्माइड्डीणं ओहिभंगो । णवरि ओरालियसंघादण-परिसादण-कदी तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी छावड्ढिसागरो-वमाणि । उवसमसम्माइड्डीसु ओरालिय-वेउव्वियपरिसादण-संघादणपरिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्चं जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्चं जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । वेउव्वियसंघादणकदीए विभंगणाणिभंगो । णवरि

समान है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ अधिक तेतीस सागरोपम काल है ।

भवसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । अभवसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा असंयतोंके समान है । विशेष इतना है कि तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृति अनादि-अपर्यवसित है ।

सम्यग्दृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । विशेष इतना है कि इनमें तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । इसी प्रकार क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि इनमें तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका कुछ अधिक तेतीस सागरोपम काल है ।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । विशेष इतना है कि इनमें औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका कुछ कम तीन पल्योपम काल है । तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका छयासठ सागरोपम काल है ।

उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा विभंगज्ञानियोंके समान

एगजीवस्स उक्कस्सेण बेसमया । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णु-क्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एवं सम्मामिच्छाइड्डीणं । णवरि वेउव्वियसंघादणस्स एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । सासणसम्माइड्डीसु ओरालियसंघादणकदीए पंचिदियभंगो । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए उवसमसम्माइड्डीभंगो । ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइय-संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छावलियाओ । मिच्छा-इड्डीणमसंजदभंगो ।

सण्णीणं पुरिसवेदभंगो । असण्णीसु ओरालियपरिसादणकदी वेउव्वियतिण्णिपदा तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए तिरिक्खभंगो ।

आहाराणुवादेण आहारी ओधं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणं णत्थि । संघादण-

है । विशेष इतना है कि एक जीवकी अपेक्षा उसका उत्कृष्ट काल दो समय है । तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल है ।

इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे एक समय काल है ।

सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिकी प्ररूपणा पंचेन्द्रियोंके समान है । औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिकी प्ररूपणा उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है । औदारिक, वैक्रियिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह आवलि काल है । मिथ्यादृष्टियोंकी प्ररूपणा असंयतोंके समान है ।

संज्ञी जीवोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । असंज्ञी जीवोंमें औदारिक-शरीरकी परिशातनकृति, वैक्रियिकशरीरके तीनों पद तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है ।

आहारमार्गणानुसार आहारी जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनमें तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । इन दोनों शरीरोंकी

परिसादनकदी णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं
तिसमऊणं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओसप्पिणी-उस्सप्पिणीओ ।
अणाहारीसु ओरालियपरिसादनकदीए अवगदेवदभंगो । तेजा-कम्मइयपरिसादनकदी ओघं ।
तेजा-कम्मइयसंघादनपरिसादनकदी केवचिरं कालादो हेदि ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णि समया । एवं कालाणुगमो समत्तो ।

अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देशो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण ओरालियसरीर-
संघादनकदीए अंतरं केवचिरं कालादो हेदि ? णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं णिरंतरं । एग-
जीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं चदुसमऊणं, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि समयाहियं-
पुव्वकोडीए सादिरेयाणि । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादनकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं
णिरंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गल-
परियट्ठा । एवं वेउव्वियसंघादनपरिसादनकदीए । णवरि जहण्णेण एगसमओ । ओरालिय-

संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे
तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र असंख्यात
उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल है ।

अनाहारी जीवोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृतिकी प्ररूपणा अपगतवेदियोंके
समान है । तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । तैजस
व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका कितना काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा
सर्व काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय काल
है । इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

अन्तराणुगमसे ओघ और आदेशकी अपेक्षा दो प्रकारका निर्देश है । उनमेंसे ओघकी
अपेक्षा औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर कितने काल तक होता है ? नाना
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय
कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण और उत्कर्षसे एक समय अधिक पूर्वकोटिसे संयुक्त तेत्तीस
सागरोपम काल प्रमाण होता है ।

औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर
नहीं होता, निरन्तर है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और
उत्कर्षसे अनन्त काल प्रमाण होता है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । इसी
प्रकार वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर कहना चाहिये । विशेष इतना
है कि उसका अन्तर जघन्यसे एक समय है ।

संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एग-
समओ, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि तिसमयाहियअंतोमुहुत्ताहियाणि । वेउव्वियसंघादण-
कदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एगजीवं पडुच्च
जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

आहारतिण्णिपदाणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुंधत्तं ।
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ठं देसूणं । तेजा-कम्मइय-
संघादण-परिसादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं णिरंतरं । परिसादणकदीए णाणा-
जीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छम्मासा । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं ।

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं
पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण चउवीसमुहुत्ता । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं ।
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । पढमादि

औदारिकशरीरकी संघातन परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा नहीं
होता । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय
व अन्तर्मुहूर्तसे अधिक तेत्तीस सागरोपम काल प्रमाण होता है ।

वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक
समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर
जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अनन्त काल प्रमाण होता है जो असंख्यात पुद्गल-
परिवर्तन प्रमाण है ।

आहारकशरीरके तीनों पदोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय
और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा उनका अन्तर
जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल प्रमाण होता है ।

तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी
अपेक्षा अन्तर नहीं होता, वह निरन्तर है । परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा
जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह मास प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर
नहीं होता ।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणानुसार नरकगतिमें नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी
संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे चौबीस
मुहूर्त प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । वैक्रियिक, तैजस और
कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना व एक जीवकी अपेक्षा नहीं होता ।

आव सत्तमि ति वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अड्डालीसमुहुत्ता पक्खो मासो वेमासा चत्तारिमासा छम्मासा बारहमासा । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । ससपदानं णत्थि अंतरं ।

तिरिक्खेसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं चदुसमउणं, उक्कस्सेण पुच्चकोडी समयाहिया । ओरालिय-वेउव्विय-परिसादणकदीए वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ठा । एवं वेउव्विय-संघादणकदीए । णवरि णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं, तिसमयाहियं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णारंगभंगो ।

पंचिंदियतिरिक्खतिगम्मि ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं, चदुवीसमुहुत्ता । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं

प्रथम पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरं जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे क्रमशः अड्डतालीस मुहूर्त, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास, छह मास और बारह मास होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । शेष पदोंका अन्तर नहीं होता ।

तिर्य्यचोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण और उत्कर्षसे एक समय अधिक पूर्वकोटि काल प्रमाण होता है । औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिका तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे अनन्त काल होता है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है । इसी प्रकार वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर कहना चाहिये । विशेष इतना है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय अधिक अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है ।

पंचेन्द्रिय तिर्य्यच आदि तीनमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त व चौबीस मुहूर्त होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण व तीन समय कम अन्तर्मुहूर्त

अंतोमुहुत्तं तिसमऊणं, उक्कस्सेण तिरिक्खमंगो । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए वेउ-
व्वियसंघादणपरिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुच्चकोडिपुधत्तेणव्वहियाणि । एवं वेउव्विय-
संघादणकदीए । णवरि णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।
ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए तिरिक्खमंगो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए
णत्थि अंतरं ।

पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तेसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण
एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊणं,
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं समयाहियं । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि
अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णि समया । तेजा-कम्मइय-
संघादण-परिसादणकदीए तिरिक्खोपं ।

मणुंसतिगस्स पंचिंदियतिरिक्खतिगमंगो । णवरि आहारतिण्णिपदानं णाणाजीवं

है, और उत्कर्षसे उसकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परि-
शातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर
नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक
तीन पल्योपम काल प्रमाण होता है । इसी प्रकार वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिके
अन्तरकी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा उसका
अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । औदारिक-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । तैजस व कर्मण-
शरीरकी संघातन परिशातनकृतिका अन्तर नहीं होता ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच अर्थात्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना
जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । एक
जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम शुद्धभवग्रहण प्रमाण और उत्कर्षसे एक समय
अधिक अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे
तीन समय होता है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी
प्ररूपणा सामान्य तिर्यंचोंके समान है ।

मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय
तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंके समान है । विशेष इतना है कि

पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण^१ वासपुधत्तं। एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पुच्चकोडिपुधत्तं। तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए ओवं। णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदीए मणुसिणीसु उक्कस्सेण वासपुधत्तं।

मणुसअपज्जत्ताणं ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं समयाहियं। संघादणपरिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णि समया। तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं।

देवाणं णारगभंगो। भवणवासियप्पहुडि जाव सच्चट्ठ ति वेउव्वियसंघादणकदीए

आहारकशरीरके तीनों पदोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय ओर उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृथक्त्व काल प्रमाण होता है। तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिके अन्तरकी प्ररूपणा ओघके समान है। विशेष इतना है कि तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृतिका अन्तर मनुष्यनियोंमें उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है।

मनुष्य अपर्याप्तोंमें, औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग काल-प्रमाण होता है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे एक समय अधिक अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है। औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग काल प्रमाण होता है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय प्रमाण होता है। तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता।

देवोंकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है। भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमान तक वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे

णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण भवणवासिय-वाणवेत्तर-जोदिसियाणं पादेक्कं अडदालीस मुहुत्ता । सोहम्मीसाणे पक्खो । सणक्कुमार-माहिंदे मासो । वम्हवम्होत्तर-लांतवकाविट्ठे वेमासा । सुक्कमहासुक्क-सदारसहस्सारम्मि चत्तारि मासा । आणदपाणद-आरण-अच्चुदेसु छम्मासा । णवगेवज्जेसु बारसमासा । अणुदिसादि जाव अवराइद ति वासपुधत्तं । सच्चट्ठे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । सेसपदाणं देवभंगो ।

एइंदिएसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणं चटुसमज्जणं, उक्कस्सेण बावीसवाससहस्साणि समयाहियाणि । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए तिरिक्खभंगो । वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च तिरिक्खभंगो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी ओघं ।

एक समय है । उत्कर्षसे भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषियोंमें पृथक् पृथक् अङ्ग-तालीसं मुहूर्त, सौधर्म-ईशान कल्पमें एक पक्ष, सनत्कुमार-माहेन्द्र कल्पमें एक मास, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर व लांतव-कापिष्ठ कल्पोंमें दो मास, शुक्र-महाशुक्र व शतार-सहस्रार कल्पोंमें चार मास, आनत-प्राणत व आरण-अच्युत कल्पोंमें छह मास, नौ त्रैवेयकोंमें बारह मास, अनुदिशोंसे लेकर अपराजित विमान तक वर्षपृथक्त्व और सर्वार्थसिद्धि विमानमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग काल प्रमाण होता है । शेष पदोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है ।

एकेन्द्रियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण और उत्कर्षसे एक समय अधिक बाईस हजार वर्ष प्रमाण होता है । औदारिक व वैक्रियिक-शरीरकी परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा तिर्यचोंके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग काल प्रमाण होता है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

एवं वादेरेइंदियाणं । णवरि ओरालियसंघादणकदीए जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊणं । एवं वादेरेइंदियपज्जत्ताणं । णवरि ओरालियसंघादणकदीए जहण्णेण अंतोमुहुत्तं तिसमऊणं । एवं सेसपदाणं । णवरि जम्हि पलिदोवमस्स असंखेज्जेदिभागो तम्हि संखेज्जाणि वाससहस्साणि । वादेरेइंदियअपज्जत्तेसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । सेसस्स पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

सुहुमेइंदिएसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं चदुसमऊणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं दुसमयाहियं । ओरालिय-संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एग-समओ, उक्कस्सेण चत्तारि समया । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णत्थि अंतरं । एवं पज्जत्तापज्जत्ताणं । णवरि पज्जत्तएसु ओरालियसंघादणकदीए एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं चदुसमऊणं ।

वेइंदिय-तेइंदिय-चदुरिंदियाणं तेसि पज्जत्ताणं च ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं

इसी प्रकार बादर एकेन्द्रियोंकी प्ररूपणा है । विशेष इतना है कि औदारिक-शरीरकी संघातनकृतिका अन्तर जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण है । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि इनमें औदारिक-शरीरकी संघातनकृतिका अन्तर जघन्यसे तीन समय कम अन्तर्मुहूर्त मात्र होता है । इसी प्रकार शेष पदोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि जहांपर पल्योपमका असंख्यातवां भाग कहा गया है वहांपर संख्यात हजार वर्ष कहना चाहिये । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । शेष पदोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है ।

सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण और उत्कर्षसे दो समय अधिक अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे चार समय होता है । तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका अन्तर नहीं होता । इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि पर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है ।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उनके पर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी

पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं चटुवीसमुहुत्ता । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं विसमऊणं, उक्कस्सेण बारसवासाणि एगूणवण्णरादिदियाणि छम्मासा समयाहियाणि । ओरालिय-तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादनकदीए पंचिंदियतिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो । वेइंदिय-तेइंदिय-चटुरिंदियअपज्जत्ताणं तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

एवं पंचिंदियअपज्जत्ताणं । पंचिंदियदुगोरालियसंघादनकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं चउवीसमुहुत्ता । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं तिसमऊणं । उक्कस्सेण ओधं । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादनकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण सागरोवम-सहस्सं पुव्वकोडिपुधत्तेणव्वहियंसागरोवमसदपुधत्तं । ओरालियसंघादन-परिसादनकदीए ओधं । वेउव्वियसंघादनकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि तिण्णि पल्लिवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणव्वहियाणि । संघादन-

संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्त-मुहूर्त व चौबीस मुहूर्त काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे दो समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण और दो समय कम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण तथा उत्कर्षसे क्रमशः एक समय अधिक बारह वर्ष, एक समय अधिक उन्नचास रात्रि-दिनस व एक समय अधिक छह मास होता है । औदारिक, तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान है । द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तोंके अन्तरकी प्ररूपणा तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान है ।

इसी प्रकार पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके कहना चाहिये । पंचेन्द्रिय व पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त व चौबीस मुहूर्त होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण मात्र व तीन समय कम अन्तर्मुहूर्त मात्र होता है । उत्कर्षसे उसकी प्ररूपणा ओघके समान है । औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे एक हजार सागरोपम प्रमाण और पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक सागरोपमशतपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा ओघके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तेतीस सागरोपम व पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पद्मोपम काल प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-

परिसादनकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोटिपुधत्तेणव्वहियाणि । आहारतिगस्स णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण सागरोवमसहस्सं पुव्वकोटि-पुधत्तेणव्वहियं सागरोवमसदपुधत्तं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादनकदी ओधं ।

पुढवीकाइय-आउकाइएसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं चटुसमऊणं, उक्कस्सेण बावीस-सत्तवाससहस्साणि समयाहियाणि । संघादण-परिसादनकदीए सुहुमेइंदियभंगो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादन-कदी ओधं । तेसिं बादराणमोरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊणं, उक्कस्सेण बावीस-सत्तवाससहस्साणि समया-हियाणि । संघादण-परिसादनकदीए तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादनकदीए बेइंदियभंगो । एवं तेसिं पज्जत्ताणं पि । णवरि ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ,

परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्लोपम काल प्रमाण होता है । आहारकशरीरके तीनों पदोंकी अन्तरप्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओधके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे एक हजार सागरोपम व पूर्वकोटि-पृथक्त्वसे अधिक सागरोपमशतपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । तैजस और कर्मण-शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा ओधके समान है ।

पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम क्षुद्रभव-ग्रहण-प्रमाण तथा उत्कर्षसे एक समय अधिक बाईस हजार व एक समय अधिक सात हजार वर्ष प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा सूक्ष्म-एकेन्द्रियोंके समान है । तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओधके समान है ।

वाटर पृथिवीकायिक और वाटर जलकायिक जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातन-कृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण और उत्कर्षसे एक समय अधिक बाईस हजार व एक समय अधिक सात हजार वर्ष प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातन-कृति तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा द्वीन्द्रिय जीवोंके समान है । इसी प्रकार उनके पर्याप्तोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि उनमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं तिसमऊणं । एवं चादरवणप्फादि-
पत्तेगाणं । णवरि ओरालियसंघादणकदीए [एगजीवं पडुच्च उक्कस्सेण] दसवाससहस्साणि
समयाहियाणि ।

तेउकाइय-वाउकाइउसु ओरालियसंघादणकदीए पुढवीभंगो । णवरि उक्कस्सेण
तिण्णि रादिंदियाणि तिण्णि वाससहस्साणि समयाहियाणि । ओरालिय-वेउच्चियपरिसादणकदीए
वेउच्चियसंघादण-संघादणपरिसादणकदीएणं एइंदियभंगो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए
णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं
तिसमयाहियं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णत्थि अंतरं । एवं चादरतेउकाइय-चादर-
वाउकाइयाणं । णवरि ओरालियसंघादणकदीए एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसम-
ऊणं । तेसिं पज्जत्ताणमोरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्क-
स्सेण चदुवीसमुहुत्ता । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं तिसमऊणं । उक्कस्सेण चादर-

और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा वह जघन्यसे तीन
समय कम अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । इसी प्रकार चादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर
जीवोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि उनमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका
अन्तर [एक जीवकी अपेक्षा उत्कर्षसे] एक समय अधिक दस हजार वर्ष प्रमाण होता है ।

तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिके अन्तरकी
प्ररूपणा पृथिवीकायिकोंके समान है । विशेष इतना है कि एक जीवकी अपेक्षा उत्कर्षसे
क्रमशः एक समय अधिक तीन रात्रि-दिन व एक समय अधिक तीन हजार वर्ष प्रमाण
होता है । औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन
व संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान है । औदारिक-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी
अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय अधिक अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण
होता है । तेजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नहीं होता ।

इसी प्रकार चादर तेजकायिक और चादर वायुकायिक जीवोंके कहना चाहिये ।
विशेष इतना है कि उनमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा
जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण काल प्रमाण होता है । उनके पर्याप्तोंमें औदा-
रिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय व
उत्कर्षसे चौबीस मुहूर्त होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम अन्तर्मुहूर्त
काल प्रमाण होता है । उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा चादर तेजकायिक व चादर वायुकायिकोंके

१ अ-आप्रलोः 'मुहुत्ता । तेउवाऊणमंतोमुहुत्तं एग-', काप्रतौ 'मुहुत्ता । तेऊणं वाऊणमंतोमुहुत्तं एग-'
इति पाठः ।

तेउकाइय-वाउकाइयभंगो । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए वेउव्वियसंघादण-परिसादण-कदीए एइंदियभंगो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए तिरिक्खभंगो । वेउव्वियसंघादण-कदीए एइंदियपज्जत्तभंगो । तेजा-कम्मइयसंघादणकदी ओघं ।

वादरपुढवीकाइय-वादरआउकाइय-वादरतेउकाइय-वादरवाउकाइय-वादरवणप्फदि-काइय-वादरणिगोदजीव-वादरवणप्फदिपत्तेगसरीरअपज्जत्ताणं वादेरेइंदियअपज्जत्तभंगो । वण-प्फदिकाइएसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं चटुसमज्जणं, उक्कस्सेण दसवाससहस्साणि समयाहियाणि । ओरालिय-संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एग-समओ, उक्कस्सेण चत्तारि समया । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी ओघं ।

वादरवणप्फदिकाइयाणं वादरवणप्फदिपत्तेगसरीरभंगो । णिगोदजीवाणं वणप्फदि-भंगो । णवरि ओरालियसंघादणकदीए उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं समयाहियं । एवं वादरणिगोदाणं ।

समान है । औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर तिर्यंचोंके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-कृतिका अन्तर एकेन्द्रिय पर्याप्तोंके समान है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त, वादर तेजकायिक अपर्याप्त, वादर वायुकायिक अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, वादर निगोद जीव अपर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान है ।

वनस्पतिकायिक जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण और उत्कर्षसे एक समय अधिक दस हजार वर्ष प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे चार समय प्रमाण होता है । तैजस और कार्मण-शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

वादर वनस्पतिकायिकोंकी प्ररूपणा वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंके समान है । निगोद जीवोंकी प्ररूपणा वनस्पतिकायिकोंके समान है । विशेष इतना है कि उनमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर उत्कर्षसे एक समय अधिक अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । इसी प्रकार वादर निगोद जीवोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि

णवरि जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊणं । एवं पज्जत्ताणं । णवरि ओरालियसंघादणकदीए जहण्णेण अंतोमुहुत्तं तिसमऊणं ।

सन्वसुहुमाणं सुहुमेइंदियभंगो । तसदोणिण पंचिंदियदुगभंगो । णवरि ओरालिय-परिसादणकदीए वेउव्वियपरिसादणकदीए आहारतिणिणपदाणभेगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-मुहुत्तं, उक्कस्सेण वेसागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणव्वहियाणि वेसागरोवमसहस्साणि देसूणाणि । तसअपज्जत्ताणं पंचिंदियअपज्जत्तभंगो ।

पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु ओरालिय-वेउव्वियपरिसादण-संघादणपरिसादणकदीणं तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । आहारपरिसादण-संघादणपरिसादणकदीणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तं । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं ।

कायजोगीसु ओरालिय-वेउव्वियतिणिणपदाणं एइंदियभंगो । णवरि वेउव्वियसंघादण-संघादणपरिसादणकदीणं जहण्णेण एगसमओ । आहारतिगस्स णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं

उनमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण काल प्रमाण होता है । इसी प्रकार वादर निगोद पर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा है । विशेष इतना है कि उनमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर जघन्यसे तीन समय कम अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है ?

सब सूक्ष्म जीवोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है । ब्रस और ब्रस पर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंके समान है । विशेष इतना है कि औदारिकशरीरकी परिशातनकृति, वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति तथा आहारक-शरीरके तीनों पदोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण तथा उत्कर्षसे क्रमशः पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम व दो हजार सागरोपमसे कुछ कम है । ब्रस अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है ।

पांच मनयोगी और पांच वचनयोगी जीवोंमें औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातन व संघातन-परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । आहारकशरीरकी परिशातन और संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता ।

काययोगियोंमें औदारिक और वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान है । विशेष इतना है कि वैक्रियिकशरीरकी संघातन व संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर जघन्यसे एक समय होता है । आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा नाना

पडुच्च णत्थि अंतरं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णत्थि अंतरं ।

ओरालियकायजोगीसु ओरालियपरिसादणकदीए वेउव्वियतिणिणपदाणं णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तिणिणवाससहस्साणि देसूणाणि । णवरि वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारपरिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । तेजा-कम्मइयएगपदमोघं ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु ओरालियसंघादणकदी णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एग-जीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं चटुसमऊणं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं समऊणं । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एग-समओ । तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदी ओघं ।

वेउव्वियकायजोगीसु सगपदाणं णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । वेउव्वियमिस्स-

जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नहीं होता ।

औदारिककाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम तीन हजार वर्ष प्रमाण होता है । विशेष इतना है कि वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । आहारकशरीरकी परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । तैजस व कार्मणशरीरके एक पद अर्थात् संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर ओघके समान है ।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे चार समय कम क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण और उत्कर्षसे एक समय कम अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे एक समय है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

वैक्रियिककाययोगियोंमें अपने पदोंका नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं

कायजोगीसु सगपदानं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण चारसमुहुत्ता । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु सगपदानं' णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तं । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं ।

कम्मइयकायजोगीसु ओरालियपरिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तं । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । तेजा-कम्मइयएगपदस्स णत्थि अंतरं ।

इत्थिवेदसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च पंचिंदियपज्जत्तभंगो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं तिसमऊणं, उक्कस्सेण पणवण्णपलिदोवमाणि पुच्चकोडीए समएण च अहियाणि । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पणवण्णपलिदोवमाणि अंतोमुहुत्तेण तिसमयाहिएण अच्चहियाणि । वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च

होता । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें अपने पदोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे बारह मुहूर्त प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । आहारकाययोगी और आहारमिश्रकाययोगियोंमें अपने अपने पदोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता ।

कार्मणकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । तैजस व कार्मणशरीरके एक पदका अन्तर नहीं होता ।

स्त्रीवेदी जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे तीन समय कम अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे एक समय और पूर्वकोटिसे अधिक पचचन पल्य प्रमाण होता है । औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण और उत्कर्षसे पल्योपमशतपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय और अन्तर्मुहूर्तसे अधिक पचचन पल्य प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और

जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अट्ठावण्णपलिदोवमाणि पुच्चकोडिपुधत्तेणव्वहियाणि । वेउव्वियसंघादण-परिसांदणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुच्चकोडिपुधत्तेणव्वहियाणि । तेजा-कम्मइयएगपदमोघं ।

पुरिसवेदाणमोरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च इत्थिवेदभंगो । एगजीवं पडुच्च ओधं । णवरि जहण्णेण अंतोमुहुत्तं तिसमऊणं । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए ओधं । वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेतीससागरोवमाणि समयाहियपुच्चकोडीए अहियाणि । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण उक्कस्सेण इत्थिवेदभंगो । आहारतिण्णिपदा ओधं । णवरि एगजीवं

उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक अट्ठावन पल्योपम काल प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम काल प्रमाण होता है । तैजस व कार्मणशरीरके एक पदकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

पुरुषवेदियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा स्त्रीवेदियोंके समान है । एक जीवकी अपेक्षा ओघके समान है । विशेष इतना है कि जघन्य अन्तर तीन समय कम अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा वह जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे सागरोपमशतपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर ओघके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय व पूर्वकोटिसे अधिक तेतीस सागरोपम काल प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे व उत्कर्षसे स्त्रीवेदियोंके समान है । आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे

पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादण-कदीए णत्थि अंतरं ।

णउंसयवेदाणमप्पणो पदा ओघं । अवगदवेदेसु ओरालियपरिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छम्मासा । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतो-मुहुत्तं । संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण तिण्णिंसमया । तेजा-कम्मइयदोपदा ओघं ।

क्रोधादिचटुक्कस्स ओरालियसंघादणकदीए ओरालिय-वेउन्वियपरिसादणकदीए तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । ओरालियसंघादणपरिसादण-कदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतो-मुहुत्तं । वेउन्वियसंघादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतो-मुहुत्तं । संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एग-समओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारतिण्णिपदाणं मणजोगिभंगो ।

अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे सागरोपमशतपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । तैजस व कर्मण-शरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नहीं होता ।

नपुंसकवेदियोंमें अपने पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । अपगतवेदियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह मास होता है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य व उत्कर्षसे तीन समय प्रमाण होता है । तैजस और कर्मणशरीरके दो पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

क्रोधादि चार कपाय युक्त जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति, औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघा-तनकृतिका अन्तर नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । आहारकशरीरके तीनों पदोंकी अन्तरप्ररूपणा मन-योगियोंके समान है ।

अकसाईणमवगदवेदभंगो । मदि-सुदअण्णाणीसु सगपदा ओघं । विभंगणाणीसु सग-
पदानं' णत्थि अंतरं । णवरि वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ,
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण
एगसमओ, उक्कस्सेण मासपुधत्तं । ओहिणाणीसु वासपुधत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
पलिदोवमं सादिरेयं, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि समयाहियपुव्वकोडीए सादिरेयाणि ।
ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण
अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए
णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीस-
सागरोवमाणि तिसमयाहियअंतोमुहुत्तेण सादिरेयाणि । वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं
पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि
समयाहियपुव्वकोडीए सादिरेयाणि । संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं ।

अकपायी जीवोंकी प्ररूपणा अपगतवेदियोंके समान है । मत्त्यज्ञानी व. श्रुता-
ज्ञानियोंमें अपने पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विभंगज्ञानियोंमें अपने पदोंका
अन्तर नहीं होता । विशेष इतना है कि वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना-
जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है ।

आभिनिबोधिक, श्रुत और अवधिज्ञानी जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका
अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे प्रारम्भके दो ज्ञानोंमें
मासपृथक्त्व काल प्रमाण तथा अवधिज्ञानियोंमें वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक
जीवकी अपेक्षा जघन्यसे कुछ अधिक एक पल्योपम तथा उत्कर्षसे एक समय और पूर्व-
कोटिसे अधिक तेत्तीस सागरोपम काल प्रमाण होता है । औदारिक और वैक्रियिक-
शरीरकी परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा
जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ अधिक छयासठ सागरोपम काल प्रमाण होता है ।
औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता ।
एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय व अन्तर्मुहूर्तसे अधिक
तेत्तीस सागरोपम काल प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिके अन्तरकी
प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय
और उत्कर्षसे एक समय व पूर्वकोटिसे अधिक तेत्तीस सागरोपम काल प्रमाण होता है ।
वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा

एगजीवं पडुच्च-जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडितिभागेण देसूणेण सादिरियाणि । आहारतिगं णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण छावड्डिसागरोवमाणि सादिरियाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादण-कदीए णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण उक्कस्सेण णत्थि अंतरं ।

मणपज्जवणाणीसु ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए वेउव्वियसंघादण-परिसादण-कदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । केवलणाणीणमवगदवेदभंगो ।

एवं जहाक्खादसंजदाणं पि वत्तव्वं । संजदाणं मणपज्जवमंगो । णवरि ओरालिय-

ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे कुछ कम एक पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक तीन पल्योपम काल प्रमाण होता है । आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ अधिक छयासठ सागरोपम काल प्रमाण होता है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कर्षसे अन्तर नहीं होता ।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिका तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम एक पूर्वकोटि काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम एक पूर्वकोटि काल प्रमाण होता है । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । केवलज्ञानियोंकी प्ररूपणा अपगतवेदियोंके समान है ।

इसी प्रकार यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये । संयत जीवोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । विशेष इतना है कि औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातन-

संघादण-परिसादणकदीए एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा । [आहारतिणिपदाणं ओघं । णवरि एगजीवं पडुच्च उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा ।] तेजा-कम्मइयदोणिपदा ओघं ।

सामाइयछेदोवट्ठावणसुद्धिसंजदाणं मणपज्जवभंगो । णवरि आहारतिगस्स संजदभंगो । परिहारसुद्धिसंजदेसु सव्वपदाणं णत्थि अंतरं । सुहुमसांपराइयाणं सगपदाणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छम्मासा । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । संजदासंजदाणं मणपज्जवभंगो । असंजदाणमोरालिय-वेउव्वियतिणिपदाणं तेजा-कम्मइयएगपदमोघं ।

चक्खुदंसणीणं तसपज्जत्तभंगो । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । अचक्खुदंसणीसु ओघं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो । केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ।

किण्ण-नील-काउलेस्सिएसु ओरालियसंघादणकदीए ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए णाणगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च

कृतिका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम पूर्वकोटि काल प्रमाण होता है । [आहारकशरीरके तीनों पदोंका अन्तर ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है ।] तैजस और कार्मणशरीरके दोनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत जीवोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । विशेष इतना है कि आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा संयतोंके समान है ।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें सब पदोंका अन्तर नहीं होता । सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धि-संयतोंमें अपने पदोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह मास प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा उनका अन्तर नहीं होता । संयतासंयतोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । असंयत जीवोंमें औदारिक और वैक्रियिकशरीरके तीनों पद तथा तैजस व कार्मणशरीरके एक पदकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

अक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा त्रस पर्याप्तोंके समान है । विशेष इतना है कि उनमें तैजस व कार्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । अचक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनमें तैजस और कार्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । केवलदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा केवलज्ञानियोंके समान है ।

कृष्ण, नील और कापोतलेइयावाले जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका तथा औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना

ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेणं एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि अंतोमुहुत्तं-तिसमयाहियाणि । वेउव्वियसंघादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं तिसमयाहियं ।

तेउ-पम्मलेस्सासु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण मासपुंघत्तं । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण दिवद्धुपलिदोवम सादि-रेयवेसागरोवमाणि, उक्कस्सेण वे-अट्टारससागरोवमाणि सादिरेयाणि अट्टसागरोवमेण तिसमयाहियअंतोमुहुत्तेण च । वेउव्वियसंघादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च

जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय व अन्तर्मुहूर्तसे अधिक क्रमशः तेत्तीस, सत्तरह और सात सागरोपम काल प्रमाण है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे तीन समय अधिक अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण है ।

तेज व पद्म लेख्यावाले जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे मासपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर नहीं होता । औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातन-कृति तथा तैजस व कामर्णशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे क्रमशः डेढ़ पल्योपम व कुछ अधिक दो सागरोपम तथा उत्कर्षसे अर्ध सागरोपम व तीन समय सहित अन्तर्मुहूर्तसे अधिक दो और अठारह सागरोपम काल प्रमाण होता है । वैक्रियिक-शरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना व एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे

जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । आहारतिगस्स णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तं । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं ।

सुक्कलेस्सिएसु ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण तिण्णि समया, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि तिसमयाहिय-अंतोमुहुत्तेण सादिरेयाणि । ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तं । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । ओरालिय-वेउव्विय-परिसादणकदीए तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए तेउभंगो । वेउव्वियसंघादण-संघादण-परिसादणकदीए काउलेस्सियभंगो । आहारतिण्णिपदाणं मणजोगिभंगो ।

भवसिद्धिएसु ओघं । अभवसिद्धिएसु सगपदा ओघं ।

सम्मादिट्ठीणमाभिणिचोहियभंगो । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी ओघं । खइयसम्मादिट्ठीसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण

एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । आहारकशरीरके तीनों पदोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता ।

शुक्ललेइयावाले जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे तीन समय और उत्कर्षसे तीन समय और अन्तर्मुहूर्तसे अधिक तेत्तीस सागरोपम काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर नहीं होता । औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति तथा तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा तेजलेइयावाले जीवोंके समान है । वैक्रियिक-शरीरकी संघातन व संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा कापोतलेइयावाले जीवोंके समान है । आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा मनयोगियोंके समान है ।

अव्यसिद्धिक जीवोंमें अपने पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । अव्यसिद्धिक जीवोंमें अपने पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

सम्यग्दृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा आभिनिबोधिकज्ञानियोंके समान है । विशेष इतना है कि तैजस व कर्मणशरीरकी परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक जीवकी

वासपुधत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमं सादिरेयं, उक्कस्सेण पलिदोवमसद-
पुधत्तं । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए आहारतिगस्स णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । ओरालिय-
संघादणपरिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ,
उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि अंतोमुहुत्तूणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि । [वेउव्विय-] संघा-
दण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्क-
स्सेण तिणिण पलिदोवमाणि पुव्वकोडितिभागेण सादिरेयाणि । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादण-
कदी ओधं ।

वेदगसम्मादिट्ठीसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ ।
उक्कस्सेण मासपुधत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमं सादिरेयं, उक्कस्सेण ओधं ।
दोणं परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण

अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे कुछ अधिक पल्योपम और उत्कर्षसे पल्योपमशतपृथक्त्व
काल प्रमाण होता है । औदारिक च वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति तथा आहारक-
शरीरके तीनों पदोंके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक
जीवकी अपेक्षा उनका अन्तर जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ अधिक तेत्तीस
सागरोपम काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी
प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर
जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटिसे अधिक तेत्तीस सागरोपम
काल प्रमाण होता है । [वैक्रियिकशरीरकी] संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा
नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे
एक समय और उत्कर्षसे पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक तीन पल्योपम काल प्रमाण
होता है । तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा
ओघके समान है ।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी
अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे मासपृथक्त्व काल प्रमाण होता है । एक
जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे कुछ अधिक पल्योपम काल प्रमाण होता है । उत्कृष्ट
अन्तरकी प्ररूपणा ओघके समान है । दोनों शरीरोंकी परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा
नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त

छांवडिसागरोवमाणि देसूणाणि । एवं आहारतिगस्स वि । णवरि णाणाजीवं पडुच्च ओघं । ओरालिय-
संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । [एगजीवं पडुच्च] जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण
तेत्तीससागरोवमाणि तिसमयाहियअंतोमुहुत्तेण सादिरैयाणि । वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं
पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि समया-
हियपुव्वकोडीए सादिरैयाणि । संघादण-परिसादणकदी णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं
पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि । तेजा-कम्मइय-
संघादण-परिसादणकदीए णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं ।

उवसमसम्मादिड्डीसु ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए ओरालिय-तेजा-कम्मइय-
संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण सत्त रादि-
दियाणि । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । वेउव्वियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण
एगसमओ, उक्कस्सेण सत्त रादिदियाणि । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण

और उत्कर्षसे कुछ कम छयासठ सागरोपम काल प्रमाण होता है । इसी प्रकार आहारकशरीरके
तीनों पदोंके भी अन्तरको कहना चाहिये । विशेष इतना है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा उनका
अन्तर ओघके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा
नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । [एक जीवकी अपेक्षा] अन्तर जघन्यसे एक समय
और उत्कर्षसे तीन समय व अन्तर्मुहूर्तसे अधिक तेत्तीस सागरोपम काल प्रमाण होता है ।
वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक
जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे एक समय व पूर्वकोटिसे अधिक
तेत्तीस सागरोपम काल प्रमाण होता है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके
अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर
जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे कुछ कम तीन पल्योपम काल प्रमाण होता है ।
तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तर
नहीं होता ।

उपशमसम्यग्हाट्रियोंमें औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति तथा
औदारिक, तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी
अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे सात रात्रि-दिन प्रमाण होता है । एक जीवकी
अपेक्षा अन्तर नहीं होता । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी
अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे सात रात्रि-दिन प्रमाण होता है । एक जीवकी
अपेक्षा अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है ।

१ अग्रतौ 'समओ एगो' इति पाठः ।

अंतोमुहुत्तं । संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण सत्तं रादिंदियाणि । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अधवा, उक्कस्सेण एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं ।

सम्माभिच्छादिट्ठीसु अप्पप्पणो पदाणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं ।

सासणसम्मादिट्ठीसु ओरालियसंघादणकदीए दोण्हं परिसादणकदीए तेजा-कम्मइय-संघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए वेउ-व्वियसंघादण-संघादणपरिसादणकदीणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

मिच्छादिट्ठीसु ओरालिय-वेउव्वियतिणिणपदा तेजा-कम्मइयएगपदो च ओघं ।

वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे सात रात्रि-दिन प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा उसका अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है । अथवा, एक जीवकी अपेक्षा उत्कर्षसे अन्तर नहीं होता ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अपने अपने पदोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता ।

सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति, दोनों अर्थात् औदारिक व वैक्रियिकशरीरोंकी परिशातनकृति तथा तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । औदारिक-शरीरकी संघातन-परिशातनकृति तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन व संघातन-परिशातन-कृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग काल प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा उनका अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण होता है ।

मिथ्यादृष्टियोंमें औदारिक और वैक्रियिकशरीरके तीनों पदों तथा तैजस व कार्मणशरीरके एक पदके अन्तरकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

सण्णीसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण चउवीसमुहुत्ता । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं तिसमऊणं, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि समयाहियपुव्वकोडीए सादिरेयाणि । ओरालिय-वेउव्विय-परिसादणकदीए पुरिसवेदभंगो । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए पुरिसवेदभंगो । वेउव्विय-संघादणकदीए तसकाइयभंगो । वेउव्वियसंघादणपरिसादणकदीए पुरिसवेदभंगो । आहार-तिण्णिपदाणं पुरिसवेदभंगो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी ओधं ।

असण्णीसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं चदुसमऊणं, उक्कस्सेण पुव्वकोडी चदुसमयाहिया । ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदीए वेउव्वियसंघादण-संघादणपरिसादणकदीणं तिरिक्खभंगो । ओरालिय-संघादण-परिसादणकदीए पंचिंदियतिरिक्खभंगो । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी ओधं ।

आहारएसु ओरालियसंघादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओधं । एगजीवं पडुच्च जह-

संज्ञी जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे चौबीस मुहूर्त प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे तीन समय कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे एक समय व पूर्वकोटिसे अधिक तेतीस सागरोपम काल प्रमाण होता है । औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातन-कृतिके अन्तरकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिके अन्तरकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा त्रसकायिकोंके समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा पुरुष-वेदियोंके समान है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

असंज्ञी जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे चार समय कम क्षुद्रभवग्रहण और उत्कर्षसे चार समय अधिक एक पूर्वकोटि काल प्रमाण होता है । औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृतिका तथा वैक्रियिकशरीरकी संघातन व संघातन-परिशातन-कृतिके अन्तरकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातन-कृतिकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके समान है । तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

आहारकोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे चार समय कम क्षुद्रभव-

ण्णेण खुद्दाभवग्गहणं चटुसंमत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि समज्जणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि । ओरालियपरिसादणकदी वेउव्वियतिणिणपदा ओघं । णवरि जम्हि अणंतो कालो तम्हि अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओसप्पिणी-उस्सप्पिणीओ । ओरालियसंघादण-परिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि अंतोमुहुत्तेण सादिरेयाणि । आहारतिगमोघं । णवरि उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओसप्पिणी-उस्सप्पिणीओ । तेजा-कम्मइयएगपदमोघं ।

अणाहारएसु ओरालिय-तेजा-कम्मइयपरिसादणकदीए णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छम्मासा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण उक्कस्सेण णत्थि अंतरं । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदीए णाणेगजीवं णत्थि अंतरं । एवमंतराणुगमो समत्तो ।

भावाणुगमेण सव्वपदानं सव्वमग्गणासु ओदइओ भावो । कुदो ? सरीरणामकम्मो-दएण सव्वपदसमुप्पत्तीदो । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी खइया । कुदो ? अजोगिम्हि सरीरणामोदयक्खएण तेसिं परिसदणुवलंभादो । एवं भावाणुगमो समत्तो ।

ग्रहण और उत्कर्षसे एक समय कम पूर्वकोटिसे अधिक तेतीस सागरोपम काल प्रमाण होता है । औदारिकशरीरकी परिशातनकृति और वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि जटांपर अनन्त काल कहा है वहांपर अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी प्रमाण काल कहना चाहिये । औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिके अन्तरकी प्ररूपणा नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्तसे अधिक तेतीस सागरोपम काल प्रमाण होता है । आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनका अन्तर उत्कर्षसे अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल प्रमाण होता है । तैजस व कर्मणशरीरके एक पदकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

अनाहारकोंमें औदारिक, तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृतिका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह मास प्रमाण होता है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्य व उत्कर्षसे नहीं होता । तैजस व कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृतिका नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता । इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ ।

भावानुगमकी अपेक्षा सब पदोंके सब मार्गणाओंमें औदयिक भाव होता है, क्योंकि, सब पद शरीरनामकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं । विशेष इतना है कि तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति क्षायिक है, क्योंकि, अयोगकेवली जिनमें शरीरनाम-कर्मके उदयक्षयसे उन दोनों शरीरोंकी क्षीणता पायी जाती है । इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

अप्पाबहुआणुगमो सत्थाण-परत्थाणप्पाबहुअभेदेण दुविहो । तत्थ सत्थाणप्पाबहुआणु-
गमेण दुविहो णिद्दिसो ओघेणादेसेण य । तत्थोघेण सव्वत्थोवा ओरालियपरिसादणकदी ।
कुदो ? असंखेज्जसेडिमेत्तादो । संघादणकदी अणंतगुणा, सव्वजीवरासीए असंखेज्जदि-
भागत्तादो । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, सव्वजीवरासीए असंखेज्जाभागत्तादो' ।

सव्वत्थोवा वेउव्वियपरिसादणकदी, असंखेज्जघणंगुलमेत्तसेडिपरिमाणादो । संघादण-
कदी असंखेज्जगुणा, सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्तसेडिपरिमाणात्तादो । संघादण-परिसादणकदी
असंखेज्जगुणा, सगुवक्कमणकालसंचिदासेसरासिग्गहणादो ।

सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी, एगसमयसंचिदत्तादो । परिसादणकदी संखेज्जगुणा,
अंतोमुहुत्तसंचिदत्तादो । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया मूलसरीरमपविस्सिय कालं
करेमाणजीवमेत्तेण ।

सव्वत्थोवा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी, संखेज्जअजोगिजीवग्गहणादो । संघादण-

अल्पबहुत्वानुगम स्वस्थान और परस्थान अल्पबहुत्वके भेदसे दो प्रकारका है ।
उनमेंसे स्वस्थान अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— ओघनिर्देश और
आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे
स्तोक हैं, क्योंकि, वे असंख्यात जगश्रेणी मात्र हैं । इनसे उक्त शरीरकी संघातनकृति युक्त
जीव अनन्तगुणे हैं, क्योंकि, वे सब जीवराशिके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । उनसे उक्त
शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे सब जीवराशिके
असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं ।

वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे
असंख्यात घनांगुल मात्र जगश्रेणियोंके बराबर हैं । इनसे उक्त शरीरकी संघातनकृति
युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे जगश्रेणीके असंख्यातवें भाग मात्र जगश्रेणियोंके
बराबर हैं । इनसे उक्त शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं,
क्योंकि, इनमें अपने उपक्रमणकालमें संचित समस्त राशिका ग्रहण है ।

आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे एक समयमें
संचित हैं । इनसे उक्त शरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे
अन्तर्मुहूर्तमें संचित हैं । इनसे उक्त शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव मूल-
शरीरमें प्रवेश न कर मृत्युको प्राप्त होनेवाले जीवों मात्रसे विशेष अधिक हैं ।

तैजस और कार्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि,
इनमें केवल संख्यात अयोगिकेवली जीवोंका ग्रहण है । इनसे उक्त दोनों शरीरोंकी संघातन-

परिसादनकदी अणंतगुणा, अणंतरासिगहणादो ।

आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु सव्वत्थोवा वेउव्वियसंघादनकदी, णेरइयदव्वं सगु-
वक्कमणकालेणोवट्ठिदेगखंडपमाणत्तादो । संघादन-परिसादनकदी असंखेज्जगुणा, णेरइयाण-
मसंखेज्जाभागपमाणत्तादो । तेजा-कम्मइयकदीए^१ अप्पाबहुगं णत्थि, एगपदत्तादो । एवं सव्व-
णेरइय-सव्वदेवाणं च वत्तव्वं । णवरि सव्वट्ठे सव्वत्थोवा वेउव्वियसंघादनकदी, संखेज्जजीवाणं
चेव तत्थुवक्कम्मणुवलंभादो । संघादन-परिसादनकदी संखेज्जगुणा, संखेज्जरासित्तादो ।

तिरिक्खेसु ओरालियतिणिणपदा ओघं, समाणकालत्तादो । सव्वत्थोवा वेउव्विय-
संघादनकदी, सगोघरासिमावलियाए असंखेज्जदिभागेण सगुवक्कमणकालेण खंडिदेगखंड-
पमाणत्तादो । परिसादनकदी असंखेज्जगुणा, अंतोमुहुत्तसंचिदत्तादो । संघादन-परिसादनकदी
विसेसाहिया मूलसरीरमपविस्सिय कयकालजीवेहि । तेजा-कम्मइयकदीए^१ णत्थि अप्पाबहुगं,
एगपदत्तादो ।

परिशातनकृति युक्त जीव अनन्तगुणे हैं, क्योंकि, इनमें अनन्त राशिका ग्रहण है ।

आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त
जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे नारक द्रव्यको अपने उपक्रमणकालसे अपवर्तित करने
पर प्राप्त हुए एक खण्डके बराबर हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव
असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे नारकियोंके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं ।

तैजस व कार्मणशरीरकी अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, उनका यहां संघातन-
परिशातनकृति रूप एक ही पद है ।

इसी प्रकार सब नारकी और सब देवोंके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि
सर्वार्थसिद्धि विमानमें सबसे स्तोक वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव हैं, क्योंकि,
वहां संख्यात जीवोंकी ही उत्पत्ति पायी जाती है । उनसे उक्त शरीरकी संघातन-परिशातन-
कृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे संख्यात राशि स्वरूप हैं ।

तिर्यचोंमें औदारिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है, क्योंकि,
उनका काल समान है । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं,
क्योंकि, वे अपनी ओघराशिको आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र अपने उपक्रमणकालसे
खण्डित करनेपर प्राप्त हुए एक भाग प्रमाण हैं । इनसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति
युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे अन्तर्मुहूर्तमें संचित हुए हैं । इनसे उसकी
संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं, क्योंकि, मूल शरीरमें प्रवेश न कर
मरणको प्राप्त हुए जीवोंकी अपेक्षा यह संख्या विशेष अधिक ही प्राप्त होती है । तैजस
और कार्मणशरीरके आश्रित अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, यहां उनका संघातन-परिशातन-
कृति रूप एक ही पद है ।

पंचिंदियतिरिक्खतिगम्मि सव्वत्थोवा ओरालियपरिसादणकदी, असंखेज्जघणंगुलमेत्त-
सेडिपमाणत्तादो । संघादणकदी असंखेज्जगुणा, सग-सगुवक्कमणकालोवट्टिसग-सगोघरासि-
ग्गहणादो । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, सगरासिस्स असंखेज्जाणं भागाणं
ग्गहणादो । वेउव्वियतिगं तिरिक्खोघं, तत्थ पंचिंदियरासिस्स पाधणिण्यादो ।

पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तेसु सव्वत्थोवा ओरालियसंघादणकदी । संघादण-परिसादण-
कदी असंखेज्जगुणा । कारणं सुगमं ।

मणुस्सेसु सव्वत्थोवा ओरालियपरिसादणकदी, संखेज्जत्तादो । संघादणकदी असंखेज्ज-
गुणा, अपज्जत्तेसु उपज्जमाणासंखेज्जजीवग्गहणादो । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा,
सयलमणुस्सजीवग्गहणादो । सव्वत्थोवा वेउव्वियसंघादणकदी, संखेज्जत्तादो । परिसादणकदी
संखेज्जगुणा, अंतोमुहुत्तसंचिदत्तादो । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया मूलसरीरमपविसिस्सय
मदजीवेहि । सव्वत्थोवा आहारयसंघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा । संघादण-

पंचेन्द्रिय तिर्यंच आदिक तीनमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव
सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे असंख्यात घनांगुल मात्र जगत्त्रेणियोंके बराबर हैं । इनसे
उसकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, अपने अपने उपक्रमणकालसे
अपवर्तित अपनी अपनी ओघराशिका यहां ग्रहण है । इनसे उसकी संघातन-परिशातन-
कृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, यहां अपनी राशिके असंख्यात बहुभागोंका
ग्रहण है । वैकृतिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा तिर्यंच ओघके समान है । क्योंकि, उनमें
पंचेन्द्रिय राशिकी प्रधानता है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे
स्तोक हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । इसका
कारण सुगम है ।

मनुष्योंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि,
वे संख्यात हैं । इनसे उसकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि,
अपर्याप्तोंमें उत्पन्न होनेवाले असंख्यात जीवोंका यहां ग्रहण है । इनसे उसकी संघातन-
परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, इनमें समस्त मनुष्योंका ग्रहण है ।

वैकृतिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे संख्यात
हैं । इनसे उसकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे अन्तर्मुहूर्तमें
संचित हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव मूल शरीरमें प्रवेश न कर
मृत्युप्राप्त जीवोंसे विशेष अधिक हैं ।

आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उनकी परि-
शातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव

परिसादनकदी विसेसाहिया । कारणं सुगमं । सव्वत्थोवा तेजा-कम्मइयपरिसादनकदी, संखेज्जत्तादो । संघादन-परिसादनकदी असंखेज्जगुणा, अपज्जत्तजीवाणं पाधणियादो ।

मणुसपज्जत्त-मणुसणीसु सव्वत्थोवा ओरालियपरिसादनकदी, विउव्वमाणजीवाणं बहु-आणमसंभवादो । संघादनकदी संखेज्जगुणा, मणुसपज्जत्तएसु उप्पज्जमाणजीवाणं बहुत्तुवलंभादो । संघादन-परिसादनकदी संखेज्जगुणा । सुगमं । वेउव्विय-आहारतिणिपदानं मणुसभंगो ।

सव्वत्थोवा तेजा-कम्मइयपरिसादनकदी । संघादन-परिसादनकदी संखेज्जगुणा । सुगमं । मणुसणीसु आहारतिगं णत्थि, अच्चंताभावादो । मणुसअपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो ।

एइंदिय-बादेरइंदियाणं तेसिं पज्जत्ताणं च तिरिक्खभंगो । बादेरइंदियअपज्जत्त-सव्व-सुहुमेइंदिय-सव्वविगलेंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त-सव्वपुढवीकाइय-सव्वआउकाइय-बादरतेउ-

विशेष अधिक हैं । कारण इसका सुगम है ।

तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे संख्यात हैं । इनसे संघातन परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, इनमें अपर्याप्त जीवोंकी प्रधानता है ।

मनुष्य पर्याप्तों और मनुष्यनियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, इनमें विक्रिया करनेवाले बहुत जीवोंकी सम्भावना नहीं है । इनसे उसकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, मनुष्य पर्याप्तोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव बहुत पाये हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यात-गुणे हैं । [कारण] सुगम है ।

वैकित्तिक और आहारकशरीरके तीन पदोंकी प्ररूपणा सामान्य मनुष्योंके समान है ।

तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उजकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । कारण सुगम है । मनुष्यनियोंमें आहारकशरीरके तीनों पद नहीं होते, क्योंकि, इनमें उनका अत्यन्ताभाव है ।

मनुष्य अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान है ।

एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्तोंकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक; बादर तेजकायिक अपर्याप्त; सप्त सूक्ष्म तेजकायिक,

काइयअपज्जत्त-सव्वसुहुमतेउकाइय-वाउकाइय-सव्ववणप्फदि-सव्वणिगोद-सव्वबादरवणप्फदि-
पत्तेयसरीर-तसअपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

पंचिंदियदुग्गमि सव्वत्थोवा ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदी, तिरिक्खेसु विउव्व-
माणं मूलसरीरं पविस्समाणं च गहणादो । संघादणकदी असंखेज्जगुणा, तिरिक्ख-
देवेसुप्पज्जमाणजीवगहणादो । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । सुगमं । आहार-
तिगमोघं । तेजा-कम्मइयदोपदाणं मणुसभंगो ।

तेउकाइय-वाउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउकाइयाणं तेसिं पज्जत्ताणं च पंचिंदिय-
तिरिक्खभंगो । तसदुग्गस्स पंचिंदियदुग्गभंगो ।

पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु सव्वत्थोवा ओरालिय-वेउव्वियपरिसादणकदी । संघादण-
परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, देवाणं संखेज्जभागत्तादो । सव्वत्थोवा आहारपरिसादणकदी ।
संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । सुगमं ।

कायजोगीसु ओरालिय-वेउव्विय-आहारतिणिणपदा ओघं । ओरालियकायजोगीसु

वायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, सब बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर
और ब्रह्म अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है ।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंमें औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति
युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, तिर्यचोंमें विक्रिया करनेवालों और मूल शरीरमें
प्रवेश करनेवालोंका ग्रहण है । इनसे उक्त दोनों शरीरोंकी संघातनकृति युक्त जीव
असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, यहां तिर्यचों व देवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंका ग्रहण है ।
इनसे उनकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । कारण सुगम है ।
आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । तेजस और कर्मणशरीरके
दो पदोंकी प्ररूपणा मनुष्योंके समान है ।

तेजकायिक, वायुकायिक, बादर तेजकायिक, बादर वायुकायिक तथा उनके
पर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । ब्रह्म और ब्रह्म पर्याप्तोंकी प्ररूपणा
क्रमशः पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंके समान है ।

पांच मनयोगी और पांच वचनयोगियोंमें औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी
परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उनकी संघातन-परिशातनकृति युक्त
जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे देवोंके संख्यातवें भाग हैं । आहारकशरीरकी परि-
शातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव
विशेष अधिक हैं । कारण सुगम है ।

काययोगियोंमें औदारिक, वैक्रियिक और आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा
ओघके समान है । औदारिककाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव

सव्वत्थोवा ओरालियपरिसादणकदी । संघादण-परिसादणकदी अणंतगुणा । वेउव्वियतिणिण-पदाणं तिरिक्खमंगो । आहारम्मि णत्थि अप्पाबहुगमेगपदत्तादो । ओरालियमिस्सकायजोगीसु सव्वत्थोवा ओरालियसंघादणकदी, अपज्जत्तएसु एगसमयसंचिदत्तादो । संघादण-परिसादण-कदी असंखेज्जगुणा, संघादणजीववदिरित्तअसेसापज्जत्तजीवगहणादो' ।

वेउव्विय-आहारकायजोगीसु णत्थि अप्पाबहुगं, एगपदत्तादो । वेउव्वियमिस्सकाय-जोगीसु सव्वत्थोवा वेउव्वियसंघादणकदी । [संघादण-] परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । सुगमं । आहारमिस्सकायजोगीसु सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी । संघादण-परिसादणकदी संखेज्जगुणा । सेसपदाणं णत्थि अप्पाबहुगं, एगत्तादो । कम्मइयकायजोगीसु णत्थि अप्पाबहुगं, एगपदत्तादो ।

इत्थि-पुरिसवेदाणं अप्पण्णो पदाणं तसमंगो । णउंसयवेदेसु सगपदा तिरिक्खोघं । अवगदवेदेसु सव्वत्थोवा ओरालिय-तैजा-कम्मइयपरिसादणकदी । संघादण-परिसादणकदी

सबसे स्तोक हैं । इनसे उसकी संघातन परिशातनकृति युक्त जीव अनन्तगुणे हैं । वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा तिर्यंचोंके समान है । आहारकशरीरके आश्रित अल्पबहुत्व नहीं हैं, क्योंकि, उसका यहां एक ही पद है ।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे अपर्याप्तोंमें एक समय मात्रमें संचित हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, इनमें संघातनकृति युक्त जीवोंको छोड़कर शेष समस्त अपर्याप्त जीवोंका ग्रहण है ।

वैक्रियिक और आहारककाययोगियोंमें अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, वे एक एक पदसे सहित हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । यह सुगम है । आहारकमिश्रकाययोगियोंमें आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव-सबसे स्तोक हैं । उनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । शेष पदोंके अल्प-बहुत्व नहीं है, क्योंकि, वे एक एक पद हैं । कर्मणकाययोगियोंमें अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, उनमें एक ही पद है ।

स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें अपने अपने पदोंकी प्ररूपणा त्रस जीवोंके समान है । नपुंसकवेदियोंमें अपने पदोंकी प्ररूपणा तिर्यंच ओघके समान है । अपगतवेदियोंमें औदारिक, तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे

संखेज्जगुणा । सुगमं ।

कोधादिचदुक्कम्मि सगपदा ओघं । अकसाईणमवगदवेदभंगो । एवं केवलणाणि-
केवलदंसणि-जहाक्खादसंजदाणं ।

मदि-सुदअण्णाणीसु सगपदा ओघं । एवमसंजद-अभवसिद्धि-मिच्छाइड्ढि-असण्णीणं
च वत्तव्वं । विभंगणाणीसु सव्वत्थोवा ओरालियपरिसादणकदी । संघादण-परिसादणकदी
असंखेज्जगुणा, असंखेज्जघणंगुलमेत्तसेडीए पमाणत्तादो । सव्वत्थोवा वेउव्वियेसंघादणकदी,
देवेषु अपज्जत्तकाले विभंगणाणाभावेण विभंगणाणेण सह विउव्वमाणतिरिक्ख-मणुस्स-
ग्गहणादो । परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, अंतोमुहुत्तसंचिदत्तादो । संघादण-परिसादणकदी
असंखेज्जगुणा, पहाणीकयदेवरासित्तादो ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु सव्वत्थोवा ओरालियसंघादणकदी, संखेज्जत्तादो ।
परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, सम्मादिडीसु असंखेज्जाणं तिरिक्खेसु विउव्वमाणं भुवल्भादो ।

उनकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । यह कथन सुगम है ।

क्रोधादि चार कपाय युक्त जीवोंमें अपने पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ।
अकपायी जीवोंकी प्ररूपणा अपगतवेदियोंके समान है । इसी प्रकार केवलज्ञानी, केवल-
दर्शनी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

मति व श्रुत अज्ञानियोंमें अपने पद ओघके समान हैं । इसी प्रकार असंयत,
अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके भी कहना चाहिये । विभंगज्ञानियोंमें औदा-
रिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातन-
कृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे असंख्यात घनांगुल मात्र जगश्रेणियोंके बराबर
हैं । वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, देवोंमें अपर्याप्त-
कालमें विभंगज्ञानका अभाव होनेसे विभंगज्ञानके साथ विक्रिया करनेवाले तिर्यंच और
मनुष्योंका यहां ग्रहण है । इनसे उसकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं,
क्योंकि, वे अन्तर्मुहूर्त कालमें संचित हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव
असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, इनमें देवराशिकी प्रधानता है ।

आभिनिबोधिक, श्रुत और अवधिज्ञानी जीवोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति
युक्त जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे संख्यात हैं । इनसे उसकी परिशातनकृति युक्त
जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, सम्यग्दृष्टियोंमें असंख्यात जीव तिर्यंचोंमें विक्रिया करने-

संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । सुगमं । वेउव्विय-आहारतिगमोघं ।

मणपज्जवणाणीसु सव्वत्थोवा ओरालियपरिसादणकदी । संघादण-परिसादणकदी संखेज्जगुणा । वेउव्वियतिगस्स मणुसपज्जत्तभंगो ।

संजदेसु ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं सव्वत्थोवा परिसादणकदी । संघादण-परिसादण-कदी संखेज्जगुणा । वेउव्विय-आहारतिगस्स मणुसपज्जत्तभंगो । एवं सामाइयछेदोवट्ठावणसुद्धि-संजदाणं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । परिहारसुद्धिसंजद-सुहुमसांपराइयसुद्धि-संजदेसु णत्थि अप्पाबहुगं, तत्थ वेउव्विय-आहारतिगाभावेण एगपदत्तादो । संजदासंजदेसु ओरालियदोणं पदाणं विभंगभंगो । वेउव्वियतिणिणपदाणं तिरिक्खभंगो ।

चक्खुदंसणीणं तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदंसणी ओघं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादण-कदी णत्थि । ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो । किण्ण-णील-काउलेस्सिएसु ओरालियतिण्णमोघं ।

वाले पाये जाते हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । इसका कारण सुगम है । वैक्रियिक और आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा मनुष्य पर्याप्तोंके समान है ।

संयतोंमें औदारिक, तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उनकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिक और आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा मनुष्य पर्याप्तोंके समान है । इसी प्रकार सामांयिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि उनमें तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती ।

परिहारशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, उनमें वैक्रियिक और आहारकशरीरके तीनों पदोंका अभाव होनेसे औदारिक, तैजस और कर्मणशरीरका संघातन-परिशातन रूप केवल एक पद होता है । संयतासंयतोंमें औदारिकशरीरके दो पदोंकी प्ररूपणा विभंगज्ञानियोंके समान है । वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा तिर्यचोंके समान है ।

चक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा त्रस पर्याप्तोंके समान है । अचक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनमें तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ।

कृष्ण, नील और कापोत लेइयावाले जीवोंमें औदारिकशरीरके तीनों पदोंकी

वेउव्वियसरीरस्स सव्वत्थोवा परिसादणकदी । संघादणकदी असंखेज्जगुणा । संघादण-परिसादण-
कदी असंखेज्जगुणा । तेउलेस्सिएसु ओरालियतिणिणपदाणमाहारतिणिणपदाणं च आभिणिबोहिय-
भंगो । वेउव्वियतिणिणपदाणं विभंगभंगो । एवं पम्मलेस्साणं । णवरि^१ वेउव्वियतिणिणपदाणं
तिरिक्खभंगो, सणक्कुमार-माहिंददेवेहिंतो तिरिक्खपम्मलेस्सियजीवाणं पदरस्स असंखेज्जदि-
भागाणं पाहणियादो । सुक्काए सगसव्वपदाणं तेउलेस्सियभंगो । भवसिद्धियाणं ओघभंगो ।

सम्माइट्ठीणमाभिणिबोहियभंगो । णवरि तेजा-कम्मइयसरीराणं तसभंगो । वेदगसम्मा-
दिट्ठीणं आभिणिबोहियभंगो । खइयसम्मादिट्ठीसु सव्वत्थोवा ओरालिय-वेउव्वियसंघादणकदी,
संखेज्जत्तादो एगसमयसंचिदत्तादो । परिसादणकदी असंखेज्जगुणा, अंतोमुहुत्तसंचिदासंखेज्जरासि
त्तादो । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । सुगमं । आहार-तेजा-कम्मइयपदाणं
सम्माइट्ठिभंगो ।

प्ररूपणा ओघके समान है । वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं ।
इनसे उसकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे उसकी संघातन-परिशातन-
कृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं ।

तेजलेइयावाले जीवोंमें औदारिकशरीरके तीनों पद तथा आहारकशरीरके तीनों
पदोंकी प्ररूपणा आभिनिबोधिकज्ञानियोंके समान है । वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी
प्ररूपणा विभंगज्ञानियोंके समान है । इसी प्रकार पदमलेइयावाले जीवोंके कहना
चाहिये । विशेष इतना है कि उनमें वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा
तिर्यंचोंके समान है, क्योंकि, सनत्कुमार और माहेन्द्रकल्पके देवोंकी अपेक्षा यहां जग-
प्रतरके असंख्यातवें भाग मात्र तिर्यंच पदमलेइयावाले जीवोंकी प्रघातना है ।

शुक्ललेइयामें अपने सब पदोंकी प्ररूपणा तेजलेइयावाले जीवोंके समान है ।
भव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

सम्यग्दृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा आभिनिबोधिकज्ञानियोंके समान है । विशेष इतना
है कि उनमें तैजस और कर्मणशरीरके दोनों पदोंकी प्ररूपणा त्रस जीवोंके समान है ।
वेदकसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा आभिनिबोधिकज्ञानियोंके समान है ।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिक व वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव
सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे संख्यात व एक समय संचित हैं । इनसे उनकी परिशातन
कृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे अन्तर्मुहूर्त संचित असंख्यात राशि रूप
हैं । इनसे उनकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । कारण इसका
सुगम है । आहारक, तैजस और कर्मणशरीरके पदोंकी प्ररूपणा सम्यग्दृष्टियोंके समान है ।

उवसमसम्माइड्डीसु ओरालियदोपदाणं संजदासंजदभंगो । वेउव्वियतिण्णिपदाणं खइयसम्माइड्डीभंगो । एवं सम्मामिच्छाइड्डीणं । सासणे सव्वत्थोवा ओरालिय-वेउव्वियपरि-सादणकदी । संघादणकदी असंखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा ।

सण्णीणं पुरिसभंगो । आहारएसु ओधं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । अणाहारएसु सव्वत्थोवा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी । संघादण-परिसादणकदी अणंतगुणा । एवं सत्थाणप्पावहुगं समत्तं ।

परत्थाणे पयदं । सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी संखेज्जगुणा । वेउव्विय-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । वेउव्वियसंघादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियसंघादणकदी

उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिकशरीरके दो पदोंकी प्ररूपणा संयतासंयतोंके समान है । वैक्रियिकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके समान है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये ।

सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिक और वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उनकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे उनकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं ।

संज्ञी जीवोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । आहारक जीवोंमें अपने पदोंकी प्ररूपणा ओधके समान है । विशेष इतना है कि उनमें तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । अनाहारक जीवोंमें तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उनकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव अनन्तगुणे हैं । इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

परस्थान अल्पबहुत्व प्रकृत है । आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे इसकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे इसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिक-

अणंतगुणा । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । केत्तियमेत्तो विसेसो ? वेउव्विय-आहारतिण्णपदसहिदओरालियसंघादण-ओरालिय-तेजा-कम्मइयपरिसादणमेत्तो' ।

आदेसेण णेरइएसु सव्वत्थोवा वेउव्वियसंघादणकदी । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । एवं सव्वणेरइय-सव्व-देवेसु । णवरि सव्वट्ठे संखेज्जगुणं कायव्वं ।

तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा वेउव्वियसंघादणकदी । परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? वेउव्वियसंघादण-परिसादणमेत्तेण' । संघादणकदी अणंतगुणा । संघादण-परिसादणकदी-असंखेज्ज-

शरीरकी संघातनकृति युक्त जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

शंका—वह विशेष कितना है ?

समाधान—वह विशेष वैक्रियिक व आहारकशरीरके तीनों पदोंसे सहित औदारिकशरीरकी संघातन तथा औदारिक, तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंके बराबर है ।

आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे-स्तोक हैं । उनसे इसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार सब नारकियों और सब देवोंमें कहना चाहिये । विशेष इतना है कि सर्वार्थसिद्धि विमानमें संख्यातगुणा करना चाहिये ।

तिर्यंचोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

शंका—कितने मात्र विशेषसे अधिक हैं ?

समाधान—वैक्रियिकशरीरकी संघातन और परिशातनकृति युक्त जीवों मात्र विशेषसे वे अधिक हैं ।

औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीवोंसे उसकी संघातनकृति युक्त जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे इसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं ।

१ प्रतिष्ठ ' -सहिदओरालियसंघादणकम्मइयमेत्तो ' इति पाठः ।

२ अग्रतौ ' संघादण० मेत्तेण ', आ-काप्रत्योः ' संघादणमेत्तेण ' इति पाठः ।

गुणा । तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदी विसेसाहिया । एवं पंचिंदियतिरिक्खतिगस्स । णवरि जम्हि अणंतगुणं तम्हि असंखेज्जगुणमिदि वत्तव्वं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तेसु सव्वत्थोवा ओरालियसंघादणकदी । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

मणुसेसु सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा । [संघादणपरिसादणकदी विसेसाहिया । तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी संखेज्जगुणा ।] वेउव्विय-संघादणकदी संखेज्जगुणा । परिसादणकदी संखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । संघादणकदी असंखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । एवं मणुस-पज्जत्तस्स वि । णवरि जम्हि असंखेज्जगुणं तम्हि संखेज्जगुणं कादव्वं । मणुसिणीसु सव्वत्थोवा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी । वेउव्वियसंघादणकदी संखेज्जगुणा । परिसादणकदी

उनसें तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच आदि तीनके कहना चाहिये । विशेष इतना है कि जहांपर अनन्तगुणा कहा है वहांपर असंख्यातगुणा ऐसा कहना चाहिये । पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

मनुष्योंमें आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । [उनसे उसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे तैजस और कार्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं ।] उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे उसीकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि जहां असंख्यातगुणा है वहां संख्यातगुणा करना चाहिये ।

मनुष्यानियोंमें तैजस और कार्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे

संखेज्जगुणा । संघादणपरिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । संघादणकदी संखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । मणुस-अपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

एइंदिय-चादरेइंदियाणं तेसिं पज्जत्ताणं च तिरिक्खोघं । चादरेइंदियअपज्जत्त-सव्वसुहुम-सव्वविगलेंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त-सव्वपुढवीकाइय-सव्वआउकाइय-चादरेउकाइय-चादर-वाउकाइयअपज्जत्त-सव्वसुहुमतेउकाइय-वाउकाइय-सव्ववणप्फदि-सव्वणिगोद-सव्ववणप्फदि-पत्तेयसरीर-तसअपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचिंदियाणं^१ ओघं । णवरि जम्हि अणंतगुणं तम्हि असंखेज्जगुणं कायव्वं । अधवा, वेउव्वियसंघादणादो ओरालियसंघादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा ।

पंचिंदियपज्जत्तएसु सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा ।

उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे उसीकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । मनुष्य अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान है ।

एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्तोंकी प्ररूपणा तिर्यंच ओघके समान है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, वादर तेजकायिक व वादर वायुकायिक अपर्याप्त, सब सूक्ष्म तेजकायिक, सब सूक्ष्म वायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, सब वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा त्रस अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान है । पंचेन्द्रियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि जहांपर अनन्तगुणा है वहांपर असंख्यातगुणा करना चाहिये । अथवा, उनमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीवोंसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं ।

पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृतियुक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परि-

१ प्रतिष्ठु ' मणुसअसण्णि० पंचिंदिय- ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठु ' वाउ० अण्ण० ' इति पाठः ।

३ अ-आप्रत्योः ' पंचि० ', काप्रतौ ' पंचिंदिय० ' इति पाठः ।

संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी संखेज्जगुणा । वेउव्विय-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । वेउव्वियसंघादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियसंघादणकदी संखेज्जगुणा । वेउव्विय-संघादणपरिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियसंघादणपरिसादणकदी संखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

तेउकाइय-वाउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउकाइयपज्जत्ताणं पंचिदियतिरिक्ख-भंगो । तसदुगस्स पंचिदियदुगभंगो ।

पंचमणजोगि-तिणिवचिजोगीसु सव्वत्थेवा आहारपरिसादणकदी । संघादण-परिसादण-कदी विसेसाहिया । वेउव्वियपरिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी संखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

शातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

तेजकायिक, वायुकायिक, बादर तेजकायिक और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । त्रस और त्रस पर्याप्तोंकी प्ररूपणा क्रमशः पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंके समान है ।

पांच मनयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें आहारकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

वचिजोगि-असच्चमोसवचिजोगीसु सव्वत्थोवा आहारपरिसादणकदी । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । वेउव्वियपरिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी संखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

कायजोगी ओधं । णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । ओरालियकायजोगीसु सव्वत्थोवा आहारपरिसादणकदी । वेउव्वियसंघादणमसंखेज्जगुणं । परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालिय-संघादण-परिसादणकदी अणंतगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियमिस्सकायजोगीसु पंचिदियअपज्जत्तभंगो । वेउव्वियकायजोगीसु णत्थि अप्पाबहुगं, तिण्णिपदाणं सारिच्छियादो । वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं णारगभंगो ।

आहारकायजोगीसु णत्थि अप्पाबहुगं, चटुण्हं पदाणं सारिच्छियादो । आहारमिस्सकायजोगीसु सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी । संघादण-परिसादणकदी संखेज्जगुणा । ओरा-

वचनयोगी और असत्य-मृपावचनयोगी जीवोंमें आहारकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे इसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

काययोगी जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेष इतना है कि उनमें तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । औदारिककाययोगियोंमें आहारकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें अपने पदोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है । वैक्रियिककाययोगियोंमें अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, उनमें तीनों पद सदृश हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा नारकियोंके समान है ।

आहारककाययोगियोंमें अल्पबहुत्व नहीं हैं, क्योंकि, उनमें चारों पद समान हैं । आहारमिश्रकाययोगियोंमें आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी

लियपरिसादणकदी तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी तिणिण वि सरिसा विसेसाहिया ।

कम्मइयकायजोगीसु सव्वत्थोवा ओरालियपरिसादणकदी । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी अणंतगुणा ।

इत्थिवेदेसु सव्वत्थोवा वेउव्वियपरिसादणकदी । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियसंघादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादणकदी संखेज्जगुणा । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी संखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदी विसेसाहिया ।

पुरिसवेदेसु सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । वेउव्वियपरिसादणकदी संखेज्जगुणा । सेसस्स इत्थिवेदभंगो । णउंसयवेदा तिरिक्खोघं ।

अवगदवेदेसु सव्वत्थोवा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी । ओरालियपरिसादणकदी

परिशातनकृति तथा तैजस व कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति, इन तीनों पदोंसे युक्त जीव सट्ठश विशेष अधिक हैं ।

कार्मणकाययोगियोंमें औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव अनन्तगुणे हैं ।

खीवेदियोंमें वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कार्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

पुरुषवेदियोंमें आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । शेष पदोंकी प्ररूपणा खीवेदियोंके समान है । नपुंसकवेदियोंकी प्ररूपणा सामान्य तिर्यचोंके समान है ।

अपगतवेदियोंमें तैजस और कार्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे

विसेसाहिया । संघादण-परिसादणकदी संखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । चदुण्हं कसायाणं कायजोगिभंगो । अकसाईणमवगदवेदभंगो ।

मदि-सुदअण्णाणीसु सव्वत्थोवा वेउव्वियपरिसादणकदी । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । सेसपदा ओधं । विभंगणाणीसु सव्वत्थोवा वेउव्वियसंघादणकदी । परिसादण-कदी असंखेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । संघादणपरिसादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादणपरिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी । परिसादणकदी [संखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी] विसेसाहिया । ओरालियसंघादणकदी संखेज्जगुणा । वेउव्वियपरिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया ।

उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मण-शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । चार कपाय युक्त जीवोंकी प्ररूपणा काययोगियोंके समान है । अकपायी जीवोंकी प्ररूपणा अपगतवेदियोंके समान है ।

मति च श्रुत अज्ञानी जीवोंमें वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । शेष पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ।

विभंगज्ञानियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

आभिनिबोधिक, श्रुत और अवधिज्ञानी जीवोंमें आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे इसीकी परिशातनकृति युक्त जीव [संख्यातगुणे हैं । उनसे इसकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव] विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष

वेउव्वियसंघादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियसंघादणपरिसादणकदी असंखेज्जगुणा ।
वेउव्वियसंघादणपरिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदी
विसेसाहिया ।

मणपज्जवणाणीसु सव्वत्थोवा वेउव्वियसंघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा ।
संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । संघादण-
परिसादणकदी संखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादणपरिसादणकदी विसेसाहिया ।

केवलणाणीणमवगदवेदभंगो । एवं केवलदंसणि^१-जहाक्खादसंजदाणं । संजदाणं
मणुसपज्जत्तभंगो । णवरि ओरालियसंघादणं णत्थि । एवं सामाइय-छेदोवट्ठावणसुद्धिसंजदाणं ।
णवरि तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी णत्थि । परिहारसुद्धिसंजद-सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु
तिणिण वि पदा सरिसा । संजदासंजदाणं मणपज्जवभंगो । णवरि विसेसो जम्हि संखेज्ज-

अधिक हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे
औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिक-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मण-
शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक
हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-
परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त
जीव विशेष अधिक हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे
हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष
अधिक हैं ।

केवलज्ञानी जीवोंकी प्ररूपणा अपगतवेदियोंके समान है । इसी प्रकार केवल-
दर्शनी और यथाख्यातसंयत जीवोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । संयत जीवोंकी प्ररूपणा
मनुष्य पर्याप्तोंके समान है । विशेष इतना है कि उनमें औदारिकशरीरकी संघातनकृति
नहीं होती । इसी प्रकार सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।
विशेष इतना है कि उनमें तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति नहीं होती । परि-
हारशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत जीवोंमें तीनों ही पद सद्दश हैं । संयता-
संयत जीवोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । विशेष इतना है कि जहां संख्यात-

१-इतः प्रारम्भ-विसेसाहिया-पर्यन्तोऽयमधस्तनः प्रबन्धः काप्रतौ नोपलभ्यते ।

२-प्रतिषु 'दंसणीओ' इति पाठः ।

गुणं तम्हि असंखेज्जगुणं कायव्वं । असंजदाणं मदिअण्णाणिभंगो ।

चक्खुदंसणीणं तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदंसणीणं कोधभंगो । ओहिदंसणीणं ओहि-
णाणिभंगो । किण्ण-णील-काउलेस्सियाणं असंजदभंगो । तेउलेस्सिएसु^१ सव्वत्थोवा आहार-
संघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । ओरा-
लियंसंघादणकदी संखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादणकदी असंखेज्जगुणा । परिसादणकदी असं-
खेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी असं-
खेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी संखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादण-
कदी विसेसाहिया ।

पम्मलेस्सिएसु^२ सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा । संघा-
दण-परिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियसंघादणकदी संखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-

गुणों कहा गया है वहां असंख्यातगुणों करना चाहिये । असंयत जीवोंकी प्ररूपणा मति-
अज्ञानियोंके समान है ।

चक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा त्रस पर्याप्तोंके समान है । अचक्षुदर्शनी जीवोंकी
प्ररूपणा क्रोधकषायी जीवोंके समान है । अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके
समान है । कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके समान
है । तेजलेश्यावालोंमें आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे
उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति
युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यात-
गुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे
उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातन-
कृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति
युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त
जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त
जीव विशेष अधिक हैं ।

पद्मलेश्यावाले जीवोंमें आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक
हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-
परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त
जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं ।

कदी असंखेज्जगुणा । परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइय-संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

सुक्कलेस्सिणसु^१ आहारतिगमोघं । तदो ओरालियसंघादणकदी संखेज्जगुणा । वेउव्विय-संघादणकदी असंखेज्जगुणा । परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

भवसिद्धिया ओघं । अभवसिद्धियाणं^२ मदिअण्णाणिभंगो ।

सम्मत्ताणुवादेण सव्वत्थेवा आहारसंघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी संखेज्जगुणा । ओरालिय-

उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

शुक्ललेख्यावाले जीवोंमें आहारकशरीरके तीनों पदोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । उनसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिक-शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मण-शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

भव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । अभव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा मतिअज्ञानियोंके समान है ।

सम्यक्त्वमार्गणानुसार आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक्त हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातन-कृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यात-

१ प्रतिपु ' सुक्कलेस्सीसु ' इति पाठः ।

२ अप्रतौ ' भवसिद्धियाणं ' इति पाठः, आ-काप्रसोस्तु नोपलभ्यते पदमिदम् ।

संघादणकदी संखेज्जगुणा । सेसस्स आभिणिबोहियभंगो ।

खइयसम्माइड्डीसु सव्वत्थोवा आहारसंघादणकदी । परिसादणकदी संखेज्जगुणा । संघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया । तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी संखेज्जगुणा । ओरालिय-संघादणकदी संखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादणकदी असंखेज्जगुणा । परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । संघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

उवसमसम्माइड्डीणं विभंगभंगो । सासणे सव्वत्थोवा वेउव्वियपरिसादणकदी । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियसंघादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

मिच्छादिड्डीणं मदिअण्णाणिभंगो । वेदगसम्मादिड्डीणमोहिभंगो । सम्मामिच्छाइड्डीसु

गुणे हैं । शेष पदोंकी प्ररूपणा आभिनिबोधिकज्ञानियोंके समान है ।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें आहारकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे उसीकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा विभंगज्ञानियोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें वैक्रियिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा मतिअज्ञानियोंके समान है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें वैक्रियिकशरीरकी संघातन-

सव्वत्थोवा वेउव्वियसंघादणकदी । परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । ओरालियसंघादण-परिसादणकदी असंखेज्जगुणा । वेउव्वियसंघादण-परिसादण-कदी असंखेज्जगुणा । तेजा-कम्मइयसंघादण-परिसादणकदी विसेसाहिया ।

सण्णीसु पुरिसभंगो । असण्णी तिरिक्खोघं । आहारीणं कायजोगिभंगो । अणाहारएसु सव्वत्थोवा तेजा-कम्मइयपरिसादणकदी । ओरालियपरिसादणकदी विसेसाहिया । तेजा-कम्मइय-संघादण-परिसादणकदी अणंतगुणा । एवं परत्थाणप्पावहुगं समत्तं । इदि मूलकरणकदी परू-वणा कदा ।

जा सा उत्तरकरणकदी णाम सा अणेयविहा । तं जहा—असि-वासि-परसु-कुडारि-चक्र-दंड-वेम-णालिया-सलाग-मट्टियसुत्तोदयादीण-मुवसंपदसणिज्जे ॥ ७२ ॥

कथं मट्टियादीणमुत्तरकरणत्तं ? पंचसरीराणं जीवादो अपुघब्भूदत्तेण सकलकरणकारण-

कृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उसीकी परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे वैक्रियिक-शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे तैजस और कर्मण-शरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं ।

संज्ञी जीवोंकी प्ररूपणा पुरुषवेदियोंके समान है । असंज्ञी जीवोंकी प्ररूपणा तिर्यंच ओघके समान है । आहारक जीवोंकी प्ररूपणा काययोगियोंके समान है । अनाहारक जीवोंमें तैजस और कर्मणशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे औदारिकशरीरकी परिशातनकृति युक्त जीव विशेष अधिक हैं । उनसे तैजस और कर्मणशरीरकी संघातन-परिशातनकृति युक्त जीव अनन्तगुणे हैं । इस प्रकार परस्थान-अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार मूलकरणकृतिकी प्ररूपणा की गई है ।

जो वह उत्तरकरणकृति है वह अनेक प्रकारकी है । यथा— असि, वासि, परशु, कुदारी, चक्र, दण्ड, वेम, नालिका, शलाका, मृत्तिका, सूत्र और उदकादिकका सामीप्य कार्यमें होता है ॥ ७२ ॥

शंका — मृत्तिका आदि उत्तरकरण किस प्रकार हैं ?

समाधान — जीवसे अपृथक् होनेके कारण अथवा समस्त करणोंके कारण होनेसे

भावेण वा उवलद्धमूलकरणववएसाणं करणत्तादो । उत्तरकरणकदी अणेयविहा त्ति पइज्जा । असि-वासियादीणमुवसंपदसण्णिज्जे इदि साहणमेयमण्णहाणुववत्तिगन्मत्तादो । द्रव्यमुपसंपद्यते आश्रीयते एभिरिति उपसंपदानि कार्याणि, तेषां सान्निध्यं उपसंपदसान्निध्यम् । तस्मादसि-वासि-परशु-कुडारि-चक्र-दण्ड-वेम-नालिका-शलाका-मृत्तिका-सूत्रोदकादीनामुपसंपदसान्निध्यादुत्तरकरण-कृतिरनेकविधा । न कार्यसान्निध्यं करणभेदस्यागमकम्, तद्विशेषाश्रयणे तदेकत्वानुपपत्तेः ।

जे चामण्णे एवमादिया सा सव्वा उत्तरकरणकदी णाम ॥७३॥

‘ जे च अमी अण्णे ’ एदेण करणाणमियत्तावहारणप्पडिसेहो कदो । सा सव्वा उत्तरकरणकदी णाम ।

जा सा भावकदी णाम सा उवजुत्तो पाहुडजाणगो ॥ ७४ ॥

एत्थ पाहुडसदो कदीए विसेसिदव्वो, पाहुडसामण्णेण अहियाराभावादो । तदो कदि-पाहुडजाणओ उवजुत्तो भावकदि त्ति सिद्धं । णोआगमभावकदी किण्ण परूविदा ? ण,

मूलकरण संज्ञाको प्राप्त हुए पांच शरीरोंके चूँकि वे मृत्तिका आदि करण हैं, अतः वे उत्तर करण कहे जाते हैं ।

‘ उत्तरकरणकृति अनेक प्रकारकी है ’ यह प्रतिज्ञा है । ‘ असि, वासि आदिकोंकी कार्योंमें समीपता होनेपर ’, यह साधन है; क्योंकि, उसके गर्भमें अन्यथानुपपत्ति निहित है अर्थात् उक्त साधनोंके बिना कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती । जो द्रव्यका आश्रय करते हैं वे उपसंपद अर्थात् कार्य कहलाते हैं, उनकी समीपता उपसंपदसान्निध्य है । इसलिये असि, वासि, परशु, कुदारी, चक्र, दण्ड, वेम, नालिका, शलाका, मृत्तिका, सूत्र और उदक आदि कार्योंकी समीपतासे उत्तरकरणकृति कहलाते हैं । यह उत्तरकरणकृति अनेक प्रकारकी है । कार्यसान्निध्य करणभेदका अगमक नहीं है, अर्थात् गमक ही है; क्योंकि, करणभेदका आश्रय करनेपर उसका एकत्व नहीं बन सकता ।

इसी प्रकार और भी जो ये अन्य करण हैं वे सब उत्तरकरणकृति कहलाते हैं ॥७३॥

‘ और जो ये अन्य हैं ’ इससे करणोंकी संख्याके निश्चयका निषेध किया गया है । वह सब उत्तरकरणकृति है ।

प्राभृतका जानकर जो उपयोग युक्त जीव है वह सब भावकरणकृति है ॥ ७४ ॥

यहां सूत्रमें आये हुए प्राभृत पदको कृति विशेषणसे विशेषित करना चाहिये; क्योंकि, यहां प्राभृत सामान्यका अधिकार नहीं है । इस कारण कृतिप्राभृतका जानकार उपयोग सहित जीव भावकृति है, यह सिद्ध हुआ ।

शंका — यहां नोआगमभावकृतिकी प्ररूपणा क्यों नहीं की ?

ओदइयादिपंचभाउवलक्खयणोआगमदव्वाणं सेसकदीसु अंतच्चावादो ।

सा सव्वा भावकदी णाम ॥ ७५ ॥

कधमेक्किस्से भावकदीए बहुत्तसंभवो ? ण, कदिपाहुडजाणएसु तत्थुवजुत्तजीवाणं बहुत्तदंसणादो ।

एदासिं कदीणं काए कदीए पयदं ? गणणकदीए पयदं ॥ ७६ ॥

गणणपरूवणा किमड्ढमेत्थ कीरदे ? गणणाए विणा सेसाणियोगद्धारपरूवणाणुवत्तीदो ।

उत्तं च—

जह चिय मोराण सिहा णायाणं लंछणं व सत्थाणं ।
 मुक्खारूढं^१ गणियं तत्थव्वासं तदो कुज्जा ॥ १३३ ॥
 एवं कदी ति सत्तममणियोगद्धारं ।
 प्रसिद्धसिद्धान्तगभस्तिमाली समस्तवैयाकरणाधिराजः ।
 गुणाकरस्तार्किकचक्रवर्ती प्रवादिसिंहो वरवीरसेनः ॥

समाधान—नहीं की गई, क्योंकि, औदयिक आदि पांच भावोंसे उपलक्षित नोआगमद्रव्योंका शेष कृतियोंमें अन्तर्भाव हो जाता है ।

वह सब भावकृति है ॥ ७५ ॥

शंका—एक भावकृतिमें बहुत्व कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कृतिप्राभृतके जानकारोंमेंसे उसमें उपयोग युक्त जीव बहुत देखे जाते हैं ।

इन कृतियोंमें कौनसी कृति प्रकृत है ? गणनकृति प्रकृत है ॥ ७६ ॥

शंका—यहां गणनाकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है ?

समाधान—चूंकि गणनाके विना शेष अनुयोगद्धारोंकी प्ररूपणा नहीं बन सकती है, अतः उसकी प्ररूपणा की जाती है । कहा भी है—

जिस प्रकार मयूरोंकी शिखर उनका मुख्यतासे रूढ लक्षण है, उसी प्रकार न्यायशास्त्रोंका मुख्य लक्षण गणित है । अतः ऐसे इसका अभ्यास करना चाहिये ॥ १३३ ॥

इस प्रकार कृतिअनुयोगद्धार समाप्त हुआ ।

पारमिता

१ कदिअणियोगदारसुत्ताणि ।

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१ णमो जिणाणं ।		२	३० णमो आमोसहिपत्ताणं ।		९५
२ णमो ओहिजिणाणं ।		१२	३१ णमो खेलोसहिपत्ताणं ।		९६
३ णमो परमोहिजिणाणं ।		४१	३२ णमो जल्लोसहिपत्ताणं ।		९७
४ णमो सव्वोहिजिणाणं ।		४७	३३ णमो विट्ठोसहिपत्ताणं ।		९८
५ णमो अणंतोहिजिणाणं ।		५१	३४ णमो सव्वोसहिपत्ताणं ।		९९
६ णमो कोट्टुबुद्धीणं ।		५३	३५ णमो मणवलीणं ।		१००
७ णमो बीजबुद्धीणं ।		५५	३६ णमो वचिबलीणं ।		१०१
८ णमो पदाणुसारीणं ।		५९	३७ णमो कायवलीणं ।		१०२
९ णमो संभिण्णसोदाराणं ।		६१	३८ णमो खीरसवीणं ।		१०३
१० णमो उज्जुमदीणं ।		६२	३९ णमो सप्पिसवीणं ।		१०४
११ णमो विउल्लमदीणं ।		६६	४० णमो महुसवीणं ।		१०५
१२ णमो दसपुव्वियाणं ।		६९	४१ णमो अमडसवीणं ।		१०६
१३ णमो चोहसपुव्वियाणं ।		७०	४२ णमो अक्खीणमहाणसाणं ।		१०७
१४ णमो अट्ठंगमहाणिमित्तकुसलाणं ।		७२	४३ णमो लोप सव्वसिद्धायदणाणं ।		१०८
१५ णमो विउव्वणपत्ताणं ।		७५	४४ णमो वट्ठमाणबुद्धरिसिस्स ।		१०९
१६ णमो विज्जाहराणं ।		७७	४५ अग्गेणियस्स पुव्वस्स पंचमस्स		
१७ णमो चारणाणं ।		७८	वत्थुस्स चउत्थो पाहुडो कम्म-		
१८ णमो पणसमणाणं ।		८१	पयडी णाम । तत्थ इमाणि चउ-		
१९ णमो आगासंगामीणं ।		८४	वीस अणिओगद्वाराणि णाद-		
२० णमो आसीविसाणं ।		८५	व्वाणि भवंति— कदि वेदणाए		
२१ णमो दिट्ठिविसाणं ।		८६	पस्से कस्से पयडीसु बंधणे		
२२ णमो उग्गतवाणं ।		८७	णिबंधणे पक्कमे उवक्कमे उदए		
२३ णमो दित्ततवाणं ।		९०	मोक्खे पुण संकमे लेस्सा-लेस्सा-		
२४ णमो तत्ततवाणं ।		९१	यस्से लेस्सापरिणामे तत्थेव		
२५ णमो महातवाणं ।		९२	सादमसादे दीहिरहस्से भव-		
२६ णमो घोरतवाणं ।		९३	धारणीए तत्थ पोग्गलत्ता णिध-		
२७ णमो घोरपरक्कमाणं ।		९४	त्तमणिधत्तं णिकाचिदमणि-		
२८ णमो घोरगुणाणं ।		९५	काचिदं कम्मट्ठिदिपच्छिमक्खंधे		
२९ णमो घोरगुणवंभचारीणं ।		९६	अप्पाबहुगं च सव्वत्थ ।		१३४

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
४६	कदि त्ति सत्तविहा कदी — णाम- कदी ठवणकदी दव्वकदी गणण- कदी गंधकदी करणकदी भाव- कदी चेति ।	२३७	५५	ड्ढिदं जिदं परिजिदं वायणोपगदं सुत्तसमं अत्थसमं गंथसमं णाम- समं घोससमं ।	२५१
४७	कदिणयविभासणदाए को णओ काओ कदीओ इच्छदि ?	२३८	५५	जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियट्ठणा वा अणुपेक्खणा वा थय-थुदि-धम्म- कहा वा जे चामण्णे एवमादिया ।	२६२
४८	णइगम-ववहार-संगहा सव्वाओ ।	२३०	५६	णेगम-ववहाराणमेगो अणुवजुत्तो आगमदो दव्वकदी अणेया वा अणुवजुत्तो आगमदो दव्वकदी ।	२६३
४९	उजुसुदो दुवणकदिं णेच्छदि ।	२४३	५७	संगहणयस्स एयो वा अणेया वा अणुवजुत्तो आगमदो दव्वकदी ।	२६५
५०	सद्दादओ णामकदिं भावकदिं च इच्छंति ।	२४५	५८	उजुसुदस्स एओ अणुवजुत्तो आगमदो दव्वकदी ।	२६५
५१	जा सा णामकदी णाम सा जीवस्स वा, अजीवस्स वा, जीवाणं वा, अजीवाणं वा, जीवस्स च अजीवस्स च, जीवस्स च अजीवाणं च, जीवाणं च अजीवस्स [च], जीवाणं च अजीवाणं च जस्स णामं कीरदि कदि त्ति सा सव्वा णामकदी णाम ।	२४६	५९	सइणयस्स अवत्तव्वं ।	२६६
५२	जा सा ठवणकदी णाम सा कट्ठ- कम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा पोत्त- कम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु वा लेण्णकम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गिहकम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा दंतकम्मेसु वा भेंडकम्मेसु वा अक्खो वा वराडओ वा जे चामण्णे एवमादिया ठवणाए ठविज्जंति कदि त्ति सा सव्वा ठवणकदी णाम ।	२४८	६०	सा सव्वा आगमदो दव्वकदी णाम ।	२६६
५३	जा सा दव्वकदी णाम सा दुविहा आगमदो दव्वकदी चेव णोआगमदो दव्वकदी चेव ।	२५०	६१	जा सा णोआगमदो दव्वकदी णाम सा तिविहा—जाणुगसरीर- दव्वकदी भवियदव्वकदी जाणुग- सरीर-भवियवदिरित्तदव्वकदी चेदि ।	२६७
५४	जा सा आगमदो दव्वकदी णाम तिस्से इमे अट्ठाहियारा भवंति—		६२	जा सा जाणुगसरीरदव्वकदी णाम तिस्से इमे अत्थाहियारा भवन्ति—ड्ढिदं जिदं परिजिदं वायणोपगदं सुत्तसमं अत्थसमं गंथसमं घोससमं णामसमं ।	२६८
			६३	तस्स कदिपाहुडजाणयस्स चुद- चइद-चत्तदेहस्स इमं सरीर- मिदि सा सव्वा जाणुगसरीर- दव्वकदी णाम ।	२६९
			६४	जा सा भवियदव्वकदी णाम—जे इमे कदि त्ति अणिओगद्वारा	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	भविओवकरणदाए जो द्विदो जीवो ण ताव तं करेदि सा सव्वा भवियदव्वकदी णाम ।	२७१		सरीरमूलकरणकदी कम्मइय-सरीरमूलकरणकदी चेदि ।	३२४
६५	जा सा जाणुगसरीर-भवियवदि-रित्तदव्वकदी णाम सा अणेय-विहा । तं जहा— गंधिम-वाइम-वेदिम-पूरिम-संघादिम-अहोदिम-णिक्खोदिम-ओवेल्लिम-उव्वेल्लिम-वण्ण-चुण्ण-गंध-विलेवणादीणि जे चामण्णे एवमादिया सा सव्वा जाणुगसरीर-भवियवदि-रित्तदव्वकदी णाम ।	२७२	६९	जा सा ओरालिय-वेउव्विय-आहारसरीरमूलकरणकदी णाम सा तिविहा— संघादणकदी परिसादणकदी संघादण-परिसादणकदी चेदि । सा सव्वा ओरालिय-वेउव्विय-आहारसरीर-मूलकरणकदी णाम ।	३२६
६६	जा सा गणणगदी णाम सा अणेयविहा । तं जहा— एओ णोकदी, दुवे अवत्तव्वा कदि त्ति वा णोकादि त्ति वा, तिप्पहुडि जाव संखेज्जा वा असंखेज्जा वा अणंता वा कदी, सा सव्वा गणणकदी णाम ।	२७४	७०	जा सा तेजा-कम्मइयसरीरमूल-करणकदी णाम सा दुविहा— परिसादणकदी संघादण-परिसादणकदी चेदि । सा सव्वा तेजा-कम्मइयसरीरमूलकरण-कदी णाम ।	३२८
६७	जा सा गंथकदी णाम सा लोए वेदे समए सहपवंधणा अक्खर-कव्वादीणं जा च गंथरचणा कीरदे सा सव्वा गंथकदी णाम ।	३२१	७१	एदेहि सुत्तेहि तेरसण्हं मूल-करणकदीणं संतपरुवणा कदा ।	३२९
६८	जा सा करणकदी णाम सा दुविहा मूलकरणकदी चेव उत्तर-करणकदी चेव । जा सा मूल-करणकदी णाम सा पंच-विहा— ओरालियसरीरमूलकरण-कदी वेउव्वियसरीरमूलकरणकदी आहारसरीरमूलकरणकदी तेया-		७२	जा सा उत्तरकरणकदी णाम सा अणेयविहा । तं जहा— असि-वासि-परसु-कुडारि-चक्क-दंड-वेम-णालिया—सलाग—मट्टिय-सुत्तोदयादीणमुवसंपदसणिज्जे ।	४५०
			७३	जे चामण्णे एवमादिया सा सव्वा उत्तरकरणकदी णाम ।	४५१
			७४	जा सा भावकदी णाम सा उवजुत्तो पाहुडजाणगो ।	
			७५	सा सव्वा भावकदी णाम	४५२
			७६	एदार्सि काए कदीए पयदं ? गणणकदीए पयदं ।	

२ अवतरण-गाथा-सूची ।

क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ
१०६	अग्नि-जल-रुधिरदीपे	२५६		३५	आहिणिबोहियबुद्धो	१२३	क. पा. १, पृ. ७८
३३	अच्छित्ता णवमासे	१२२	क. पा. १, पृ. ७८	२९	इमिस्से वसाप्पिणीए	१२०	क. पा. १, पृ. ७४
५५	अट्टेव धणुसहस्सा	१५८		३७	उजुकूलनदीतीरे	१२४	क. पा. १, पृ. ८०
१२२	अणियोगो यणियोगो	२६०	आ. नि. १२८	५३	उणतीसजोयणसया	१५८	
११४	अतितीव्रदुःखितानां	२५८		५४	उणसट्ठिजोयणसया	,,	
१२१	अल्पाक्षरमसंदिग्धं	२५९	क. पा. १, पृ. १५४	२३	उत्तरगुणिते तु धने	८७	
५१	अवायावयवोत्पात्तिः	१४७		९१	उदए संकम-उदए	२३६	गो. क. ४४०
१११	अष्टम्यामध्ययनं	२५७		९४	उप्पज्जंति वियांति य	२४४	स. सू. १, ११
९	असुराणमसंखेज्जा	२५	म. वं. १, पृ. २२, मूला. १२, ११०. गो. जी. ४२७	२८	उप्पण्णम्मि अणंते	११९	क. पा. १, पृ. ६८
१९	अंगं सरो वंजण-	७२		८७	उस्सासाउअपाणा	२२४	
५	अंगुलमावलियाए	२४४	म. वं. १, पृ. २१, गो. जी. ४०४. नं.सू.गा. ५०. वि. भा. ६११	९०	एक्केक्कमिह य वत्थू	२२९	
१५	अंगुलमावलियाए	४०	" "	८०	एक्केकं तिणिण जणा	२०८	
११	आणद-पाणदवासी	२६	म. वं. १, पृ. २३, गो. जी. ४३१	७६	एक्को चेव महप्पो	१९८	पंचा ७१
२४	आदिं त्रिगुणं मूला-	८८		८९	एदेसिं पुव्वाणं	२२७	
२	आदी मंगलकरणं	४	प. खं. पु. १, पृ. ४०	६७	एयदवियम्मि जे	१८३	स. त. १, ३३
३	आलंबणेहि भरिओ	१०	म. आ. १८७६	१२५	एयादीया गणणा	२७६	त्रि. सा. १६
६	आवालियपुधत्तं पुण	२५	म. वं. १, पृ. २१, गो. जी. ४०५	११८	एवं क्रमप्रवृद्धया	२५८	
				१	एसो पंचणमोक्कारो	४	मूला. ७, १३
				४	ओगाहणा जहण्णा	१६	म. वं. १, पृ. २१
				७४	कधं चरे कधं चिट्ठे	१९७	मूला. १०, १२१. द. वै. ४, ७.
				१३	कालो चउण्ण वड्डी	२९	म. वं. १, पृ. २२. नं. सू. गा. ५४

क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ
३२	कुंडपुर-पुरवरिस्सर	१२२ क. पा. १,	पृ. ७८.	९७	तिलपलल-पृथुक-	२५५	
११२	कृष्णचतुर्दश्यां	२५७		७३	तिविहं तु पदं भाणिदं	१९६ क. पा. १,	पृ. ९२.
७१	कोटीशतं द्वादश-	१९५		४८	तिविहा य आणुपुन्वी	१४० प. खं. पु. १,	पृ. ७२
५०	क्षायिकमेकमनन्तं	१४२		१४	तेया-कम्म-शरीरं	३८ म. बं. १,	पृ. २२.
१०७	क्षेत्रं संशोध्य पुनः	२५६		११९	दन्वादिवदिक्कमणं	२५९ मूला. ४, १७१	
२७	खीणे दंसणमोहे	११९ क. पा. १,	पृ. ६८	८८	दस चोहस अट्टहा-	२३७	
३६	गमइय छदुमत्थत्तं	१२४ क. पा. १,	पृ. ७९	७८	दंसण-वद्-सामाइय	२०१ चा. पा. २२.	गो. जी. ४७६,
४६	गुत्ति-पयत्थ-भयाहं	१३२				अं. प. १, ४६	
१२९	गेवज्जेसु य विगुणं	२९८		७०	दुओणदं जहाजादं	१८९ मूला. १०४.	समवायांग १२
५२	चत्तारि धणुसयाहं	१५८		६८	धर्मेधर्मेऽन्य एवार्थो	१८३ आ. मी. २२	
८३	चारणवंसो तह	२०९ प. खं. पु. १,	पृ. ११२	६६	नयोपनयैकान्तानां	,, आ. मी. १०७	
७७	छक्कापक्कमजुत्तो	१९८ पंचा. ७२.		१९	नवनागसहस्राणि	६१	
४९	जत्थ बहं जाणेज्जो	१४१		४०	पच्छा पावाणयरे	१२५ क. पा. १.	पृ. ८१
७५	जदं चरे जदं चिट्ठे	१९७ मूला. १०,	१२२. द. वै. ४, ८.	१२७	पढमपुढवीए चदुरो	२९६	
२१	जल-जंघ-तंतु-फल-	७९		७९	पढमो अवंधयाणं	२०८	
१३३	जह चिय मोराण	४५४		८२	पढमो अरहंताणं	२०९ प. खं. पु. १,	पृ. ११२
६१	जातिरेव हि भावानां	१७५ क. पा. १,	पृ. २२७	१३१	पणगादी दोहि जुदा	३०० मूला. १२, ७९	
२०	जादीसु होइ विज्जा	७७		८	पणुवीस जोयणार्णि	२५ म. बं. १,	पृ. २२. मूला. १२, १०९
६२	जावदिया वयणवहा	१८१ स. त. १, ४७		१७	पणवणिज्जा भावा	५७ गो. जी. ३३४.	वि. भां. १४१
८५	जीयो कत्ता य चत्ता	२२० अं. प. २, ८६		१६	परमोहि असंखेज्जाणि	४२ म. बं. १,	पृ. २२. आव. सू. ४५
२६	ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञः स्या-	११८ क. पा. १,	पृ. ६६.	४१	परिणिब्बुदे जिणिंदे	१२५	
११७	ज्येष्ठामूलात्परतो-	२५८		११०	पर्वसु नन्दीश्वरवर	२५७	
८४	णघमो अइक्खुवाणं	२०९ प. खं. पु. १,	पृ. ११२.	४५	पंच य मासा पंच य	१३२	
९३	णाम-ट्ठवणा-दवियं	२४२ स. त. १, ६.					
६९	णामं ठवणा दवियं	१८५ ,, ,,					
१०९	तपसि द्वादशसंख्ये	२५७					
१०१	तावन्मात्रे स्थावर	२५५					

क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ
४३	पंचेव अत्थिकाया	१२९		९८	योजनमंडलमात्रे	२५५	
५६	पासे रसे य गंधे	१५८		१२४	लिंगात्तिथं वयणसमं	२६१	
५८	पुष्टं सुणेइ सहं	१५९ स.सि.१, १९.		४४	वासस्स पढममासे	१३० ति. प. १, ६९	
		नं. सू. ७८		३९	वासाणूणत्तीसं	१२५ क. पा. १,	
		आ. ति. ५				पृ. ८१	
१३२	पुरिसेसु सदपुधत्तं	३००		१०२	विगतार्थागमने वा	२५६	
९५	पूर्वापरविरुद्धादे-	२५१		१२०	विणपण सुदमधीतं	२५९ मूला. ५, ८९	
११५	प्रतिपद्येकः पादो	३५८		२२	विणपण सुदमधीदं	८२	"
१०३	प्रमितिररत्नशतं	२५६		१०५	व्यन्तरभेरीताडण	२५६	
१००	प्राणिनि च तीव्र-	२५५		७२	षोडशशतं चतुर्लि-	१९५	
३८	बहसाहजोणपक्खे	१२४ क. पा. १,		१०	सक्कीसाणा पढमं	२६ म. वं. १,	
		पृ. ८०				पृ. २२, मूला.	
८१	बारसविहं पुराणं	२०९ प. खं. पु. १,				१२, १०७.	
		पृ. ११२				आव. सू. ४८	
३१	बाहत्तरिवासाणि	११२ क. पा. १		४७	सत्तसहस्सा णवसद	१३३	
		पृ. ७७		८६	सत्ता जंतू य माई य	२२० अं. प. २, ८७	
४२	बुद्धि-तव-विउव्वणो-	१२८		६०	सत्ता सव्वपयत्था	१७१ पंचा. ८.	
१८	बुद्धि तवो वि य लद्धी	५८		५७	सत्तेतालसहस्सा	१५८	
७	भरहम्मि अद्धमासो	२५ म. वं. १, पृ.		९९	सप्तदिनान्यध्ययनं	२५५	
		२१. गो. जी.		१२	सव्वं च लोयणालि	२६ म. वं १, पृ.	
		४०६ नं. सू.				२३, गो. जी.	
		गा. ५. आव.				४३२	
		सू. ३४		३०	सुरमहिदो च्छुद-	१२२ क. पा. १,	
३४	मणुवत्तणसुहमडलं	१२३ क. पा. १,				पृ. ७७	
		पृ. ७८		१२३	सुई मुहा पडिघो	२६० प. खं. पु. १,	
११३	मध्याह्ने जिनरूपं	२५७				पृ. १५४.	
१०४	मानुषशरीरलेशा	२५६		११६	सैवापराह्णकाले	२५८	
६५	मिथ्यासमूहो मिथ्या	१८२ आ. मी. १०८		१२६	सोहम्मे माहिंदे	२९५	
२५	मिश्रधने अणुगुणो	८८		१२८	" "	२९८	
६४	य एव नित्य-क्षणिका-	१८२ बृ. स्व. ६१.		१३०	सोहम्मे सत्तगुणं	३००	
६३	यथैककं कारकमर्थ-	" बृ. स्व. ६२.		५९	स्याद्वादप्रविभक्तार्थ	१६७ आ. मी. ५५	
९६	यमपटहरवश्रवणे	२५५		९२	हेतावेवंप्रकारादौ	२३७ अने. ना. ३९	
१०८	युक्त्या समधीयानो	२५७					

३ न्यायोक्तियां

क्रम संख्या	न्याय	पृष्ठ
१	अपिदपज्जायपढमसमयप्पहुडि आचरिमसमयादो एसो वट्टमाणकालो त्ति णायादो ।	२४३
२	अर्थाभिधान-प्रत्ययास्तुल्यनामधेया इति न्यायात्तस्य ग्रहणं सिद्धम् ।	२३७
३	जहा उद्देसो तहा णिद्देसो त्ति णायादो ठवणकदिपरूवणा चेव... ।	२४८
४	न एकगमो नैगम इति न्यायात्... ।	१८१
५	यदस्ति न तद्वयमतिलङ्घ्य वर्तत इति संग्रह-व्यवहारयोः परस्परविभिन्नोभयविषया- वलम्बनो नैगमनयः ।	१७१

४ ग्रन्थोल्लेख

१ खुदाबंध

१	अणुहिसाणुत्तरदेवाणमुक्कस्संतरं वेसागरोवमाणि सादिरेयाणि त्ति खुदाबंधसुत्तादो णव्वदे ।	३१०
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----

२ खेत्ताणिओगद्दार

१	खेत्ताणिओगद्दारे वादरेहंदियपज्जत्तपस्स... ।	२१
३ गाथासूत्र		
१	जदेही सुहुमणिगोदस्स जहण्णोगाहणा तदेहिं चेव जहण्णोहिक्खेत्तमिदि भणंतेण गाहा- सुत्तेण सह विरोहादो ।	२२
२	जदेहं सुहुमणिगोदजहण्णोगाहणा तदेहं जहण्णोहिक्खेत्तमिदि भणंतेण गाहासुत्तेण सह विरोहादो ।	२४

४ तत्त्वार्थसूत्र.

१	प्रमाण-नयैर्वस्त्वधिगम इत्यनेन सूत्रेणापि नेदं व्याख्यानं विघटते ।	१६४
---	--------------------------------------------------------------------	-----

५ परिकर्म

१	तण्ण घडदे, परियम्मे वुत्तओहिणिबद्धखेत्ताणुप्पत्तीदो ।	४८
२	जदि सुदणाणिस्स विसओ अणंतसंखा होदि तो जमुक्कस्ससंखेज्जं विसओ चोदस- पुव्विस्से त्ति परियम्मे उत्तं तं कथं घडदे ?	५६

६ महाकम्मपयडिपाहुड

१	महाकम्मपयडिपाहुडमुवसंहरिऊण छवंडाणि कयाणि ।	१३३
---	--------------------------------------------	-----

७ वर्गणासूत्र

- १ ओगाहणा जहण्णा...त्ति वर्गणासुत्तादो णव्वदे । १६
 २ ओहिणाणावरणस्स असंखेज्जलोगमेत्तीओ चेव पयडीओ त्ति वर्गणासुत्तादो । २८
 ३ ' कालो चउण्ण वड्डी...' एदम्हादो वर्गणासुत्तादो णव्वदे । २९
 ४ एयंतेणेवमिच्छिज्जमाणे वर्गणाए गाहासुत्तउत्तखेत्ताणमणुप्पत्तिप्पसंगादो । ३१
 ५ सव्वत्थोवो ओरालियसरीरस्स विस्सासोवचओ...त्ति वर्गणाए सुत्तम्मि अणंत-
 गुणत्तसिद्धीदो त्ति । ३७
 ६ माणुसुत्तरसेलस्स अन्मंतरदो चेव जाणदि णो वहिद्धा त्ति वर्गणमुत्तेण
 णिद्धिद्धत्तादो... । ६८

८ वेदना

- १ वेयणाए उवरिमभण्णमाणओगाहणप्पावहुंगादो णव्वदे । १७

९ व्याकरण सूत्र

- १ आई-मज्झंतवण्ण-सरलोवो त्ति लक्खणादो । ९५
 २ एए छच्च समाणा त्ति लक्खणादो । ९६

१० सन्मत्तिसूत्र

- १ ण च सम्मइसुत्तेण सह विरोहो... । २४३
 २ इच्चेएण सम्मइसुत्तेण सह विरोहो होदि त्ति उत्ते ण होदि... । २४४

११ संतकम्मपयडिपाहुड

- १ संतकम्मपयडिपाहुडं मोत्तूण सोलसवदियअप्पावहुअदंडए पहाणे कदे... । ३१८

१२ सारसंग्रह

- १ तथा सारसंग्रहं ऽप्युक्तं पूज्यपादैः— १६७

१३ सूत्र

- १ कालमसंखं संखं च धारणा (आ. नि. ४) त्ति सुत्तुवलंभादो । ५३

१४ सूत्रगाथा

- १ तेया-कम्मसरीरं... । इच्चेदीए सुत्तगाहाए सह विरोहादो । ३८

१५ अनिर्दिष्टनाम

- १ ' सकलादेशो प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः ' इति प्रतिपादयता नानेनापीदं
 व्याख्यानं विघटते । १६५
 २ स एस याथात्म्योपलब्धिनिमित्तत्वाद् भावानां श्रेयोऽपदेशः । १६६

५ ऐतिहासिक नाम-सूची ।

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अपराजित	१३०	जम्बू भट्टारक	१३०	भद्रबाहु	१३०
अभय	२०२	जय	१३१	भूतबालि	१०३, १३३
अयस्थूण	२०३	जयपाल	"	मत्तंग	२०१
अश्वलायन	"	जैमिनी	२०३	मरीचिकुमार	२०३
अष्टपुत्र	२०१	त्रिशला	१२१	महावीर	१२०
इन्द्रभूति	१२९	धन्य	२०२	माठर	२०३
उलूक	२०३	धरसेन भट्टारक	१३३	माध्यंदिन	"
ऋषिदास	२०२	धरसेनाचार्य	१०३	मांथपिक	"
एलाचार्य	१२६	धर्मसेन	१३१	मुण्ड	"
एलापुत्र	२०३	धृतिपेण	"	मोद	"
ऐतिकायन	"	ध्रुवसेन	"	मौद्गल्यायन	"
ऐन्द्रदत्त	"	नक्षत्राचार्य	"	यमलीक	२०१
औपमन्यव	"	नन्द	२०२	यशोबाहु	१३१
कण्व	"	नन्दन	"	यशोभद्र	"
कापिल	"	नन्दि-आचार्य	१३०	रामपुत्र	२०१
कंस	१३१	नमि	२०१	रोमश	२०३
काणविद्धि	२०३	नाग	१३१	रोमहर्षणि	"
कार्तिक	२०२	नारायण	२०३	लोहाचार्य	१३१, १३३
किष्किंजलि	२०१	पाण्डु	१३१	लोहार्य आचार्य	१३०
कुथुमि	२०३	पाराशर	२०३	वर्धमान	१०३
कौत्कल	"	पालम्ब	२०१	वलीक	२०१
कौशिक	"	पिप्पलाद	२०३	वशिष्ठ	२०३
क्षत्रिय	१३१	पुष्पदन्त	१३३	वसु	"
गंगदेव	"	पूज्यपाद	१६५, १६७	वाद्धलि	"
गार्ग्य	२०३	प्रभाचन्द्र भट्टारक	१६६	वारिषेण	२०२
गोवर्धन	१३०	प्रोष्ठिल	१६१	वाल्मीकि	२०३
गौतम	१२, ५३, १०३	वल्कलि	२०३	विजय	१३१
चिल्लातपुत्र	२०२	वादरायण	"	विशाखाचार्य	"
जतुकर्ण	२०३	बुद्धिल्ल	१३१	विष्णु आचार्य	१३०

(१०)

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वृषभसेन	३, ८३	सत्यदत्त	२०३	सुभद्राचार्य	१३१
व्याघ्रभूति	२०३	समन्तभद्र	१६७	सोमिल	२०१
व्यास	"	सात्यमुग्रि	२०३	स्विष्टिहृत्	२०३
शक नरेन्द्र	१३२, १३३	सिद्धार्थ	१२१, १३१	हरिश्चन्द्र	"
शाकल्य	२०३	सुदर्शन	२०१	हारित	"
शालिभद्र	२०२	सुनक्षत्र	२०२		

६ भौगोलिक शब्द-सूची ।

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
ऊर्जयन्त	९, १०२	चन्द्रगुफा	१३३	पंचशैल	११३
ऋजुकला नदी	१२४	चम्पा	९, १०२	पावानगर	९, १०२
कुण्डलपुर	१२१	चम्पानगर	१०२	भरतक्षेत्र	११९, १३०
गिरिनगर	१३३	जुंभिका ग्राम	१२४	मानुषोत्तर	६७

७ पारिभाषिक शब्द-सूची ।

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अक्षिप्र	१५२	अद्वैत	१७०	अनुक्तप्रत्यय	१५४
अक्षीणमहानस	१०१	अधुव प्रत्यय	१५४	अनुगम	१४१, १६२
अक्षीणावास	१०२	अनङ्गश्रुत	१८८	अनुत्तरविमानवासी	३३
अक्षौहिणी	६२	अनन्तज्ञान	८	अनुत्तरौपपादिक-	
अग्रायणी पूर्व	१३४, २१२	अनन्तवल	११८	दशांग	२०२
अघातायुष्क	८९	अनन्तावधि	५१, ५२	अनुप्रेक्षणा	२६३
अघोरगुणब्रह्मचारी	९४	अनन्तावधिजिन	५१	अनुमान	११४
अज्ञानिकदृष्टि	२०३	अनवस्था	२६१	अनुसारी	५७, ६०
अणिमा	७५	अनास्तिकाय	१६८	अनेकान्त	१५९
अतिप्रसंग	६, ५९, ९३,	अनादिकसिद्धान्तपद	१३८	अन्तकृत्	२०१
		अनिःसृत	१५२	अन्तकृद्दशांग	

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अन्तरिक्ष	७२, ७४	अंग	७२	उपासकाध्ययन	२००
अप्रतिपाती	४१	अंगश्रुत	१९२	उभयसारी	६०
अप्राप्तार्थग्रहण	१५९	आ		क्र	
अभिन्नदशपूर्वी	६९	आकाशगता	२१०	क्रजुमति	६२
अमृतस्त्रवी	१०१	आकाशगामी	८०, ८४	क्रजुसूत्र	१७२, १४४
अर्थकर्ता	१२७	आकाशचारण	८०, ८४	ए	
अर्थक्रिया	१४२	आक्षेपिणी	२०२	एकप्रत्यय	१५१
अर्थनय	१८१	आचारांग	१९७	एकविध	१५२
अर्थपद	१९६	आत्मप्रवाद	२१९	एवम्भूतनय	१८०
अर्थपर्याय	१४२, १७२	आदानपद	१३५, १३६	ओ	
अर्थसम	२५२, २६१, २६८	आनुपूर्वी	१३४	ओवेष्टिम	२७२, २७३
अर्थाधिकार	१४०	आमर्षोपधिप्राप्त	९५	औ	
अर्थापत्ति	२४३	आशीर्विप	८५, ८६	औत्पत्तिकी	८२
अर्थावग्रह	१५६	इ		औदयिक	४२८
अवक्तव्यकृति	२७४	इतरेतराश्रय	११५	क	
अवगाहना	१७	इ		कपाट	२३६
अवग्रह	१४४	ईशित्व	७६	करणकृति	३२४
अवग्रहजिन	६२	ईहा	१४४, १४६	कर्ता	१०७
अवधिजिन	१२, ४०	ईहाजिन	६२	कर्म अनुयोगद्वार	२३२
अवधिज्ञान	१३	उ		कर्मजा प्रज्ञा	८२
अवयव	१३६	उक्त प्रत्यय	१५४	कर्मप्रवाद	२२६
अवसर्पिणी	११९	उग्रतप	८७	कर्मस्थितिअनुयोग-	२३६
अवस्थितगुणकार	४५	उग्रोग्रतप	"	कलासवर्ण	२७६
अवस्थितोग्रतप	८७, ८९	उत्तरोत्तरतंत्रकर्ता	१३०	कल्प्यव्यवहार	१९०
अवाय	१४४	उत्पादपूर्व	२१२	कल्प्याकल्प्य	"
अवायजिन	६२	उत्सर्पिणी	११९	कल्याणनामधेय	२२३
अविभागप्रतिच्छेद	१६९	उत्सेधांगुल	१६	कामरूपित्व	७६
अशुद्ध क्रजुसूत्र	२४४	उदयअनुयोगद्वार	२३४	कायबली	९९
अष्ट महामंगल	१०९	उद्वेष्टिम	२७२, २७३	कार्मणवर्गणा	३५
अष्टांगमहानिमित्त	७२	उपक्रम	१३४	काललब्धि	१२१
असंख्यातगुणश्रेणि	३, ६	उपक्रमअनुयोगद्वार	२३३	कालसंयोग	१३७
असंयम	११७	उपनय	१८२	काष्ठकर्म	२४९
अस्तिकाय	१६८	उपलक्षण	१८४	कुट्टिकार	२७६
अस्तिनास्तिप्रवाद	२१३	उपादानकारण	११५	कुलविद्या	७७
अहोदिम	२७२, २७३				

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कृति	१३४, २३२, २३७, २७४, ३२६, ३५९	ग्रन्थसम	२६०, २६८	जिन	२, १०
कृतिकर्म	६१, ८६, १८९	ग्रन्थिम	२७२	ज्ञातधर्मकथा	२००
कृतिकर्मसूत्र	५४	घ		ज्ञान	८४, १४२, १८६
केवलकाल	१२०	घातायुष्क	८८	ज्ञानप्रवाद	२१६
केवलज्ञानी	११८	घोरगुण	९३	ज्ञानावरण	१०८
केवलदर्शनी	"	घोरतप	९२	त	
केवललब्धि	११३	घोरपराक्रम	९३	तन्तुचारण	७९
कोष्ठबुद्धि	५३, ५४	घोषसम	२६१, २६९	तपविद्या	७७
क्रियावाददृष्टि	२०३	च		तप्ततप	९१
क्रियाविशाल	२२४	चतुरमलबुद्धि	५८	तीर्थ	१०९, ११९
क्षणिकैकान्त	२४७	चतुर्दशपूर्वी	७०	तीर्थंकर	५७, ५८
क्षपक	१०	चतुर्विंशतिस्तव	१८८	त्यक्तदेह	२६९
क्षपित	१५	चन्द्रप्रज्ञप्ति	२०६	त्रिकोटिपरिणाम-	
क्षपितकर्मांशिक	३४२, ३४५	चयनलब्धि	२२७	१६२, २२८, २४७	
क्षायिक	४२८	चारण	७८	त्रिरत्न	११
क्षिप्र	१५२	चित्रकर्म	२४९	द	
क्षीरस्त्रवी	९९	चूर्ण	२७३	दण्ड	२३६
क्षेत्रकालगुणकार	४५	चूलिका	२०९	दन्तकर्म	२५०
क्षेत्रसंयोग	१३७	चैत्यवृक्ष	११०	दर्शनावरण	१०८
ख		च्यावितदेह	२६९	दशपूर्वी	६९
खेलौषधि	९६	च्युतदेह	"	दशवैकालिक	१९०
ग		छ		दिव्यध्वानि	१२०
गणधर	३, ५८	छद्मस्थकाल	१२०	दीप्ततप	९०
गणनकृति	२७४	छिन्न	७२, ७३	दीर्घ-ह्रस्वअनुयोगद्वार	२३५
गतिनिवृत्ति	२७६	छिन्नस्वप्न	७४	दुर्णय	१८३
गारव	४१	ज		दुःषमकाल	१६६
गुण	१३७	जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति	२०६	दुःषमसुषम	११९
गुणित	१५	जलगता	२०९	दृष्टिअमृत	८६, ९४
गृहकर्म	१५०	जलचारण	७९	दृष्टिप्रवाद	२०३
गृहछली	१०७, १०८	जल्लौषधिप्राप्त	९६	दृष्टिविष	८६, ९४
गौण्य	१३५, १३६	जहत्स्वार्थवृत्ति	१६०	देशजिन	१०
गौण्यपद	१३८	जंघाचारण	७०	देशसिद्ध	१०२
ग्रन्थकर्ता	१२७, १२८	जातिविद्या	७७	देशावधि	१४
ग्रन्थकृति	३२१	जित	२५२, २६८	द्रव्यकृति	२५०

पारिभाषिक शब्द-सूची

(१३)

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
द्रव्यजिन	१३६	नैयायिक	३२३	प्रतरांगुल	२१
द्रव्यसंयोग	१३७	नोक्तृति	२७४	प्रतिक्रमण	१८८
द्रव्यसंयोगपद	१३८	नोगौण्य	१३५	प्रतिगुणकार	४५
द्रव्यसूत्र	३			प्रतिपक्षपद	१३६
द्रव्यार्थिक	१६७, १७०	प		प्रतिसारी	५७, ६०
द्वादशांग	५६, ५८	पदमीमांसा	१४१	प्रतीच्छना	२६२
द्विचरमसमानवृद्धि	३४	पदानुसारी	५९, ६०	प्रत्यक्ष	५५, १४२
झीप-सागरप्रज्ञप्ति	२०६	परमावधि	१४, ४१	प्रत्यभिज्ञान	१४२
ध		परस्थान-अल्पबहुत्व	४२९, ४३८	प्रत्याख्यान	२२२
धर्मकथा	२६३	पराक्रम	९३	प्रथमानुयोग	२०८
धारणा	१४४	परिचित	२५२	प्रमाण	१३८, १६३
धारणाजिन	६२	परिजित	२६८	प्रमाणपद	६०, १३६, १९६
ध्रुव प्रत्यय	१५४	परिवर्तना	२६२	प्रक्षयव्याकरण	२०२
न		परिशातनकृति	३२७	प्राकाम्य	७६, ७९
नय	१६२, १६६	परोक्ष	५५, १४३	प्राणावाय	२२४
नचनिधि	१०९, ११०	पर्यायार्थिक	१७०	प्राधान्यपद	१३६
नामकृति	२४६	पश्चादानुपूर्वी	१३५	प्राप्तार्थग्रहण	१५७, १५९
नामजिन	६	पंचमुष्टि	१२९	प्राप्ति	७५
नामपद	१३६	पारिणामिकी	१८२	प्राभृत	१३४
नामसम	२६०, २६९	पुण्डरीक	१९१	प्रामाण्य	१४२
नामोपक्रम	१३५	पुद्गलात्त	२३५	फ	
निकाचित-अनिकाचित	२३५	पुष्पचारण	७९	फलचारण	७९
निक्खोदिम	२७२, २७३	पुष्पोत्तर विमान	१२०	ब	
निक्षेप	६, १४०	पूरिम	२७२, २७३	बन्धानुयोगद्वार	२३३
नित्यैकान्त	२४७	पूर्वकृत्	२०९	बहु	१४९
निधत्त-अनिधत्त	२३५	पूर्वानुपूर्वी	१३५	बहुविध	१५१
निबन्धन अनुयोगद्वार	२३३	पृच्छना	२६२	बीजचारण	७९
निरुपक्रमायु	८९	पेज्जदोस	१३३	बीजपद	५६, ५७, ५९, ६०, १२७
निर्ग्रन्थ	३२३, ३२४	पोत्तकर्म	२४९	बीजवृद्धि	५५
निर्जरा	३	प्रकृतिअनुयोगद्वार	२३२	बौद्ध	३२३
निर्वेदिनी	२०२	प्रक्रमअनुयोगद्वार	२३३	भ	
निषिद्धिका	१९१	प्रज्ञा	८२, ८३, ८४	भवधारणीय	२३५
निःसृत	१५३	प्रज्ञाभक्षण	८१, ८३	भाव	१३७, १३८
नैगम	१७१, १८१	प्रतर	२३६		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
भावजिन	७	ल		विपाकसूत्र	२०३
भावसंयोग	१३७, १३८	लक्षण	७२, ७३	विपुलमति	६६
भित्तिकर्म	२५०	लघिमा	७५	विलेपन	२७३
भिन्नदशपूर्वी	६२	लयनकर्म	२४९	विष्टौपधिप्राप्त	९७
मैंडकर्म	२५०	लेप्यकर्म	"	विस्रसोपचय	१४, ६७
भौम	७२, ७३	लेख्याभनुरयोगद्वार	२३४	वीतराग	११८
म		लेख्याकर्मभनुरयोगद्वार	"	वीर्यप्रवाद	२१३
मधुसूवी	१००	लेख्यापरिणाम	"	वेदना	२३२
मध्यदीपक	४४	लोकपूरण	२३६	वेदनाखण्ड	१०४
मध्यम पद	६०, १९५	लोकविंदुसार	२२४	वेदिम	२७२, २७३
मनोद्रव्यवर्गणा	२८, ६७	लोकायत	३२३	वेदिकभावश्रुतग्रन्थ	३२२
मनोवली	९८	लौकिक भावश्रुत	३२२	चैनयिक	१८९
महाकल्प	१९१	व		चैनयिकदृष्टि	२०३
महातप	९१	वक्तव्यता	१४०	चैनयिकी	८२
महापुण्डरीक	१९१	वचनवली	९८	चैशैयिक	३२३
महावन्ध	१०५	वज्रर्पभनारात्रसंहनन	१०७	व्यञ्जन	७२, ७३
महाव्रत	४१	वन्दना	१८८	व्यञ्जन पर्याय	१७२, २४३
महिमा	७५	वर्गणा	१०५	व्यञ्जनावग्रह	१५६
मंगल	२, १०३	वर्ण	२७३	व्यतिकर	२४०
मंगलदण्डक	१०६	वर्धमान	११९, १२६	व्यभिचार	१०७
मायागता	२१०	वशित्व	७६	व्यवहारनय	१७१
मालास्वप्न	७४	वस्तु	१३४	व्याख्याप्रज्ञति	२००, २०७
मिथ्यात्व	११७	वाइम	२७२	श	
मिथ्यादृष्टि	१८२	वाक्प्रयोग	२१७	शककाल	१३२
मीमांसक	३२३	वाग्गुप्ति	२१६	शब्द नय	१७६, १८१
मोक्ष	६	वाचना	२५२, २६२	शुद्ध ऋजुसूत्र	२४४
मोक्ष अनुयोगद्वार	२३४	वाचनोपगत	२६८	शैलकर्म	२४९
य		विकलप्रत्यक्ष	१४३	शैलेश्य	३४५
यथा-तथानुपूर्वी	१३५	विकलादेश	१६५	श्रुत	३२२
यावद्द्रव्यभावी	११६, ११७	विक्रियाप्राप्त	७५	श्रुतकेवली	१३०
र		विक्षेपिणी	२०२	श्रुतज्ञान	१६०
रूपगता	२१०	विद्याधर	७७, ७८	श्रेणिचारण	८०
रोहिणी	६९	विद्यानुवाद	७१, २२३	ष	
		विद्यावादी	१०८, ११३	पदखण्ड	१३३
				पटोपवास	१२४

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
स		संकर	२४०	सूत्र	२०७, २५९
सकलजिन	१०	संक्रमअनुयोगद्वार	२३४	सूत्रकृतांग	१९७
सकलप्रत्यक्ष	१४२	संग्रह नय	१७०	सूत्रसम	२५९, २६१, २६८
सकलश्रुतधारक	१३०	संघातनकृति	३२६	सूर्यप्रज्ञप्ति	२०६
सकलादेश	१६५	संघातन-परिशातन	३२७	सोपकमायु	८९
सत्यप्रवाद	२१६	संघातिम	२७२, २७३	सौधर्मइन्द्र	११३, १२९
सप्तभंगी	"	संभिन्नश्रोता	५९, ६१, ६२	स्तव	२६३
समचतुरस्रसंस्थान	१०७	संयम	११७	स्तुति	"
समभिरूढ नय	१७९	संयोग	१३७	स्थलगता	२०९
समवसरण	११३, १२८	संवेदिनी	२०२	स्थान	२१७
समवायांग	१९९	सातासात	२३५	स्थानांग	१९८
समानवृद्धि	३४	सामायिक	१८८	स्थापनाकृति	२४८
सम्यक्त्व	६, ११७	सामायिकभावश्रुत	३२३	स्थापनाजिन	६
सम्यग्दृष्टि	६, १८२	सांख्य	३२३	स्थित	२५२, २६८
सर्पिस्रवी	१००	सिद्ध	१०२	स्पर्श अनुयोगद्वार	२३३
सर्वज्ञ	११३	सिद्धायतन	"	स्मृति	१४२
सर्वसिद्ध	१०२	सुनयवाक्य	१८३	स्याद्वाद	१६७
सर्वार्थसिद्धि	३६	सुपमसुषमा	११९	स्वप्न	७२, ७४
सर्वावधि	१४, ४७	सूर्यगुल	२१	स्वर	७२
सर्वावधिजिन	४७			स्वसंवेदन	११४
सर्वाधिप्राप्त	९७			स्वस्थानभरपयङ्गत्व	४२९